



श्रीयुक्त राय धनपति सिंह बहादुरका आगमसंग्रह भाग ४४ १

वी सारंग-दीप का गमिण कवचपुर

## श्री अनुयोग द्वार जी सूत्र ।

गणधर श्रीसुवर्णास्वामीकृत मूलसूत्र

तदुपरी श्रीहिमचन्द्र सूरिकृतटीका तदुपरी भाषाटीकासमेत ।

सम्बत् १८३६

कलकत्ता तृतन सस्कृतयन्त्रसे श्रीगोपान  
चन्द्र देके द्वारा छपा गया  
रेजिष्टरि करा गया है

इस पुस्तक ५०० सफाईदेवादे अर्जामगनी  
निवासी श्रीयुक्त राय धनपति मिश्र  
बहादुरका तरफसे खजार करकेको छपा ।



चो नम श्रीश्रीतरागाय नम सस्यकपुरेन्द्रकृतसस्तुतिपादपत्र सुषामकामकरिराजकठोरसिद्ध सहस्रं देवकवर वरद नतोष्णि वीर विद्युत्तटयोधनि  
 वि सुधीर । अजुयोगभतां पादान् बन्दे श्रीगोतमादिस्त्रीणां निष्कारणपधूनां विशेयतो धर्मं दा दृणा २ यस्या मसादमटुल सप्राथ्य भयन्ति भय  
 जननिवशा अतुयोगयेदिनसां प्रयत श्रुतदेयतां वदे ३ इच्छातिगम्भीर मशानौरधिमध्यनिपतिता नर्घ्य रत्नमियातिवुर्लभ प्राप्य माशुप जन्म ततोपि  
 तथा त्रिभुवनैकचित् श्रीमज्जिनप्रणीत बोधिलाभ समासाद्यविरत्यनुगुणपरिणाम प्रतिपद्यचरणधर्मं अधीत्यविधिवत् सुत्र समधिगम्य तत्परसायं  
 विश्वात्म्यपर समयरश्स्य तथाविध कर्म सुयोपयमसभाविनी चाषाय्यविशदप्रज्ञा जिनवचनापुयोगकरणेयतित्तस्य तस्मैव सकलमनोभिलषितार्थसार्थससा  
 धक्येन यथोक्त समग्रसामग्री फलत्वात् सचानुयोगोद्यथ्यनैकप्रत्यविषय सभवति तथापि प्रतियास्य प्रत्यध्ययन प्रत्युद्देगक प्रतिषाय्य प्रतिपद चोपका  
 रिवात्प्रथममनुयोगद्वाराणामसौ विधेयो जिनवचनेष्ट्याचारादिश्रुत प्राय सर्वमप्युपक्रमनिक्षेपातुगमनयद्वारैर्बिधायते प्रश्रुतयास्त्रे च तान्येवोपक्रमानिदि  
 त्वात्प्रथममनुयोगद्वाराणामसौ विधेयो जिनवचनेष्ट्याचारादिश्रुत प्राय सर्वमप्युपक्रमनिक्षेपातुगमनयद्वारैर्बिधायते प्रश्रुतयास्त्रे च तान्येवोपक्रमानिदि

अहं नागपञ्चविह पश्यत्त तजहा आभिविबोहियनाय सुयनाय उहियनाय मणपञ्जवनाय कैवलनारुणं तत्थचत्वारि

अहं नम मणपत्त्यजिन वहाँ सर्वस सर्वदर्शिन बालानामुपकाराय वस्ये उ योगषार्थिक ! श्रीदेवएवच नमस्कृत्यानुयोगद्वार सिद्धातस्य बालाव  
 बोधोऽल्पमति नापि मया मत्तो हीनतरप्राप्तानामुपकाराय कथञ्चित् सकीयस्याप्युपकाराय विधीयत इति श्रीअनुयोगद्वारउत्तनौ अर्थसकृतभाषाये केत  
 ला एकने पूषतां दोषिबोद्धे तेभणी यार्त्तिकलोकभाषाये श्रीअनुयोगद्वार सिद्धांतनौ अर्थचापणीमितिनेअनुसारे जिनमहत्तिमांहिच्छे तिमदेखीनेप्रारम्भी  
 येद्धे विधे ते अतुयोगयाख्यान यद्यपि अनेक ग्रन्थनौ समवेधे तथापि प्रतिशास्त्र प्रत्यध्ययन प्रत्युद्देयक प्रतिषाय्य प्रतिपद उपकारीपणामाटे प्रथम एषउ

रिव वनपरी सिद्धे भवतिरुक्ता संनिम सयत्रं सान् २४३३  
 १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

યોગ અનુયોગદ્વારનો કરવો જે મળી શ્રીજિન વચનને વિષયે શાચારાંગાદિ બિહુસાર પૂર્વ પર્યન્ત શ્રુત છે તે બાહ્યપણે સર્વ હપક્રમઃ નિહ્વેપર અનુગમન  
 નયઃ દ્વારેકરી વિચારિયે અને ઇશાસ્ત્રને વિષે તે હપક્રમાદિક ચારદ્વાર વચ્ચાળીસ્યે ઇશૌ હેતે ઇશાસ્ત્રને અનુયોગ કરવે કારિ સર્વ શ્રીજિન વચનનો અનુ  
 યોગક્રીધો હુદ્ તે મળી અત્યુપકારી પગામટે પ્રથમ અહિજ શાસ્ત્રનો વ્યાખ્યાન કરવો હિવે ઇશ્રીસિદ્ધાંતસુક્તિપદ પાંચવાનો હેતુ છે તેમળીશ્રેયો રૂપને વિષ્ણ  
 સમ્ભાવીયે તે વિષ્ણુ હપયમાવ વા નિમિત્તે અને વલી શાસ્ત્રવન્તનો આચાર પાલવા મળી પ્રથમ માંગલિ રૂપ સૂત્ર કહે છે ણાણ પચ્ચવિહં પચ્ચત્તં જાણવે તે  
 જ્ઞાન અથવા વસ્તુજેણે જાણીયે તે જ્ઞાન અથવા વસ્તુ જેયકૌ જાણી તેહને વિષે જાણે તે જ્ઞાન એવં જ્ઞાનશબ્દના પાંચ અર્થનિપજે એતલે જ્ઞાનાવરણીય  
 કર્મનો હ્યયોપયમ અને હ્યયતેયકી હપનો જીવનો સારમૂત જ્ઞાન સ્વરૂપ જે આયાષેવિણાયા ડ્વતિ વચનાત્ પંચવિહં પંચતે સંખ્યાવચન અનેવિધા કહી  
 નાનાપ્રકારના મેદદ્દમ અર્થકરીને વલીદ્દમ અર્થ કરીયે પંચવિધા એહના પાચ મેદદ્દે તે મળી પંચવિધ કહિયે પચ્ચપ્રકાર એ અર્થ પચ્ચત્તં અર્થ યકી  
 શ્રીતીર્થંકરે સૂત યકી શ્રીગણધરે પ્રહ્યયોણે વચન સૂત્રકર્તાયે આપના મનની દુહ્કાપરહરી આપણા મનની દુહ્કાયે કહતાં શ્રીશ્રિહંતાદિકને  
 આયાતનાથાયે વલી વીજો અર્થઃપ્રાજ્ઞ કહીયે શ્રીતીર્થંકર તેહ્તી આપકહીયેપામ્યો શ્રીગણધરે અથવા પ્રાજ્ઞ કહીયે શ્રીગણધર તેણે શ્રીતીર્થંકર કણહા  
 યકી આત્ત કહતાં લીધો અથવા પ્રજ્ઞાવન્ત જે મબ્ય જીવતેણે આપ્ત કહતાં પાંમ્યો પ્રજ્ઞાહીને ઇપાંમી સકીયે નહી દ્દમ પ્રસિદ્ધ છે એ અવયવાર્થ કહ્યો  
 હિવે સમ્ભ્યાર્થ દ્દમ કરવો જ્ઞાન પરમ ગુરુયે પ્રહ્યયો એ સમ્ભ્ય તે કેતલામ્બેદ એહવી દુહ્કાયે પચ્ચવિહ સમ્ભ્ય તે જ્ઞાનનો પચ્ચવિધપણો દેખાહવા મળી  
 કહે છે તંજહા તદ્યથા અપશબ્દ દેષાહિવાને અર્થ છે તે જ્ઞાન પંચવિધ દેખાહ છે આમિનિવોધિકજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાન અવધિજ્ઞાન મનઃપર્યવજ્ઞાન  
 કેવલજ્ઞાન તિહા પ્રથમ જ્ઞાનનો અર્થ અમિકહીયે સન્મુસ્વાર્થને નિયત મર્યાદા રૂપ અર્થ વોધ કહિયે જ્ઞાન દ્દમ શબ્દાર્થકરીને પ છે દ્દમ અર્થકરીયે

अभिसुप्त रूप अने नियत रूपले अर्थ तेजनी जे जाणनशरी ते आभिनयोधिक ज्ञान कहीये मतिज्ञान तिहा अभिसुप्त पदार्थ दुष्ण कहीये जे जेजकी इन्द्रियने दृक्कता अने आंतरा रक्षित रक्षा ए पदार्थ काल यकी वर्तमान कालना पदार्थ भाय यकी स्थूल वादरपदार्थ एका अभिसुप्त पदार्थ कहीये नियत पदार्थ तेजे आपणा इन्द्रियने ग्रहबायोग्य श्रोत्रेन्द्रियनेगब्द इत्यादि अनेरा इन्द्रियनो ग्राह्य अनेरो इन्द्रिय ज्ञाने ते आभिनयोधिक ज्ञान कहीये एतले अभिसुप्त वस्तु अपेक्षा नियत वस्तु अपेक्षा जे ज्ञान ते आभिनयोधिक ज्ञान कहीये अथवा आभिनयोधिक जे वस्तुने जाखे ते आभिनयोधिक ज्ञान इन्द्रिय पचक अने छट्टी मन ते यकी ज्ञान पणो ते आभिनयोधिक ज्ञान इत्यर्थ तथा साभलशो ते श्रुत गब्द यकी वस्तु प्रवण रूप ज्ञाननो विगेष तेहीज जे ज्ञान अथवा साभलयो ते श्रुत एतले गब्द तेहीजज्ञानते श्रुतज्ञान अत कारणने विषे कार्यनो उपचार करता गब्दने ज्ञान कहीये गब्द यकी जे ज्ञान ज्ञाने तेकार्यनो कारण गब्द कहीये तेगब्दने विषये ज्ञाननो उपचार करता गब्दने श्रुतज्ञान कहीये अथ मतिज्ञान अने श्रुतज्ञाननो किसे विगेष यवुक जसयगहाइरूप पशुप्यन्वयत्यगसगलोए इन्द्रियमणोनिमित्त तथा आभिनयोचिगविति । जगुणतिकालविषय आगमगथाणु सारविषयाणु इन्द्रियमणो निमित्त तदुपाणाणु जिणाविति २ तथा अवधान क्वता आत्मानो सावधान पणो एकाग्रणो एतले इन्द्रिय अने मनरहित आत्माये करी साक्षात्प्रत्यक्ष यस्तु ते अथवि कहीये तेचि जने ज्ञानते अथवि ज्ञान अथवा अवधिद कही मर्यादाये जे जाणवो ते अथवि ज्ञान तथा मन कहीये सखी जीवे काययोने करी मनोद्रव्यगर्गणा मादि यकी द्रव्य लीला तेमगीयोने करी मापणे परिणमाथा तेद्रव्यने मन कहीये तेजना जेपर्याय जजूइ चिताना कारणपरिणाम ते मन पर्यायने विषे जेज्ञान तेमन पवायज्ञान अथवा पूर्व जेमन कक्षा तेजनी पर्याय कहीये जाणणशरी जेज्ञान तेमन पर्याय ज्ञान कहीये तथा केवलकक्ता सुपर्ण

ज्ञेयपणाळंती विषये ते एहवो जे ज्ञान तेकेवल ज्ञान तथा केवल शब्दना अनेकार्थः केवल मेगं सुद्धं सकल मसाहारणं अनंतच इति वचनात् इहासति  
 ज्ञानादिक पांचज्ञानना अवग्रहादिक अनेक भेदनी विचारणा न करीये सूत्रने विषे अणकक्षामाटे अप्रखाव भणी अथवा नंद्यादिकने विषे सविस्तरभेद  
 एहना कक्षांके ते भणी हिवे एणे सूत्रेकरी शास्त्रनी आदे ज्ञान पंचकने वर्णये करी सांगलिककी धोखेसकल क्ले शनोक्षयनो करणहारो ज्ञानके तेभणी  
 अतिरमणीक सांगलि जाणवो एतले सांगलिक कक्षो? हिवे बीजोबोल अभिषेय कक्षो जोईजे ते गुणनिष्पन्न अनुयोगद्वाररूपशास्त्रना नामयकी  
 जाणीये जेह भणी उपकमादिक चार अनुयोगद्वार इहां वखांणीखे ते अभिषेय कक्षीये ते शास्त्रना नामयकी जांणीये तिवारपळी शास्त्रनी आदेतीजो  
 बोल प्रयोजन विचाखो जोईये ते प्रयोजन कक्षीये फल तेहनावे भेदके एक शास्त्रकर्त्तानो फल बीजोओतानो फल तेहना वली एकेकनावे भेदके  
 एक अनन्तर बीजोपरंपर फलएवं विडं भेदे फलविचारीये तिहां शास्त्रकर्त्तानो अनन्तर फलभय्यजीवने उपगारनो करवोओतानो अनन्तर पदार्थनो  
 जांणपणो अने परंपर फलविडंनो एकेज परमपद प्राप्तिरूप ए प्रयोजन तद्यपि सूत्रने विषये नथी कक्षो तथापि विचारणाथकी स्वयमेव जांणीये  
 ते हि जदिपाडीये के जीवना उपकार भणी प्रवर्त्तता श्रीतीर्थंकरदेवशास्त्र उपदेशे ते उपगारकीषा अनंतर अनुक्रमे परमपदनी प्राप्तिायि सांभलण  
 हार पणि गुरु कन्हा थकी एशास्त्रनो अर्थजाण्या पळी समस्त सिद्धातना अनुयोग करवाने विषे कुसल पणो पामे ते कुसलपणो आव्ये ऊंते हेयपदार्थ  
 छाडी उपादेय पदार्थ आदरीने उल्कृष्ट चारित पामीने अनुक्रमे सुक्तिपामे एतले प्रयोजन कक्षो ३ तिवार पळी चौथो बोल संबंध कक्षो जोई ये ते  
 संबंध सूत्र थकी स्वयमेव जांणीये एक गुरु परंपरा रूप संबंधते जे श्रीतीर्थंकरे श्रीगणधरने कक्षो श्रीगणधरे आपणा शिष्यने इम यावत् आजलगे ए  
 गुरु परंपरा संबंध कक्षीये बीजो उपायोपेय संबंध ते कक्षीये जेशब्द अने ज्ञानरूप जेशास्त्रते उपाय कक्षीये अने तेहनो जेज्ञान

द्वाराण्यभिधास्यतेऽतोऽस्यानुयोगकरणे पस्तुतो जिनवचनस्य सर्वस्याप्यसौ दतो भवतीत्यतिशयोपकारित्वात्प्रकृतगास्त्रस्यैव प्रथममनुयोगो विधेय स च  
 यद्यपि चूर्णितोकाहारेण वद्वेरपि विहितसायापि तद्वचसामतिगम्भीरत्वेन दुरधिगमत्वात् मन्दमतिनापि मया साधारण श्रुतभक्तिजनितोत्सुक्यभावतो  
 ऽविचारित स्वयंक्रियादल्पविधिया मनुश्रवणत्वाच्च कर्तुं मारम्यते अस्य च शास्त्रस्य परमपदप्राप्तिहेतुत्वेन श्रेयोभूतत्वात् सभाव्यमानविघ्नत्वात् तदुपशमार्थं  
 शिष्टसमयपरिपालनार्थं चादौ मद्रूपरूप सूत्रमाह नाण पञ्चविधमित्यादि व्याख्या भ्रातिज्ञानं कृत्यल्युटो वड्डलमिति वचनात् भावसाधनं श्रायते  
 परिक्रियते वस्त्रनेनाग्रादृच्छिन्नेति वा ज्ञानं जानाति स्वविषयं परिक्रियतेति या ज्ञानं ज्ञानावरणकर्म ज्ञयोपशममञ्जयजन्यो जीवस्यतत्त्वभूतो बोध  
 इत्यर्थं पञ्चविधिति पचेति सत्यावचनो विधानानिविधा भेदा पञ्चविधा अस्वेति पञ्चप्रकारमित्यर्थं पणक्तं प्रज्ञप्तं मर्थतत्त्वोत्थं सुततो गण  
 धरे प्रकृतिमित्यथ अनेन सूत्रकृता आज्ञनं स्वमनीषिकापरिहृता भवति अथवा प्राज्ञात्तीर्थकारादाप्तं प्राप्तं गणधरैरिति प्राज्ञात् अथवा प्राज्ञैर्गण  
 धरैर्मीर्यकरादात्तं गृहीतमिति प्राज्ञात्तं प्रज्ञयायाभ्य अन्तुभिरात्तं प्राप्तं मज्ञात् नचि प्रज्ञाविकलैरिदमवाप्यत इति प्रतीतमेव क्रसत्व सर्वतप्राकृत  
 यादित्यथवायो अक्षरयोजनान्येयं ज्ञानं परमगुरुभिः प्रज्ञप्तमिति सम्बन्धं कतिविधमित्येतोच्यते पञ्चविधमिति तस्यैव पञ्चविधत्वस्योपदर्थनार्थमाह  
 तजहेत्यादि तद्यैत्युपन्यासार्थं आभिनिवोधिकज्ञानं श्रुतज्ञानं अथविज्ञानं मनं पर्यायज्ञानं केवलज्ञानं चेति तत्र अभीत्याभिसुखेनीति नैयत्ये तत्र  
 याभिमुखो पस्तुयोग्यदेगायस्यानापेक्षी नियतदृन्द्रियाण्याथित्यस्वविषयपेक्षी बोधोभिनिवोध इति भावसाधनं स्वार्थिकतद्धितोत्पादात्पण्याभिनिवोधि  
 क आभिनिवुध्यते आज्ञना सदृत्यभिनिवोध इति कर्म साधनो वा अभिनिवुध्यते वस्तुसावित्यभिनिवोध इति कर्तृसाधनो वा सण्याभिनिवोधिकमिति तथैव  
 आभिनिवोधिकं च तत्ज्ञानं आभिनिवोधिकज्ञानं इन्द्रियपञ्चकमनोनिमित्तो बोध इत्यर्थं अथवा श्रुत आभिलाषसाधितार्थं शरणस्वरूप उपलब्धिययोग्य





सीसपवित्तिनिमित्तानि विविक्त्या इत्यत्र विस्तरेण यदिनामज्ञान पञ्चविध प्रकृतं तत किमित्याह तत्र तस्मिन् ज्ञानपञ्चके व्याभि  
 नियोधिकावधि मन् पर्यायकेवलार्यानि चत्वारिज्ञानानिठप्पाइति स्थायान्यसव्यवहार्याणि व्यपहार नयोचि यदेवलोकस्थोपकारे वर्तते तदेवसव्यवहा  
 र्यमन्यते लोकस्य च हेयोपादेयेष्वर्थेषु निवृत्तिप्रवृत्तिद्वारेण प्राय श्रुतमेव साक्षादत्यन्तोपकारि यद्यपि केवलादिदृष्टमर्थं श्रुतमभिधत्ते तथापि गौणत  
 त्वात्तानि लोकोपकारीणिति भाव यद्युक्तव्ययेनासव्यवहार्याणि तानि तत किमित्याह ठवणिज्जाइति तत स्थापनीयानि एतानि तथाविधोपकारा  
 भावतो सव्यवहायथातिष्ठत नतैरिच्छोद्देशसमुद्देशाद्यवसरेधिकार इत्यर्थं अथवा स्थायान्यसुखराणि स्वस्वरूपप्रतिपादनेष्यसमर्थानि नचि यद्दमतरै  
 णस्वरूपमपि केवलादीनि प्रतिपादयितु समर्थानि यद्दद्यानन्तरमेव श्रुतलेनोक्त इति स्वपरस्वरूपप्रतिपादने श्रुतमेवसमर्थं स्वरूपकथन चेदमत

नागाइ ठप्पाइ ठगणिज्जाइ णोउद्विस्सति णोससु द्विस्सति णोअणुणविज्जति सुयनाणस्सउद्देशो समुद्देशो अणुणया

ते उभये कृषीये इम उपायोमेय रूप सवध वीजो कृषीये तिहा प्रथम सवध नि केवल सदृशगातुसारी आत्री जाणवो वीजे तेतर्कासुसारी आत्री जा  
 णवो तेएतत्ता भणी जेतार्किक इइ तेप्रमाणमिप्यय वस्तुमाने अनेरो न माने एतले सवध कल्लो ४ एतले सर्वशास्त्रना कारणशरतो आचारपाल्यो  
 उक्तप सवधाभिहितपयोअणाइ तउमगलच सत्यमि सीसपवित्ति निमित्तानि विविक्त्या इत्यत्र विस्तरेण विद्ये जोज्ञान पांचप्रकारे प्रक  
 ष्यो तोसु तेकहेछे तत्त्वचत्वारिणाणाइ तत्त्वककृतां तिशां पाच ज्ञाननो विषये प्यारिज्ञान मतिज्ञान अयधि ज्ञान मन पर्यय ज्ञान केवल ज्ञान ए  
 प्यारि ज्ञान ठप्पाइ ककृता स्थापी नेह्रुवा योग्ये एतले असव्यवहारिकेद्व्यवहारनयते लोकने उपगार जेयस्तु प्रवर्तते तेयस्तु साव्यवहारिकमाने

अन्वयस्तु व्यवहारयोग्य न माने लोकने हेयोपादेय अर्थने विषे निवृत्ति प्रवृत्तिद्वारे करी प्राये श्रुतज्ञानईज साक्षात्प्रकारे अत्यंतोपगारीछे यद्यपि केवल ज्ञानादिकनो दीठो अर्थ श्रुतज्ञान कहे तथापि ते ज्ञान गुणरूपे लोकोपकारी नही मुख्यरूपे उपकारीने ए भाव छने जो च्यारि ज्ञान संबन्धव हारिक नही तोख्यं कहेछे ठवणिज्जाइं कहतां तथा विध उपकारना अभावयकौ असंबन्धवहारिक पणामाटे इस जरचा तेणे ज्ञाने इहां उद्देश्यादि कने अधिकारे प्रयोजनकाई नही इत्यर्थः अथवा ठप्याइं कहता नीलना असमर्थ आपणुं स्वरूपपिण कही न सके यद्विना केवलादिक ज्ञान आपणु स्वरूपपिणबोलीनसके अने यद्वत्तुं पूर्व श्रुत ज्ञान रूपकत्तुं स्वस्वरूप कश्चिदनि विषे श्रुतज्ञानज समर्थछे ते भणी च्यारि ज्ञान असुगर बोलवा असमर्थ कश्चिथे छिवे जोच्यारि ज्ञान बोलवा असमर्थतोख्युं ते कहेछे ठवणिज्जाइं कहतां निःप्रयोजन पणामाटे तेहनुं अधिकार काई नही लेभणी जिहा उद्देश्य समुद्देश्य अनुज्ञादिक कहीथे तिहाज अनुयोग अने तेहना हार उपकसादिक प्रवर्त्ते एहवो तो आचारागादिक श्रुतज्ञानजछे एतला भणी उद्देश्यादि विषय रहित पणा माटे निःप्रयोगी जे च्यारि ज्ञान तेहनुं इहां अनुयोगने विषे अधिकार नही इहा कोई एक एहवी प्रेरणा करे अनुयोग कहीथे व्याख्यान तेच्यारि ज्ञानने पणि प्रवर्त्ते ते च्यारि ज्ञान इहा निष्प्रयोग किस कहीथे एहवे प्रत्ये ए उत्तरजे श्रीसिद्धान्तनो परमार्थ न जांणे ते इस बोले लेभणी ते पणि ते च्यारि ज्ञाननो कहणहारो सूत्र समुदाय तेहिज वयाणे तेतो श्रुतज्ञानज कहीथे तेभणी श्रुतज्ञानने ज अनुयोग प्रवर्त्ते अथवा ठप्याइं कहता गुरु विना स्वयमेव आवे तेभणी उद्देश्यादि विषे रहित एहज वली विवरहे ठवणिज्जाइं एभिडं गद्दएकार्यछे एतले इस कक्षो अनेकार्यपणा माटे अतिगंभीरार्थ पणा माटे विविधसंतादि अतिगय संपपणा माटे श्रुतज्ञान वाङ्मल्यपणे गुरुनो उपदेश वांछे ते भणी श्रुतज्ञान गुरुसमीपे लीजेतो परस कल्याणनो भंडार गाइ तेभणी उद्देश्यादिक विधी गुरुसमीपे गृहीजे तेणे कारणे तेहने उद्देश्यादिक प्रवर्त्ते अने गोप

स्याप्यानि असुखराणि यानि चत्वारिश्चानानि तानीशानुयोगद्वारविचारप्रक्रमे किमित्याद्य अनुपयोगित्वानि यतैव साह्यं य  
 समुद्देशानुसादय क्रियते तदैवाऽनुयोगसद्वृत्तारणि चोपक्रमार्थीनि प्रवर्त्तते एवमत त्वाचारादिश्रुतज्ञानमेवेत्यत उद्देश्यादिविषयत्वादनुपयोगीनि श्रेय  
 शानानि इत्यतीतानधिकृतानि अत्राद्यानुयोगोष्वाख्यान तच्च श्रेयज्ञानचतुष्टयस्यापि प्रवर्त्तते एवेति कथमनुपयोगित्वं ननु समयचर्यानि भिन्नतासूचकमे  
 वेद् यचो यतोश्च तत्रापि तद्द्विज्ञानप्रतिपादकसूत्रसदभेदय व्याख्यायतेसच श्रुतमेवेति श्रुतस्यैवानुयोगप्रवृत्तिरिति अथवा स्याप्यानि सुर्वनधीतत्वेनोद्देश्याद्य  
 विषयभूतान्ये तदेवविदुषोति स्यापनीयानीत्येकार्थो ह्यथपि दृढसुक्तं भवति अनेकार्थत्वादितिगम्भीरत्वाद्द्विषयसम्यग्त्वत्वाच्च प्रायोगुरूपदेयापेक्ष  
 श्रुतज्ञान तच्च गुरोरन्तिके गृह्यमाण परमकल्याणकोशलादुद्देश्यादिविधिनान्दृष्टतद्वृत्ति तस्योद्देश्यादय प्रवर्त्तते श्रेयाणि च चत्वारिश्चानानि तदावरणक  
 मङ्गलचयोपगमाभ्यां स्वतएव जायमानानि नोद्देश्यादिप्रक्रममेकं ते यतश्चैवमत आह नोवदिसिञ्जतीत्यादिनो वदिसिञ्जते नोसमुद्दिश्यते नो अनुज्ञायते  
 तत्रेदमध्ययनादितया पठिततथ्यमिति गुरुप्रवचनविशेष उद्देश्यं तस्मिन्नेव श्रिये ण्डीनादिसञ्चणोपेतोधीते गुरोर्निवेदिने स्थिरपरिचित कुर्विदमिति गुरुव  
 चनविशेष एव समुद्देश्यं तथाकृत्वा गुरोर्निवेदिने सम्यग्दि धारयान्यांथाथापयेति तद्वचनविशेष एवावुष्मा सुयगणाणामेत्यादि श्रुतज्ञानस्योद्देश्यं समुद्देश्यो  
 ऽनुष्मा अनुयोगश्च प्रवर्त्तते ततोद्देश्यादीनां तयाणां स्वरूप सन्नेपत लक्ष्मणमपि विनियानुप्रशार्थं किंचिद्विचरत उच्यते तत्राचाराद्यत्रस्य उत्तराध्ययनादि  
 कास्त्रिकश्रुतसूत्रस्य औपपातिकादात्मिकास्त्रिकोपांगाध्ययनस्य चायसुद्देश्यविधि इहाचारांगाद्यन्यतरश्रुतमध्ये तुमिच्छति योविनेय सस्याध्याय मस्याप्यगुरु  
 विश्रयति भगवत्प्रसुक ममश्रुतपुत्रियत गुरुरपि भणतीच्छान इति ततो विनियोवदनकं ददाति । ततो गुरुश्रुत्यायचैत्यवन्दन करोति ततकालं स्थितोषाम  
 वास्त्रीकृतगियोयीगोतृषेपनिमित्त पक्षयिग्रस्युच्छासमान आयोत्सर्ग करोति घटे सुनिम्नलयरेतियावच्चतुर्षि यतिस्वयं चिन्नयतीत्यर्थं तत पारितकायो

स्वर्गः संपूर्णचतुर्विंशतिसां भणित्वा तथा स्थित एव पशुपरमेष्ठि नमस्कारं वारतयमुच्चार्य नाणं पशुविरं पणत्तमित्यादि उद्देशं गन्ती भणति तदन्ते चैवं पुनः  
 प्रस्थापनं प्रतीत्य साधोरिदं मंगलमुं श्रुतस्त्वं इदमध्यगनं वा उदिगामि क्षमात्रमणानां हसो न सुतसर्थं तदुभयं च उदिगमित्येवं वदति क्षमात्रमणानां  
 मित्यादित्वात् नो अचंकारवर्जनार्थमभिधत्ते ततो विनेय इच्छामीति भणित्वा यन्दनकं ददाति २ तत उच्यते त्रयोति संदिगतं भगामीति ततो गुरुं वदति  
 वंदित्वा प्रवेदयति ततो विनेय इच्छामीति भणित्वा वंदनकं ददाति ३ ततः पुनरुच्छ्रितः प्रतिपादयति भवद्भिर्मसामकं श्रुतमुदिगमित्यास्यश्रुगामिं ततो  
 गुरुः प्रत्युत्तरयति योगं कुर्वति एवं सन्दिष्टो विनेय इच्छामीति भणित्वा वन्दनं ददाति ४ ततो अतानरे नमस्कारमुच्चारयन्मौ गुरुं प्रदक्षिणायति  
 तदन्ते च गुरोः पुरतः स्थिवा पुनर्वदति भवद्भिर्मसामुकं श्रुतमुदिगमित्यास्यश्रुगामिं ततो गुरुराह योगं कुर्वति एवं संदिष्ट इच्छामीति भणित्वा वंदि  
 त्वा च पुनसाथैव गुरुं प्रदक्षणायति तदन्ते च पुनसाथैव गुरुगिष्ययोर्वचनप्रतिवचने तदैव च तृतीयप्रदक्षिणां विदधाति रिनेयः एतानि च चतुर्वेपन्दन  
 कादीनि त्रीण्यपि वन्दनकान्येकमेव चतुर्थं गण्यते एकार्थप्रतिवचनत्वादिदि २ ततस्मृतोयप्रदक्षिणां ते गुरुर्विधीदति निपणस्य च गुरोः पुरतोर्दक्षिणतया  
 लोविनेशोयक्तियुक्ताकं प्रवेदितं संदिगतसाधूनां प्रवेदयामि ततो गुरुराह प्रवेदयेति तत इच्छामीति भणित्वा विनेशो वन्दनकं ददाति ५ प्रत्युत्तरयति  
 रितपशुपरमेष्ठिनमस्कारः पुनर्वंदनकं ददाति ६ पुनरुच्यते वदति युष्माकं प्रवेदितं साधूनां च तं प्रवेदितं सन्दिगतत्रोसि कायोषर्गं ततो गुरुः पुनजानीतेषु  
 र्विचिंति ततः पुनरपि वन्दनकं ददाति ७ एतानि सप्तश्लोभ वन्दनकानि श्रुतप्रत्ययानि भवन्ति ततः प्रत्युत्तरतो अभिधत्ते असुश्लोभे गनिमित्तं करोमि  
 कायोषर्गं अन्यत्रोच्छ्रिसितादित्यादि यावत्पुनसुजामीति ततः कायोषर्गं स्थितः सप्तविंशतिसुच्छामादिन्नयति सागरारण्योरेति वाच्यतुर्विंशतिसारं  
 चिन्तयति इत्यर्थः उद्देशसमुद्देशे सप्तावीसं अणुश्लेषणियाए इति वचनान्तु ततः पारितकायोषर्गः संपूर्णं चतुर्विंशतिसारं मणि तापरिसमाप्तोद्द गच्छय

तत्र पशुविरं पणत्तमित्यादि उद्देशं गन्ती भणति तदन्ते चैवं पुनः  
 प्रस्थापनं प्रतीत्य साधोरिदं मंगलमुं श्रुतस्त्वं इदमध्यगनं वा उदिगामि क्षमात्रमणानां हसो न सुतसर्थं तदुभयं च उदिगमित्येवं वदति क्षमात्रमणानां  
 मित्यादित्वात् नो अचंकारवर्जनार्थमभिधत्ते ततो विनेय इच्छामीति भणित्वा यन्दनकं ददाति २ तत उच्यते त्रयोति संदिगतं भगामीति ततो गुरुं वदति  
 वंदित्वा प्रवेदयति ततो विनेय इच्छामीति भणित्वा वंदनकं ददाति ३ ततः पुनरुच्छ्रितः प्रतिपादयति भवद्भिर्मसामकं श्रुतमुदिगमित्यास्यश्रुगामिं ततो  
 गुरुः प्रत्युत्तरयति योगं कुर्वति एवं सन्दिष्टो विनेय इच्छामीति भणित्वा वन्दनं ददाति ४ ततो अतानरे नमस्कारमुच्चारयन्मौ गुरुं प्रदक्षिणायति  
 तदन्ते च गुरोः पुरतः स्थिवा पुनर्वदति भवद्भिर्मसामुकं श्रुतमुदिगमित्यास्यश्रुगामिं ततो गुरुराह योगं कुर्वति एवं संदिष्ट इच्छामीति भणित्वा वंदि  
 त्वा च पुनसाथैव गुरुं प्रदक्षणायति तदन्ते च पुनसाथैव गुरुगिष्ययोर्वचनप्रतिवचने तदैव च तृतीयप्रदक्षिणां विदधाति रिनेयः एतानि च चतुर्वेपन्दन  
 कादीनि त्रीण्यपि वन्दनकान्येकमेव चतुर्थं गण्यते एकार्थप्रतिवचनत्वादिदि २ ततस्मृतोयप्रदक्षिणां ते गुरुर्विधीदति निपणस्य च गुरोः पुरतोर्दक्षिणतया  
 लोविनेशोयक्तियुक्ताकं प्रवेदितं संदिगतसाधूनां प्रवेदयामि ततो गुरुराह प्रवेदयेति तत इच्छामीति भणित्वा विनेशो वन्दनकं ददाति ५ प्रत्युत्तरयति  
 रितपशुपरमेष्ठिनमस्कारः पुनर्वंदनकं ददाति ६ पुनरुच्यते वदति युष्माकं प्रवेदितं साधूनां च तं प्रवेदितं सन्दिगतत्रोसि कायोषर्गं ततो गुरुः पुनजानीतेषु  
 र्विचिंति ततः पुनरपि वन्दनकं ददाति ७ एतानि सप्तश्लोभ वन्दनकानि श्रुतप्रत्ययानि भवन्ति ततः प्रत्युत्तरतो अभिधत्ते असुश्लोभे गनिमित्तं करोमि  
 कायोषर्गं अन्यत्रोच्छ्रिसितादित्यादि यावत्पुनसुजामीति ततः कायोषर्गं स्थितः सप्तविंशतिसुच्छामादिन्नयति सागरारण्योरेति वाच्यतुर्विंशतिसारं  
 चिन्तयति इत्यर्थः उद्देशसमुद्देशे सप्तावीसं अणुश्लेषणियाए इति वचनान्तु ततः पारितकायोषर्गः संपूर्णं चतुर्विंशतिसारं मणि तापरिसमाप्तोद्द गच्छय

त्वाद्गुरो लोभदण्डनक ददाति तच्च न अतप्रत्ययं किं तर्हि अतदाहत्वादिना गुरु परमोपकारी तद्विनयप्रतिपत्तिनिमित्तमिति चणादिसुबुद्देश्येयमेव विधिर्बन्धयो नवर पूर्णप्रवेदिने योगं कुर्वित्युक्तमत्र स्थिरपरिचित कुर्वति वदति योगोत्पत्तेपकायोत्सर्ग नद्याकर्षण प्रदक्षिणात्वयविधिसु न क्रियते शेष सप्तपदानकादिको विधिस्यैव अनुशाविधिसु योगोत्पत्तेपकायोत्सर्ग वज्जं सर्वोप्युद्देश्यविधियवक्तव्यो नवरप्रवेदिने गुरुवदति सस्यगधारयान्ये पाप प्रवेदय अन्यान्पि पाठयेत्यर्थं आशुकादिषु तदुल्लविचारणादिप्रकीर्णकेष्वपि चैव एवविधिनवर स्वाध्याय प्रस्थापन योगोत्पत्तेपकायोत्सर्गश्च न क्रियते एवंसामायकाद्यथ्यनेपद्देशकेषु च चैत्यवदनप्रदक्षिणात्वयादिविषयेप क्रियारहित सप्तवन्दनक प्रदानादिक सएवविधिरिति तापदिय सूर्णिंकारलिखिता सामाचारी सोमप्रतपुनरन्यथापिता समुपलभ्यतेनचतयोपलभ्यसम्प्रोक्तं कृत व्योचित्वात्सामाचारीणामिति इदानीमनुयोगविधिरुच्यते तत्तागुयोगोपलभ्यमाणगद्दार्थं च यदाधीतसुखस्याचार्यं प्रस्थापनयोग्यस्य शिष्यस्यानुज्ञायते तदा य विधि प्रश्लेषेपुतियिनक्षत्रकरणसुहृत्तेषु प्रश्लेषेचजिनायतनादौजेतेभुवं प्रमाज्यं एकागुरुणामेकासिध्याणामिति नियद्याह्यक्रियते तत प्राभातिककाले प्रवेदिने गिंपद्यानिपन्नस्य गुरोर्नोलपट्टकरजोडरणमुख्यवस्त्रिकामात्रोपकरणो विनेय पुरतोवतिष्ठते ततो हावपि गुरुशिष्यौ मुखवस्त्रिकां प्रत्युपेक्ष्यतसायाचसमयं शरीरं प्रत्युपेक्ष्यत कृतो विनेयोगुरुणा सप्त हादगावर्त्तयदन कदना वदति इच्छाकारेणसदियतसाध्याय प्रस्थापयामि ततश्च हावपि साध्याय प्रस्थापयत तत प्रस्थापिते साध्यावे गुरुर्निपीदति तत शिष्यो हादगावर्त्तयन्दनक ददाति ततो गुरुस्त्वयायशिश्येण सशानुयोग प्रस्थापनमित्तं कायोत्सर्गं करोति ततो गुरुर्निपीदति ततश्च शिष्यो हादगावर्त्तयन्दन केन वन्दते ततो गुरुरज्ञानभिमन्यो क्षिष्ठस्तुत्याय च निपद्यां पुरत दत्त्वा वामपाशींक्षतशिष्यायेत्यवन्दनकं कराति तत समाप्तिचैथयदनेषु ३ गुरुर्बुध्द्व्यं स्थित एवमस्त्वारपूर्व्वं नन्दिसुचारयति तदन्तेचाभिधत्ते मा साधोरनुयोगमनुजानामि क्षमात्रमणानां क्लेशं द्रव्यगुणपयायैरनुज्ञातसतो विनेयच्छोभयदनेनेन

अनुटीका

बंदते अस्त्रितश्च ब्रवीति संदिशतः किंभणामि ततो गुरुरारु बंदित्वा प्रवेदय ततो बन्दते शिष्य उच्छ्रितस्तु ब्रवीति भवद्भिर्मसानुयोगोऽनुज्ञात इच्छास्वगुया  
 सिं ततो गुरुर्वदति सम्यग्धारय अन्येषां च प्रवेदय अन्येषामपि व्याख्यानं कुर्वित्यर्थः ततो बन्दते असौ बन्दित्वा च गुरुं प्रदक्षिणयति प्रदक्षिणांति च  
 भवद्भिर्मसानुयोगोऽनुज्ञात इत्याद्युक्तिं प्रत्युक्तिर्हि तीयप्रदक्षिणा च तथैव पुनस्तृतीयापि तथैव ततस्तृतीयप्रदक्षिणांते गुरुर्निपीदति तत्पुरस्त्रितश्च विनयोवद  
 ति युष्माकं प्रवेदितं सन्दिशतसाधूनां प्रवेदयामीत्यादि शेषसुद्देशविधिवद्बन्धुं यापदनुयोगोऽनुज्ञानिमित्तं कायोर्बर्गं करोति तदन्ते च सनिपद्यः शिष्यो  
 गुरुं प्रदक्षिणयति तदन्ते च बंदते पुनः प्रदक्षिणयत्येवं तिस्रोवारास्ततो गुरोर्दक्षिणमुखासन्ने निधीदति ततो गुरुपरंपर्ये एतानि सन्तपदानि गुरुशि  
 खोवाराः शिष्यस्य कथयति तदन्तरं प्रवर्षमानाः प्रवरं सुगन्धमिच्छास्त्रिखो क्षुप्तसुच्चार्यथथाशक्तिव्याख्यानं करोति तदन्ते च साधून्  
 क्षितसाधुभिः सहस्रस्यै बंदनकं ददाति ततो विनेयोनिपद्यास्थितएव नागं पंचविचं पगत्तमित्यादि स्तुतसुच्चार्यथथाशक्तिव्याख्यानं करोति तदन्ते च साधून्  
 बंदनकं ददाति ततः शिष्यो निपद्यातः अस्तिष्ठति गुरुरेव पुनस्तत निपीदति ततो द्वावथनुयोगविसर्गाथं कालप्रतिक्रमणार्थं च प्रत्येकं कायोर्बर्गं कुरुतः

अणुउगोय पवत्तद् जद् सुयनाणसुउद्देसो असुद्देसो अणुउगोय पवत्तद् किंअंगपविशुसुउद्देसो असुद्देसो

अच्यारिज्ञान तेतदावरण कर्मक्षये करी अथवा क्षयोपशमे करी स्वयमेव आपजतां ऊता उद्देगादिकर्माद् नवास्त्रे तेभगी महेद्दे नो उद्दिशिज्जंति तेप्यारि  
 ज्ञान उद्दिशिथे नही असुद्दिशिद् अणुजाणिये नही तिहा उद्देगस्युं कश्चिये एचध्यनादिकने भगो एहवो जेगुर वचन तेहगेउद्देग कहीये तेरीज चद्दा  
 यनादिक शिख्ये भग्ये ऊते गुरुने निवेद्ये ते स्थिरपरिचित करी एहवो जेगुर वचन ते असुद्देग कहीये तिमकरीने वली गुरुने निवेद्ये ऊते गुरु कहे

तत शिष्यो निरुद्ध प्रवेदयति निरुद्ध करोतीत्यर्थ एव श्रुतस्यैव उद्देश्यादय प्रवर्तते न शेषज्ञानानामतत्त्वानामुद्योगेनैवाधिकारो न शेषेऽनुयोगद्वारविषया रथीयेऽप्रकातत्वात् यथाभित्तिसुपक्षीव्याप शिष्यो यदीत्यादि यद्युक्तमेव श्रुतज्ञानस्योद्देश समुद्देशोऽनुज्ञाप्रत्युद्योगश्च प्रवर्तते ते तर्हि किमसायङ्कप्रपि तस्य प्रवर्तते उतांगवासास्येति ततांगेषु प्रविष्टमन्तर्गतमद्रप्रविष्ट श्रुतमाचारादि तद्वाह्यमुत्तराध्ययनादि अत्र गुरुनिर्वचनमाह अगपविष्टस्यधीत्यादि अपि गद्दो परस्परसमुच्चयार्थो अगप्रविष्टस्याप्योद्देश्यादि प्रवर्तते तद्वाह्यस्यापि इह पुन प्रसृत प्रस्थापन प्रारभ प्रतीत्याश्रित्यांगवासास्य प्रवर्तते तेनेतरस्य

**अणुणाश्रुणुलुगोय पत्रत्तद् किञ्चगवाहिरस्सउद्देशो समुद्देशो अणुणश्रुणुलुगोयपत्रत्तद् अगपविष्टस्यविउद्देशो**

सम्यग एधरो अनेरानेभणावोएवचन अणुज्ञा कर्तव्ये सुचणाणम् श्रुत ज्ञानने उद्देश्य समुद्देश्य अणुज्ञा अणुयोग प्रवर्तते इहा उद्देश्यादिक नोविधिमागे सर्व कर्णौहे ते योगविधि यकी जाणवो अने गुरुपरपरायकी जाणवो इम श्रुत ज्ञानने उद्देश्यादिकप्रवर्तते तेभणीशेष ज्ञान नो इहा अनुयोगनेविपे अथि कार नशी चिद्येगिय पृष्ठे जे गुरुपणाणम् जो श्रुत ज्ञानने उद्देश्य अणुज्ञा अणुयोग प्रवर्तते तो किमए अगप्रविष्ट श्रुतले तेहने प्रवर्तते अथवानात्त श्रुतले तेहने प्रवर्तते तिसा अंग प्रविष्टस्य कर्तव्ये जे वारे अगमाहिले आचारांगदिक अग वाह्य तेकरीये जेअगयकी वाहिरहे उत्तराध्ययनादिक इमपूज्ये इते गुरुनो उत्तर कहेहे अग पविष्टस्यवि इहा अपि शब्द परस्पर समुच्चयार्थेहे अग प्रविष्टने पणि उद्देश्यादिक प्रवर्तते अग वाह्यनेपणि प्रवर्तते इम पुण पठ वणपदुच्चए जे प्रारभ्योहे अनुयोग ते आश्री अग वाह्यने प्रवर्तते जे भणी आश्रयले इहा अग वाहिरय इम कर्तव्ये इते समुच्चय वचन माटे सदेश युक्तियिप्य पृष्ठे हे अग वाहिरि अस्स जो अग वाह्यने उद्देश्यादिक प्रवर्तते तोस्यु एकाहिले अथवा उक्ताहिलेने प्रवर्तते



आपस्यकं ह्यत्रथाख्यास्यते तच्चांगनात्समेवेति भावः सत्वांगनात्समेवेति सामान्योक्तौ सत्सं संगवानो विनियमात् अर्धे संगमाशिरस्येत्यादि उद्युत्तरात्  
 स्योद्देयादिः किमसौ कालिकस्य प्रवर्तने उल्कालिकस्य गृह्णात्स्य संभवादिति भावमातदित्यसनिगा प्रथमचरमपौरुषीलजगो काले धीयते नात्य  
 नेति कालिकमुत्तराध्ययनादि यच्च कालवेलाभावार्थं गेपयाज्ञानियमेनपद्यते तदुल्कालिकसमापगादि अथ गुरुः प्रतिपादनमात्र कालियगुपीत्यादिका  
 निकस्याप्यसौ प्रवर्तते उल्कालिकस्यापि इदं पुनः प्रस्तुतं प्रस्थापनं प्राग्भं प्रतीत्यउल्कालिकस्यासामन्तस्थाः याम्यन्तमेवगत व्याख्यास्यते तजोत्कालि  
 कमेवेति हृदयं उल्कालिकस्येति सामान्यवचने विगोप विज्ञातः दृष्टति अर्धेउल्कालिकस्योत्त्यादि यद्युल्कालिकस्योरेयादिनिरुभायस्तस्यैव प्रवर्तते

जावपवत्तद् अंगंगपविट्टस्वविउद्देसो जावपवत्तद् इसंपुणपट्टयगं पट्टुच्च अंगंगपविट्टस्य अणुओगो अद् अंगंगपविट्टस्यपणु  
 ओगो किं कालिअस्सअणुओगो उक्कालिनस अणुओगो कालिअस्सवि अणुओगो उक्कालिनस्सवि अणुओगो इस्सं

अंग वाच्चिर विट्ट भेद संभवे एभा तिला कालिकते कठीये जेटिससरातिने पट्टिने सने पाण्डने प्ररभणिते अक्षराथयनादिक त्रिषो अकः अ वेलासाव  
 वजोसर्वकाल भणियेते उल्कालिक कठीयेयाग्यत्तदित्त इहांगुरुको उत्तरत्तदेते कालिकउल्कालिकटोमं कासन्तोग प्राले परं इत्ता इस्संयपपट्टयगं पट्टुच  
 कत्ता प्रांरभण थावी जोताउल्कालिकने प्रवर्ते समुच्चय वचने।ओ विगोपपदे अद् उक्कालिनसस जो उक्कालिकता अन्तयोग अथा तिंसापगाता अन्तयोग  
 अथवा आवग्यक अतिरिक्ता अणुयोग प्रवत्ते विट्टं प्रकारे उत्तानि तसंभवे एभापतिहा अमणे अनेयापकेविट्टं संथाये अत्रग अरथत्तकोषात्तत्तकतिरे  
 येसामाधिकारिकादिकअथयन समुदायरूपतैयती अतिरिक्तदुगो कालिकादिक इहांगुरुको उत्तर थायम्तत्त थायम्तत्त अतिरिक्त एतोमंता अणुयोग प्राले

एतन्मयादिदं भाषितं श्रीगणेशाय नमः ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२ ६२३ ६२४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३० ६३१ ६३२ ६३३ ६३४ ६३५ ६३६ ६३७ ६३८ ६३९ ६४० ६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४५ ६४६ ६४७ ६४८ ६४९ ६५० ६५१ ६५२ ६५३ ६५४ ६५५ ६५६ ६५७ ६५८ ६५९ ६६० ६६१ ६६२ ६६३ ६६४ ६६५ ६६६ ६६७ ६६८ ६६९ ६७० ६७१ ६७२ ६७३ ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ६७८ ६७९ ६८० ६८१ ६८२ ६८३ ६८४ ६८५ ६८६ ६८७ ६८८ ६८९ ६९० ६९१ ६९२ ६९३ ६९४ ६९५ ६९६ ६९७ ६९८ ६९९ ७०० ७०१ ७०२ ७०३ ७०४ ७०५ ७०६ ७०७ ७०८ ७०९ ७१० ७११ ७१२ ७१३ ७१४ ७१५ ७१६ ७१७ ७१८ ७१९ ७२० ७२१ ७२२ ७२३ ७२४ ७२५ ७२६ ७२७ ७२८ ७२९ ७३० ७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४० ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ ७४५ ७४६ ७४७ ७४८ ७४९ ७५० ७५१ ७५२ ७५३ ७५४ ७५५ ७५६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६० ७६१ ७६२ ७६३ ७६४ ७६५ ७६६ ७६७ ७६८ ७६९ ७७० ७७१ ७७२ ७७३ ७७४ ७७५ ७७६ ७७७ ७७८ ७७९ ७८० ७८१ ७८२ ७८३ ७८४ ७८५ ७८६ ७८७ ७८८ ७८९ ७९० ७९१ ७९२ ७९३ ७९४ ७९५ ७९६ ७९७ ७९८ ७९९ ८०० ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ ८०५ ८०६ ८०७ ८०८ ८०९ ८१० ८११ ८१२ ८१३ ८१४ ८१५ ८१६ ८१७ ८१८ ८१९ ८२० ८२१ ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८२९ ८३० ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८३९ ८४० ८४१ ८४२ ८४३ ८४४ ८४५ ८४६ ८४७ ८४८ ८४९ ८५० ८५१ ८५२ ८५३ ८५४ ८५५ ८५६ ८५७ ८५८ ८५९ ८६० ८६१ ८६२ ८६३ ८६४ ८६५ ८६६ ८६७ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७२ ८७३ ८७४ ८७५ ८७६ ८७७ ८७८ ८७९ ८८० ८८१ ८८२ ८८३ ८८४ ८८५ ८८६ ८८७ ८८८ ८८९ ८९० ८९१ ८९२ ८९३ ८९४ ८९५ ८९६ ८९७ ८९८ ८९९ ९०० ९०१ ९०२ ९०३ ९०४ ९०५ ९०६ ९०७ ९०८ ९०९ ९१० ९११ ९१२ ९१३ ९१४ ९१५ ९१६ ९१७ ९१८ ९१९ ९२० ९२१ ९२२ ९२३ ९२४ ९२५ ९२६ ९२७ ९२८ ९२९ ९३० ९३१ ९३२ ९३३ ९३४ ९३५ ९३६ ९३७ ९३८ ९३९ ९४० ९४१ ९४२ ९४३ ९४४ ९४५ ९४६ ९४७ ९४८ ९४९ ९५० ९५१ ९५२ ९५३ ९५४ ९५५ ९५६ ९५७ ९५८ ९५९ ९६० ९६१ ९६२ ९६३ ९६४ ९६५ ९६६ ९६७ ९६८ ९६९ ९७० ९७१ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९७६ ९७७ ९७८ ९७९ ९८० ९८१ ९८२ ९८३ ९८४ ९८५ ९८६ ९८७ ९८८ ९८९ ९९० ९९१ ९९२ ९९३ ९९४ ९९५ ९९६ ९९७ ९९८ ९९९ १०००

तथाव्यक्तित्वरिक्तस्य उभययाप्युत्कालिकस्य सम्भवादिति परमार्थस्तत्रमणो आवर्कैवोभयसध्यमवर्थं करणादावशुक सामायिकादि पठ्ययनकलाप तन्मन्तु व्यतिरिक्त भिन्न दयवैकालिकादिगुरराच आवस्यगस्यवीत्यादि द्वयोरर्थे तयो सामान्येनोद्देशादि प्रवर्तते क्विपिड प्रस्तुत प्रस्थापन प्रारभ प्रतीत्यावश्यकस्यानुयोगो नेतरस्य सकलसामाचारीमूलत्वादस्येक गोपपरिचारेण व्याख्यानादिति भावनीय उद्देशसुद्देशां तु ज्ञात्यावश्यके प्रवर्तमाना अथतनाधिकता अनुयोगवसरत्वादतस्तत्परिचारेण अनुयोगोति अयमवभाषार्थोऽनुयोगस्य प्रकृतत्वाद्दत्तत्वात् प्रतिशब्दाया चत्यागायाया दूरायस र तद्यथा निखेवेगद्विनिरती विरुपवितीयेकेणयाकमा तद्दरिचपरिसायसुत्तव्यो । अस्या विनैयासुद्देशं व्याख्याद्दशासुयोगस्य निचेपो नामस्यापनादिको यक्तव्य तथाऽनुयोगस्यैकार्यकानि वक्तव्यानि यदाह अनुयोगोयनिचोगो भासविभासायवन्तियचेव एते अनुषोर्गणयत्र नामा एगद्विया

पुणपठन पडुच्च लक्कालिअस्स अनुओगो जइ लक्कालिअस्स अनुओगो किआवस्सगस्स अनुओगो आवस्सगवित्तिरित्त  
स्सअनुओगो आवस्सगस्सवि अनुओगो आवस्सगवित्तिरित्तस्सवि अनुओगो इम पुणपठेवण पडुच्च आवस्सगस्स अनुओ

परइमपुणपठवण पडुच्चए प्रारभण पाथी आवस्यजनो अनुयोगे चनेरानोनी जेभणी सर्वसमाचारीनोमूल आवस्यजने तेहनेद्दवावपाणीजस्ये जेभणी  
द्दवांअनुयोग कत्ती अनेउद्देशादिकन कल्यानेसु कारणते एतलाभणी जेद्दवा अनुयोगनो प्रस्तावकै तेभणी उद्देशादिक आवस्यकना प्रवत्तताज परिहरी  
नेअनुयोग कत्ती इहा एभाषार्थ अनुयोगना प्र रभणउ ती अनुयोगनी वक्तव्यता प्रतिवहाए गाथानोद्दवा अयसरकै तद्यथा निखेये। गदुश्चनिरुत्तीश्चिणी  
पवितीअ४ केणवा६ कम्म०तहारट भेचलखण१०तदरिच परिसाय११स्तत्त्वो१२थ्याख्या निखेपद्दवांअनुयोगनी निचेपोनामस्यापनादिक बोधयो। तथा

यक्तव्यं १० तथा तस्यैवानुयोगस्य वीर्यापारिपहकृत्या साच सामान्यतस्त्रिधा भवति तद्यथा जाणंतियागजाणतिथाय तच्छ्रुतिगृह्यियापेय तितिष्ठाम  
 होर्धपरिसा तीसेनाणत्तगंबीयं १ गुणदेः सविशेषणं अगभिग्नश्चिथाय त्रया पुमाण्डु सागलुजाणगपरिसा गुणतारामा एगुणाज्या रीरमितरायांसा जीयु  
 दंतिगुणसमिद्धा दोसेवियच्छुडित्ता तेयसभाधीरपुरसति इति ज्ञायकपरिपत् जेडां तिमगइडना मिंगसापमसीरकडगभूया रागुमिय असेददिया गुरु  
 संपन्नागुणसमिद्धा सागणदः सर्वतसंबध्यते ततो षडगसिंह ऋद्रुतेगामो लपुण्डगसपत्यं तद्रता अत्यन्तजलसाभातु तपटगीरेत्यनः सउजरात्त्वमितामंरुत  
 तासुहसगायन्ति सुखप्रज्ञापनीयाजा यन् कभाविशाकसुडडिं नयससमएगधियमारा अकिलेसकरा गलुपदरं एतोडिउतं च पट्टुचोणम्यां गजामितीर  
 कडव विग्रुदाया खल्लज्ञापिकपरिपदिति वाक्यगोपः प्रदानो र्दिदस्यपरिपुष्यते नयकच्छविनिष्माणो नयसुत्तपरिमरुषा शेनेणं परिपरायपुणे फड्डर  
 गामिलगयियड्ढो किंचिभगत्तगारी पत्रवगात्रीय तरियगात्रीय र्विड्डिवाउपमा भणिलतिविगापुमापरिसा अयाथपरिपुष्टमनगीगाः इतीयालयो  
 म्येति ११ एतत्तर्वसभिधाय ततः सूतार्थी यक्तव्यः १२ इति लेगतो ज्यात्यातेयं गायामि पिश्वारार्थिनायुव्यपीठि कानो पणीचिद्रेः चासुयोग्यं ताड्या  
 राणि यक्तथानि भयन्ति तत्र गेपहारेपलनगार्थं तस्य गाम्भस्यायमनुयोग इति सप्तमं चारं भेतमि निषाय जपुसुयमाणम गौमो इत्यादिः सूत  
 प्रपंच पूर्वकमुक्तं सूतद्यता इदं पुनः प्रस्थापनं मतीत्याययकस्यासुयोग इति पुनरपि व्याउ जो अयागयरेत्यपि यथाश्रुतात्म्य प्रस्तुतोगुणेगम्भि  
 किं गामिति वाग्यालङ्कारे किमिति परमथे किमेकं द्वादशगागान्तगतमहमिदमुत्तरयुव्यत्रानि यगैकः सूतसुलो ११पी वा युतएतयाः अण्वनं जैरं १५  
 नि वाययनानि उद्देशका वा एको वरुणो वा उद्देश ता इत्यदी प्रद्याज्ञत सूतसुलो अयथनानि पेटमिति प्रतिपत्तयं पडुवागामत एतस्करुपत्वा  
 दस्य गेपास्तु एट्टप्या भनादेया अनन्नादिकरूपत्वादित्ये तद्गा ३ सापस्यसम्भणमित्यादिः अथाह नन्याय्यकं कित्तप्रमदानीत्ये तन् प्रदुः प्रमदाननरुमाभेय

राजपुत्रो भवति तदा तदा १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

नन्वध्ययन एवास्यानद्रप्रपिटत्येन निर्णीतत्वासायात्पाप्याशौक्तास्त्रिक्रमेणानन्तरमेवोक्तत्वादिति अत्रोप्यने यत्तावद्वक नद्यध्ययन एवेत्यादि तद्दुयुक्त यतोमायग्नकनन्वध्ययन आस्थाय तद्विर ध्यात्वे यमिति नियमोस्ति कदाचिदनुयोगद्वारव्याख्यानस्यैव प्रथम मष्टते अनिवमज्ञापकत्रायमेवसुत्रोपन्यास एवयथासुत्रशास्त्रेस्य तत्रैव निश्चित किमिच्छांगानद्रप्रपिटचित्तासूत्रोपन्यासेनेति मरुत्कार्यमवस्य नन्दिरादौ ध्यात्वेय इति चेन्नज्ञानपञ्चकाभिधान

**गो जद्र आवासगस अनुश्रोगो किञ्चगत्रगाद्र सुअखधो सुअखधाअवक्तयण अजक्तयणाद्र लहेसोलहे सा आवसयसस**

वोच । गुणदोसविसंरण् अणमिगण्डि आयकुमुद्रम एसु साखलु जाणगपरिसा गुण तन्निष्ठा अगुणयज्जा । खीरमिवरायहसा जेधुट तिचगुद्व गुण समिद्धा दोसेवियण्डडित्त तं सभाधीपुरसन्ति ३ जे होतिपगद्र सुद्धामिगसावगसीच कुकुडगभवा रयणमिवअसठविषा गुहसपया गुणमभिद्धा ४ जा प्लुषभावि आकुमु प्रुचि नयससमएगण्डियसारा अकनेसकरा खलुयेर छकोलि सहचपू अयदुर्विदग्ध पंपदा नयकत्वविनिष्ठाउ नयपुष्पड परिभवसदोसेण वलियुषाय पुणो फुट्टइगामिसुगदुवि अट्टेर् किमिसागाठी यक्षयगाठी ठरिषगाणीअ दुविट्टिआथो एसा भणिसातिविष्ठा इसापरिसा ७ इटा पहली बीजीपंपदा अमुयोगने जोग वीजीपरिषदा अयोग्य ११ तथा सुत्तलो एतलो सर्व कर्णेने पळे सुत्तार्थ करवो ११ एगाथालेगमातयकी वपांणीविसारार्थ यीद्र टटल्कन्वमी पीठिका अवलोकीपी इति गायार्थ इम अमुयोगना द्वारवारे वोलवाळै तिर्चायेप द्वार उपलज्जयाने अर्थइ किसा शास्त्रुनोए अतुयोगए सातमो द्वारचित्तने विपेस्यापीने जेसुअणाणम्य लहेसो समुदेसो इत्यादि सुत्तनो विसार कसो सुत्तकता इरुचिये इमपुणपट्टवण पडुच्च आयस्ययस सो आवस्य फनो अमुयोगतो आवग्यकस्यु एकअग अथवा पणा अग ण इशा वापालकारार्थे जाणवो किए ग्रन्ध प्रत्रने अर्थे जाणयो अगवा ए आवस्यक एक श्रुतस्तूप अथवा पणा श्रुतस्तूप एक अध्ययन के पणा अध्ययन एक लहेसो कि पणा लहेगा इम थाठ प्रअ पूष्या तिष्ठा उत्तरमध्ये सुअखधो

अनुशासनात्प्राप्तं

लयगणा व्याख्या यत्र जीयादिवस्तुनि यं जानीयान्निक्षेपं न्यासं यत्तदोर्नित्याभिसंबंधात्तत्र वस्तुनि तं निक्षेपं निरूपयेन्निरवशेषं समग्रं यत्पि च न  
 जानीयानिरवशेषं निक्षेपभेदजालं तत्रापि नामस्थापनाद्रव्यभावलक्षणं चतुष्कं निक्षेपेदिदमुक्तं भवति यत्र तावन्नामस्थाप्रनाद्रव्यज्ञेयकालभवभावादिति  
 लक्षणाभेदाद्जायन्ते तत्र तैः सर्वैरपि यस्तुनिश्चिद्यते यत्र तु सर्वभेदा न ज्ञायन्ते तत्रापि नामादिचतुष्टयेन वस्तुचिन्तनीयमेव सर्वव्यापकत्वात्तस्य नहि  
 किमपि तद्वस्तु अस्ति यज्जामादिचतुष्टयं व्यतिचरतीति गाथार्थः तत्र यथोद्देशं निर्देशद्वत्यावश्यकनिक्षेपार्थमाह सेकितं आवस्ययमित्यादि अत्र ये शब्दो  
 मागधदेशी प्रसिद्धोऽथगद्दार्थ्ये वर्त्तते अथ शब्दस्तु याव्योपन्यासासार्थं सथाचोक्तं अथ प्रक्रियाप्रश्नानन्तर्यमद्गलोपन्यासनिर्वचनसमुच्चयेष्विति किमितिपर  
 प्रश्ने तदिति सर्वनामपूर्वप्रकातपरामर्शार्थं ततश्चायं समुदायार्थ्य किंसरूपं तदावश्यकं एवं प्रश्निते सत्याचार्यः शिष्य वचनासुरोधेनसमाधानार्थं प्रत्यु  
 च्चार्यनिर्दिश्यति आयस्यं चउब्बिहंमित्यादि अवस्यं कर्त्तव्यमावश्यकमथवा गुणाना चासमन्ताद्दृश्यमात्मानं करोतीत्यावश्यकं यथा तं करोतीति अन्तकः

**जत्यविश्रयनजाणेज्जा चउक्कगं निखिवेतत्य्सेकितं आवस्ययचउब्बिहं पणत्तं तंजहा नामावस्ययं ठवणावस्ययं**

नामं स्थापना द्रव्य ज्ञेय काल भावादिक भेद घणा जाणिये ते वस्तुने विषे तेणे सघले भेदे वस्तु निक्षेपी देखाडीये अने जे वस्तुने विषे सर्व भेद न  
 जाणिये तिहां नामादिक चिह्नं भेदे वस्तुना विचार अवस्य करिये जे भणी नामादि चिह्नं भेदरूप निक्षेपो सर्ववस्तु व्यापीछे ते काई वस्तु नथी जहा  
 च्यारि भेद न लाभे एतले सर्ववस्तु चिह्नं भेदमय नियम निश्चयछे तेणे कारणे सर्ववस्तुना चिह्नं भेदे निक्षेपो करवो इति गाथार्थं हिवे जिम लहेय  
 जिहां नामादिक तिम निर्देश ते भणी प्रथम आवस्यकने निक्षेप वा भणी कहेछे सेकितं आवस्ययं तिहां से शब्द सागधी भाषा प्रसिद्ध अने अथशब्द  
 ते वाक्यग्रहवने अर्थे प्रवर्त्ते तथा किं ए शब्द प्रश्नने अर्थे अने तं ए शब्द जे प्रारंभ्येछे ते ग्रहियाने अर्थे प्रवर्त्ते एम शब्दार्थकरिने पछे एसमुदायार्थकर

अथवा आशक्तयति प्राकृतशैल्या चायासक तत्र वसनिवासे इति गुणशून्यमालानया समन्तात् वासयति गुणैरित्यावासकं चउच्चिच पणत्तति चतस्रोविधा भेदा अस्योति चतुर्विध प्रश्नप्र प्ररूपितमथतसौर्धकरे सूत्रतो गणधरैसाद्यथा नामावस्यमित्यादि नामाभिधान तद्रूपमावस्यक नामावस्यक आवस्यका भिधानशेषेत्यर्थ अथवा नामानाममातेषावस्यक नामावस्यक जीवादीत्यर्थ सप्तक्षण वेद यद्वस्तुनोभिधान स्थितमन्यार्थेतदर्थनिरपेक्ष पर्यायानभिधेय च नामयादृच्छिककचतथा विनैयानुग्रहार्थमेतद्यात्या यद्वस्तु न इन्द्रादिरभिधानमिन्द्रइत्यादि यर्णोवलीमात्रमिदमेव आवस्यकतलक्षणवर्णचटुष्टयावलीमात्र यत्तदोन्तियाभि रवधात्तन्नामेति सटक अथ प्रकारातरेण नाम्नो लक्षणमात्र स्थितमन्यार्थे तदर्थनिरपेक्ष पर्यायानभिधेय चेति तदपि नामयत्कथभूमि त्याच अन्यथासाधार्थान्योर्णे गोपालदारकात्तिलक्षण तत्रस्थित अन्यत्वेन्द्रादावर्थे यथार्थत्वेन प्रसिद्ध तदन्यत्र गोपालदारकादौ पदारोपितमित्यर्थ अत एवाच तदर्थनिरपेक्ष इति तस्येन्द्रादिनाम्नोर्ध परमैख्यार्थैदिरूपसाधर्थे सचासावर्थेचेति वा तदर्थसास्य निरपेक्ष्य गोपालदारकादौ तथा तदर्थस्या भाषात् पुन किमूत तदित्याच पर्यायानभिधेयमिति पयायाणा शकपुरन्दरादीना अनभिधेयमवाप्य गोपालदारकादयोभीन्द्रादिशब्दे रच्यमाना अपि

ट्वानस्यभावावस्यस्य सेकित नामावस्यरजस्यग जीवस्यवा अजीवाणवा तदुभयस्यवा तदुभवा वो अथ किमो स्वरूपे ते आशक्तजनो इम पूज्जे उ ते आचार्ये शिष्यनो वचन अण उत्यापतो अति आदर देयाने अर्थे तेऽस्मिन्न वचन उच्चरीने उत्तर दिद्येणे आशक्तय चउच्चिच पणत्त आशक्तस्य कश्चिये कश्चिये अथवा आकृता सर्वथा प्रकारे आत्माने ज्ञानादिक गुणने वसिकरे ते आशक्त्य अथवा आशक्तयति प्राकृतशैलीये चावासक इम पणिथाइ तिहां ए अर्थ वसवो ते वासगुण शून्य आत्माने गुणे करी वसावे ते चावासक कश्चिये चउक्ततां प्यारि विहा कृतां भेद्वे जेचना ते चतुर्विध कर्षीये प्रश्नप्र कृतां प्ररूप्यो अर्थ यकी श्रीतीर्थकरे सूत्र यकी श्रीगणधरे तजशा

तद्यथा नामावस्यं नामावस्यकस्युं कहीये वस्तुनो बोलणहारो शब्द ते रूपजे आवस्यक ते नामावस्यक एतले ए भाव आवस्यकनो नाम तेहजनासा वस्यक अथवा नासे नाममात रूप आवस्यक जीवादि वस्तु ते नामावस्यक ते नामनो स्वरूप इगी संस्कृत आर्याये करी जागवो यथा यद्वस्तुनेभि धानं स्थितमन्यार्थे तदर्थे निरपेक्षं पर्यायानभिधेयं च नामयादृच्छिकं च तथा । जे वस्तु इन्द्रादिक तेहनो नाम इन्द्र इत्यादि अक्षरावली सात अथवा एहीज आवस्यक चिह्नं अक्षर रूप ते नाम कहीये तथावली नामनो वीजो स्वरूप कहेछे स्थितमन्यार्थे तदर्थे निरपेक्षं पर्यायानभिधेयं च ते पणि नाम कहीये ते केहवो ते कहेछे अन्य जे अर्थ ते अन्यार्थ गोपालदारकादिक रूप तेहने विषे स्थित कहीये रह्यो एतले जे नाम अनेरा इन्द्रा दिक पदार्थने विषे यथार्थ पणे प्रसिद्धे ते नाम अन्यत गोपालदारकादिकने विषे आरोप्योछे इत्यर्थः एहिज भगी कहेछे तदर्थे ते इन्द्रादिक नामनो जे अर्थ परम ऐश्वर्यादिरूप तेहने निरपेक्ष कहतां वाछे नही एतले गोपालदारकादिकने विषे ते अर्थ न थी वली ते केहवो ते कहेछे पर्याय कहीये शक पुरन्दरादिक अनेक नांस तेहनो अनभिधेय कहतां अथाच्य बोलणीक न थी जे नाम एतले गोपाल दारकादिक शब्दे बोलैजता ऊंता पणि शकादिक शब्दे न बोलिये ए भगी ते नाम अने नामवन्तना अभेदोपचार ऊंती अनभिधेय कचिये च शब्द ते नामनो स्वरूपांतर देखा डणहारछे एतले अन्य वस्तुनो नांस इन्द्रादिक ते अन्य वस्तु गोपालदारकादिकने विषे स्थाप्यो ऊइ ते पणि अर्थम्युत्य नाम कहीये ए परमार्थ वली ते नामनो स्वरूप तीजे प्रकारे कहेछे यादृच्छिकं च तथा इति तथा जे तथाविधि शब्दार्थ म्युत्या डिल्यकवित्यादि रूप यादृच्छिक खेच्छाइ करी ते पणि नाम कहीये एतले तिऊं भेदे नाम कह्यो यथार्थ । अथार्थ २ अर्थम्युत्य ३ यथार्थ इन्द्रादिक । अथार्थ गोपालने इन्द्रादिक २ अर्थम्युत्य ित्या दिक ३ इति आर्यार्थ हिवे नामावस्यकनो स्वरूप देखाडवाने अर्थ सतकारज कहेछे सेकिंतं नामावस्यं अर्थकिसो ते नांमावस्यक इम पृथ्वे ऊंते

गभीपत्यादिरिव गकपुरन्दरादिगण्डेर्नाभिधीयन्ते अतश्चान्नामापि नामतद्वतोरभेदोपचारात्पर्यायानभिधेयमित्युच्यते ष गन्दान्नाम्न एव खल्लणान्तरसूचकगभीपत्यादी प्रसिद्ध तत्रामपाषाणार्थशून्ये अन्यत्र गोपालदारकादौ यदा रोपित तदपि नामेति तात्पर्यं तृतीयप्रकारेणापि खल्लणमात्रं यादृच्छिकं च तथेति तथाविध व्युत्पत्तिशून्य खिलकवत्यादिरूपं यादृच्छिकं खेच्छयानामक्रियते तदपि नामेत्यादीयं अथ नामावश्यक स्वरूपनिरूपणार्थं सूत्रकार एवात्र केचित् नामापण्यमित्यादि अथ किं तन्नामावश्यकमिति प्रश्ने सत्यात्र नामावश्यकं जगन्नाममित्यादि अतद्विकलक्षणैर्नाकेनश्चित्तं द्वितीयमपि नामावश्यकमिति पदं द्रष्टव्य एवमन्यत्वापियथासम्भवमभूत्तन्नामिति वाक्यालकारे यस्यवस्तुनो जीवस्यवा अजीवस्यवा जीवनामजीवानावातदुभयस्यवा तदुभयानो वा आवश्यकमिति यत्र नामक्रियते तन्नामावश्यकमित्यादिपदेन सम्बन्ध नाम च तदावश्यकं चेति व्युत्पत्तिरथवा यस्य जीवादिद्वयस्तुन आवश्यकमिति नामक्रियते तदेव जीवादिद्वयस्तुनामावश्यकं नामानामावश्यकं नामावश्यकमिति व्युत्पत्तिरवा गन्दा पक्षातरे सूचका इति ससुदायार्थं स्यात् जीवस्य फलमावश्यकमिति नाम सम्भवतीत्युच्यते यथानोके जीवस्य ससुदादे कश्चिद्वीरुको देवदत्त इत्यादि नाम करोति तथा कश्चित् स्वाभिप्राय

गवा आवस्यसि नाम कज्जइ सेत नामावस्य सेकित ठवणावस्य २ जण कट्टकम्मेवा पोत्यकम्मेवा चित्तकम्मेवा

पुत्र कहेले नामावश्यकं जगण्ण इषां दोयका आंके करो तेरोज पदेवीजीवारभण्णो जाणनो इम अन्त्यत्र पणि ययासमरमानो अथ जाणवो ण इति वाक्यालकारे जे वस्तुनो एक जीवनो एक अजीवनो वणजीवनो वणा अजीवनो एक उभयनो वणा उभयनो आवश्यक एवमेव जेनाम करिये ते नामावश्यक कणीये इत्यादिक पदसंघाते संघ नाम तेरिज आवश्यक एवमेव जे जीवादिद्वयस्तुनो आवश्यक एवमेव नाम करिये ते जीवादिद्वयस्तुने नामावश्यक कश्चिये नामे करी नाम मात्वे करी आवश्यक ते नामावश्यक इसी व्युत्पत्ति उ तौ वागइ पक्षांतर नाम जणावण्णार इति



समुदायार्थः तिहा एक जीवने आवश्यक एहवो नाम किम संभवे ते कहियेछे जिम लोकने विपे जीवनो आपणा पुतादिकनो सिंच एहवो नामको ईक करे तिम कोई एक आपणे अभिप्राये आवश्यक एहयो पिण नाम करे एक अजीवनो नामकिम उइ इहां आवश्यक अने आपासक शब्दको एकार्थ पणो पूर्व कह्योछे ते भणी कोई एक उभो सुको घणे कोटरे आकीर्ण अचित्त वृत्त अथवा तथानिधि कोई अनेरो पदार्थ तेहने लोक इम कहि ए संपादिकनो आवासछे ते वृत्त यद्यपि अनन्त परमाणु रूप अजीव पणें नीपनो तथापि एक खंध परणामनी अपेचाये एक अजीव द्रव्य विचक्षण कियो आवासने स्वार्थे कप्रत्यय आणता आवासक नाम नीपनो हिये घणा जीवने पणि आवासक नाम दीचेरे जिम ईंटवाचने अग्निसुं पानो आवा सक कहिये तिहा असंख्याता अग्निना जीवने आवासक नाम कहिये जिम पंखीनासालाने पंखीनो आवासक कहिये ते मालो घणे लणे करी नीपजे ते भणी घणा अजीवनो आवासक कहीये हिये एक उभयनो आवासक नाम कहियेछे वडल वावडी चादिके करी शोभित मोटा ग्रासादने राजादिकनो आवास कहीये अथवा सौधस्त्रीदि विमान ते देवनो आपास कहिये पूहा जलवृत्तादि सचेतन रत्नादिक जीव अने ईंटादिक अचेतन रत्नादिक अजीव तेषे करी नीपनो उभय तेहने कप्रत्यय संयुक्त आवासक नाम नीपनो हिये घणा उभयनो नाम आवासक जिम संपूर्ण नगरादिकने राजादिकनो आवास कहीये अथवा संपूर्ण सौधस्त्रीदि कल्पने इन्द्रादिकनो आवास कहीये इहां पूर्वोक्त ग्रासादने अने विमानने लड्ड पणा माटे एकज जीवाजीव उभयविचक्षणकियो इहां नगरादिकना अने सौधस्त्रीदिक देवलोकनामो टपणा माटे घणा जीवाजीव उभयनी विवक्षा कीधी इम विवक्षाये भेद जाणवो इम अन्यत पिण जीवादिकनो आवासकनाम जाणवो इहां देगमात देग्राडवापणा माटे समाप्त करतो कहेछे सेतं नामावस्त्रपं ते इम नामावश्यक वस्त्राण्यो इत्यर्थः हिये स्थापनावश्यक वस्त्राण्येछे सेकितं ठवणावश्यक अथ कियुं ते स्थापनावश्यक इम

पूर्णे उते गुरु कहेछे ठथणावस्य तिषां स्थापनास्य कर्षीये स्थापिये ए असुक्त एष्ये अभिप्राये करी निपजावियेतेस्वामना कर्षीये काष्ठकर्मदि  
 व्यापश्यकन्त साधू रूप जे स्थापना ते स्थापनावस्यक कर्षीये द्रुषा आवश्यक ते गुण तेहनो धणी ते गुणी ते गुणने बने गुणीने अभेदो  
 पचार करता ते साधूनी स्थापनावस्यक कर्षीये पूर्व स्थापनानो समुच्चय रूप ए चार्थीयकी जाणवो यथा यत्तदर्थवियुक्त तदभिप्रायेण  
 यच्च तत्करण तेषादिकर्म तत्स्थापनेति क्रियतेत्य कालव । व्या० तुयद्दनाम स्थापनानो भेद जथावषण्णार ते भायेन्द्रभावापश्यकादि रूपजे  
 अर्थ ते तदर्थ तेषे करी रचित जे वस्तु तदभिप्रायेण ते भायेन्द्रादिकने अभिप्राये करी स्थापिये ते स्थापना कर्षीये समथ कर्षीो ते वस्तु कहेछे  
 यच्च गत्करण ते भायेन्द्रादिक समथने करण करतां सरीगपगोछे जेहनो ते तत्करण कर्षीये ते सरीखो द्रुत्यर्थ च गद्द यकी अतत्करण अद्यादिक  
 वस्तु कर्षिये अतत्वाहगमित्यर्थ किंसी ते एष्वी वस्तु ते कहेछे लेष्पादि कर्म द्रुति लेष्पपूतली आदिषा यद्द यकी काष्ठपूतली आदिक यर्षीये  
 अथवा अक्षरादिक आकार रचित केतला एककाल जने स्थापिये ते कहेछे क्रियतेत्यकालव कीजे स्थापीये अल्पकाल जेहनो ते अल्पकाल सोक  
 काल द्रुत्यर्थ च गद्द यकी यावत्क्रियक ग्रास्यती जिन प्रतिमादिक एतले भायेन्द्रादिक एतले भायेन्द्रादिक अथ रचित साकार अथवा निराकारवस्तुतेहनो अभिप्राये स्थापि  
 ये ते स्थापना कर्षीये ए परमार्थ द्रुत्यार्थीय िष्ये प्रारभित कर्षीयेछे जण कट्टकर्मण वाय्यालकारे जे काष्टकर्मने विषे वापद्दराटकने विषे एक अ  
 यथा अनेक सङ्गापस्थापनाये अथवा असङ्गाय स्थापनाये अथवाएत्ति आवश्यक बने आवश्यकवत अभेदोपचार छती आवश्यकवन्त द्रुषां यर्षीये ते  
 भणी आवश्यक क्रियायन्त एक अथवा यथा ठयणाठविज्जङ्ग स्थापनारूप स्थापिये योजीवारे बल्लयचना तपणेछते ए अर्थ स्थापनारूप स्थापिये करिये  
 तेआवस्यक कर्षीये द्रुम पदसपति समन्ध करीने समुनायार्थ कस्यो एतरे एभाय काष्टकमादिकने विषे लभयटक आवश्यक क्रियाकरतां स्थापनारूप

वयादावश्यकमित्यपि नाम करोति अजीवस्य कथमिति चेदुच्यते इहावश्यकायाश्च शब्दयोरेकार्थता प्रागुक्ता ततश्चोर्द्धं शुक्कोचित्तो वल्लकोटराकीर्णो  
 वृद्धोन्वो वा तथाविधः कश्चित्पदार्थविशेषः सर्पादेरावासोयमिति लौकिकैकैर्बुद्धेर्पदिश्यतएव सच वृद्वादिर्बुद्ध्याप्नन्तैः परमाणुलक्षणैरजीवद्रव्यैर्निष्पन्नसथा  
 येकस्मिन्परिणतिमाश्रित्य एकाजीवत्वेन विवक्षित इति स्वार्थक कप्रत्ययोपादानादेकाजीवस्यावासकनामसिद्धं जीवानामपि पह्ननामावासकनामसं  
 हश्यते यथा इष्टकापाकाद्यग्निर्मुपिकावास इत्युच्यते तत्र ह्यग्नौ किल स्मृपिकाः समुच्छंत्स्यतसोपां असंख्येयानामग्नि जीवानां पूर्ववदावासकं नामसिद्धं  
 अजीवानान्नुयथा नीडं पक्षिणामायास उच्यते तन्नीलंबकुभिसृणाद्यजीवैर्निष्पद्यते इति वल्लनामजीवानामावासकनामभवति इदानीमुभयस्यावासकसं  
 ज्ञाभाष्यते तत्र ग्रहदीर्घिका अथोकवनिकाद्यूपयोभिः प्रासादादि प्रदेशो राजादेरावास उच्यते सौधर्मादिविमानं वा देवानामावासोभिधीयते यत्र च  
 जलवृद्धादयः सचेतनरत्नादयश्च जीवा इष्टकाकाष्ठादयो चेतनरत्नादयश्चाजीवास्तन्निष्पन्नसुभयं तस्य कप्रत्ययोपादाने आवासकसंज्ञा सिद्धा उभयानां  
 त्वावासकसंज्ञा यथासंपूर्णं नगरादिकं राजादीनामावास उच्यते संपूर्णः सौधर्मादिकल्यो वा इन्द्रादीनामावासोभिधीयते अत्र च पूर्वोक्त प्रासादविमान  
 योर्लघुत्वादेकमेव जीवाजीवोभयं विवक्षितमत एव नगरादीनां सौधर्मादिकल्पानां च मरुत्वाद्बल्लनि जीवाजीवा भयानि विवक्षितानीति विवक्ष्यथा भेदे  
 द्रष्टव्यः एवमन्यत्वापि जीवादीनामावासकसंज्ञा यथासंभवं भावनीयादिग्माल प्रदर्शनार्थत्वादस्य निगमयन्नाह सेतमित्यादि सेतमित्यादि वा क्वचित्  
 पाठः तदेतन्नामावश्यकमित्यर्थः इदानीं स्थापनावश्यकनिरूपणार्थमाह सेकितमित्यादि अथ कित्तुस्त्वापनावश्यकमिति प्रश्ने सत्याह ठवणा आवश्य  
 यं जगमित्यादि तत्र स्थाप्यते सुकोयमित्यभिप्रायेणक्रियते निर्वच्यत इति स्थापनाकाष्टकमीदिगतावश्यकवत् साध्यादिरूपा साचासो आवश्यकतद्वत्तोर  
 भेदोपचारादावश्यकं च स्थापनावश्यके स्थापनालक्षणं च सामान्यत इदं उक्तं यत्तु तदर्थवियुक्तं तदभिप्रायेण यच्चतत्कारणि लेष्यादिकर्म तस्यापनेति क्रियते

त्व्यज्जाल च इति विनेयासुप्रचार्यमन्त्रापि व्याख्या तु गच्छे नामलक्षणस्यापनालक्षणस्य भेदसूचक सचासावर्थश्च तदर्थोभावेन्द्रभावावयवश्चादिलक्षणशेन वि  
 युक्त रचितं यद्वस्तु तदभिप्रायेण भावेन्द्राद्यभिप्रायेणकियते स्याप्यते तत्स्थापनेतिसम्बन्ध किंविद्यित् यदित्याह यच्च तत्कारण तेन भावेन्द्रादिना सप्तकार  
 णि साहचर्यं तस्य तत्कारण तत्सहगमित्यर्थं च गच्छात्तदकारणि चाद्यादियस्तु गच्छते षषसहगमित्यर्थं किंपुन सादेयभूत वस्वित्याह लेप्यादिकर्मोति  
 नेयपुत्तलिकादीत्यर्थं आदियद्वात् काटपुत्तलिकादिगच्छते षषरादिषनाकार कियतं काल तत्कियत इत्याह अल्प कालो यस्य तदल्पकालमित्त्वकारका  
 लमित्यर्थं च गच्छाद्यावत्कथिक शास्यप्रतिमादि यत्पुनर्भावेन्द्राद्यर्थरहित साकारमनाकार वा तदर्थभिप्रायेण कियते तत्स्थापनेति तात्पर्यमित्यार्याथ  
 इदानीं प्रकृतमुप्यते जगत्तिणमिति यावत्कालकारे यत्काटकमणिषा चित्तकमणिषा वराटके वा एको वा अनेको वा सङ्गायस्यापनायाया असङ्गावस्याप  
 नाया वा यावत्प्रपुन आवय्यकृतहतोरभेदोपचारात्तद्धानिच गच्छते तद्वैकोवा अनेकोवा कथंभूता अतउच्यते आवय्यकक्रिया वा आवय्यकक्रियावन्तो  
 वा ठवणाठविष्कन्तेति स्थापनारूप स्याप्यते कियते आटच्या वडवचमातले स्थापनारूपा स्याप्य ते तत्स्थापनावय्यकमित्यादिपदेन सम्बन्ध इति ससुदा  
 र्थां काटकम्पादिव्यायस्यकक्रियां कुर्वतो यस्यापनारूपा साध्यादयस्याप्यते तत्स्थापनावय्यकमिति तात्पर्यं अयुना अयववार्थं उच्यते तत्र कियतइति

**लिप्यकर्मो वा गधिमेवा वेदिमेवा सधाइमेवा अक्खेना वराडएवा एगोवा अण्णेगोवा सञ्जावठवणावा अस**

स्यापिये जे आगल पडिबमणो कीजे तेरने स्थापनावय्यक कश्चिये ए परमार्थं चिचे अयववार्थं कश्चिये तिसी करिये ते कर्म काटने विपे जेकर्म  
 ने काटकर्म ते कृदित रूपक इत्यथ चित्तकर्मो चित्तमलिख्यो रूपक पोत्यकर्म इहा पोतवस्त्र तेरने कर्म तेरने खडे करी तीपनो वाउलिथा रूपक  
 इत्यर्थं अथवा पोत्य कर्तता पुस्तक ते इहां सपुटककूप प्रचीये तिसी कर्म कर्तता ते मध्ये करनो लिख्यो रूपक अथवा पोत्य कर्तता ताउ पत्तादिक

कर्मकाष्ठकर्मकाष्ठनिःकुहितं रूपकमित्यर्थः चित्रकर्मचित्रलिखितं रूपकं पोत्यकर्मवेत्ति अतपोत्यं पोतं वस्तमित्यर्थः तत्र कर्म तत्प्रत्ययनिष्पन्नं वाउक्षिका रूपकमित्यर्थः अथवा पोत्यं पुराकं तच्चेहसंपुटकं गृह्यते तत्र कर्म तन्मध्येवर्त्तिकालिखितं रूपकमित्यर्थः अथवा पोत्यं ताडपत्रादि तत्र कर्म तच्छेदनिष्पन्नं रूपकं लेप्यकर्म लेप्यरूपकं ग्रन्थिसं कोशलातिगयादूयं चिसुटायनिष्पादितं रूपकं वेष्टिसं पुष्पवेदनकर्मणे निष्पन्नस्नानन्दपुरादि प्रतीत्यरूपं अथवा एकं द्वौ त्रीणि वस्ताणि वेष्टित्वायकिंचित् रूपकं तःत्यापयति तद्वेष्टिसं पूरिसं भरिसं पित्तलादिमयप्रतिमावत् संघातिसं बद्धवस्त्रादिखं छसंघातनिष्पन्नं कंचुतवत् अक्षयन्दनको वराटकः कपर्दकः अत्र वाचनान्तरे अन्यान्यपि दन्तकर्मदिपदानि दृश्यंते तावद्युक्तानुसारतो भावनीयानि वा शब्दाः पदान्तरसूचकाः यथास्मन्मथमेवमन्यत्वापि एतेषु काष्ठकर्मदि आवश्यकक्रिया कुर्वन्तः एकादिसाध्यादयः सद्भावस्थापनया असद्भावस्थापनया वा स्थापनावस्यकं तत्र काष्ठकर्मदिष्याकारवती सद्भावस्थापनासाध्याकारस्य तत्र सद्भावात् तत्रादिषु मुनाकारवती असद्भावस्थापना साध्याद्याकारस्य तता

**उक्तायठवणावा आगससएत्ति इवणाठविज्जर सेतठवणावसस्यं नामडुवणाणं कोपइविसेसो गामं आवससकहिअं ठव**

तेहने छेदवे करी नीपनो रूपक लेप्यकमे वा कहता लेपरूपक गंधिमेया अतिनिपुणपणा छंती गाठिने ससुटाये करी नोपायो रूपक वेदिनेवा फूला दिकने वींठवे करी नीपनो आनन्दपुरादि प्रसिद्धरूप अथवा एकादिवस्त्रने वीठीने रूपनो पाये ते वेष्टिसकधीये पूरिमेमा कधीयेभरित पित्तलादि मय प्रतिमा नीपरे संघाद्विसेवाकहिये फूलनानाल माहि नालने पोइयेकरी नीपायोरूपत अखेगा अक्षकधीये चन्द्राकारेपाखाण प्रसिद्ध वराडए वा वराटक कधीये कोडो इहां वाचनातरने विपे अनैरा दन्तकर्मदिक् पददीमेछे ते पणि पूर्वोक्तानुसार यकी जाणया वा शब्द सवले पचातरसूचकछे एकाटकर्मो दिकने विपे आवश्यक क्रिया करतां एकादि साध्यादिकना आजार सद्भाव यकी सद्भाव स्थापना कहिये अने अचारादिकने थिपे साकार विनां सस

सङ्गाथादिति िगमयत्राए चेत्तमित्यादि तदेतत् स्यापनायव्यक्तमित्यर्थं यत्र नामस्यापनयोर्भेदपस्यन्त्रिदमाए नामठयणाण जोपश्विचेरोत्ति तामस्यापनयो कप्रतिविधेयो न कश्चिदित्यभिप्राय तथाएषावशुकादि भाष्यार्थभूय गोपालदरकादौ द्रव्यमात्रे यथा व्यावशुकादि नामक्रियते तत्स्यापनापि तथैव तस्यै काटकर्मनो द्रव्यमात्रे क्रियते तो भावभूये द्रव्यमात्रे क्रियमाणत्वावियेपान्नानयो कश्चिद्विगेप अतोत्तरमाए नाम व्यावशुक्रियमित्यादिनामया यकथि स्याययद्रव्यस्यासित्यकथा यापदनुवर्त्तते न पुनरन्तराय्यु परमते स्यापनापुनरित्वरा स्वल्पकालभाविनी वा स्याद्यावत्कथिका वा स्याययद्रव्ये षवतिष्ठमनेपि कोश्चिन्तरापि निवर्त्तते काश्चित्तु तत्त्वतां यावद्व्यतिष्ठत इति भाष सथाएि नाम व्यावशुकादिके मेरुजयवृषीप कलिद्रुमगध सुराष्ट्रादिक चाद्यात् स्याययोगोपालदरकादेशादि गिखासमुच्चयादिर्वासमसि तावद्व्यतिष्ठत इति तद्यावत्कथिकमेव स्यापनात्वापशुक्त्वै नयोग्य स्यापित सञ्चयान्तरे पुनरपि तथाविध प्रयोजनमन्मये इन्द्रयेन स्याप्यते पुनरपि च राजादित्वेनेत्सल्पकालवर्त्तिन याद्यत प्रतिमादिरूपपातुयावत् कथिका वर्त्ततेतस्मात्तुषार्थेदिद रूपेण सर्वदातिष्ठतीति स्यापनेति श्रुत्वन्ते स्यापनात्वमवयेय नत स्याप्यत इति स्यापनाग्रास्यतत्वेनाकेनापिस्याप्यमानत्वाभावादिति तस्मान्नावशुक्त्वद्रव्याधार सास्येयस्यनयो काण्डताविगेप अत्राह ननु यथास्यापनाकाश्चिदल्पकालिना तथानामापि किश्चिदल्पकालीनमेवगोपालदरकादौ विद्यमानेपिकदाश्चिदनेकनामपरत्वादिदगासुप्यतेसत्य किन्तु प्रायोनामया यत्कथिकमेव यस्तु कश्चिदव्ययोपलम्भ सोल्पत्वाच्चैहविषयचित्तइत्यदोप उपलक्षणमालचेद कालभेदे नेतयोर्भेदकथन अपरस्यापि बहुप्रकारभेदस्य सम्भवात्तथाश्चि यद्येन्द्रादिप्रतिमास्यापनायो कुण्डलांगदादिभूपित सञ्चितशचीवज्वादिराकार उपलभ्यते न तथानामेन्द्रादौ एव यथा स्यापनादर्थनादृभाव समुत्सति नैयमिन्द्रादिद्रव्यणमात्रादयथा च तत्स्यापनायो लोकस्थोपयाश्चितेष्वा पूजाप्रदृत्ति समीचित्वाभादयो ह्युत्तने नैव नामेन्द्रादावित्येष मन्वदपि वाच्यमिति ह्येवा एत स्यापनायशुक्त मिदानोन्द्रव्यावशुक्तनिरूपणाय प्रप्र कारयतिचेकित

कथिका कहिये ते श्री अरिहन्तादिकने रूपे सदा तिटेछे ते भणी स्थापना कहिये परं स्थापाइ ते स्थापना ए अर्थ नही जे भणी तेहना शाखता  
 पणा साटे मनुष्य लोकने विषे अस्वास्ती जिन प्रतिमादिकनी परे केणे स्थापी प्रतिष्ठी न थी हिवे जे भणी मायभूत्य द्रव्याधारने तुल्यपणे  
 छते पणि कालनो कीधो एहनो भेदछे इहां थिय्य पूछेछे भगवन् जिन स्थापना काई एक घोडा कालनी ऊइ तिस नाम पिय कोई एक घोडा काल  
 नो ऊइ गोपाल दारकादिवछते जकदाचि अनेक नाम फरसता दीसेछे ते भणी गुरु वोल्या सत्यं किन्तु प्राये नाम यावत्कथिकज ऊइ जे कदाचि  
 अन्यथा ऊइछे ते घोडा घणा साटे विवच्युं नहीछे ते भणी दोष नही एकालने भेद कहियो ते उपलक्षण सातले अनेरा पिय घणा प्रकारना भेद  
 ना संभव थकी तेहिज देखाडीयेछे जिन इन्द्रादिकनी स्थापनाने विषे कुण्डलांगदादि विभूषित यक्रवज्रादिक आकार दीसेछे तिस नाम  
 इन्द्रादिकने विषे न थी तथा जेहवो परिणाम तेहनी स्थापना दीठे थाइ तेहवो नाम सात सांभल्या ऊंती न थाइ तथा कोई एकनो नाम ऋषभ  
 वर्डमानादिक ऊइ ते नाम सांभल्या थकी तेहवो चित्त न थाइ जेहवो प्रसन्नचित्त श्रीरूपभ वर्डमानादिकनी स्थापना दीठा थकी थाइ तथा जिन  
 तेहनी थापनाने विषे वांछित वस्तु थाचना पूवानी प्रवृत्ति वांछित लाभादिक प्रत्यक्ष दिसेछे तिस नामेन्द्रादिकने विषे न थी दिसतो इम अने घणे  
 प्रकारे नाम थापनानो भेद कहवो एतले थापनावस्त्यक वपाण्यो हिवे द्रव्यावस्थान देग्नाडिया भणी कहेछे सेकिंतं द्रव्यावस्थयं अथ किसे ते द्रव्यावस्थक  
 इम पूछे ऊंते गुरु वोल्या द्रव्यावस्थयं दुविचं पणत्तं तिहां द्रव्यकिस्युं कहिये द्रवे ते ते पर्यायने पडुच्च ते द्रव्यविवक्षित अतीत अनागत भायनो कारण  
 अतीत अनागत विवक्षित भावनो अनुभवणहार वस्तु ते जे आवस्त्यक ते द्रव्यावस्त्यक कहिये अनुभव्यो आवस्त्यक परिणाम अथवा  
 अनुभवस्ये आवस्त्यक परिणाम जे साधुनो देह तत्व जीवादिक तेहने द्रव्यावस्त्यक कहिये इत्यर्थः हिवे द्रव्यनो लक्षण समुच्चये एणी आर्यादं करी

जाणो भूतस्य भाविनी या भावस्यचि कारणतु यद्योके तदुद्रय्य तत्वस्यै सचेतनाचेतन कथित। तदुद्रय्य तत्वस्यै कथिततेद्रथ्यतन्वने जाणकारै कस्योले द्रव्य भेदबोले ते कहेले यस्कारण जे द्रव्यकारण कइता हेतुछे केहनो ते कहेले भावस्य भाव कश्चिये पर्याय तेहनो किछो ते भाव ते कहेले भूतस्य छबो पदाय तेहनो भाविनी या अथवा आगमीय कालना पयायगो लोकने विपे ते द्रव्य सचेतनपुरुषादिक सचेतनकाथादिक एतले एहबो कस्यो जे पूर्व स्वगादिकने विपे इन्द्रादिक पणे छइने शिवडा मनुष्यादिक पणे परिणस्यो ते अतीत इन्द्रादिकना पर्यायना कारण भणी शिवडा पणि द्रव्य यकी इन्द्रादिक बोभिते प्रधानादिक पदभटने पणि जिम प्रधानादिक कश्चिये तथा आगमीय काले जे इन्द्रादिक पणे जपजस्ये ते शिवडा पणि आगमीया शालना इन्द्रादिक पर्यायना कारणपणा मटे द्रव्य यकी इन्द्रादिकज कश्चिये जिम शौण शार राजकुमारादिकने राजादि प कश्चिये इम सचेतन काथादिकना अतीत अनागत पर्यायना कारण पणा मटे द्रव्य यकी ते ते स्वरूप पणो भावबो इत्यार्थे किये प्रारभित कश्चिये ते इच्छा द्रव्य रूप आच्यक प्रारभ्योले तिळा आच्यकनो जे उपयाग तेणे अघियो जे साधादिकनो देवयन्दनकादि सूत्रोच्चारण रूप यागम कधीइ ते द्रव्यावयव विड भेदे प्रकृत्यो तज्जहा तथा आगमस्योच कइतां नो आगमने आच्यीने नो आगमने आच्यीने इच्छां गदगो अर्थं यथायधरे तहीचे अ गद्व विडने विपे तुल्य प्रधान पणु कइवाने अर्थेइ इच्छा प्रथम भेद जणावयाभणी इच्छाये कहेले सेकित आगमस्यो एवायस्य अय किमु ते आगम यकी द्रव्यावयव इति प्रथं गुरु बोल्या आगमस्योदजावयव एण पूर्वयत् जे कोइ एकी आच्यक पदनी अभिधेव आच्यक रूप गाम्म सीप्यो यावहापनोपगत छइ रेण तत्व ते जीय ते आच्यक गाम्मने विपे वाचना दृच्छनापरि यत्तना अर्थं कगाइ करी मचित वर्त्ततो छइ तो पणि आच्यकना उपयोगने विपे अणयर्त्ततो छइतो आगम यकी कइतां आच्यीने नव्यावयव कश्चिये



च्यते घोषसममिति शिष्याकालमधिकृत्योक्तं प्रतिपूर्णघोषेणु परावर्त्तनादिकालमधिकृत्येति विषेपः कण्ठघोषश्च कण्ठोष्टमिति प्राण्यं गत्वात्समाहार  
 सेन विप्रसक्तं कण्ठोष्टविप्रसक्तं बालसूक्तभाषितवद्यद्व्यक्तं न भवतीत्यर्थः गुरुप्रदत्तवाचनया उपगतं प्राप्तं गुरुवाचनोपगतं नतु कर्षावाटकेन शिञ्चितं  
 नवापुस्तकात् स्वयमेवाधीतमिति भावस्तदेवं यस्य जन्तोरावश्यकशास्त्रं शिञ्चितादिरुणोपेतं भवति स जन्तुसत्वावश्यकशास्त्रे वाचनया शिष्याध्यापनल  
 क्षणया प्रच्छन्नयार्थादेगुरुं प्रतिप्रश्नलक्षणया परावर्त्तनया पुनः स सूतार्थाभ्यासलक्षणया धर्मकथया हिंसादिधर्मं प्ररूपणस्वरूपयावर्त्तमानोप्यतु

वायणोवगयं सेणंतत्य वायणाए पुच्छणाए परिअट्टणाए धम्मकहाए नो अणुपेहाए कम्हा अणुवओग ट्व्वमिक्तिट्टे,

बलाद् नही ते अस्खलित कश्चिये तथा अमिलिञ्चं कहता अनेक शास्त्रसम्बन्धीया सूत्र एकठा मेलीने भणे ते मीलित कश्चिये अणसरीषा धान्य  
 मेलापक नीपरि अथवा गिणतां यकां जिहं पदादिकनो विच्छेद न जाणे तेसीखित कश्चिये तेहवो न थी ते समीकित जाणवो तथा अणस्रामेलिञ्चं  
 कहतां अनैरा स्थानकसंबंधीया एकार्यं सूत्र एकस्थानकने विषे आणीने मयतां नें द्रव्यत्याम्बेदित कहीये अथवा आचारांगदिक सूत्रने विषे आपणी  
 सतिना ते सरीखा सूत्र करीने प्रक्षेपतां छताने अत्याम्बेदित कश्चिये अथवा यथास्थानके रक्षणविना भणतां अत्याम्बेदित कश्चिये तेहवो नही ते  
 अथत्याम्बेदित तथा पडिपुणं सूत्र यकी विंदुमात्रादिके हीणो नही अने अर्थ यकी क्रियापदादिना संबंधहीणा नही ते प्रतिपूर्ण कश्चिये तथा पडि  
 पुण घोसं अदास्तादिक घोषे करी रक्षित नही ते प्रतिपूर्ण घोष कहीये इहां गिय्य पूछे घोषसमं इम कहीज म्'क्योछे तो इहां प्रतिपूर्ण घोसनो क्रिसो  
 विषेप गुरु कहेछे घोषसमं एभणयानी वेला आश्री कस्योछे अने पडिपुण घोसं ते गिणयानी वेला आश्री कस्योछे ए विशेषजाणवो तथा कंठोडविष्यसुक्तं  
 कंठने घोष ते कंठोष्ट तेणे करी रक्षित बल तथा मुकानां बोल्या नीपरिजे अथक्त न थी इत्यर्थः तथा गुरुवायणोवगयं गुरुयं दीधी वाचणाये करी

अथगत कश्चिदे वास्यो पवि प्रगते कर्णपयो उभत्यो न यो यथा स्वयमेव पुराण कपर भस्यो नथी एभाव ते इम लेहने चावयक ग्राह्य शिचितादिक  
 गुणे अयुक्त उद्ध रेणतत्वे ते जीव तिष्ठं चावयक ग्राह्यते विवे वायणा एमियनो मयाववो ते वाचना तेणे तथा पुच्छणाए अणवाण्या अर्थनो पूखवो ते  
 प्रणना तेणे तथा परिषट्टणाए वलीदली सूतार्थनो गिणवो ते परित्यर्चना तेणे तथा धम्मकणए अहिषादिक धर्मनो मरूपवो तेणे सयुक्त वर्त्ततो उ तो  
 पणि अनुपयुक्तपथा भणो आगम यकी द्रव्यावयक कश्चिये इम सयध जाणवो इषां विचारियेछे भिम वाचनादिके सयुक्त वर्त्ततो उ तो पणि द्रव्या  
 वयक उद्ध तिम अनुपेक्षा इ वर्त्ततो उद्ध किवा न इ इ ते कहेछे नो अनुपेक्षा कर्त्ता सूतार्थनो चिन्तन स्वरूप तेणे सयुक्त तिष्ठा वर्त्ततो द्रव्यावयक  
 न कश्चिये ए भाव जे भणो अनुपेक्षा उपयोग विना न उद्ध अने उपयोग सद्धतने द्रव्यावयकनो यभाव यकी इम जाणवो यिय्यपूछे  
 कथा क्थिया भणो वाचनादिक सयुक्त तिष्ठा वर्त्ततो पिण द्रव्यावयक कश्चिये अने किम्या भणो अनुपेक्षाये वर्त्ततो तिष्ठा द्रव्यावयक न कश्चिये इम  
 पुणे अने गुरु कहेये अनुपयुक्तमतिकट्ट, अनुपयोगते द्रव्यकश्चिये एणे कारणे तिष्ठां उपयोग कश्चिये जीवनो ज्ञानरूप व्यापारते इषां विव  
 दित बलने विते पित्त दायथा रूप यहीये ते अनुपयोग पदार्थ कश्चिये ते विवदित उपयोगना कारण पणा माटे द्रव्यज था इ इति हात्या कहतां  
 एकारण यकी पूर्वीकयुने मिलतोछे पयोव याकतो वचन जाणवो एतने इम कस्यो वाचनादिक उपयोग सद्धत पणि उद्ध ते विद्ध मांदि पूषा द्रव्या  
 यगवनी चिन्ताने विवे प्रभाव भणो अनुपयोग पूर्वक खोजि एतला भणोज सुद्धने विवे अण कस्यो पणि अनुपयुक्त यद्धनो अयाचार तिष्ठां कीधो  
 चिन अनुपयोगने भावमुन्य पणो ते भावमुन्य वस्तु द्रव्यज उद्ध एतला भणो वाचनादिके वर्त्ततो पणि तिष्ठां द्रव्यावयक कश्चिये अने जे अनुपेक्षा  
 ने उपयोग सद्धत जसभने तेणे कारणे तिष्ठां वर्त्ततो इ तो द्रव्यावयक न कश्चिये ए भावार्थ जाणवो पूषां गिय कहेछे मगवन् आगम यकी अनु

पशुक्तत्वादिति साध्याहारभागमतो द्रव्यावस्यकमित्यनेन सम्बन्धः ननु यथा वाचनादिभिस्तत्रवर्तमानोपि द्रव्यावस्यकं भवति तथासुप्रेक्षयापि तत्र वर्तमानस्तद्भवति नेत्याह नो अणुष्ये हाएति अनुप्रेक्षया ग्रन्थार्थानुचिन्तनरूपया तत्र वर्तमानो न द्रव्यावस्यकमित्यर्थः अनुप्रेक्षया उपयोगसन्तरेणाभावाद्दुपशुक्तस्य च द्रव्यावस्यकत्वाद्योय्यादिति भावः अत्राह परः कम्हन्ति ननु कस्माद्वाचनादिभिस्तत्र वर्तमानोपि द्रव्यावस्यकं कस्माच्चानुप्रेक्षया तत्र वर्तमानो न तथेति प्रच्छन्नाभिप्रायः एवं शृष्टे सत्याह अणुवङ्गोद्भवमिति कृत्वा उपयोजनसुपयोगीवस्य बोधरूपो व्यापारः सचेह विवक्षितार्थे चित्तस्य विनिवेशरूपो गृह्यते न विद्यते सोचत सोऽनुपयोगः पदार्थः सविवक्षितोपयोगस्य कारणमालत्वाद्द्रव्यमेव भवतीति हावाऽस्माल्लाङ्गादनन्तरोक्तसुपपद्यत इति शेषः एतदुक्तं भवत्युपयोगपूर्वका अनुपयोगपूर्वकाश्च वाचनाप्रच्छन्नादयः संभवन्त्येव तत्रेह द्रव्यावस्यकचिन्ता प्रस्तावादनुपयोगपूर्विकागृह्यते अतएव सत्वेनभिक्षितस्यायानुपशुक्तत्वसाध्याहारसत्त क्तानुपयोगल्ल भावहून्यता तच्छून्यञ्च वस्तुद्रव्यमेव भवतीत्यतो वाचनादिभिस्तत्रवर्तमानोपि द्रव्यावस्यकं अनुप्रेक्षातुपयोगपूर्विकैवसंभवत्यतस्तत्रवर्तमानो न तथेति भावार्थः अत्राह नन्वागमतोऽपशुक्तोवक्ता द्रव्यावस्यकमित्येतावच्चेष्टसिद्धे शिञ्जितादिश्रुतगुणकीर्त्तनमनर्थकं अतोच्यते शिञ्जितादिगुणोक्तीर्त्तनं कुर्वन्निर्दं ज्ञापयति यदुतैवं भूतमपि निर्दोषं श्रुतसुच्चारयतोऽनुपशुक्तस्य द्रव्यश्रुतं द्रव्यावस्यकमेव भवति किं पुनः सदोषसुपशुक्तस्य तु स्वलितादिदोषदुष्टमपि निगदतः श्रुतमेव भवति एवमन्यत्वापि प्रत्युपेक्षणादि क्रियाविशेषाः सर्वे निर्दोषा अप्यनुपशुक्तस्य तथाविधफलशून्याएव संपद्यंते उपशुक्तस्य तु सत्तैवकल्यादितः सदोषा अप्यभीकर्ममलापगमाथेत्थलं निस्तरणं त्यताह ननु भवत्येवं किन्तु हीनाक्षरे सत्वेसमुच्चारिते कोदोषो येनोक्तमहीनाक्षरमिति अतोच्यते लोकोपि तावद्दिद्यामन्तादिभिरक्षरादिनीनेयञ्चार्यमाणैर्विज्ञित फलवैकल्यमनर्थवाप्तिश्च हस्यते किं पुनः परममंतकल्पे सिद्धति तथाहि राजगृहचनगरे समवस्तुतास्य भगवतश्चरमतीर्थाधिपते वंदनार्थं विभुधविद्यातरनरविग्रहः त्रैगुणकश्च सपुत्रः



पडिलेहणादिक क्रिया विशेष सर्व निर्दोषकीजतां पणि अतुपयुक्तने तथाविध फल मूल्य जे एतले तेहनो वांछित फल न ऊडइ यने उपयोग संयुक्तने प्रज्ञाना अभाव यकी सदोप पणि एतला वोल कर्मचय भणी याइ इत्यलं विसरेण वली दूरा प्रे रत कहैइ इमजजो उपरंहीनाचर छल उच्च खइ किस्थो दोष जे भणी कच्चुं हीनाचर तिछांए उत्तर लोकने विपे पिण विद्यामत्त्वादिक अजरादिकरूहीणा ऊचरतां तेहनो फल नऊडइ अने अर्थनी प्राप्ति होती दोषेछे ती परम संत तुल्य श्रीसिद्धांतने विपे कि सो करयो दूरां इटांत एतदा श्रीतीर्थं कर राज गृह नगरे समो सग्या तिजा अेषिक राजा वेटां सञ्चित आब्यो यनेक विद्याभर आब्या श्रीवीतरागे धर्म कस्यो पर्यदा धर्म सांभली जावा लागीतेमाहि एक तिजा धरने विद्या धरनी आकाय गामीनी विद्या संबंधीयो एक अचर वीसख्ये ऊडते आकाय जाईनगके उत्पती हेठउपउे तिम करतो देगी त्रेणिते भगवान् प्रते पूज्या ए विद्या धर इमख्योकरे भगवंत वील्या एछनी आकाय गामनी विद्या संबंधीयो एक अचर वीसख्ये इम सांभली अथय कुमर तेविद्याभर कने जई इम वीहरो अहो विद्याधर जो सुभने ए विद्यासधावो तो तुम्हाने ए विद्या संबंधीयो अचर कछुं ते वचन विद्यापरि माव्यो अथय कुमार तेविद्याभर कने जई इम वीहरो जाणवानी यक्तिछे ते भणी गेपाचरना असुसारयकी तेहनो अचर कस्यो तेविद्याधर एरयो अथय कुमारने विद्यासभायमानो उपाय कशीगवोए इटात कच्चो छिपे उपनय जाणवो निम ते विद्याधरने छीण अचर पणाना दीप यकी आताग गमन रत्तो यने तेहनो अभाते विद्या निरर्थे तर्हि तिम दूरां श्रीसिद्धांतने विपे पणि छीण अचर भगतां अर्थभेदछते क्रिया भेद चाइ तेहनो अर्थभेदछते क्रिया भेद चाइ अनेमोच अभावे दीक्षादिक सर्व निरर्थकजथाइ इम अधिकादिक नांदोष इटात सञ्चित विचारी वोल या छिण श्री जिनमार्गने विपे दूर तगा अर्थ योता अवेधाने नयेहरी विचारीइ नखिणएहि विदुगं सुत्तं यलोअनिणमए तिंवा आसदोसोचारे नएनयतिमारउाणा । इति यधनात् एगे ताइने प्रयागयत पणि

११४४ ११४५ ११४६ ११४७ ११४८ ११४९ ११५० ११५१ ११५२ ११५३ ११५४ ११५५ ११५६ ११५७ ११५८ ११५९ ११६० ११६१ ११६२ ११६३ ११६४ ११६५ ११६६ ११६७ ११६८ ११६९ ११७० ११७१ ११७२ ११७३ ११७४ ११७५ ११७६ ११७७ ११७८ ११७९ ११८० ११८१ ११८२ ११८३ ११८४ ११८५ ११८६ ११८७ ११८८ ११८९ ११९० ११९१ ११९२ ११९३ ११९४ ११९५ ११९६ ११९७ ११९८ ११९९ १२००

गमसायच्छिद्यति द्रव्यावस्थानोच्छ्रितीत्याह नेगसस्योत्सादि सामान्यविशेषादि प्रकारेणैकोपि तु वक्ष्योगमावस्तुपरिच्छेदा यस्यासौ निरुक्तविधिना वा कारस्य आपानैगम सामान्य विशेषान्निप्रकारे बहुरूपवस्त्वस्युगमपर इत्यर्थं तस्य नेगसस्यैको देवदत्तादिरनुपयुक्त भागमत एक द्रव्यावस्थक द्वौ देवदत्त यद्देवदत्तानुपयुक्तौ भागमतो द्वे द्रव्यावस्थके तयोर्देवदत्त यद्देवदत्त सोमदत्त अतुपयुक्ता भागमतस्त्रीणि द्रव्यावस्थकानि किं वस्तुना एव यावन्तो देवदत्ता एवोत्पुपुक्ता सायतीतादिकालस्यवर्तमानेनैगमस्यगतौ द्रव्यावस्थकानि एतदुक्त भवति नैगमेति सामान्यरूप विशेषरूप य वस्तुस्युपगच्छयेत् न पुनर्गम्यमाणभषषषणामायरूपमेव ततो विशेषत्वादित्यस्येव प्राधान्येन विवक्षितत्वादायान्तो नैगम देवदत्तादिविशेषा अतुपयुक्तासायन्ति सर्वास्त्य एषो द्रव्यावस्थकानि न पुन सपक्षव्यामान्यवाहित्यादेकमेक च वक्षारमाविति व्यवहरण लौकिक प्रवृत्तिरूप सात्प्रधानो नयो

उक्ता आगमस्योतिगिद्रव्यावस्थयाद् एवजावद्वा अणुयुक्ता आगमस्योतावद्वा एवमेव व्यवहारस्त्विति

नयेकरोशाणिये तेनय गलभेद आधीनेगमादिक सात जाणवा तदुक्त नैगमासुगहर वक्षार ३ उद्युत्तुए४ चैवचोद् बोधये सहे अथूसमभि कृते४ एवभृएय० गमनया १ तिषा नैगमनय केतला द्रव्यावस्थक यौद्धे ते कृच्छ्रे नैगमक सामान्य विशेषादिक प्रकारे करी अनेक गमा कष्टतां अर्थना निर्णय जेवनात्ते ते नैगम कश्चिये एक गमो जेवनी ते नैगमकारनी लोप करतां नेगम एषो वाद् एते जाति रूप विगति रूपादिक बहु प्रकारे एक वस्तुने माते एभाप ते नैगमगने मते एक देवदत्तादिक अतुपयुक्त भागम यकी एक द्रव्यावस्थक कश्चिये देवदत्त यद्देवदत्त अतुपयुक्त उद् तौ भागम यकी नेद्रव्यावस्थक कश्चिये देवदत्त यद्देवदत्त सोमदत्त तिणि अतुपयुक्त उद् तौ भागम यकी तिणि द्रव्यावस्थक कश्चिये किं वस्तुना जेतला देवदत्तादिक अतुप यक्त उद् भागम यकी ते तला द्रव्यावस्थक कश्चिये ते वली अतीत अनगत वर्तमान संबधीया जूया द्रव्यावस्थक माने एतले दूम कथो नेगमनय ते

पि व्यवहारसाक्षात्त्वे नैगमवदेको देवदत्तादिरनुपयुक्तो प्वागमत एकं द्रव्यावस्थकमित्यादि सर्वं वाच्यं इदमुक्तं भवति व्यवहारनवोक्तोक्तव्यवहारोपकारिणएव पदार्थानुपपन्नमिति न येषान् श्लोकव्यवहारै च जलाकरण वणमिंडीप्रदामादिके घटनिर्वादिविशेषा एषोपकृत्याणादृशंतेन पुनस्तदतिरिक्तं तत्त्वामान्यमिति विशेषानेव वस्तुत्वेन प्रतिपद्यतेऽसौ न सामान्यं व्यवहारानुपकारित्वादिशेषव्यतिरेकेणानुपलभ्य मानत्वाच्चैत्यतो विशेषादिनैगमसतसास्येनातिदिष्टः अत्र चातिदेयेनपेदार्थसिद्धेरन्यलाघवायं संग्रहमतिक्रम्यव्यवहारोपन्यासः कृत इति भाष्यनीयं संग्रहोत्पादि सर्वमपि भुवनतयान्तर्वर्तिवस्तु

**संग्रहस्यं एगोवाअणो गोवा अणुवउत्तोवा अणुवउत्तावा अगमत्रोद्ब्यावस्थयं द्रव्यावस्थयागिवा उज्जुसुअस्स एगेअणु**

जाति विगति रूप विह्वं प्रकारे वस्तु माने संग्रहनयनी परे एक जाति रूपज वस्तु न माने ते भणी विशेषयाही पणा यक्ती तेरुने प्रधान पणे करी विचार वा यक्ती ए नैगमनयने मते जेतला असुपयुक्त ऊइ ते तलां द्रव्यावस्थक कपिये संग्रह नयनी परे एक जनमाने ए भाग एवमेव पाचारमणी व्यवहारवो ते व्यवहार लोका प्रवृत्ति रूप तेरुज प्रधानत्वे जे नयने मते ते व्यवहार नय करिये ते व्यवहार नयने मते पणि द्रव्यावस्थक इमज नैगमनी परे विचारयो एतले ए भाव जाणयो व्यवहार नय ते लोक व्यवहारने उपकारिया बटार्थने माने यीजाने ते माने तेलोक व्यवहारने पिणे तोजल साण वाने कार्यं घट व्याधि प्रतीकारने कार्यनिर्भइत्यादि अनेक कार्यने विषे विशेषज उपकार करता हीसेहे परंते विशेष यक्ती यनेरो सामान्य स्वरूप नदी एतले विशेषनेवस्तुरूपैच्छतापणोमाने परं सामान्यपणो न माने जे भणी ते व्यवहारने उपगारनाने अने विशेष यक्ती इधो पणि नदीने तेभणी विशेषवादी नैगमनयनी परे कत्थो इहां भलायतांजयाकितार्थनी सिद्धिजाणीने अने यंयनाएलुपापणाने अर्थे संग्रह उत्पंथीने व्यापारलो संग्रहणय कत्थो इम जाणवो संग्रहम संग्रहने कित्थुं अर्थ तिभुवन मध्यवक्ती सर्व वस्तु संग्रहने संग्रहे सामान्य रूपपणे करी पिचारे ते संग्रह तदिति

राय वनपत्र विरचितं श्रीगणेशाय नमः १०८४

निष्कृष्य वसुदेवान्नि सामान्यरूपतयाध्यवस्यतीति सप्रवृत्तस्यमते एकोवाचनेकेषा अमुपयुक्तोऽमुपयुक्तावा यदागमतोद्रव्यावस्यकद्रव्यप्रयुक्तानिवा तल्लिमित्याह  
 से एतेनित्त देक द्रव्यावस्यक इदमत्रकृत्य सप्रवृत्तय सामान्यमेवाभ्युपगच्छति न विशेषानभिर्धातिव सामान्याद्विगद्यतिरिक्तस्य अर्थतिरिक्तस्य अव्यति  
 रिक्तावा यद्याद्य पक्ष साहचिनसत्यमीनि सामान्यत्वात् खरविष्याणवत् अथापर पक्षसाहचि सामान्यमेव ते तदव्यतिरिक्तत्वात्सामान्यस्वरूपवत्तन्मा  
 त्सामान्यव्यतिरेकेण विशेषासिद्धेयानि कानिचिद्द्रव्यावस्यकानि तानि तस्यामान्यव्यतिरिक्तत्वदेकमेवसप्रवृत्तस्य द्रव्यावस्यकमिति लज्जुसुयमेत्यादि  
 अन्वतीतानागतपरकीय परिष्कारेण प्राजल वस्तुसूत्रव्यत्यभ्युपगच्छतीति ऋजुसूत्र अयदि वर्त्तमानकानभायेव वस्तु अभ्युपराच्छति नातीत यिनद्वत्या  
 व्यायनागतमदुयन्वत्वाहर्त्तमानकालभायपि स्वकीयमेव सन्त्यते स्वकार्यसापकत्वात् स्वधनयत्परकीयन्तु नेच्छति स्वकार्याप्रसाधकत्वात् परधनवत्तन्मादेको

वसुत्तो आगमतो एगद्व्यावय युद्धत्तनेच्छ इति गृहसहानयाण जाणएअणुवत्तने अत्रत्युक्कहा जादजाणए अणुवत्तने

तेऽपवृत्तना मतने विषे एक अथया घणा एक अमुपयुक्त अथया घणा एक द्रव्यावस्यक अथया घणा द्रव्यावस्यक तेऽने जि सो  
 कश्चिये ते कश्चिये सेएण तेऽर्षने एक द्रव्यावस्यक कश्चिये इहा ए अभिप्राय सप्रवृत्तय ते सामान्य स्वरूपमेजमाने परविशेष स्वरूप समस्तने नमाने ते  
 इम हेतु कहे सामान्य स्वरूप यकी विशेष स्वरूप जूयाळे इहा जो प्रथम पक्षप्रवृत्तीये तो विशेषनी नास्तिथाद् सामान्य विना विशेष केचना इद्द तेभणी  
 सामान्यनाशि भणी विशेषनी नास्ति थाद् एवच्छद्वत् जिम खर गृह्नतो सामान्य स्वरूप न यी ते भणी विशेष स्वरूप पणि नयो बीजो व्यभिन्न पद्य  
 प्रवीये तो सामान्य स्वरूपनययो विशेष स्वरूपतेधी जूयो नयी ते भणी सामान्य स्वरूप जाणपो किये जे भणी सामान्य यकी विशेष जूदो नयी ते  
 भणी भाये तेऽला द्रव्यावस्यक कश्चिये इत्यर्थ लज्जुसुयम ऋजुसूत्रस्यु कश्चिये ऋजु कर्तता अतीत अगागत अने परस्वरूपने परिष्कारये करी सरण



ज्ञानेहि ज जाणनहार तेहनो शरीर तेनो आगम यकी द्रव्यावश्यक कहिये अथवा भवस्व कहतां योग्यनो जे शरीर तेपणिनो आगम यकी द्रव्यावश्यक कहिये कित्या भणी ते कहेके आगम कहिये आवशकादिकनो ज्ञान तेहना सर्वथा अभाव यकी एतले इम कह्यो हिवडां जे आगले जाणग शरीरए कहिये तेनो आगम यकी द्रव्यावश्यक कहिये नो शब्द इहां सर्व निषेधने अर्थके ते भणी ए गायानो अर्थ वषायो हिवे देय प्रतिषेध वचनने विषे नो कहिये उदाहरण कहियेके यथा किरिआगसुच्चरं ते आवास कुणे भाव सुन्नोउ किरिआगमो नहोइ तखनेसेहोभवेदेसेर एहनी व्याख्या क्रिया आवत्ती दिक रूप करतो जतो अने आगम ते वादणादिक सुत उच्चर तो भाव शून्य आवश्यक करे ते पणिनो आगम यकी द्रव्यावश्यक कहिये इहां क्रिया आवत्तीदिक ते आगम न होइ जडपणा भणी अने आगम ते ज्ञान रूपके ते भणी तेनो आगम क्रिया रूप देगने विषे निषेध ऊइ इत्यर्थ एतला आगम यकी द्रव्यावश्यक कहिये क्रिया रूप देगने विषे आगमना अभाव आत्मी द्रव्यावश्यक जाणवो इति गायार्थ तेभणीनो आगमयकी कहता सर्वथा आगमना अभाव आत्मी द्रव्यावश्यक त्विज् भेदे प्ररूप्यो तंजहा तद्यथा जाणग शरीर द्रव्यावश्यक भव्य शरीर द्रव्यावश्यक इति प्रअइहा व्यतिरिक्तद्रव्यावश्यक तिहा अत भेद विचार वानी इच्छाइ कहेके सेकिंतं जाणयसरीरदब्बावस्वयं अथ कियुं ते जाणग शरीर द्रव्यावश्यक इति प्रअइहा उत्तर कहेके जाणय सरीर दब्बावस्वयं आवश्यक स्वरूप जेणे जाण्यउ ते जाणित कहिये समये विगरीलशाइ ते शरीर कहिये ते जाणग नो जे शरीरते जाणग शरीर तेहिज अनुभव्या भाव यकी द्रव्यावश्यक कहिये ते कहेवो ते कहेके जंशरीरयं जे शरीर जाणसंबंधीवो ते कहेके आवस्वयस्वयच्छाहि गारजाणयस्व आवस्वक पदे करी बोलीये जे शास्त्र तेहनो जे अर्थीधिकार तेहनो जे जाण तेहनो जे शरीर केहवो ते कहेके ववगयचुअचापि अत्त चुत्तदेह तिहा व्यपगत कहता चैतन्य पर्याय यकी अचेतन्य पर्याय पाभ्यो तथा च्युत कहता उच्छासादिक प्राण रहित ऊउ अचेतनने उतखासादिक

ते नो गदोऽथवा तस्यैव देगप्रतिपेभे वर्तते तत्र सञ्चेति सर्वनिपेक्ष उपात्तमुच्यते यथेत्युपदर्शने शरीरति तस्य ज्ञानत शरीर-ज्ञगरीर नो आगमत एष द्रव्यावच्छेदक भयस्य च योग्यस्य यच्छरीरं तदपि नो आगमत इष द्रव्यावच्छेदक कुतश्चत्याह आगमस्यावश्यकादिज्ञानलक्षणस्य सर्वथा अभावादिदं सुप्त भवति शरीरं भयगरीरं चानन्तरमेव वक्ष्यमाणस्वरूप नो आगमत सवथा आगमाऽभावमात्रित्य द्रव्यावच्छेदकमुच्यते नो गदस्यात् पक्षे सर्वे निपेक्षयचनत्वादिति गार्थं देगप्रतिपेक्षचनेपि नो शब्दे उदाहरण यथा किरियागसुक्ष्मरतो आवास कुण्डे भावमुञ्चेत् किरियागमो न जोइ तस्यनि सेहोभेदेऽथे व्यात्या क्रियामाप्ततादिकां कुर्वन्धित्यथाचार आगमश्च यन्तकस्रुतादिकसुचारयन् भावगुण्योय आवच्छेदक करोति सोपि नो आगमतइष द्रव्यावच्छेदकमिति शेष अतश्च क्रियावत्तादिकागमो न भवति अडलाटागमस्य च ज्ञानरूपत्वादतस्तस्यागमस्य देये नियालक्षणे निपेक्षो भवति क्रिया आगमो न भवतीत्यर्थं अतो नो आगमतइतीह किमुक्त भवति देगेक्रियालक्षणे आगमाभावमात्रित्य द्रव्यावच्छेदकमिति गार्थं तदेव नो आगमत आगमा भावमात्रित्यद्रव्यावच्छेदक विविध मन्त्रत तद्यथा शरीरद्रव्यावच्छेदक भयगरीरद्रव्यावच्छेदक शरीरभयगरीरद्व्यावच्छेदक तत्वाद्यभेद विचरीगु सेकितमित्यादि षय कि तत् शरीरद्रव्यावच्छेदकमिति मन्त्रेनिर्वचनमाह आणगरीरद्रव्यावच्छेदक श्रावच्छणतोत्यादि ज्ञातवानिति च प्रतिक्षण यीयत इति शरीर शस्य शरीर शसरीर तदेव अनुभूतभावत्वादद्रव्यावच्छेदक कितदित्याह यच्छरीरक सन्नायक च यपुरित्वर्थं कस्य सवधीत्याह आणकए

रीर द्रवावत्स्य आणय शरीरभवित्र शरीरवतिरिच द्रवावत्स्य सेकित जाणयशरीर द्रवावत्स्यश्च श्रावत्स्यस्य पय

नयी तेभणी षिये प्राणयकी रचितयायो कोइ एक स्वभाववादीये स्वभावयकी मानीयेहे तेनिराकारकरवा भणी कश्चे प्यावित कहता बलवत आलयने क्षये ते प्राण यकी रचित कीधोहे पर स्वभाव यकी नयी ऊठ जे भणी स्वभाव त स्थिरहे जने तेहना सदास्थिर पणा माटे सर्वदा प्राण रचित पणो

तीत्यादि आवश्यकमिति यत्पदं आवश्यकपदभिधेयं शास्त्रमित्यर्थः तस्यार्थ एवार्थाधिकारोनेकेभातज्ञतार्थी अधिकारा गृह्यन्ते तस्य तेषां वाच्चातः संपंधि कथं भूतं तदिदं सरीरं द्रव्यावश्यकं भवतीत्याह व्यपगतप्युतं त्यक्तदेहंजीवविप्रसुक्तमित्यक्षरयोजना इदानीं भावार्थः कश्चिद्व्ययते तत् व्यपगत चैतन्य पर्यायाद्दृष्टतन्मल्लगणं पर्यायांतरं प्राप्तं अतएव व्युतं उच्छ्वास निश्वाससवीवितादि दशविधप्राग्भ्यः परिश्रष्टं अचैतन्यं च्छासाद्ययोग्यत्वत्वाद्दयथा लेद्धा हीनामपि तत्प्रसंगात्तेश्च परिश्रं गृह्यभाववादिभिः केशित्स्वभावत एवाभ्यपगम्यन्ते तदपौरुषार्थमाह स्यादितं प्रायुःक्षेत्रेण तेभ्यः परिश्रस्वितं गतु

**च्छाह्नहार जाणयस्स जं सरोरयं ववगत चतचवित चत्तदेहं जीवविष्यजढं शिज्जागतं वा संधारयगतं वा निसी**

याइ स्वभावने अन्यथा पणो न थाइ ते भणी इमथे ते वली केहवो ते केहके त्यक्तदेहं त्यक्त कइता थाप्योके देह गइ आहारनो कीधो उपचग जेगते त्यक्त देह कश्चिये अचेतनने आहार ग्रहण अने परिणामाववो नथी ते भणी इगो प्रकारि जीवे आत्माइ वि करतां अनेक प्रकारि प्रकारि प्रकपे सुक्त कश्चिये छांटोते जीव विप्रसुक्त कश्चिये तेए आवश्यक जेभणी जाणनो गरीर यतोत भावावश्यकनो कारणके तेभणी द्रव्यावश्यक कश्चिये एहनो आगम पणो एतला भणो कश्चिये जे भणी तेणोवैलाये आगम सर्वथा नथी नो गइइ इहा सर्व निषेधने अर्थे जांगवो इहा प्रेरक पूहेये भगवन् ए जीव रचित कइतो तो एहने द्रव्यावश्यक पणो किम थाइ एहने द्रव्यावश्यक पणो याता इंट पायाणादिकसे पणि द्रव्यावश्यक पाने ते पुत्रग पण केणे एके काले आवश्यकवंते गहीने सुंध्या संभवेके एहवी आसंकाये उत्तर कहेके गज्यागत मित्यादि जे भणी ए गज्यागत संसारक गत नेपेधिकी गत सिद्धियिगातल गत देखीने कोइ एक नोले अहो एगो गरीर समुच्छये करी जिन इट भावे करी आवश्यकाएहवो पद साखात्यउ थावहुपदर्थ उत्ते जे भणी तेणे जकर चरणउर ग्रीवादिक परिणामे आतरा रचित आवश्यकनो कारण ऊउके ते भणी एहनो गरीर द्रव्यावश्यक कश्चिये भणी यतोत वर्तमान काल भावी

स्वभायतस्तस्य सदावस्थितत्वेन सर्वथा तत्प्रसंगाद्देयवसति कथंभूत तदित्याह त्वत्प्रदेशे दिव्यवपचयेत्युक्तेः ॥ आहारपरिणामजनितोपचयो यो तस्य तद्देशे  
 अचेतनस्याहारप्रचरणपरिणत्योरभावात् एवमुक्ते न विधिनानाजोवेनाजनाविधमनेकथा प्रकथेण मुक्तजीवप्रमुक्तक कितदेतन्नाशयक इत्य गरीरमतीता  
 यमज्ञभाष्यस्य कारणत्वाद्द्रव्यावशुकं अस्य च नो आगमत्वमागमस्य तदानेसर्था भाषानोग्रस्य चातपत्रे सर्वे निषेधवचनत्वादिति भावः ॥ तन्मयद्विजोषयि  
 ममुक्त इदं कथं तर्ह्यस्य द्रव्यावशुकत्वं नेटानोनामपि तत्प्रसगात्तत्पुत्रलानामपि कदाचिदावश्यं कतेऽभिर्गृहीयासुक्तत्वसमभावादित्यागस्याह भोज्यागत  
 मित्यादि यस्यादिदं गव्यागतवाससारगतवनेयेधिकीगतवा सिद्धिसिलातलगतवा इहा कोपि नूयादहो अनेन गरीरसमुच्छ्रयेण जिनहृदितभाने  
 न पापशक्तमित्येतत्पदं गृहीतमित्यादि यायुपदगितमिति तद्यादतीतर्त्तमाकालभाविवश्वेकत्वपाङ्चिनयाजुसारिणामेववादिनां सम्भवाद्युक्त  
 गरीरस्य द्रव्यावशुकत्वं न विरुध्यते नेह्यादिर्दाने पुनर्नेच्छं भूत प्रत्यय कस्यापि समत्वद्युत इति न तेषां तत्प्रसङ्गमेनेव करचरणोरुघोषादिपरिणामेना

हित्रागत वा सिद्धिसिलातलगत वा पारित्ताण कोद्रुभण्जेजा अत्रोण द्रुमेण सरौरसमुस्सएण जिगदिद्वेण भावेण आ

बल एकत्वग्राही नयना अजुसारी एषया यादोना सभव यकी पूर्वोक्त गरीरने द्रव्यावशुकत्वं पणो विरोधाद् नहो अने ईटपापाणादिकं देख्येयके एहवो  
 ज्ञान कोइने अपजे ते भणी ते द्रव्यावशुकत्वं पणो नपामे एतले पूर्वोक्त एहयो गरीरज द्रव्यावशुकत्वं कश्चिये परं लेह्यादिकं न कश्चिये ए भाव ए समुदायार्थ  
 कस्यौ चिये अयवार्थ कश्चियेके जिज्यागय तिसां गज्या कश्चिये मोटी सर्वाग प्रमाण तिसां गत कश्चितां रस्यौ सथारयगय सथारो तेलकुडो अदी इसा  
 प्रमाण तिसा रस्यौ निवृत्तिसिलातलगत जिज्यां सपु चारित्वाया तपगोपित गरीर स्वयमेव अइने पादपोगमनादिकं अनगन पडिषजा तथा पडिय  
 अये तथा पडिषजस्ये ते भूमिज्ञाने सिद्धि गिलातल कश्चिये तिसां तीय चेतना गुण यकी अथवा तिसा तीर्थ भूमिना अधिदायक देयता गुण यकी

अगु टी.

५१

खुब

भाषा

मनन्तरमेवावश्यकारणत्वेन व्याहृतत्वात्तद्वैव तथाविध प्रत्ययजनकं द्रव्यावस्यकं लेहादय इति भाव इति समुदायार्थं इदानीमवयवार्थं उच्यते तत्र शि  
 ज्जामहती सर्वांगप्रमाणा तां गतं शिवास्थितमित्यर्थः संसारो लघुकोद्धृत्तीयहसमानसं गतं तत्रस्थमित्यर्थः वत साधवस्वपः परिकर्मि तथरीराः स्वय  
 मेव गत्वा भक्तपरिज्ञानयनं प्रतिपन्नपूर्णा प्रतिपद्यंते प्रतिपत्यन्ते च तत्सिद्धिशिलातलमुच्यते घेतगुणतो यथाभद्रकदेवता गुणतो वा साधूनामारोधनाः  
 सिध्यति २ तत्रेति कृत्वा अन्ये तु व्याचक्ष्यते यत्र महर्षिः कश्चिद्विद्वत्सत्सिद्धिशिलातलं तत्रतं तत्रस्थितं सिद्धिशिलातलं गतं इह निशीहि्यागतं चेत्यादी  
 त्यपिपदानि वाचनांतरे हृश्यंते तानि च सुगमत्वात् स्वयमेव भावनीयानि नवरं नैषेधिकी शवपरिस्थापनभूमिः अपरं चात्वांतरे पासित्ताणं कोईभणि  
 ज्जेत्तिः ग्रन्थः क्वचिद्वस्यते सच समुदायार्थकथनावसरे योजितएव यत्र तु न दृश्यते तत्वाथाहारो द्रष्टव्यः अहो शब्दो दैन्यविख्यामंतगोषु वर्त्तते सचेह  
 त्रिष्वपि षट्ते तथाह्यनित्यं शरीरमिति देव्ये आवश्यकं ज्ञातमिति विद्ययेऽन्यं विपाखं स्थितमामंतयमाणस्यामंतगो अनेन प्रत्यक्षतया दृश्यमानेन शरी  
 रमेव पुद्गलसङ्घातत्वात्सुक्कयस्तेन जिनदृष्टेन तीर्थकराभिमतेन भावेन कर्मनिर्जरेणाभिप्रायेण अथवा भावेन तदावरणकर्म क्षयक्षयोपयमलक्षणेन चाव

**वसपत्तिपयं आशवित्रं पणवित्रं पखुवित्रं दंसित्रं निदंसित्रं उवदंसित्रं जहाकोदिदृती अयंषयकुंभेआसौ अयं मज्ज**

साधुनो अपराधना सीक्के एणेहे ते तिहां पर्वतादिकने विषे अनशन करी दूके अनैरा यली इम वपाणेके जिहा पर्वतादिकने विषे कोई महाहृपि  
 सीधो ऊइ तेशिलातलने सिद्धि शिलातल कहिये तिहां रत्नौ इहां निसी हिआगयंवा इत्यादिक पदपणि प्रत्यंतरने विषे दीसेके ते पदसुगमपणामाटे  
 स्वयमेव विचारवानवरं नैषधिकी ते सव परिठववानी भूमिस्मयान रूपजागवी तिहां रत्नौ अपरं पासित्ताणं कोई भणेज्जा ए पाठ किहां एकदीसेके  
 ते समुदायार्थं कहिवाने अवसरे जोग्यके अने जिहां ए पाठ नयी दीसतो तिहा जोडी देवाडिवो अचोणं इमेणं सरीरसमुझएणं अचो यद् देव्यने

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अर्थे विश्रयने अर्थे अने आमत्रणने अर्थे प्रवर्तते इहा विदुनेन अर्थे घटेछे अर्हो अनित्य गरीर देव्यार्थ अर्हो विश्रयार्थ अने अनेरा पागाना मन्युने आमत्रता आमत्रणार्थ पणियाइ इमतिणि अर्थने विपे अर्हो शब्द प्रवर्तते तथा इयेण कर्ता एणे प्रत्यक्षणे दीसते गरीरे तेहिज पुत्र लना सयात पणा साटे समुप्यय तेणे करी जिण दिष्टेण भावेण श्रीजिन श्रीतीर्थ करने हट अभिमतछे जे भाव कर्म निर्जरानो अभिप्राय तेणे करी अथवा भाव कर्ता तदावरण कर्मस्य चयोपशम रूप तेणे करी आपणएत्तिपव आवश्यक पदे वीनीये जे आवश्यक इहा प्राकृतयैली अथवा ह्यदसपणा भणी आग्णीत शब्दो आवविष्युठ छे ते भणी आग्णीत कर्ता गुरना समोपथकी श्रुती तथा पक्षविष्य कर्ता समुच्य स्वरूपे श्रियने कर्तुो तथापरुबीइ श्रियने भूज् आसुत्रार्थना कर्वा यकी प्रकृप्पो कर्चिये तथादसि अकहता प्रत लेखनानी कियाना देखाडिया यकी देखाडो तथानिदसिष्य कर्ता कदाचि अण श्रुती सकताने परमानुकराइ करी वली देपाडु, तथा उपदसिष्य कर्ता समसा नययुक्त करी देखाडो इहा प्रेरक कहेछे अणेण सरीर समुप्यण आवणएत्तिपय आवयिष्य इत्यादि स्तुत्युक्ति सधने मिले नही ग्रहण प्रकृपणादिक जीवना धर्मछे तेगोरना पटे नही ते भणी गुरु बोल्या ए सत्य कर्तुी पर अतीत कालनी अपेक्षाये जीव अने गरीरना अभेद कर्वा यकी इम ग्रहण कीघोते भणी दोप नही वली प्रेरक परुछेने गरीरने गज्जादि कने विपे रसुो देखी यद्यपि पूर्वोक्त बोलणइरा छुइ तथापि तेछेने द्रव्यावश्यक पणो किम याइ जे भणी आव गृहणी कारण ते द्रव्यावश्यक छुइ भूतस्य भाविनीया इति वचनात् ते आवश्यक नो कारण चेतनाधिहित गरीर छुइ पर ए गरीर न छुइ चेतनारहित ते भणी अनेपुए गरीर आवश्यक नो कारण थाइ तो अनेरा सर्व पुद्गल आवश्यकनो कारणकान याइ गुरु बोल्या सत्य कर्तुी उत्तर संभसो जे नय अतीत कालनो पर्याय यर्कमान काने पणि अतोमाने ते नयनी अपेक्षाइ अतीतावश्यकना कारण रूप पर्यायनी अपेक्षाइ एछेने द्रव्यावश्यक पणो छुइ

श्वकपदाभिधेयं शास्त्रं भाषविद्यति प्राकृतयैत्याच्छादसत्वाच्चशुरोः सकाशादाशकृतीं प्रज्ञापितं सामान्यतो विनेयेभ्यः कथितं प्ररूपितं तेभ्यएव प्रतिबुद्धत  
 मर्थकथनतः दर्शितं प्रत्युपेक्षणादि क्रियादर्शनतः इदं क्रियाएभिरक्षरैरत्वोपात्ता इत्यं च क्रियते इत्येवं विनेयेभ्यः प्रकटितमिति भावः निदर्शितं कथंचिद  
 गृह्यतः परयातुकरावानिचयेन पुनः पुनः दर्शितं उपदर्शितं सर्वनययुक्तिभिः आह नन्वेनेन शरीरससुच्छायेणावश्यकमागृहीतमित्यादिनोपपद्यते गृह  
 यप्ररूपणादीना जीवधर्मत्वेन शरीरस्थावष्टमानकत्वात्त्वयं किन्तुभूतपूर्वगत्या जीवशरीरवोरभेदोपचारादित्यसुन्द्यास इत्यदोषः पुनरथाह ननु यद्यपि  
 तच्छरीरकं शय्यादिगतं दृष्ट्वा पूर्वोक्तभक्तारो भवन्ति तथापि कथं तस्य द्रव्यावश्यकता यत् आवश्यकस्य कारणमेव द्रव्यावश्यता न विवृणुते इति शून्यस्य भावि  
 नोवेत्यादि पूर्वोक्तवचनात् कारणं चागमस्य चेतनाधिष्ठितमेव शरीरं नत्विहं चेतनारहितत्वात्तस्यापि तत्कारणत्वेतिःसद्भावात्वं किंत्वतीतपर्यायात्  
 इत्यभ्युपगमपरनयानुवृत्त्यातीतमावश्यककारणत्वपर्यायमपेक्ष्य द्रव्यावश्यकताऽस्थोच्यत इत्यदोषः स्यादेवं यद्यत्राथैकचिदृष्टातः स्यादिति विकल्प्यात्पृच्छति  
 यथाकोत्र दृष्टांतइति पृष्टे सत्याह यथा अयं दृष्टकुम्भ्यासीन् अयं मधुकुम्भ आसीदित्यादि एतदुक्तं भवति यथा मधुनिवृते वा प्रविष्यापनीते तदाधारप

**कुम्भे आसीत् सेतंजाणयसरीरं द्रव्यास्वयं सेकितं भवित्र सरौरद्व्यावस्वयं २ जेजोवे जोणिजस्मण निकसंते इमेणंवेव**

इहा दोष गही वली शिष्य वाल्यो ए इमजहोउजोए अर्थने विषे कोई दृष्टात ऊइ तो एहज कहेछे जहा कोदिष्टं तो यथा कोई इहा दृष्टातछे इम पूछ्ये  
 ऊते अयं घचकुम्भे आसीत् अयं सज्जकुम्भे आसीत् जिमए वीनोषडो ऊतो तथा एमधुनो घडो ऊतो एतले इम कस्यो जिमदृष्टत तथा मधु घडा माहि घालने  
 पछे ते काढीलीया पछी घडावुते दृष्टादिकनो आधार रूप पर्याय अतिक्रम्युछे तो फण लोकने विषे इम कहिवाइ जे एधीनो घडु तथा ए मधुनु घडो  
 तिम इहा आवस्यकतुकारण रूप पर्याय विणदृछे तो पणि अतीत पर्याय वर्तमान काले पणि छतो बोलीये पणी रूपेजे ए शरीरने द्रव्यावस्यज

र्यातिजातेष्य सधुपुगो अयस हतकुम्भ इति व्यपदेशलोके प्रवर्त्तते तथा आबन्धः कारणत्वपदायेतिकान्तेऽपि पर्यायात्तु ह्यथाद्रव्यावयवकमिदमुच्यते इति भावः निगमयनाच्च सेतमित्यादि तदेतन्नुग्ररीरद्रव्यावयवक एषा उक्तो नोऽप्यागमतो द्रव्यावयवक इत्यमभेद अथ द्वितीयभेद निरूपणार्थमाह सेतितमित्यादि अथ किं तद्द्रव्यगरीरद्रव्यावयवकमित्ति प्रश्ने सत्याच्च भविसरीरद्रव्यावयवक जेजीवे इत्यान्ति विवक्षितपर्यायेण भवियतीति भव्यो विवक्षितपर्यायाच्चाश्चन्द्रयोश्च इत्यर्थं तस्य गरीरं तदेव भाविभावावयवकारणत्वात् द्रव्यावयवक भव्यगरीरद्रव्यावयवक किं पुनश्चादित्यतोच्यते योजोवो योनीजनत्वमिदं किं तातोनेनच गरीरसमुच्छ्रयेण जिनापदिष्टेन सापेन आवयवकमित्येतत्पटः आगमिनिष्ठागिचिद्यतेः १० तावच्छिञ्चतेः तज्जीवाधिष्ठित गरीरं भव्यगरीरद्रव्यावयवकमित्ति ससुगयाय सांप्रतमनयार्थं उच्यते तत्र च कश्चिज्जीवो जन्तुयोयायापिदवाच्यदेगच्छनाया परिपूर्णसमस्तदेशोजम

**आप्तएण सरीरसमुच्छ्रएण जिगद्विरेण भावेय आवसएत्तिपथ सेत्रकाले सिक्वित्ससति नतावसिक्वति जहाकोदिदु**

कश्चिये ए भाव एतनी समाप्त कहहे सेत जाणय गरीर द्रव्यावयवक; एतले ना आगम यक्ती; द्रव्यावयवकसु प्रथम पदे कप्तौ चिये बीजा भेत् पाटिया भगी कहहे सेक्वित भविससरीर द्रव्यावयवक पम पद्ये उते कहहे । भविससरीर; द्रव्यावयवक तिशां विवक्षितपर्याये उच्यते ते भय कश्चिये विवक्षित पर्याय योय नेषनो; जे गरीर ते हिज भावी भावावयवकने कारण पणा यकी द्रव्यावयवक ते भय गरीर द्रव्यावयवक कश्चिये ते किमु ने कहहे जे जीवयोनि जन्म पणि नोकव्यो एणेज गरीर समुच्छ्रये करी । जिनोपदिष्ट भावे; करी आवयवक एहवो गास आगमीये कातो सोखस्ये शिवडातो नथी सीपतो तेणे जीव अश्रियो गरीर ते भय गरीर द्रव्यावयवक कश्चिये ए समुदायाय कप्तौ चिये जूज्या गन्दनो अर्थ कश्चिये जे जीव जीवो जन्मण निक्खते तिशा ज काद् एक जीवयोनि कश्चिये स्वीनो अवाच्य देग रूप ते यक्ती; प्रति

सुखित्तवत्तु



त्वेनजन्मसमयेन निःक्रांतो न पुनर्गर्भस्यैव पतितो योनीजन्मत्वनिःक्रात अनेन च गरीरमेव पुद्गलसंघातत्वात्प्रक्समयादारभ्यप्रतिसमयं समुत्पन्नं  
 गाढा समुच्चयस्तेन आत्तेन आदत्तेन वाट्टहीतेन प्राकृतगौलीवगाढास्त्रीयेन वाजिनोपद्रिटेनेत्याद्रिपूर्ववत् सेवकालिन्निच्छाटसत्वादागामिनिकाले शिञ्चि  
 यते अथेथ्यते सांप्रतन्तु न तावदद्यापि शिञ्चते तज्जीवाधिष्ठितगरीरं भव्यगरीरं द्रव्यावशक्तं नो आगमत्वं चाप्यागमाभावमाचिन्त्यमन्तथ' तदानीं तत्र  
 वपुष्यागमाभावान्नो शब्दस्य चालापि सर्वनिषेध वचनत्वात् अत्राह नन्वावशकस्य कारणं द्रव्यावशक्तमुच्यते चेदित्यत्र वपुष्यागमाभाः कयं तर्हि तस्य  
 तं प्रतिकारणत्वं नहि कार्वाभापे वस्तुनः कारणत्वं युज्यते अतिप्रसङ्गादतः कथमस्य द्रव्यावशक्तता सत्यं किन्तु भविष्यत्पूर्वार्थस्येदानीमपि योऽन्वितसुपव  
 रितनवसादशुच्यत्वात् द्रव्यावशक्तत्वमुच्यते तथाच तदनुसारिणः पठन्ति भाविनिभूतपुपचार इति अत्रार्थे दृष्टान्तद्विदयोविषुः प्रश्नं कारयति यथाकोन

**तो अयंसज्जकुंभे भविस्सद् अयंघयकुंभे भविस्सद् सेचंभवित्रसरीरं द्रव्यावस्यं सेकिंतं जाणय सरोरभवित्र सरीर**

पूर्णं देह जन्म पणो एतले जन्मने काले नीकल्यो पणिक्काचा गर्भ रूप नयी पद्योते योनि जन्म निष्क्रांत कश्चिये एहज जे गरीर तेचिज पुद्गल समुदाय  
 पणा यकी समुच्छ्रय तेणे करी अथवा जन्म यकी समुच्छ्रये ए समुद्र कश्चिये उपचय पांसोरे तेणे करी आत्तपणं आदत्तेनवा आट्ट कश्चिये गत्तोहे जे  
 शरीर तेणे करी अथवा प्राकृत यैलीनावस यकी आत्त कश्चिये आत्मानो जे गरीरहे तेणे करी जिगोपद्रुंभं भावेणं पूलाट्टि पूर्ववत् सेचकाले सिञ्चि  
 स्मृति आगमीये काले सीखस्ये अधीतस्येणतावमिच्छति शिवडातो सीगतो नयी एतले भय वापियो जे गरीर ते भय गरीर ते द्रव्यावस्यक्त कश्चिये  
 ए श्रेप वचन इति अवयवार्थः दृष्टां नो आगम पणो सर्वथा आगमना अभाव यकी जांण को ते गरीरने विपे तियारे आगम सर्वथा नयी नो शब्दने  
 दृष्टा पणिा सर्व निषेध वचन पणा यकी दृष्टा मत्र आयस्यक्त नो कारण ते द्रव्यावस्यक्त कश्चिये ते जो गत्तीरने त्रिये आगम नयी तो ते गरीर आपस्यक्त

हृदात् प्रति निर्वचनमाह यथाय मधुकुम्भो भविष्यतीत्यादि एतत्तुल्य भवति यथामधुनि हृतेवा प्रक्षेप्तुमिष्टे तदाधारत्वपर्याये भविष्यत्यपि लोकेय मधुकु  
 भो हतकुभो वेत्यादियन्देशो हृद्यते तथास्याप्यावयवकारणत्वपर्याये भविष्यत्यपि तदक्षित्वपरनयानुहन्त्या द्रव्यावयवकत्वमुच्यते इति भाव निगमयन्नाह  
 भेत्तमित्यादि तदेतद्भयगरीरद्रव्यावयवकमिति उक्तो नो आगमतो द्रव्यावयवक हितीयभेदसृतीयभेदविरूपणार्थमाह सेकितमित्यादि अथ कितत् सगरीर  
 भव्यसरीरव्यतिरिक्त द्रव्यावयवक निर्वचनमाह जाणगरीर भवियसरीरवद्वरित्तेद्रव्यावयवप्रतिविष्टे इत्यादि यत् स्रसरीरभव्यगरीरयो सबधिपूर्वोक्त  
 क्षण तषट्ते तन्नाम्ना व्यतिरिक्त भिन्न द्रव्यावयवकमुच्यत तच्च विविध प्रश्न तद्यथा लोकोक्तिक कुप्रावचनिका लोकोक्तिक तत्र प्रथमभेद जिज्ञासुराह सेकि

**वतिरिक्त द्रव्यावयवस्य २ तिविह पणत्त लोद्वत्र कुप्पावयवगिञ्च लोत्तत्रिञ्च सेकित लोद्वत्र द्रव्यावयवस्य २ जेद्वमे**

नो कारण किम याद् कार्यने अभावे वस्तुने कारण पणो न उद्भूयति प्रसग यको ते भणो एवने द्रव्यावयवक पणा किम याद् गुरु योत्या सत्य  
 कक्षा पर उत्तर संभलो आगमोया काणना पर्यायनो जे नय वर्त्तमान काले क्षता पणो माने ते नयनी अपेक्षायि एवने द्रव्यावयवक पणो कश्चिये ते  
 नयना अनुसारी इम भणजे भाविनिभूतपुपचार इति होणहार पदार्थने विपे क्षणानी उपचार करीने क्षणानी परेमानीये एभाव ए अयने विपे  
 हटात् द्रव्यावयवानी इच्छायि मत्र करेजे जषा कोद्विद्वतो यथा कोद्व इत्तां हटातजे इत्ता उत्तर कश्चिजे अय मज्ज कु भे भविष्यति अय पय कु भे भविष्यति  
 जिम ए मधुनो कु भज्जस्ये तथा ए हतनो कु भज्जस्ये एतले इम कखो मधु अथवा घोषाखवो वाखो तेवने आधार पर्याय आगमीद् कालेक्षस्ये तो पणि  
 लोक इम कश्चि ए मधुनो वडोजे ए वीनो वडोके इम दीक्षेत्त इम इत्तां आवयवकनो कारण पर्याय आगमीये कालेक्षस्ये तो पणि तेवने जे नय वर्त्तमान  
 काने अक्षि पणोमाने ते नयनी अपेक्षायि द्रव्यावयवक कश्चिये ए भाव इत्ता पूरो करेजे सेत्त भविष्यसरीर द्रव्यावयवक ते ए भव्य गरीर द्रव्यावयवकजाण

तशित्यादि यत्र निर्वचनमाह लोड्यमित्यादि लोकेभवं लोकिवं गेपं तथैव अत राजेश्वर तलवरादवः प्रभातसमयेसुखधावनादिशब्दा ततः पया  
 द्राजजुलादौ गच्छन्ति तत्तेषां सखन्धिसुखधावनादिलौकिकं जगरीरभयगरीरव्यतिरिक्तं द्रव्यावश्यकमिति समुदायार्थः तत्र राजाचक्रवर्ती वासुदेवो  
 बलदेवो मरुतामण्डलिकश्च ईश्वरो युवराजः सामान्यमांडलिकोसाल्यश्च अन्ये तु व्याचक्षते अथिमाद्यद्विधैश्वर्ययुक्त ईश्वरः परितुत्तरपतिप्रदत्तरत्नालंछत  
 सौवर्णपट्टविभूषितगिरासालवरः यस्य पार्श्वे तन्पासन्नमपरं ग्रामनगरादिकं नास्ति तत्त्वर्वतच्छिन्नजनात्रयविशेषरूपं स उं वमुच्यते तस्याधिपतिमांडविक्रः  
 कातिपयजुटुवंप्रभुः कोटुं विक्रः इभोहसीतत्प्रमाण द्रव्यसहतीतीभ्यः यस्य सत्कपुंजीकृत चिरश्वरत्वाद्विद्वेष्येगांतरितो हस्त्यपि न दृश्यते सोधिवातरद्रव्योवा  
 इत्यइत्यर्थः श्रीदेवताध्यासित सौवर्णपट्टविभूषितोत्तमागः पुरश्चेदो वणिग्वियोगः अथीहस्त्यश्वरयपदाति समुदायलक्षणायाः प्रभुः तेनापतिः गणिमन्थ

**राईसर तलजर मांडवित्र कोडुवित्र इभसेडिसेणावइ सत्यवाहृष्यभितश्री । कल्लं पादुप्याभाएरथणी एमुविस**

यो एतले ते आगम शक्ती द्रव्यावस्यजनो वीजो भेद कक्षी चिदे तीजो भेद देवाडिवा भणी कहेछे येकिंतं जाणय सरीर भविम सरीरवइरित्तं दब्बाव  
 स्रयं अथ किस्थो ते जाण गरीर भय गरीर व्यतिरिक्त द्रव्यावस्यक इति प्रश्न इहां उत्तर कहेछे जाणय सरीर भविम सरीर वयतं दब्बावस्रयं तिविचं  
 पणत्तं जिहा जाणग गरीर अने भव्य गरीरनो पूर्वोक्त स्वरूप न घटे ते उभय व्यतिरिक्त द्रव्यावस्यक कश्चिये तेहना तिण भेद प्रहूपा तंजहा तद्यगा  
 लौकिक कुप्रावचनिक लोकोत्तरिक तिहा प्रथम भेद जाणाववाभणी कहेछे सेकिंतं लोड्यं दब्बावस्रयं अथ किंस' ते लोकिक्तद्रव्यावस्यक प्रति प्रश्न ईजा  
 उत्तर कहेछे लोड्यं दब्बावस्रयं लोक्कने विणे छुड' ते लौकिक कश्चिये गेपथाक तो तिमज जाणवो डेडमे पूहां जे एतला राज्ये श्वरादिक करे ते जाणग  
 गरीर भय गरीर व्यतिरिक्त लौकिक द्रव्यावस्यक कश्चिये ए समुदायार्ण करणो तिहां राजा ते चक्रवर्ती वासुदेव बलदेव अने मारामंडलिक तथा ईश्वर

राव वनापव चिच मचलरजा योगस संयव मना ३४४

रिमिभेद्य पारिष्पेद्य च दय्यजायन्तु वेक्षण नाभ्य वसति जो अत्रदेस त निवचकुमउपसिद्धो दीगाणाणाण्यच्छलोपये सोसलवाचनसमधणोखलोए  
 समुणरुद्र एतसुधुणयुक्त साधवाच प्रथतियशणेन शोपप्राकृतजनपरिपच कक्ष पाउप्यभायाए इत्यादि कन्वमिति विभक्तित्यत्येन सामान्येन प्रभातेप्र  
 भातभ्यैर विगेषावभ्या प्राचपाद्र इत्यादि प्रापु प्राकाशे ततच प्रकागप्रभातायां रजन्यां किस्त्रिपुपलभ्यमानप्रकागायामिति भाव तरनन्तर सुविमलाया  
 तखामेव किश्चित्स्फुटतरप्रकागायां व्ययगद्धानन्तये तदनन्तर पाडुरे प्रभाते कथभूत इत्याच फुल्लोत्पलजमलकोमलोन्मीलिते फुल्ल विवक्षित तत्र  
 तदुत्पल च फुल्लोत्पल कमलो हरिश्चविगेष फुल्लोत्पल च क्रमनच फुल्लोत्पलकमलोतयो कोसलककठोर दलानां नयनयोयोनीलितमुन्मीलन यत प्रभा

**त्वाए फुल्लूप्यलकमवकोमलुस्त्रिलिश्च मि अहृयडुरएप्रभाए रत्तासोगपगास किसुअ सुकमुह गुजलुगागसरिसे कम**

ते युधराजा सामान्य मडलिक्क अने प्रधान अने प्रधान अनेरा करेहे अणिमादिक थाठ येखर्व युक्त इंगुर कश्चिये तथा तलवर तेजेचने राजाये उदचर्दे  
 नेराय युग स्वर्ण पहदीधो ते पद्व अचने मलके शोभे तथा जेचने पासे टू कडो ग्रामनगर नयो सर्वे दिखोजाणे सञ्चित मडय कश्चिद्र तेहना अधिपति गाड  
 विक्त कश्चिये तथा केतना ए फुडयनो घणी ते कोट्टु बिक कश्चिये तथा इभ्य कश्चिये वशी प्रमाण द्रव्यहे जेचने तेइभ्य कश्चिये एतजे जेहना द्रव्यतु पु ज  
 कसू ऊने ते दूथने पातरे वशी नदीये ते अत्यत अधिक द्रव्यनोधणी इभ्य कश्चिये तथा खड्गीता सर्पिं सवुक्त स्वर्ण पट्टे विभूयित छत्तभाग जेहनी ते  
 अट्टि कश्चिये एतले नगरमध्ये वाणोयसिमोठो वाणीयो ए भाव तथा चतुरगिनीयेना नो धणी ते सेनापति कश्चिये तथा सार्धपाचनो सरूप एणी  
 गायाये जीणियो गणिम धरिम मेदुपारिखिज्जवद्व्यजायचयेनूण साम्भली यचेजा अत्रदेसमि नियडुमड पसिद्धो दीगाणाणाण्यल्लोपये सो  
 सयवाचणाम धणजलोए समुण्यरुद्र एश्या लक्षण युक्त सार्धवाच कश्चिये प्रभति प्रख्या वकीशेय लोक जाणवा कक्ष पूडां विभक्तिना विपर्ययथकी एहयो

ते तत्तथा अनेन च प्रागुक्तायाः सुविमलतायाः वक्ष्यमाणसौर्भ्यस्य चांतरालभाविनीं पूर्व्यं यां दिश्यरूपाप्रभापस्थामाह तदनन्तरं उद्विष्टरूपिणीं चाम्बु  
 कृते आदित्ये कथंभूते इत्याह रक्ताशोकप्रकाशकिंशुक शुक्लसुषुम्णुं जार्द्रं रागसहये रक्ताशोकप्रकाशस्य पुष्पितपलागस्य शुक्लसूत्रस्य गुं जाह्नस्य च रागे  
 णसहशोयः स तथा तस्मिन् आरक्तं इत्यर्थः तथा कमलानरनलिनीश्वडबोधके कमलानामाकरा उत्पत्तिभूतयोः कृशादि जलाशय विगोपासोप यानि

**लागरनलिणिसंबोहए उद्विष्टमिसुरे सहसरसिमि दिगथरे तेअसाजलंते सुहधोअणदंतपक्खालण तेह्लुफणिह सि**

अर्थं समुच्चयरूप प्रभात येलाने विपे वली तेरुनाईज विगेष कण्डियेच्छे पाउपभाए प्रादु प्रकाश कएतां काई एक प्रकाश ऊउ तेगीवेलाये तिवार पक्की  
 सुविमला ए कएतां जेएथीवेलोदू काई एक घणोरो प्रकाश ऊउते तेएथी वेलोडू चय ग्रद अन्तरने अर्थे एतला भगी अन्तर पांडुर प्रभात वेलोये  
 केहवोच्छे ते कहेच्छे फुल्लोपलकमलकोमलमूल्योलियंमि फुल्ल कएता विकस्यो उत्पल कएतां कमल ते विकस्यो जे उत्पल ते फुलोत्पल तथा कमल  
 कएतां एरिण ते फुल्लोत्पलना जे कमल कमलाफूलां पापुडी अने नयने ते विड्डनो उग्रीलवो कएतां उघडो जे जेणी वेलोये तेणी प्रभात वेलोदू  
 एतले कण्डिये वारी पूर्वोक्त सुविमला अथस्या थकी हियडां जे कण्डियेच्छे सूर्यनो उदय ते छिड्डना आंतरानी वेलोये पूर्वदिशिने विपे राता प्रकाशनी  
 अवस्था कण्डिये तियाह पक्की उद्विष्ट सूरि उदय सूर्यनो थयो तेणी वेलोये सूर्यनो उदय केहोच्छे रात्रा चमोहनो प्रकाश तथा पलाय कएतां फूल्योपलाश  
 तथा शुक्लनो मय तथा गुंजा कएता चिणोठी तेरुनुं अर्थ एतला नारंगमरीपोच्छे जे सूर्य तेणो उग्ये ऊउते तथा कमलना जे आतर कएतां उदयत्ति  
 स्थानक द्रुहादिक जलभा आशय तेरुने विपे जे नलिनी कमलनी तेरुना जे खंड तेरुनो बोध कएतां जगडगणार जे सूर्य ते एषधे उग्येऊउते तथाते  
 असाजलंते ते जे करी जाक्खल्यमान एएधे सूर्ये उग्ये ऊउते तिणं ए सूर्य भापच्छे इम गणाव वाभगी सूर्यना घणा विगोपण कस्या एतले उत्तरोत्तर कालना

राय वनपत सिंघे वाचिर्दराशा खानम अथय वान ४४भा

नखिनी खड्गानि तेषां बोधको यः स तथा तस्मिन् पुन कि भूते तस्मिन्निव्याह सखरकौ दिन करोतीति दिनकर सखिन् तेजसा खलति तत वै ते भाषा भवेति सतीति प्रापनार्थं सर्वस्य विगेषणवज्ज्वल्य । अनेन चोत्तरोत्तरकालभाविना भावस्थककरणकालविशेषणकलापेन प्रकृतमध्यमजघन्योद्य मयतां सत्याना अभिमतमायुक्तकरण समयमाह तथाचि केचित्प्रकृतोद्यमिन किचित्प्रकाशमानायां रजन्या सुप्रधावनाद्यावस्थक कुर्वति मध्यमोद्यमिन स्तुतम्यमेव सुविमलाय । मरणप्रभाय सरेवाजपयोद्यमिनस्तु समुहने सवितराविति सुप्रधोवणेत्यादि सुप्रधावनच दतप्रद्यालन च तेल च फाणिचय सिद्धा

**द्वयय हरिश्चालिच अद्वागधुन पुष्पगध मल्लतवोल वत्याद् आद् द्वावस्यद् काउ ततोपच्छा रायकुलवा देवकुलं**

भाषी भावस्थक करवाना कालने समूहे करी उत्कृष्ट मध्यम जघन्य उद्यमवत जीवनी भावस्थक करवानो काल तद्योते कोद् एक उत्कृष्ट उद्यमनाधणी कचित्प्रकाशमाय रातिनी वेलाये सुप्र धावनादिक आयस्थक करे अने मध्यम उद्यमीति सुविमला अवस्थायि करे तथा जघन्योद्यमीते सर्व उद्येडते करे सुप्रधावन दत प्रद्यालण तेलफणिच सिद्धान्तक हरितालिना आदर्ग धप पुष्पमाल्य गध तावूत्रस्य इहा द हसमास करीने पछे वज्ज्वीचि समास करी येते आदिहे जे स्नान आभरण परधानादिकना ते तथा तिहा फाणिच कछता कोगसी तेहने मल्लकादिकने विपे व्यापारे तथा सिद्धान्त कचिये सरसव अने हरितालना कछता द्रोष एविमांग दोलिकने अर्थे शिर साचि घति तथा अद्वाग कचिये आदर्ग भारी सो तिहा सुय जोये तथा धूपे करी वस्त्रादिक धूपे तथा अणगु प्याते फूल अने गुध्याते माल्यतथा विकस्या ते फूल अने अण विकस्या ते माल्य ते मल्लकादिकने विपे घाले उपरात स्वरूप यकी तथा उपयोग यकी प्रसिद्ध जाणयो एतला द्रव्यायस्थक करीने पछे राज कुनादिकने विपे जाद् तिहां देवकुल कछता समुच्चये दिष्टरा तथा आराम किम्प कचिये जिहां अति रमणीय पणा माटे स्त्री पुरुषना जोडारने कीडाकरे ते आराम कचिये एतले विविध पुण्यादिके उपगोभित यम तथा जिहां

र्थश्चिहरितालिकाच आदर्शश्च धूपश्च पुष्पाणि च माल्यं च गंधाश्च तावृलं च स्त्राणि च तान्यादिवेषा स्नानाभरण परिधानादीनां तानि फणिस्रःकंकतकशां मसृक्नादौ व्यापारयति सिद्धार्थाः सर्पपाः हरितालिकाद्रवौ एतद्दूहयं मंगलार्थं शिरसि प्रक्षिपति आदर्शेषु सुखादि निरीक्षते वस्त्रादि धूपयंति अग्रथितानि पुष्पाणि तान्येव अग्रथितानि माल्यं अथवा विकसितानि पुष्पाणि वातान्येवा विकसितानि माल्यं एतेषां च मसृक्नादिषूपयोगः शेषं स्वरूपत उपयोगतश्च प्रतीतमेव एतानि द्रव्यावश्यकानि कृत्वा ततः पश्चाद्राजः कुलादौ गच्छति तत्र रमणीयतातिथयेन स्त्रीषूपुष्पमिथुनानि यत्नारसंति च विविधपुष्पजात्युष्पशोभित आरामः वस्त्राभरणादिः समलंकृतविग्रहाः सन्ति हितायनाद्याहारामदनोत्सवादिषु क्रीडार्थं लोका उच्चंति यत्र तच्चम्पकादित

वा आरामं वा उज्जार्णं वा सभं वा पञ्चं वा गच्छंति सेतं लो इन्द्रं द्रव्यावस्यं सैकितं कुप्यावयणि अद्रव्यावस्यं २ जे इभे

उद्गार करौने आहार संघाते लेईने मदनोत्सवादि काने विषे लोक क्रीडाने अर्थे जाइ ते चंपकादिक दृक्ते शोभायमान उद्यान कश्चिदे तथा भरतादिक नीकयाने विषे विनोदे जिहां लोक तिष्टे ते सभा कश्चिदे शेष प्रसिद्ध जाणवो ए अ्वयवार्थ वधाण्यो इहां प्रेरक पूक्के भगवन राजादिके प्रभात वेलाये अवश्यक करिदे ते भणी आवश्यक कश्चिदे इम शब्दार्थे माटे एहनै आवस्यक पणो परं ए सुख धोवनादिकने द्रव्य पणो किम थाइ द्रव्यतो विवक्षित भाव नो कारण कत्योछे भूतस्य भाविनी वा इत्यादि वचनात् अनैराजादिके कीजता सुख धावनादिक भावावस्यकना कारण तोनधी ते भणी किम युक्तिमिले गुरु बोल्या ए सत्य कर्तुं परंभूतस्य भाविनी वा इत्यादिक ते इहां द्रव्य नोलक्षणलेवी इहां अपहाणे विद्वमिति वचनात् अप्रधान वाची द्रव्य शब्द जाणवो जे मोक्षना कारण भावावस्यकनी अपेक्षाये ए पूर्वोक्त आवस्यक संसारना कारण भणी अप्रधान आवस्यक जाणवो ते भणी द्रव्य भूत जे आवस्यक ते द्रव्यावस्यक पणे कारणे ए द्रव्यावस्यक कश्चिदे इहा दोष नही नो आगम पणो इहां पणि सर्वथा आगमना अभाव यकी जाणवो नो शब्द इहा

हृषण्डमण्डितसुदान भारतादि कया विनोदेन यत्र लोकस्त्रिष्ठित साग्रभागेप प्रतीत यत्राण ननु राजादिभि प्रभाते अथश्च क्रियत इति श्रुत्यपत्ति मातेणापस्यकत्व भवतु सुग्रथावर्गानि भावायस्यक कारण न भवन्ति सत्य किंतुभूतस्य भाविनोयेत्वाद्येव द्रव्यलक्षण मतस्य किंतर्हि याम्पाणोविद्वयसद्वो कीति पचनान्तर अप्रधानावपकोपि द्रव्यग्रन्थोपगतस्य अप्रधानानि च मोक्षकारणभावायस्यकोपेचया ससारकारणानि राजादिसुखधावनादीनि तत्रय द्रव्यभूताव्यावृत्तकानि द्रव्यावस्थानानि एतानीत्यशेषेण नोपयोगमत्व चक्ष्यागमाभावाच्चो गच्छस्य च सर्वनिपेध वचनन्वादित्यल विस्तरेण निगमयन्वाप येन गोश्रुतिमत्यानि तदेतत् अगरीर भयगरीर व्यतिरिक्त नोक्तिक द्रव्यावस्थकमित्यर्थं अतो नोपयोगमतो द्रव्यावस्थकातगत अगरीर भयगरीर चरगचौरिग चरगवृद्धिच भिक्खोहपदुरगोश्चम गोवनिश्च गिह्धिधम्म धम्मचिंतग अविश्वैवनयिक बुद्धसावगम्पभित

पणि सर्व निपेधने पर्ये जाणवो इत्यल विस्तरेण इहा पुरोकरयाभणी कहेछे सेत्त लोईअ दव्यावस्थय तेए जाणग गरीर भय गरीर व्यतिरिक्त लौकिक द्रव्यावस्थक जाणवो इत्यर्थ एतले उभय व्यतिरिक्तनो पाडवा भणी कहेछे सेतलोइअ दव्यावस्थय ते ए जाणग गरीर भय गरीर व्यतिरिक्तनो प्यागम यको द्रव्यावस्थकनो प्रथम भेद कस्यो छिये बीजो भेद देखाडिया भणी कहेछे सेकितं कुप्पाययणिअदव्यावस्थय अयकिणु ते कुप्पायचनिक द्रव्यावस्थक ए प्रत्र इहा उचार कहेछे कुप्पाययणि अदव्यावस्थय कुत्तित प्रवचन जेइनो ते कुप्पावचनक तेइनो ए चावस्थक ते कुप्पायचनिक द्रव्यावस्थक कश्चिये तेकिणु ते कहेने जेइने एतला परक धीरिकादिक प्रभातनी वेगाइ इद्वस्सदादिकनो उपमर्दनादिक करे ते कुप्पायचनिक द्रव्यावस्थक कश्चिये ए समुत्थार्य तिष्ठा परक ते कश्चिये जे धाटियाचक ऊता भिजामागे अयवा जे प्याताशीडे ते परक कश्चिये तथा सेरी माण्डिया पद्यावस्थ परिरे ते चारिक कश्चिये अयवा धीरमय सर्व उपकरण ते धीरक कश्चिये तथा जे धर्म परिरे तेधर्म खड कश्चिये अयवा धर्ममय उपकरण जेइना ते धर्म खडिक कश्चिये तथा जे भिज्या



व्यतिरक्त द्रव्यावश्यकप्रथमभेद द्वितीयनिरूपणार्थमाह सेकितं कुप्रावचनिकं द्रव्यावश्यकमत निर्वचनं कुप्रावचनियं देव्यावख्यंति इमे इत्यादि कुत्थितं प्रवचनं येषां ते कुप्रावचनाखे पाभिदं कुप्रावचनिकं द्रव्यावख्यं किं पुनसादित्याह जे इमे इत्यादि एते चरञ्चरीरिकादयः प्रभात समये इन्द्रस्मंदादेशे पलेपनादि कुर्वन्ति तत्कुप्रावचनिकं द्रव्यावख्यमिति समुदायार्थसावधाटिनाहकाः संतोये भिक्षां चरन्ति ते चरकाः अथवा ये भुंजानाचरन्ति ते चरका रथ्यापतितचौर परिधानाः चौरिका अथवा येषां चौरमेवमेव सर्वसुपकरणेते चौरिकाः चर्मपरिधानार्थं खंडिका अथवा चर्ममयं सर्वमेवोपकरणं येषां ते चर्म खंडिकाः ये भिक्षामेव भुंजन्ते ननुस्वपरिश्रित गोदग्धादिकं ते भिक्षाडाः सुगतगासमस्या इत्यन्वेपांडुरागाभस्मोद्घृतगतवाः विचितपादपतनादि शिक्षाकलापयुक्त वराटकमालिकादिचर्च्चित एवमजोपायत कणाभिजाग्राफ्रिणोगतमाः गोचर्यानुकारिणोत्रिक्रांते हि वचमपि किल तिर्यञ्जुवसाम इति भावना भावयंतो गोभिर्निगच्छंतीभिः सचनिर्गच्छंति स्थिताभिस्त्रिष्टत्यासीनाभिरुपधियंतिभुंजानाभिस्तद्देव तृणपत्रपुष्पफल्लादि भुंजन्तितरूखं गवाहीं समं निगमपत्रेसगासगाइ पकरन्तिभुंजन्ति जङ्गागवीभि तिरब्रजसं विभावंता गृहस्वधमे एव येयानित्यभिसंधावतद्यौक्त चारिणो गृहृद्धिधर्मासाया च तद्गुसारिणां वचः गृहृष्टयसमोधर्मो नभूतो न भविष्यति तं पालयति ये धीरा क्लीभाः पापंडमात्रिता इति वार्त्तवल्पर प्रकृति त्वपिश्रणीत धर्मसंस्तितान्चितयति ताभिश्च व्ययहरन्ति ते धर्मचिंतकाः देयता क्षितीगमतापितृगुरुकृष्णामिरोधिर्न पिचकारित्वाद्दिविश्वायै न धिकाः पुण्यपापपरलोकाद्यनश्युपगमपरा क्कियावादिनो विद्युताः सर्वपापंडिभिः सह विद्युत् चारित्वादवाञ्छं ननु यद्येते पुण्याजनभ्युपगमपराः कथं तर्त्तौपा वक्ष्यमाणमिंद्राद्युपलेपनं संभवति पुण्यादि निमित्तमेव तस्य संभयागत्यं किंतु जीविकादि जेतोसो पामपि तत्तु भवतीत्यदोषः प्रथममेवत्यद्य तीर्थकरकाले समुत्पन्नत्वात्प्रायो दृढकाले दीक्षाप्रतिपत्तेश्च दृढात्मापसाः आयका जाम्बुकाः प्रथमं भरतादिकाले आनकागमिन सतां पयाद्वाज्ञागत्य

भाषादेश्येऽ लप्यायका इत्येकमेव पद ताच्छ्रुणवाचकशब्देऽ व्याचक्षते एतर्पा हहसमाग प्रकृतिग्रहणात् परित्राजकादि परिग्रह पापड अत तत्र तिउतीति पापडस्या कस्य पाठप्यभ्याण इत्यादि पूर्ववदावृत्तेऽसाजलतीति इ दक्षिणेत्यादि तेष्वेव प्रतीत स्वन्वकार्नि केच रुद्रो हर शिवस्वाकार

### विरुद्ध वदसावगम्यभित्तो पासडत्याकल्ल प्याउपभाए जाए जाव तेअसा जलते इ दस्यवा खुदस्यवा रुटस्यवा सिवस्य

जने खाद् पर आपणी गाद् प्रमुखनो दू गदिक पीये ते भिचाडा कश्चिये चरा कहेछे बोद्ध मतामुसारीयती भिचोडा कश्चिये तथा भस्मे खरजा गान जेहना ते पांडुराग कशीये तथा जे बलदने कौडी आदिकनी माला पहिरायीने पग पडणादिक अनेक क्रिया सीखवीने तेहना उपाय यकी कण भिजाना लेण्णारागातम कश्चिये तथा गाद्नी चरोने केडे प्रवत्ते तेगोहस्तिका कश्चिये ते एहवी भावनाभायेछे अन्हे जाणे तियेचनी योनि मध्येव साखा ते भणी तेगाद् नोकलता नोकले ते उभीरहेतो जभारणे त्रैसैतो वेसे खावैतोये खाद् तेहिननीवेरे तणापत्र पुण्य फलादिक तदुक गायीहिसम निगम पवेषहाणसाण्णपकरति भुजति अजडगावि तिरिबवासति भावता। तथा गृहस्य धर्मज अटके अयेछे एहवी जाणी गृहस्यनुपयोक्त धर्मचाचरे ते गृही धर्मो कश्चिये तेहना अनुसारी इम याने गृहशत्रुम समोधर्मो न भूती न भवियति तपाखयति ये धीरा लोवा पापडमाश्रिता। तथा यद्भवत्क प्रवृत्ति ष्चपि प्रणीतधर्म सहिता भणेजे प्रयने अनुसारे प्रवत्ते ते धर्म चित्तिका कश्चिये तथा देवताद्यतीग साता पितातिये चादिकनो विनय करवा यकी कोद् ते विरोधे नही ते भणी अविबद्धा कश्चिये विनयवादी तथा मुख्यपाप परलोकादिक न माने ते भणी विबद्धा कश्चिये नास्तिक दृष्टा प्रत्य जो ते पुण्यादिन न माने तो तेहने इ द्वादिनो उपलेपनादिक किम सभवे तेतो पुण्यादिक निमित्त भणीचे गुरु बोल्या एसत्य कल्ल पर आजीवकादिक निमित्त तेहने पण्य तेसभयेछ ते भणी दोष नही तथा प्रथम कइता आद्यतीर्ये कालने विषे उपजयापणा यकी अथवा दृष्टावस्याये दीक्षानेवा यकी दृढ तापस कश्चिये

विशेषधरः स एव व्यंतर विशेषो वा वैश्वणो यक्षनायकः देवः सगान्यः नागो भवनपतिविशेषः यक्षभूतोव्यंतरविशेषो सुकुन्दो यक्षदेवः आर्याप्रगांत  
रूपा दुर्गाश्च मन्दिपा रूढा तत्कृष्टनपरा कौटुक्रिया अतोपचारादिद्रादि ग्रन्थेन तदायतनमप्स्यते अतस्स्येद्रादि रूपोपलेपन सन्मार्जना वर्षण  
पुष्प धूप गंधमाल्यादीनि द्रव्यावश्यकानि कुर्वन्ति तत्र लेपनं छगणादिना प्रतीतसेव सम्मार्जनं दंडपुष्पनादिना वर्षणं गंधोदकादिना श्रेयं गतार्थं  
तदेयं च एते चरकादय इन्द्रादेरूपलेपनादि कुर्वन्ति तत् कुमावचनिकं द्रव्यावश्यकं अत्र द्रव्यमायश्यकत्वं नो भागसत्त्वं च कौटुकिक द्रव्यावश्यकोक्तमिव  
भायनीयं निगमयन्नाह सेक्तमित्यादि तदेतत्तृणरीर भयगरीर व्यतिरिक्तं कुमावचनिकं द्रव्यावश्यकमित्यर्थः उक्तो नो भागमतो द्रव्यावस्थाकांतर्गत अगरीर

वा वेसमणस्सवा देवस्सवा नागस्सवा भूअस्सवा सुं सुदस्सवा अज्जाएवा कोट्टकिरिआएवा उवलेवणस्सं मट्ठण आवरि  
स्सण धूवपुष्प गंधमस्सादिआइं दब्बावस्सयाइं करेति सेतं कुप्पावयणिअं दब्बावस्सयं सेकितं लोगुत्तरिअं दब्बाव

तथा आवक कश्चिदे ब्राह्मण वाची कहेत्ते एतला पदमो इहं समास करिये प्रकृति गृहया शक्ती पर नाजगादिक गृहीये पापंड कठतां मत तेरने विपे  
तिष्टे ते भणी पापंडस्या कश्चिये कक्षं पाउप्यभायाए इत्यादि पूर्ववत् इंदग्य तिहां इंद्रते प्रसिद्ध स्तंभ कश्चिमे कार्त्तिकेय इद्र कश्चिये इन्द्र ते अकार  
विशेषपनी घरगणारण अथवा व्यंतर विशेष जागवो वैश्रमण ते यक्षनो मायक देयससुसुय रूपनाग तेभवन पति विशेष यक्ष अने मूत् तेव्यंतरना विशेष  
सुकुंट ते बलदेव आर्या ते ते प्रगांत । रूप देवी तेरुज देवी मन्दिपारूढ दुर्गा कश्चिये ते भैसाजशब्दे ते भणी कोट्टिकिया कश्चिये पूछा उपचार नय शक्ती  
इन्द्रादिक ग्रन्थे तेरुना देहरा अने तेरुनी प्रतिमा बोलीये ते भणी तेरुने उपलेपपणनमाजी न भावपण मूप पूज्यगंधमाल्यादिन द्रव्यावश्यक करे तिहां

निय धनपण विंश वाशिष्ठिनो शीगस खयव मान ४४ भा

बन्धुगटीर अतिरिक्त द्रव्यावच्छेद द्वितीय भेदो ऽथ तत् तृतीयभेदनिरूपणार्थमाह चैकित्तमित्यादि अथ किं तस्मैकोत्तरिय द्रव्यावच्छेदकमतं निर्वचनमाह लोकस्योत्तरा साधव अथवा लोकस्योत्तर प्रधान लोकोत्तर जिनसायन तेषु तस्मिन्वाभवति लोकोत्तरिक द्रव्यावच्छेदकमिति व्याख्यातमेव किं पुनस्तदित्याह जेइमेत्यादि य एते अमणगुणसुतयोगिवादिविशेषणविशिष्टा साधवाभासा जिनानामनाश्वरद्विवृत्त्योभायकाल मायच्छकाय प्रतिक्रमणायोपतिष्ठते तत्तर्पां प्रतिक्रमणसुष्ठानं लोकोत्तरक द्रव्यावच्छेदकमिति सुसुदायार्थ इदानीमवयवार्थ उच्यते तत्र अमणा साधव स्ते पां गुणा स्तलान्तर गुणरूपा सत्त्वजीववधविरित्यादयो मूलगुणा पिष्टविशुद्धादय स्तत्तरगुणास्तौ पुस्तौ योगो व्यापारो यैस्तौ सर्वधनादेराह्णतिगणत्वात् अमण

स्वय जेइमे समयगुणसुकजोगौ छक्काय निरणुकपा हयाइवउदमा गयाइव निरकुसा घट्टामठा तुप्पेडा पांडुरपडपा

छगणादिकेलोपीये ते उपतेपन कश्चिमे सम्मार्जनं ते दड प् छणादिके करीये आवर्षण ते गघोदकादि छाटे शेप सर्व सुगमार्थ एषवयवार्थ वपाख्यो ते एणीपदे जे चरकादिके इद्रोपलेपनादिक करे ते कुमायचनिक द्रव्यावच्छेदक कश्चिमे पूषा द्रव्य आवस्यक पणो अने नो भागम् पणो लौकिक द्रव्यावस्यक नो परे जाणयो पूषा समाप्ति कहेछे सेत्त कुप्पावयवच्छेदक शरीर भव्यशरीर व्यतिरिक्त कुमायचनिक द्रव्यावस्यक जाणवो एतले नो भागम् यकी द्रव्यावस्यक साचिजे जाणग शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्यावस्यकनो बीजो भेद कस्यौ चिमे तीजो भेद देखाडिवा भणी कहेछे सेकित लोचत्तरिच्छेदव्यावस्यय अथ कसो ते लोकोत्तरिक द्रव्यावस्यक ए मत्र पूषा उत्तर कहेछे लोचत्तरिच्छेदव्यावस्यय लोकने उत्तर कश्चिमे प्रधान एतले साधु चारितीया अथवा लौकिक मे उत्तर प्रधान ते लोकोत्तर एतले जिन शासन ते निदे विषयमे छतो ते लोकोत्तरिक ते चिजते द्रव्यावस्यकते लोकोत्तरिक द्रव्यावस्यक कश्चिमे ते किमु ते कहेछे जे इमे जए अमण गुण युक्त योगित्वादिक् विशेषण विविष्ट साधुने रूपे श्रीजिननी अणाश्चाये सन्य

गुणमुक्तायोगिनः एते च जीववधादिविरतिसुक्ता व्यापारा अपि मनसा कटाचित्पानुसंज्ञा पट्टुभायेण शंघव्यादियु निपये निर्गता अपगता अनुसंज्ञा मनसादयायेभ्य स्ते तथा निरनुसंज्ञानाचित्तमेवाह इया इव तरगा इव उहामाचरण निपात जीवोपसर्ह निरपेक्षत्वात्ततचारिण्य इत्यर्थः किमित्येवं भूतसो इत्याह यतो गणा इव दुटद्विद्वद्द्राष्टव निरंजुगा गुर्वाश्राव्यतिक्रमचारिण इत्यर्थः अतएव घट्टति येषा जंघिन्नच्छी करणार्थं केनादिना दृष्टेति भावतस्तेवयवावयविनोरभेदोपचारात् एटा शया मट्टेति तेलोटकादिना येषा केगाः शरीरं वा घट्टते तस्यैव घटा अत्रा केयादि

**उरणा निशाण सणाणाए सच्छेदं विहरिक्रणं उभउद्दालं आवस्यस्य उवदुवयंति सेतं लोगुत्तरिन्नं दव्वावस्सवं**  
चित्ते विचारीने उभय काज वेलाये भावस्यक करवा भणी प्रवर्ते ते तेहणं प्रति कसयानुदान लोकात्तरिक द्रव्यावस्यक कहिये ए ससुदाचार्य कलौ हिने शब्दार्थं कहेछे तिहा अमण कहिये साधु तेहना गुण सुलोत्तर रूप तेहने विपे सुं पावोग कहिये अनादिजना म्यापार केणे ते अमण गुण सुल्लोगी एहवा कदाचिदयावंत पणि अह ते कहेछे शथिथ्यादिक नायने विपे निर्गता कइता सर्वथा गर्इ अनुसंज्ञादया जे यती ते पट्काय निरनुसंज्ञा ते निरनुसं पानो चिक्र कहेछे उयाइवतरंगमनी परे उहामा कइता गीघ्रगंभी जीवनी अपेना रहित पगना संकथाथी एहवा ते किसा भणी याइ ते कहेछे गयाइव हाथीनीपरि अंजुग रहित गुबनी यात्रा यकी गणिर इत्यर्थ एहज कारण यकी पडा जेउनी जंघमुचालो जरा भणी केयादिके घसीचोइ तेहटा कहिये इजा यवयथ यने अयवीसुं अभेदोपचार करना यती एटा कहिये तथा मद्रा तैल उटकादिके करी जेतना केग तथा शरीर मसल्या अइ ते तिमज अभेदोपचार यकी म्हा करीये अयवा केगादिकने णिपे घट कइता अठारथीइ जेउने ते घटावंत कहिये वठ प्रत्ययनालीप यकी घट कहिये तथाउ प्रोटाउ कइता बीपया अथवा सेणे करीवीव्याछे गीतरापवा निमित्ते उट जेहना ते तूप्रीटा कइये तथा

राजसुपना विषय मरुतारुका मरुत मरुत ४४४

मल परीण्ड सन्निधा पणो दूरकरवा भणी पांडुर ककता घोयोपट ओठणें कु छे जेहने ते पांडुरपट प्रावरणा जिणाय मणायणए श्रीतीथ करती  
 आसा बाहिर आपणी इच्छाए विचरीने विविध प्रकारनी चेष्टा करीने तिवार पत्नी उभय काले प्रभातनी देखाये अने संध्यानी देखाये पूजां  
 चतुर्थीने अर्थे पठीले ते भणी आभययस ककता आभयस्य ककता अर्थे प्रवृत्ते तेहिने नोकोत्तरिक द्रव्यायस्य ककतिये इहां द्रव्यायस्य ककता कारण  
 पणा भणी किशकिं एल अप्रधान भणी जाययो अनेनो आगम पणो इहा कियारूप देयने विषे आगम नथी ते भणी जांगयो नो गद्द इहा देय प्रति  
 पेधने अर्थेण ते भणी इहां नोकोत्तरिक द्रव्यायस्य ककते विषे उदाहरण देयाडीयेछे वसतपुर नगरने विषे एक अगीतीर्थ सवेगी गच्छ विचरबो तिहा  
 अमण गुण सुक्तयोगी सवेगी पणो देखाडतो एक साधुदिहाडे पुरस्कर्मदि होप दुष्ट अनेपणीय आहार लेई व्याधीने मोटे सवेगपणसि सथ्यानी देखाये  
 प्रतिकमण ककता आसाये तेहने ते गच्छाचार्य अगीतार्थ पणा साटे बोले देयो अहोकिम एभाव अण गोपवतो अयठपणो आलोयेछे जे भणी सेयणा  
 करता सुहेली पणि आलोवो दुजिलोछे ते भणी अयठ पणा साटे जे ए सुदुधयो तिम तेहने प्रगसीज तो देखी अनेरा अगीतार्थ साध प्रगसवालागा  
 अने वली इम धितववालागा गुर आगल जो इम आलोइये येतो घणीइ पडि सेवणा नो कोई दीपनची आलोअणार्हेज मुहवावा यकी शिवे एकदा  
 तिहा एक सवेगी गीताय साधू आब्यो तेणे दिनर इम करता देखी ते आचार्य प्रते बोळ्यो तुम्हे इम एहनी प्रगसा करा ते राजानी परे करता  
 दीमोळा तथाचि जिम धिति नगरनो वासी कोइएक अग्निभक्त बाणीयो पद्मरागलसे घरभरीने वरसोधरसे अग्निबाले तेहने अविवेकपणे राजा  
 तथा लोका पणा सरावे अहोधम्य ए बाणीयो जे भगवत अग्निने अत्य त भक्ति करी पूजेछे अन्यदा प्रबलथायुने योगे ते आगिथकी ते राजप्रासाद अने  
 समसनगर बल्यु, तिवारपत्नी ते बणिक राजाइ देख्यो नगर यकी पणिकाद्यो शिवे जिम तेणे राजाये तेहनी प्रगसा करीने पोतानो अने

पुं सृष्टं विद्यते येषां ते सृष्टवंतोवत् प्रत्ययलोपान्मृष्टाः तथातुभ्योदृष्टिं नुप्राप्रक्षितस्यदानं न वा वेष्टिताः शीतरजादि निमित्तमौषा येषां तेतुप्रोषा  
 तथा मलपरापहासहिष्णुता दूरीकृतत्वात्माहुरो धोतपदः प्रावरणं येषां ते तथा विनानामनाम्नवा स्वच्छंदं विसद्वृतीर्थकराज्ञा यास्यास्वस्वराया विविध  
 चेष्टा कृत्वा तत्रोभवकालं प्रभातसमये समोयसमये च चतुर्थ्ये पठेति कृत्वा आवश्यकाय प्रतिक्रमणायोपतिष्ठंते तस्मैपा आवश्यकं अत्र द्रव्यायस्यकालं  
 भावभूत्यत्वात्फलाभावत्वा प्रधानतया अवसेयं नोश्चागमत्वमपि देगे क्रियालक्षणे आगमा भावान्नोशब्दस्य चालदेय प्रतिषेधचनत्वादिति अत्र चको  
 कोत्तरिके द्रव्यावश्यके लडाकरणं वसंतपुरे नगरे अगीताथी संविनेगल्पे एको विचरति तत्र अमणगुणसुकृतयोगी संविग्नाभासः साधुरेकः प्रतिदिनं  
 पुरःकर्मादिदोषदुष्टमनेपणीयं भक्तादि गृहीत्वा सहता संवेगेन प्रतिक्रमणकाले आलोचयति तस्यागत्याचार्योगीतार्थत्वात्प्रायश्चित्तं प्रच्छन् भणिति  
 पश्यत अहो कथमसोभावमगोपयन् अगठतयासर्वं समालोचयति सुखं हि आसेवना क्रियते दुःखं चेत्यमालोचयितुं तस्मादिप अगठतयेव शुद्धोसौ तथाचतं  
 प्रश्रयमानं दृष्ट्वा अन्ये ष्यगीतार्थं अमणाः प्रयंसंति चिन्तयंतिच गुरोश्चदिच्छभाष्य तर्हि दोषा सेवनायाः मसकृत्तायासामपिन रुचिर्बुधोपः आलोचनाया  
 एव साध्यत्वादिबंचान्यदाततसंविनगीतार्थः कश्चिदायातसो न च प्रतिदिनं तमेव व्यतिकरमालोक्यस्वरित्तस्वमित्यस्य प्रसंसां कुर्वन्वचित्तजितीग  
 इव बल्यसे तथाहि गिरिनगरवासी कश्चिदग्निभक्तो वणिक् पद्मरागरत्नानां गृहं गृह्णाति वपं वक्रिणा प्रदीपयति तथाविवेकतया तत्र नरपति  
 लोकेक्याध्यमाणा अहो धन्वोयं वणिग् भगवतकृतभुजमित्यंमोदार्थं भक्त्यातिशयाद्रुलै सार्पयति अन्यदा च प्रयलपवन पटक्षप्रे रतसत्पदीपितदणनः स राज  
 प्रासाद समसामपितत्वरं दृष्टत्स्मासो च राज्ञाडंडितो नगराच्चनिष्कासितसदेवं राज्ञा तस्य प्रयंसा कुर्वता आत्मानगर लोकसनागितसुयात्वमपि  
 अस्याविधि प्रहत्तस्य प्रयंसां कुर्वन्वात्मानं समसगच्छं चोच्छेदयसि यदि पुनरेनेमेकं विज्ञयसि तदा तथाविधपृष्टव ल्यरिकारानिरपायता मनु भवसि

तथासूत्रे नरेकेन चित्तसंज्ञा तयैव कुर्वन् कश्चिद्विष्णुगणितसोभ्यो नगरदाहापाय दर्शनात् चितीनेन अरस्य गत्वा किमिच्छ न करोपीत्यादिषु चोभिशिरस्त्राद्य दडितो निष्कासितश्च एवत्वमपीत्याद्युपनयोगतार्थं इत्यादि बहुप्रकारं भणितो यावदसौ तत्रप्रसक्तो न निवर्त्तते तावत्ते न गीतार्थं साधुना ग्रेप साधवोभिषिता एप गणाधिपो मन्त्रानिष्ठं तास्यदमगीतार्थो यद्दिन परित्यज्यते तदा भवतां मरुते अनर्थोयप्रभवतीति तदेव तत्वाध्यायस्यैव प्रकारं संश्लोकोत्तरक द्रव्यायश्चमिति निगमयन्नाश्च सेतमित्यादि तदेतच्छ्लोकोत्तरिक द्रव्यायश्चक एतद्गणनेव अगरीर मव्यगरीर व्यतिरिक्त त्रिविधमपि द्रव्यायश्चक समर्थित भयत्यतस्तदपि निगमयति सेतमित्यादि एतत्समर्थनेचानो आगमतो द्रव्यायश्चकस्य प्रभेदस्य दमर्थे तव्याप्तदपि निगमयति सेत ना आगमतो इत्यादि एतत्समर्थनेच यत्रकांत द्रव्यायश्चक तस्योत्तर भेदद्वयव्यभिचयमिति तदेतत् द्रव्यायश्चक

### सेत जाणय सरोर भविश्रसरोर वतिरिक्त द्रव्यावस्यय सेत नोत्रागमतो द्रव्यावस्यय सेतित भावावस्य

नगरश्लोकनोनासकीधो तिमह पणिए अविधे प्रवर्त्तताने प्रयसाकर तो आत्माने अने गच्छने नाथ करेहे शिवे जो एहने सीश्वे तो तथाविध अनेराएक राजानी परे पोताने तथा गच्छने राखोस तथाचि केणे एक एक राजाये कोद्व एक तिमज कर तो देखीवाणीयो तेखो नगरमोदाह आलोवीने तेम कस्यो अरय्य मांदि जईने इमकाद्व नवी करतो इत्यादि वचने करी निर्धाटीने नगर वाचिर काढो तिम तपणि करो इत्यादिक उपमयमेखो इत्यादिक वणे कडवे करी जोड ते तेहनी प्रयसा यकी निवर्त्त नही तिवारे तेणे गीतार्थवतीये ग्रेप संवयतीने तेडीने कस्यो ए आचार्य धर्म रचित अगीतार्थ जो नही छाडो तो तुहने भिषा अनर्थ भणीथास्ये ते भणी ए तुहे छाडवो तेई ते साध सरीखानो आशयक सर्व श्लोकोत्तरिक द्रव्यावस्यक कश्चिये शिवे निगम न करेहे सेतलागोत्तर अद्वयवस्यय ते एलोकोत्तरिक द्रव्यायश्चकजाणवो एहने भणये करी जाणय गरीर भय गरीर व्यतिरिक्ता त्रिण भेद पूराकी





अपत्यावश्यकपदाद्यज्ञज्ञानित रुयेगविगुहमानपरिणामसात्वचोपयुक्त साध्यादिरागमसंते भावावश्यक आधस्यकार्योपियोगलक्षणस्यागमस्यात सङ्गाथात् भावावश्यकताचात्वाप्यशकोपयोगपरिणामस्य सद्दानात् भावमात्रित्य आधस्यक इति व्युत्पत्ते अथ वा आधस्यकोपयोग परिणामनन्वत्याखाध्यादिरपि भावनस्य भावदासाधारण्यकयेतेत्युत्पत्तेरप्यसो सतथति सेतमित्यादि निगमन अथ भावावश्यक द्वितीयपेदनिरूपणार्थमाह सेकितमित्यादि अथ किं तत्रो आगमतो भावावश्यकमतवाच नो आगमतो भावावश्यक त्रिविध प्रश्न तद्यथा त्रिकिक फुप्रवचनित लोकोत्तरिकच तत्र प्रथमभेद निर्णयार्थ

**सतो भावावश्यक सेकित नोत्रागमश्चो भावावश्यक २ त्रिविह पणत्त तजहा लोदश्च कुष्मावणिश्च लोगुत्तरिश्च सेकि**

जिमेन्नादिक क्रियाना अतुभा यको परमेष्ठयोदिक परिणामे परिणमवा यकी इन्द्रादिकने भाव कश्चिये इत्यथ एआयार्थे उठ तेएषयो जे भावते रिज आरग्यत्त ते भावावश्यक कश्चिये अथवा भाव तेषात्री जे आधस्यक ते भावावश्यक कश्चिये ते विड भेद प्रकृष्यो तजहा तद्यथा आगमत्त कश्चता आगम आत्री नापागमत्त कश्चता आगमना अभाय आत्री त्रिषां आद्यभेद देखाडवा भणी करेहे सेकित आगमयो भावावश्यक अथ किमुते आगम यकी भावावश्यक ए प्रत्र शिवे उत्तर फछेहे आगमो भावावश्यक जाणयो आधस्यकनो जाणणहार अने तेचने विषे उपयुक्तपयोग सद्धित ते आगम यकी आधस्यक कश्चिये एतने आधस्यक युक्त साध्यादिक ते भावावश्यक कश्चिये आधस्यकार्ये उपयोग रूप आगमके तेभणो भावावश्यक पणो इणं आधस्यकनो जे उपयोग ते रूप जे परिणाम तेचना इतापणा यकी जाणवो भाव आत्री जे आधस्यक ते भावावश्यक एषया गद्दार्थे यकी अथवा आध आशकोपयोग रूप परिणाम अने आला एतन जेते भणी साध्यादिकने भाव कश्चिये पळे इम समास करीये भाव तेषीज जे आधस्यक गद्दार्थे पणि आणयो सेत आगमो भावावश्यक ते आगम यकी भावावश्यक ए निगमन जाणवो अथवा भावावश्यकनो योजो भेद देखाडवा भणी करेहे सेकितनो

माह सेकितं लोप्यमित्यादि अथ किं तस्योक्तिकं भावावस्थकमित्याह लोप्यं भावावस्थायं पुब्वग्रहप्रत्यादि लोके भवं लोक्तिकं यद्विदं लोकः पूर्वीक्रे भारतमपरारुहे रामायणं वाचयति षड्णोति वा तस्योक्तिकं भावावस्थकं चि भारतरामायणयोर्वीचनं अरणं वा पूर्वीक्रेपराङ्गयोः एवरूढं विपर्यये दोषदर्शनान्नातस्वच्छमनयोर्लोकिवस्थकरणीयत्वादायस्थकत्वं तद्वाचकस्य श्रौतलगाच तदर्थोपयोग परिणामसङ्गायात् यावच्छतंद्वावकः श्रौतारथपलक परा वर्तनशसाभिनयगत संयमत्वकरकुशुलमीलनादि क्रिया युक्ता भवति क्रियावानागमत्वम न प्रागोक्त क्रिरियागमोनसोर्धिति वचनात् ततश्चक्रियालक्षणे देगे आगमस्याभावात् धागमत्वमपि भावनीयं नोशब्दस्यात्वदेशनिषेधवचनत्वाद्देशेत्वागमोस्ति लोक्तिकाभिप्रायेण भारतादेरागमत्वान्तया निर्दिष्ट समये लोक्तिकासादुपयुक्तायद्वयश्च' भारतादि वाचयन्ति ष्यखन्ति वा तस्योक्तिकं भावावस्थकमिति भावमाश्रित्यावस्थकं भावावस्थकं भावासासावाव

तं लोप्यं भावावस्थायं पुब्वग्रहे भारुहं अवरुहे रामायणं सेतं लोप्यं भावावस्थायं सेकितं गुप्पावययिण् अं भावावस्थ

आगमयो भावावस्थायं अथ किड' तेनो आगमयकी भावावस्थक इति प्रश्न इहा उत्तर कहेछे नो आगमो भावावस्थयं त्रिधिसं पणत्तं नो आगमयकी भावावस्थक विड' भेदे प्ररूप्यौ तंजहा तद्वया लौक्तिक गुपावचनिक लोकोत्तरिक तिहा प्रथम भेद कहेछे सेकितं लोप्यं भावावस्थायं अथ किड' ते लौक्तिक भावावस्थक इतिप्रश्न उत्तर कहेछे लोप्यं भावावस्थकं कश्चिये लोकने विषे छेवै ते लौक्तिक कश्चिये लोक प्रथम प्रहर भारतने अने पाछले प्रहर रामायणने भणो साभले ते लौक्तिक भावावस्थक कश्चिये लोकने विषे भारतनो अने रामायणनो वाषवो सांभलवो ते प्रथम प्रहर अने पाछले प्रहर प्रसिद्धले विपरीत पणो दोष दीसेछे ते भणी कश्चिये ते भणी इणी परे एचनी लोकने विषे शवस्थकरणीछे ते भणी आवस्थक पणो अने तेहना वाचणहार साभल नहारने तेचना उपयोगनो परिणामले तेभणी भाव पणो जांगवो तथा तेहना भणनहार सांभलणहारने पानानो फेरलो फसना आकारनो करनो

स्यर्कं चेति वा भावावश्यकमित्यल विशरेण सेतमित्यादि निगमनम् उक्तो नो आगमतो भावावश्यक प्रथमभेदोय तत्त्वित्तीयभेदनिरूपणार्थमाह  
 सेकित कुप्पावयणियमित्यादि अत्र च निर्ध्वनमाह कुप्पावयणिय भावावश्यक जे इमेत्यादि कुत्तित प्रयचन भावावश्यक कि तदुच्यते य एते घरकचीरका  
 दय पापडस्याययावसरे इज्याजलिषोमादीनिभावक्याग्यावश्यकानि कुर्वति तत्कुप्रायचनिक भावावश्यकमिति सबध तत्र घरकादिस्वरूप प्रागेवोक्त  
 इत्याजत्यादिस्वरूप उच्यते तत्र यजनमितियाग इत्यर्थे सहिपयोजलस्याजलि इज्याजलि यागदेयता पूजावसरभायीति हृदय अयवायजनमिज्या

**यर् जेइसे चरग चीरिग जाव पासडाच्छासथ २ इज्याजलि होम जप रूक्म नमोक्कार मादिअह भावावस्सयाइ**

गात्रनो सशोषिवो इत्यादिक क्रिया परिण उद् ते क्रियाने नो आगम पणो पूर्व कशी सूक्ष्मोच्छे किरिआगमो न खोई इति वचनात् ते भणी कियारूप  
 देगने विपये आगमना अभाव यक्ती नो आगम पणो जाणया नो गद्द इहा देग निपेधने अर्थेच्छे अने एक देगने विपे तो आगमच्छे लौकिकने अभि  
 प्राये भारतादिकने आगम कश्चिये तेभणो यथोक्त वेलाये लोक उपयोग सञ्चित भारतादिक वाचे भणे ते लौकिक भावावश्यक कश्चिये भावचात्रीने जे  
 आश्रम्यक अथवा भाव तेचिज आवश्यक तेभावावश्यक ए गद्दार्थे यक्ती कश्यो इत्यलविसरेण सेत लोइअ भावावश्यक ते एलौकिक भावावश्यक ए समाप्ति  
 जाणवी एतनेनो आगम यक्ती भावावश्यक प्रथम भेद कक्षी अथ वीजो भेद कएछे सेकित कुप्पावयणिय भावावश्यक अथ विस्यु ते कुप्रावचनिक भावा-  
 यप्रक इति प्रथ इहा उत्तर कएछे कुप्रावचणिय भावावश्यक गद्दार्थे पूर्ववत् कुप्रावचनिक भावावश्यक कश्चिये ए समुदायार्थ तिहा घरकादिकनोस्वरूप पू  
 पापडस्या यथावसरे इज्याजलि होमादिक भाव रूप आवश्यक करेछे ते कुप्रावचनिक भावावश्यक कश्चिये ए समुदायार्थ तिहा घरकादिकनोस्वरूप पू

पूजा गायत्र्यादिपाठपूर्वकं विप्राणां संध्याचर्चनमित्यर्थः सुखांजलिइज्यांजलि अथवा देशीभाषया इज्येति माता तस्य नमस्कारविधौतद्भक्तैः क्रियमाणः कारुण्य-  
 श्रममीनलक्ष्णोऽंजलिरिज्यांजलिः होमो अग्निहोतिकैः क्रियमाणमग्निहवनं जापोमंताभ्यास मंदुरकृत्ति देशीवचनंमंदुसुखं तेन रक्तं वृषभादि  
 शब्दकरणंमंदुरकं देवतादि पुरतो वृषभगर्जितादिकरणमित्यर्थः नमस्कारो नमो भगवते दिवसनाथायेत्यादिक एतेषां इह इज्यांजलि होमजापो वृषका  
 नमस्कारा सो आदिवेषां तानि तथा आदिशब्दात् स्ववादिपरिग्रहः एतेषां चरकादिभिरवश्यं क्रियमाणत्वादावश्यकत्वमेतत्कर्तृणां च तदर्थोपयोग  
 अच्चादिपरिणामसद्भावात् भावत्वं अन्यच्च चरकादयो तदर्थोपयोगलक्ष्णोदेश आगमो देशस्तु करणरो व्यापारादिक्रियालक्षणेनागसखतोदेश  
 आगमा भावमाश्रित्य नो आगमत्वसंगतयं नोशब्दस्येहापि देशनिषेधपरत्वात्तस्माच्चरकादयस्तदुपयुक्ता यथावसरं यदवश्यमिज्यांजल्यादि कुर्वन्ति

**करेति सेतं कुप्यावयणिश्चं भावावस्वरं अंजगुं समणेवा समशीवा सावत्रोवा सविभ्रावा**

कस्योच्छे इहां इज्याजल्यादिक नो स्वरूप कश्चियेच्छे यजतु जेते इज्य एतले याग इत्यर्थं तेहने विषे जे जलनी अंजलि यागदेवताकी पजासे जेपांशीनी  
 अंजलि ते इज्याजलि कहिये अथवा यजवो तेइज्य एतले पूजागायत्यादिक पाठपूर्वक ब्राह्मणनो संध्याचर्चन इत्यर्थं तिहां जे अंजलि तेइज्याजलि अथवा  
 देशीभाषाये इज्या कहिये माता तेहने नमस्कार करतां भक्तिनिमित्ते हस्त जोडिवारूप अंजलि ते इज्याजलि तथाहोम करतां अग्निहवन तथाजे मंता  
 दिक अभ्यास तथाजे देशीभाषाये उहु ते सुखनूनाम तेगे करी रक्त कहता वृषभादिकना शब्दनुं करवो तेउदुरक कहिये देवता आगले एतले वृषभनीपर  
 गर्जितारवतु करतुं ए भाव १ तथा नमोकार कहता नमस्कारो भवतु दिवसनाथायेत्यादि एतला शब्द कहिया तेहनुं इह समास ते आदिछे जेहने  
 तथा आदि शब्द यकी स्वादिक ग्रहीये इति अवयवार्थः एतला चरकादिक अथस्ये करै तेभगी आवस्यक कहिये अने ते करणहारना उपयोग

तत्प्रमाणवचनिक भावावश्यक भावावश्यकक गच्छस्य च व्युत्पत्तिहय तथैव सेतमित्यादि निगमन उक्तो नो प्रागमतो भावावश्यक द्वितीयभेदो अथ तृतीय भेदनिरूपणार्थमात्र सेकितलोत्तरित्यमित्यादि अत्र नियन्त्रण लोउत्तरिय भावावश्यक जगत्तिणमिति धारणानकारे यद्विद अमणादयसा ज्ञित्तादि विशेषणविगिटाउभयकाल प्रतिक्रमणाद्यावश्यक कुर्वन्ति तद्धोकोत्तरिक भावावश्यकमिति सटक सात आस्यतीति अमण साधु अमणी साध्वी षडणोति साधुसभीपे जिनप्रणीतां समाचारीमिति श्रावक अमणोपासक आपिकायमणोपासिग वा गब्दा समुच्चयाया तस्मिन्नेवावश्यकै चित्त सामा न्योपयोगरूप यस्येति तच्चित्त तस्मिन्नेव मनो विशेषोपयोगरूप यस्य स तस्मिन्ना तत्रैवोच्चा ग्रुभपरिष्काररूपयस्येति स तल्लेश्यसाया तदध्यवसित दृश्याथवसायोध्यवसित ततश्चतच्चित्तात् भावयुक्तस्य सत सास्त्रिन्नेवावश्यकैवमिति क्रियासपादेन विपयस्येति तदध्यवसित तयातन्तीवाध्यसायसायस्यिन्नेवा

तच्चित्ते तस्मिन्ने तद्धैस्से तदध्यवसिते तद्वक्तवसाणे तद्विषयकारणे तस्मभावणा भाविते अण्यत्यक्त्यद्र सण

अत्रान्तिक परिणाम तेने धिये छद्म तेभणी भावपणू तथा वली ते चरकादिजनो तेहने विपै उपयोगरूप प्रागम अने एकदेग कर गिरादिकसु व्यापार ते अपादिक्रियारूप अनागमन जाणवू तेभणी चरकादिक उपयोग सधत यथावसरं दृज्याजलत्यादिक करे ते कुप्रावचनिक भावावश्यक जाणवू तथा भावाव शकनी उत्पत्ति पाली परे जाणवी सेत कुप्रावणिय भावावश्यक ते एकप्रावचनिक भावावश्यक कश्चिये एनिगमन एतले नो प्रागम यकी भावावश्यकनोयी जो भेद वल्लो षिन्ने तीजोभेद कल्ले सेकित लोउत्तरिअ भावावश्यक अथ किमु तेलोकोत्तरिक भावावश्यक इति प्रश्न । दृशा उत्तर कहेहे लोउत्तरि अभावावश्यक जाणवू ते यास्मालकारने षर्णे जे ए अमणादिक तच्चित्तादिक विगेषणयुक्त उभयकाले प्रतिक्रमणादिक प्रावश्यक करे ते लोकोत्तरिक भावावश्यक जाणवू ए स्यधार्थ तिचं अने तेभणी अमण कश्चिये साधु अमण कश्चिये साधु संभले तेभणी साधु कश्चिये अमण

वश्यकेतीव्रं प्रारंभकालादारभ्य प्रतिक्षणं प्रकर्षयाद्यिप्रयत्नविगेपलक्षणमध्यवसानं यस्य स तथा तथा तदर्थोपियुक्तमस्यान्यतस्यार्थित्वाद्यैस्त्वस्मिन्नुपलुप्त  
 सार्थोपयुक्तः प्रयत्नतरसंवेगविशुद्धमानस्त्वस्मिन्नेव प्रतिसूतं प्रतिक्रियं चार्थोपयुक्त इत्यर्थः तथा तदर्थित्वात्करणः करणानि तत्साधकतमानि  
 देहजोहरणसुयस्त्रिकाटीनि तस्मिन्नायगुके तयोचितयापारनियोगेनापितानि नियुक्तानि तानि तेन स तथा सम्यक् जया  
 स्थानन्यस्तोपकरण इत्यर्थः तथा तद्भावनाभावितः तस्यायग्यकस्य भावना अयवच्छिन्नपूर्वपूर्वतमंस्कारम् एव पुनमादरउतारुपातया  
 भावितोक्ताटिभावेन परिणतायग्यकानुदानपरिणामसाक्षात्प्राभाषितः तद्वैयं यथोक्तप्रकारेण प्रस्तुतव्यतिरेकानुदानं कथयन्निगन्तोक्तुं  
 नृपलक्षणत्वाद्वाचं कार्यचान्यता कूर्ध्वन्ने कार्याकानि वा नियोगान्येतानि प्रस्तुतोपयोगप्रकर्षप्रतिपादनपराम्नि अगुनि य लिंगपरिणामतयसगी

**अकुव्वभागो उवउत्ते जिणवयण धम्माणु रागस्तमगो प्रत्यतरे उभयोक्कालं आवस्सथं करेति सेतलोगत्तमियं भावा**

उपासक तथा व्यावकाकच्छिये असणोपासकगद्दं सर्वं समुत्थने अर्थे तथा तेरिज आवस्यकने विषे चित्त कडतां समुत्थय उपभोग रूपरे जेइनुं ते तच्चित्त  
 तथा तेइने विषे मन कडतां विगोयोपयोग रूपले तेइने ते तमन तथा जिण तज्जे स्य कडता शुभपरिणामरूपके ओइना ते तं एव तथा तस्मित्तदिक्क भाव  
 युक्तने तेइज आवस्यकने विषे क्तिया निपजाययानो अथपसायरे जेइनां ते तदअवसमित तथा तेइजने विषे तीव्र अथपसायरे तेइनां तेतदअवसमित तथा  
 तेइजनां जे अर्थे ते तदर्थं तेइने विषे उपयुक्त प्रगल संवेगे करी विगुत्तनातोइता अज्जासाएवनी जज्जेरे क्तिया तेइना अर्थेने विषे उपयुक्त भाव ते तउ  
 र्थोपयुक्त तथा तेइज आवस्यकने विषे आप्पाळे कारण गद्दं तेइनामाभन तेरजोहरण सुवपत्तो आटिक जेणे ते तदर्थित्वात्करण सम्यक् जयामाने उपकर  
 णानुं रापणचार एभाव तथाते सावस्यकनी जेभायना कडता अथयच्छिन्न उपयाने करी तेइना अगुदानं करणं तेणे करी भाषित कच्छिये उतउट भा

आधिक्योऽपि वोऽप्यानि तस्मात्तच्चित्तादि विशेषणविशिष्टा अमणादय उभयकालमुभयसध्य यदावस्यकं कुञ्जति तस्योक्तोत्तरिक भावमाश्रित्य भावशासाशयस्यक चेति वा भावावस्यक शताप्यवय करणादावस्यकत्व तदुपयोगपरिणामस्य च सद्भावात्भावस्य सुगुणस्विका प्रष्टुपेक्षणा रजो हरणव्यापारादिक्रियालक्षणदेयस्थानागमत्वात् नो आगमत्व भावनीय सेतमित्यादि निगमन तदेव स्वरूपत उक्त भावावस्यकमनेन चात्वाधिकार इत्यर्थे तोनानादेस जवितेयानुपगार्थं तस्यैव पर्यायाभिधानार्थमात्र तक्षण इमे इत्यादि तस्यावस्यकस्यान्वनि वक्ष्यमाणार्थैकार्थिकानि परमार्थत एकार्थ

वस्य सेत नोऽगमतो भावावस्य सेत भानावस्य इमेणद्विआ णाणधोसा णाणवजणाणामधेज्जाभवति त

ने परिणस्यु आवस्यकतु परिणाम जेऽनु ते तद्भावन भावित कश्चिये ते इम यथोक्त प्रकारे करी आवस्यकयकी अनेयकिष्ठांइ मन अणकरतो। उपलक्षण यकी पचन अने कायपिण अनेयि अण करतो तथा एसर्वं गच्छ एकार्थं जांशवा आवस्यकनो उपयोग उतल्लट देखाडिवा भणी जाणया तथा ए सर्वं विशे पणलिंगफेरवायकी अमणीश्राविकानि पणजोडयाइति अवयवार्थं तेभणीतच्चित्तादि विशेषणविशिष्ठ अमणादिक जेउभयकाले आवस्यक करते लोकोक्ततरि कभावावस्यक कश्चिये भावपात्री जे आवस्यक तथा भाव तेऽज जे आवस्यक ते भावावस्यक कश्चिये ए गन्दार्थं इहां पिण आवस्यक करवायकी आवस्यक पणोक्तो तथा तेऽहता उपयोगनपरिणामना उपयुक्त पणाथी भावपणो कस्यो अने म्दपत्ती रजोहरणादिक व्यापाररूप क्रियारूपदेयना अनागमपणा यकी नो आगमपणू जाणतु धेत लोणुत्तरिअभावावस्यक ते लोकोत्तरिक भावावस्यकसेतनो आगमस्यो भावावस्यक ते एनो आगमयकी भावावस्यक सेतभा वावस्यक ते ए भावावस्यक कस्यो एय त्रिण निगमन जाणया ते एऽवो भावावस्यक वपाणो एऽजिनो इहांअधिकारखे बीजानोनयो श्रियेनानादेगनाश्रियाने उपकार भणीते आवस्यकना पयायनामकहेखे तक्षणइमेते आवस्यकना एतलाएकार्थिक परमार्थिकइ एक अर्थना बोलणकारा तथा नानावोपा जूज्जाउदा



धिपयाणि नानाघोषाणि पृथक्भिन्नो दात्तादिस्वराणि नानाव्यंजनानि पृथग्भिन्नकाराद्यक्षराणि नामधेयानि पर्यायध्वनयो भवंति तद्यथा आवस्वयं गाहा व्याख्या अमगादिभिरवश्यं क्रियते इति निपातनादावश्यकं अथवा ज्ञानादिगुणमोक्षो वा आससंतादृश्यः क्रियतेनेनेत्यावश्यकं अथवा आस्रसंतादृश्याइंद्रियकपायादि भावयतवो चेष्टा ते तथा तैरेव क्रियते तत्तादावश्यकं अथवा समग्रस्यापि गुणश्रमस्यावाप्तमित्यावश्यकमित्याद्यपरमपि स्वधि या वाच्यं पूर्वमपि च व्युत्पादितमिदं तथा सुसुक्ष्मभिन्नियमानुष्ठेयत्वादवश्यकरीयं तथा ध्रुवनिग्रह इति भवानादिवात् क्वचित्पथव्यवसितत्वात् ध्रुव कर्म तत्फलभूतः संसारी वा तस्य निग्रह हेतुत्वान्निग्रहो ध्रुवनिग्रह तथा कर्ममलिनस्थालनो विशुद्धिहेतुत्वाद्दिशुद्धिः तथा सामायत्नादि षट् अथयन कलापात्मकत्वादध्यवनेपद्वर्गसाथाभीष्टार्थसिद्धेः सम्यगुपावत्वात्न्यायोयवा जीवकर्म संबंधापनयनान्यायः अथमभिप्रायो यथा कार्शणिकैइष्टोन्यायो

### जहा आवस्वयं अवस्सकरणियं ध्रुवनिग्रहो विसोहोत्र अज्जयणंछक्कवग्गो नाउंआराहणमगो १ समणेणं सावएणय

त्तादिक स्वर जेहना तथा नानाव्यंजना जूनआककारादिक अक्षर जेहना नाम धेज्जा कहता पर्याय शब्द ऊद्ध तंजहा तद्यथा अवस्वयंगंही अमगादि के अवश्यकरवाथी आवस्यक कहिये अथवा ज्ञानादिक गुण प्राप्त सर्वथावसि करीये एणे करी तेभणी आवस्यक कहिये अथवा आकहता सर्वथा प्रकारे वसछे इन्द्रिय कपायादिक भाव यत्तु जेहना ते आवस्य कपायादिक कहीये ते आवस्यक कहीये अथवा आकहता समस्तगुण ग्रामनो जे वासते आवासक कहिये इत्यादि अनेरो वली शब्दार्थ आपणी बुद्धे करीने वपाणवो तथा पूर्वे पणि ए शब्दनी व्यत्पत्ति कहिछे तथा सोच्चना अर्थीने अवस्यकरवा थकी आवस्यकरणीय कहिये तथा ध्रुवनिग्रहो इहां अनादि पणाथकी किहा एक अनंत पणा थकी ध्रुव कहिये कर्म अथवा तेहनी फल संसार तेहना निग्रहनी हेतुके तेभणी ध्रुव निग्रह कहिये तथा कर्ममलिन आत्माने विशुद्धनी कारण तेभणी विशुद्ध कहिये तथा सामायि

हयोऽपि नो भूमिद्रव्यादि स्वप्न विरकालीनमप्यपनयत्येव जीगकमणोरनादि कालीनमप्यात्रयात्रिभासप्रथमपनयतीत्यावश्याकमपि याय लप्यते तथा मोघादाधनेषुलाशादाधा तथा मोघपुरप्रपकत्वादेशमार्गे इति गार्थार्थं उक्तं गाथाया आद्यपद सूत्रकारणं य्युत्पादयन्नाप अमणेशगागाशा अमणान्ति आशोरालस्य मध्ये यकादयश्च क्रियते तन्माशापयश्चक एवमवस्यकरणीयादि पदानामपि व्युत्पत्तिं द्रष्टव्या उपलक्षणत्वादस्य इति गार्थार्थं सेतमित्यादि निगमनतदेतदावस्यक निवृत्तमित्यर्थं तदेव नामादिभेदेनिर्घिसमावस्यक तन्निघण्टेपेचयदुक्तमावस्यक िघण्टेसागीति तत्र पादित इति अगुयोगद्वारयये आषस्यकधिकारकयित ॥ १ ॥ अथ अताधिकारक कयने सांप्रत पुनर्यदुक्तं अतन्निघण्टेप्यस्यागीतितत्पपानार्थमाह

अवसतायव्यहवति जम्हा अतो अहोनिस्सय तरुहा आवस्यनानामरु सेत आवस्य सेकित सुअ चउव्विर पगत्त

न च अथयना समुदाय भणो अथयन पद्वर्गं कश्चिये तथा पादितार्थं सिद्धिना सम्यग् उपाययकीन्याय कश्चिये अथया जीय अने कर्मनो समुदाये इम जीय अने कर्मनो पनादि काननो सुवध आचर्यो भावरूपे तेहने टाले तेभणीन्याय कश्चिये तथामोघनी आराधनानो देगुळे तेभणी आराधना कश्चिये तथा मोघ नगरनो पुष्टषाडणशार ते भणी मार्गं कश्चिये इति गार्थाय शिये गार्थानो प्रथम पद सुत्रकारणं साधी देपाडैल्ले समणेशगाशा अमणादिके अशोरालने मध्ये अवस्य करे तेभणी आषस्यकनाम कश्चिये इमज अवस्य करणीधादिकं यद्दनी साधना पण स्वयमेव जाणवी एपदनी साधनाना उपलक्षणं पणा यकी इति गार्थार्थं सेत आषस्यक िघण्टेपे इति निगमनं पुनर्यं ते इम गामादिकं भेदे करी आषस्यक निघण्टेपे इते से इम कस्मीं कस्मीं आषस्यक निघण्टेपे इति अगुयोग द्वारयये आषस्यकाधिकार कयित ॥ १ ॥ अथ युताधिकार कयने शिये जेकसु सुवने निघण्टेपस्यो ते यचन पालना भणी कश्चियेके सेकित अतु अथ कितु ते अतु

अनु टी ८१ पुर भाषा

सेकितं श्रुतमित्यादि अथ कित्तुश्रुतमिति प्रश्नोत्तनिर्वचनं श्रुत चउत्विहमित्यादि श्रुतं प्राग्निरूपितशब्दार्थचतुर्विधप्रज्ञप्तं तद्यथानामश्रुतं स्थापना श्रुतं द्रव्यश्रुतं भावश्रुतं च तत्राद्यभेदनिर्णयमाह सेकितमित्यादि अत्र निर्वचनं नामश्रुतं जस्रणमित्यादियस्यजीवस्यवा सजीवस्य वा जीवाना वा अजीवाना वा तदुभयस्यवातदुभयानां वा श्रुतमितिनामक्रियते त ज्जीवादिबस्तुनामश्रुतं नाम्ना नाम मात्रेण श्रुतनाम श्रुतमितिव्युत्पत्तेः तत्र जीवस्यकथं श्रुतमितिनाम संभवतीत्यादिभावना यथा नामावस्यके तथा तदनुसारेण तथा संभव मभ्युत्थवःत्या सेत्तमित्यादि निगमनं उक्तं नाम श्रुतमथस्यपनाश्रुतनिरूपनार्थमाहः सेकितंमित्यादि अत्र निर्वचनं ठवणासुतंजणमित्यादि अत्र व्याख्यातं यथा

**नामसुत्रं ठवणासुत्रं द्रव्यसुत्रं भावसुत्रं सेकितं नामसुत्रं २ जस्रणं जीवस्यवा जावसु एत्तिनामकज्जद्र सेतं नामसुत्रं**

इति प्रश्न इहा उत्तरं सुत्रं चउत्विहं श्रुत शब्दनो अर्थपूर्वै कही सुश्रुते ते चतुर्भेदे प्ररूपो तद्यथा नाम श्रुत थापनाश्रुत द्रव्य श्रुत भावश्रुत तिहा आद्यभेदनो निर्णय करवा भणी कहेहे सेकितं नामसुत्रं अथ किसो ते नाम श्रुत इति प्रश्न इहा उत्तर नामसुत्रंजस्रणं जे एक जीवनो एक अजीवनो अथवा घणा जीवनो घणा अजीवनो अथवा एक उभयनो घणाउभयनो जे श्रुत एहवो नाम ते नाम श्रुत कश्चिये इत्यादि पद संघाते संदंध करीये नाममाले करी जे श्रुत ते नाम श्रुत एहवी साधनाथकी ए अर्थ जाणवो तिहां जीवनो श्रुतनाम किमसंभवे इत्यादि भावनाजिम नामावस्यकने विषे कहीहे तिम तेहने अनुसारे जिम संभवे तिम इहां जोलवो सेतणामसुत्रं तेए नामश्रुत ए समाप्ति एतलेनाम श्रुत कथौ चिये स्थापना श्रुत कहेहे सेकितं ठवणासुत्रं अथ किसुं ते स्थापना श्रुत इति प्रश्नः इहा उत्तर ठवणासुत्रं जणं जिम आवस्यकनो व्याख्यान कथौ तिम सविसार करवो नवरं आवस्यकने ठामे श्रुत शब्द उच्चरवो उतकष्ट काम्पीदिकने विषे श्रुत पठनादिक क्रियावंत एकादि साध्यादिक स्थापना

स्यापनावच्छेदे तयासप्रथ द्रष्टव्यं नपरमायस्यकस्थाने श्रुतसुचारणोय काटकर्मोदियु श्रुतपाठनादि क्रियावत्त एकादिसाध्यादय स्यापमानास्यापना श्रुत मितिपाल्पत्रै सेतमित्यादिनिगमन नामठयणार्णकोपद्रविसेसो इत्यादि पूर्वभावितमेववाचनातरे तु नामपठवणात् भणितानुद्व्यतेदेवहस्यते षायस्यकनाम स्यापना भणनेन प्रायोभिन्नार्थत्वात् श्रुतनामस्यापने अप्युक्त एवभवत् इत्यतोनातते पुनश्च्यतेइतिभाष द्रव्यश्रुतनिरूपणार्थमाशुसेकितमित्यादि षावनियं चन द्रव्यश्रुत इविविशमित्यादि द्रव्यश्रुतद्विविध प्रकृत तद्यथा षागमतो नोषागमतश्च तत्ताद्यभेदमिर्णयार्थमाशु सेकितमित्यादि षावनिवचन षागमशोद्वय श्रुतमित्यादियस्य कस्यचित्श्रुतमितिपट्ट श्रुतपट्टाभिधेयमाधारादि शास्त्र गिहित यावद्वाचनोपगत भवतिजलतुल्यवाचना प्रच्छन्नादिभिर्बर्त्तमानोपि श्रुतो

सेकित ठगणासुतरं ज्ञाणं कद्रुकर्मैवा जाव ठवणाठविज्जई सेत ठवणासुश्र नाम ठवणाशुश्र नाम ठवणाशुश्र कोपद्रविसेसो नामश्राव कहिश्र ठगणाइत्तरिश्रावाहोज्जा श्रावकहिश्रावा सेकित टवसुश्र २ दुविह पशुत्त आगमतोश्र नोश्रागमतोश्र

उता स्यापना श्रुत ज्ञाणशो एभाव सेत ठवणासुश्र ते ए स्यापना श्रुत ए निगमन नाम ठवणाशुकोपद्रविसेसो इत्यादिक पूर्व विचारी सुश्रोणे तिमज ज्ञाणशो वाचनोतरे नाम ठवनाश्रभाविश्राव एतलोजपाठदीसेछे तेज्जोए अर्थ षायस्यकै नाम स्यापनाने भणये करी अभिन्नार्थ पणा यकी अत नाम स्यापना पणि कक्षा जज्ञाणवा एतला भणी ते इच्छानथी कक्षा ए भाव दिये द्रव्यश्रुत कहेछे सेकित द्रव्यसुश्र अथ किमु ते द्रव्यश्रुत इतिप्रश्र इशा उत्तर द्रव्यसुश्र द्रव्यश्रुत विड भेदे प्ररूप्यो तथा षागम यकी अने नो षागम यकी तिज्ञा षादिभेदना निर्णय भणी कहेछे सेकित षागमतो द्रव्यसुश्र अथ किमु ते षागम यकी द्रव्यश्रुत इति प्रश्र इच्छा उत्तर कहेछे षागमशोद्वयसुश्र जगमएसुत्तपय जे कोई एकते अत एश्वो पदश्रुत शब्द बोलीये

पर्यायार्हसादयोग्य इत्यर्थः तस्य शरीरं तदेवभाविभावश्रुतकारणत्वात्द्रव्यश्रुतं भव्यशरीरं किं पुनस्तदित्यलोच्यते यो जीवोयोनिजन्मत्वनिःकांतो  
 (नेनैवशरीरसमुच्छेदयेणाहत्ते नजिनो पदिष्टेन भावेन श्रुतमित्ये तत्पदमागामिकाले शिच्छियते नतावत्सिद्धते तज्जीवाधिष्टितं शरीरं भव्यशरीरं द्रव्य  
 श्रुतमित्यर्थः शेषद्रव्यशरीरं द्रव्यावस्थकम्श्रुताभिलषेन सर्वं वाच्यं यावत्सेतमित्यादि निगमनं तृतीयभेद परिज्ञानार्थमाह सेकितमित्यादि अत्र निर्व  
 चनं जाणगशरीरं भविशरीरवद्भिरित्तं द्रव्यसुतमित्यादि यत्तत्रशरीरं भव्यशरीरं योः संबंधीअनंतरोक्तस्वरूपं न घटते तत्ताभ्यां व्यतिरिक्तं भिन्नं द्रव्यश्रुतं  
 किं पुनस्तदित्याह पत्तयपोल्यलिहियंति पत्रकाणि तलताल्यादि संबंधीनि तत्संघातं निव्यन्वास्तु पुस्तकाततश्च पत्रकाणिच पुराकाश्चतेषु लिखितं पत्रक  
 पुस्तकं लिखितं अथवापोल्ययंति पोतं क्लृप्तं पत्रकाणि च पोतं च तेषु लिखितं पत्रकपोतलिखितं त्रशरीरं भव्यशरीरं व्यतिरिक्तं द्रव्यश्रुतं अत्रच पत्रकादि  
 लिखितश्रुतस्य भावश्रुतकारणत्वात् द्रव्यत्वमवसेयंनो आगमत्वं तु आगमतो द्रव्यश्रुत इव आगमकारणस्यालदेहशब्दत्वग्रूपस्य भावाज्ञावनीयं तदेवमे

**शौजस्मण निक्खंते जहादव्वासए तहाभाणि अक्खंजावसेतं भविअ सरोर दव्वसुअं सेकितं जाणय सरोर**

पण्णीकल्पो एणंज शरीरं समुच्चये ग्रह्ये करी जिनोपदिष्ट भावे करी श्रुत एहवे पदे जे शास्त्रे ते आगमीये काले सीखस्ये हिवडा नथी सीखो तेणे  
 जीवे अधिष्ठो जे शरीरं ते भव्य शरीरं द्रव्यश्रुत जाणवो इत्यर्थं येषथाकतो सर्वं शरीरं द्रव्यावस्थकनी परे श्रुतनेअभिलापे करीवपाणवो जावसेतंभवि  
 अशरीरं इत्यादिकं सप्राप्तं हिवे तीजेभेद कहेछे सेकितं जाणय शरीरं भविअ सरीरव्यतिरिक्तं द्रव्यसुअं अथकिसेते जाणग शरीरं भव्यशरीरं व्यतिरिक्त  
 द्रव्यश्रुत इति प्रश्न इहां उत्तरं जाणयसरीरं भविअ सरीरवेरिक्तं द्रव्यसुअं जाणग शरीरं भव्यशरीरनेा पूर्वीकत् स्वरूपनघटे तेउभय व्यतिरिक्त द्रव्यश्रुत  
 कहिये ते किसुंते कहेछे पत्तयपोल्यलिहियं तिहां पत्र तेतलतालादिकं दृजना अने तेहने समुदाये करीनीपना ते पुस्तक कहिये तेपत्र अने पुस्तक

केन प्रकारेण शरीर भयगरीरतिरिक्त द्रव्ययुक्तसुप्तसाप्ततदेव प्रकारांतरेण निरूपयितुमाह अहवेत्यादि अथवा युतपचयिध मस्रस तद्यथा अडय  
 मित्यादि अत्रापि ननु युते प्रकान्ते सत्वस्य प्ररूपणमप्रस्तुत सत्य किंतु प्राकृतशैलीमगीकृत्यत्र तस्याडजादिसूतस्यच सुतलक्षणैरन्यथेनाभिधीयमानत्वं  
 साम्यादिन्मपि प्ररूपयतीत्यनेप मस्रगतोडजादिसूतस्वरूप ज्ञापनेन शिष्यव्युत्पत्तिचैवकृताभवति अतएव भावयुते प्रकान्तेनामयुतादि प्ररूपणमप्रस्तुत  
 मित्याद्यपि प्रेर्यसमाप्त तस्यापि शिष्यव्युत्पादनादि फलत्वाच्च भावयुतप्रतिपक्षस्य नामयुतादे प्ररूपणमतरेण भावयुतस्यनिर्दोषत्वादि स्वरूपनियय  
 कतुपायाने जेसख जाणई सेणजाणईत्तिवचनादित्यल विचारेण अत्रापिभेदज्ञापनार्थमाह सेकितमित्यादि अतोत्तर अडय हसगभादिति अडाक्याति  
 मडुन हंसपतगचतुरिद्रियो जीवविशेषयोगभास्तु तन्वियत्तित कोसिकारो हसस्य गर्भोहसगर्भं तदुत्पन्न सूतमडुलमुच्यते आदिशब्दस्वभेदप्रख्यापनपर  
 ननु वदिहसगर्भत्वमसूतमडुलमुच्यते तर्हि सूते अडुज हसगर्भोदीति सामानाधिकरण्य विरुध्यते हसगर्भस्य प्रस्तुतसूतकारणत्वादेव सत्य कारणे  
 कार्यापचाराज्ञानविरोध कोमकार भय सूत चटक सूतमिति लोके प्रतीतमडुलमुच्यत इति हृदय पचेद्रिय हसगर्भसमर्थमित्यादि सेतमित्यादि निगमन

**भविअसरोर वतिरिक्त दब्बसुत २ पत्तयपोत्यय लिहिअ ग्रहवासुतत प वविह पणत्त अहयवोडयीकडय**

तेहने विपे लिप्यो तपत्र पुस्तक लिखित कश्चिये अथवा पोत्ययत्ति पोत कहती वस्त अने पत्र कश्चिये पाना तेहने विपये जेखिल्यो तेपत्रकपोत्यक लिखित  
 कश्चिये ते जाणग शरीर भय गरीर व्यतिरिक्त द्रव्ययुत कश्चिये तिहा पत्रकादि लिखित द्रव्ययुतने भाव अतगा कारण पणा यकी द्रव्य पणा जाणयो  
 अनेने। यागम पणा आगम यकी द्रव्ययुतनी परे जाणयो जे भणी आगमना कारण आत्मा गरीर यद्दए त्रिणि बोलखे ते इम एके प्रकार उभय व्यति  
 रिक्त द्रव्ययुत कत्तो शिचे तेहन वली प्रकारांतरे देपडेके अथवा द्रव्ययुत पाचविध प्ररूप्यो तथा अडय इत्यादि पूडा प्रेरक कश्चिये युतना अधिकारने

यथ द्वितीयभेद उच्यते सेकित्तमित्यादि अत निर्धयनं योडयं फलितनादिति चो' उं व मगीफलं तस्माज्जातं वो' उं फलनीचमनीतस्या' फलमपि फलित  
 कर्मा अत्रयं कोशकर्मपुंतदिरापि कारणे कार्योपचाराहोडजं सूतं सुच्यते इति भावः सेक्तमित्यादि निगमनं यथ तृतीयभेद उच्यते सेकित्तमित्यादि  
 शतोत्तरं कीडयंपंचविस्रमित्यादि कीटाज्जातं कीटजं सूतं तल्पंचयिं प्रज्ञप्तं तद्यथा पट्टेति पट्टसूतं मलयं खंगु तंवीनागुतंअभिरागं अत दृष्ट्याख्या  
 किलयत विषये पट्टसूतसुत्पद्यते ततारण्ये वननिजुंजस्थाने मासमोडादिरूपस्याभियस्थपुंजाः कियंते तेपाचपुंजाना पागुं तोनिना उन्नताचसांतरा  
 वश्यः कीलका भूमौ निखर्यते तत्र वनातरिपु संचरंतः पतंगकीटाः समागत्यमासायामिपोपभोगलुगाः तीलित्हातरैरिततज्जतः परिभ्रमंतो लालाः पम्  
 चंति ताचकीलकेपुलग्नाः परिगृह्यते इत्येतत्पट्ट सूतमभिधीयते अनेनेन कसेगमनचोत्पन्नं तदेवमलयं इत्यमेवचोतविषयेतदिसादुत्पन्नं तदेवागुं  
 चीनां गुक्तमभिधीयते चेतविगेपाद्विकीट विगेपास्तपड सूतादिव्यपदेग प्रति भाः एवंकपिद्विषये मनुयाद्विगोशितं गृहीतानिजापियोगेन  
 युक्तं भाजनसंपुटे स्थाप्यते तत्रचयसुनि क्लमयः समुत्पद्यंते तेच वाताभिलापिगो भोजनच्छिद्रैर्निगत्यथासुनं पयंतो यत्तालाजा क्षमभिसु'चंति  
 तत्कृमिरागंपट्टसूतसुच्यते तत्रैकभ्रगुंजमिसुच्छवागद्वपरिणाभत एव रक्तं भाति अन्येतमभिद्वभति यदा तत योशिते क्लमयः समुत्पजा भयंति  
 तदा स क्लमिकमेव तत्रालित्वा क्रिट्टिसंपरित्यज्यरसो गृह्यते ततच कथियोप प्रक्षिप्यते तत्पट्टेन यक्ष्यते पट्टसूतं तत्कृमिरागसुच्यते ततच  
 धोताद्यवस्यासुमनागपिकथंचिद्रागं न सु'चंति सेक्तमित्यादि निगमनं अथ अतुर्थभिद्व उच्यते सेकित्तमित्यादि अर्णांतरं वालयं पंच पिरमित्यादि  
 बालेभ्य ऊरगिकादिलोमभ्यो जातं वालजं तल्पंचयिं प्रज्ञप्तं तद्यथा ऊर्णया इद्रामोर्णिकं उद्राणामिद्रामोर्दिकम् एतं हे यपि प्रतीतोने अगेभ्यो क्लसता  
 अगकृतयो दृहत्पुच्छा प्राटधिसृजीवविगेपासासोमनियन्नं अगलोमिकं उ'दुररोमनिणन्नं तोतयं उर्णोदीना चरु'रितं तित्तिस्तनिणन्नं सूतमपि कि

राय धनपत्रि... ४४ भा

द्विस अथवा एतेषामेवोर्णादीनां द्विकादिसयोगभोगनिष्पन्नं सूत्रं किद्विस अथवा एतेषामेवोर्णादीनां द्विकादिसयोगभोगनिष्पन्नं किद्विस सेतमित्यादि निगमन अथपश्च  
 लय वागय अडय हसगभादि वीडय कम्पासमादि कीडयपचविरह पयत्त तजहा पट्टेसलए अ सुए चौख सुए किमि

निये सूत्रात् प्रकृपया अयुक्तं गुरुबोल्या सत्यत्वे पर उत्तर साभलौ प्राह्यतगेलीने विषे अत एवने अडजादि सूत्र एविऊने एत एष्वे एकेण गदे बोलाद्  
 तेभणी सूत्र प्रकृपया दोष नयी प्रसगयी अडजादि स्वरूपने जगत्करी गिग्यने डाहापगोकीधोछे एतलभणीज भाव अतने यधिकाद् नाम अतुता  
 दिक्कनो प्रकृपयो अयुक्त इत्यादि प्रेरणापणी पण्डूरकयो तेरना फलपिण गियने डाहा पणी करयो तेरूपछे तेभणी भावयुत प्रतिपन्न नाम  
 अतुतात्किं व्याख्या विना भावयुतना निर्दोषपणादि स्वरूपनो निर्णयकीधोनजाद् उत्तच जे सयजाणे सेएगजाणे इति यचनाव् इत्यलविसरेण इशां  
 यादिभेद जणाववा भणी कह्येचे सेकित अडज अथ किस ते अडज इति प्रश्न इहा उत्तर अडयहसगभादि अडयकी नीपनो ते अडज कहिये  
 तथात्स कहता पतग चट्टरिन्द्रिय जीवनी विगेष अने गर्भ कहता तेरनीनीयाद् कोयली तेहसनो गर्भ कहिये ते यकी जपनो सूत्र अडज कहिये  
 यादि गदते आपणा अनेक भेदने जणाववाणारखे इशां गिय प्रश्न करैहे जो हस गर्भनी जपनो सूत्रने विषे जे कह्यो अडय हसगभादि इशा सामान  
 अधिक्तरणपणोविरोधयाद् जे हसगर्भ ते सूत्र नही अने सूत्र ते हसगर्भ नही एष्वो समानाधिकरणपणो विरोधथाय जे भणी हसगर्भते ए सूत्रनो कार  
 णछे पर सूत्र नयी गुरुबोल्या सत्य परकारणनेविषे कार्यना उपचार यकी विरोध नही एतले कोयिकारकीडा यकी जपनो सूत्र जे तेरनो चटक सूत्र  
 एष्वो नामलोकने विषे प्रसिद्धे ते अडज सूत्र कहिये पभाव अनेरा यली आचार्य इम कह्येले पधेन्द्रिय हसगर्भ कहिये सेत अडय ते ए अडज  
 एनिगमन विषे यीजो भेद कहियेले सेकित वीडय अथ किसोने बोडज इति प्रश्न इशांउत्तर कह्येले बोडय फलिवमादि गड कहता यणनोफल ते यकी





माभेसोऽभिधीयते सेकिन्तमित्यादि बल्काष्ठीत बल्काज तच्च सणप्रवृत्ति क्वचित् पुनश्च तस्यादि पाठ तत्रातसी सुत्र माकवादिदेसप्रसिद्ध सेनामित्यादि  
 निगमन एक पञ्चविधमण्डजादिसूत्र तयणनेनोक्त प्रगरीरभयगरीरव्यतिरिक्तद्रव्ययुत मतस्तदपि निगमयति सेतजाणगेत्यादि एतद्गणनेच समर्थितनो  
 आगमतो द्रव्ययुतमतस्तदपि निगमयति सेत नो आगमयो इत्यादि एतसमर्थने च समर्थित द्विविधमपि द्रव्ययुतमतस्तदपि निगमयति सेत इवस्तुतमि  
 त्यादि अथ भावयुतत्रिरूपणार्थमाह सेकिन्तमित्यादि अतोत्तर भावयुत दुविधमित्यादि विवक्षितपरिणामस्य भवनभाव सचासो युतचेति भावप्रधान च  
 युत भावयुत तद्विधिय प्रवृत्त आगमतो नो आगमतश्च तत्राद्यभेदनिरूपणार्थमाह सेकिन्तमित्यादि अतोत्तर युतपदार्थञ्च सातसोप युक्तयागमत आगम

राग वालय पचत्रिह पणत्त तजहा उष्टिए मिअलोमिए कोतवेकिहसे वागयसणमादि सेत जाणयसरीरभवि  
 असरीर वतिरिक्त दव्वसुत सेतनोआगमतो दन्नसुत सेत दव्वसुत सेकितभावसुअं २ दुविह पणत्त तजहा आगमतोअ

दहरना लोमयकी नीपनी ते कोतय कश्चिये तथा उ नादिकना खूनीपजता जगखा ते किहस यकी नीपनी खूत पणि किहस कश्चिये अथया पूर्वोक्त  
 उर्णादिक उटिकादि योगयकी नीपनी खूत किहस कश्चिये अथया पूर्वोक्ति जीय यकी अथया पखादिकजीय तेदना लोमयकी नीपनी ते किहस कश्चिये  
 सेत वालय ते ए बालज ए समाप्ति अथ पांचमो भेद कश्चिये सेकित वागय अथ किंसो ते यल्काज इति प्रथ पृथा उत्तर वागय बल्कायकी जपनी  
 सेरल्काय कश्चिये ते सिण आदि जाणियी किशाएक अतसी आदि पाठछे तिशा अतसी खूत ते सालथादिअ देगप्रसिद्ध जाणयो से ८ वागय ते ए बल्काज  
 पत्ते अडजादिक पापे भेदे खूत कत्तो ते उभय व्यतिरिक्त द्रव्ययुत कत्तो ते भणी तेहने पूरो करेछे सेत जाणयसरीर भविअसरीर व्यतिरिक्त

माश्रित्यभावश्रुतं श्रुतपयोगपरिणामस्य सङ्गावात्तस्यचागमत्वादिति भावः सेतमित्यादि निगमनं अथ द्वितीयभेद उच्यते सेकित्तं नो आगमश्चो भावश्रुतं इत्यादि अलोत्तरं नो आगमश्चो भावश्रुतं दुविहंपन्नत्तं लोद्वयं लोकोत्तरियं मित्यादि अत्राद्यभेदनिरूपणार्थमाह सेकित्तमित्यादि अतनिर्वचनं लोद्वयं भावश्रुतं जंद्ममित्यादि लोकैः प्रणीतं लौकिकं किंपुनसादित्याह यदिदमज्ञानिकैर्मित्याहृष्टिभिः स्वच्छन्दुद्धिमतिविकल्पितं तस्यौकिकं भावश्रुतमिति सखन्धः सूत्राल्पज्ञानभावतो धनवदशीलवत् वा सम्यग्दृष्टयोपज्ञानिकाः प्रोचन्ते ते आह मित्याहृष्टिभिः स्वच्छन्दमतिवुद्धिविकल्पितं इहावग्रहेवृद्धिः अपायधा

नो आगमतोश्च सेकित्तं आगमतोभावशुत्रं २ जाणएवउत्ते सेतंआगमतो भावशुतं सेकित्तं नो आगमतो भावशुतं ३  
दुविहं पणत्तं तंजहा लोद्वश्च लोशुत्तरिश्च च सेकित्तं लोद्वश्च २ जंद्मं अणाणिएहिं सच्छं देवु

दब्बसुत्रं तेए जाणग शरीर भविचसरीर व्यतिरिक्त द्रव्यश्रुत ए कहतां जे प्रारंभ्यो ऊतो नो आगमथकी द्रव्यश्रुत तेपणि पूं ययो तेभणी तेहनेपूं करेछे सेतं नो आगमश्चोदब्बसुत्रं तेए नो आगम थकी द्रव्यश्रुत पूं करता विळ्ळं प्रकारनो द्रव्यश्रुत पूं ययो तेभणी तेहने निगमेछे सेतं दब्बसुत्रं तेए द्रव्यश्रुत एतले द्रव्यश्रुत वपाण्यो अथ भावश्रुत वपांणवाने अर्थे कहेछे सेकित्तं भावसुत्रं अथ किसो ते भावश्रुत इति प्रश्न इहां उत्तर भावसुत्रं तिहा विवच्चित परिणाम नोहोणो तेभाव कच्चिये भावज जे श्रुत तेभावश्रुत अथवा भाव प्रधान जे श्रुत तेभाव श्रुत ते विळ्ळं भेदे प्ररूप्यो आगमथकी अने नो आगम थकी तिहा आदिभेद कहेछे सेकित्तं आगमश्चो भावसुत्रं अथ किसोते आगम थकी भावश्रुत इति प्रश्न इहां उत्तर आगमश्चो भावसुत्रं जाणए उवउत्ते श्रुत पदार्थन छाजांण थने तेहने विपे उपयुक्त तेआगमथकी कहतां आगमाथी भावश्रुत जाणवो इहा श्रुतना उपयोगनो परिणामछे तेउपयोग परिणाम ते

रणे तु मति स्वच्छन्देन स्वाभिप्रायेण तत्त्वतः सर्वज्ञप्रणीतायाः सुखरामन्तरेण बुद्धिमतिभ्यां विकल्पित स्वच्छन्दपुद्गिमतिकल्पित स्वबुद्धिकल्पना शिल्पि  
निर्मितमित्यर्थः तत्प्रकटनार्थमेवेदमाह तद्यथा भारतमित्यादि एतच्च भारतमित्यादि नाटकादिपर्यन्तं न्युत लोकप्रसिद्धिगम्य अथ प्रकारातरेण लौकिककद्रुत  
निरूपणार्थमाह अथवायत्तरिय कलाउ इत्यादि तत्र कलानानि वस्तुपरिज्ञानानि कलाशास्त्रं हि सप्तमि समयायादियत्र्यप्रसिद्धा चत्वारश्चवेदाग्रन्थ १०००

द्विमद् विगम्पिअ त जहाभारह रामायण भीमासुरख कोडिल्लय घोडयसुह सगठमद्दिआउ कप्पासिअंणगसुडुम कण  
गसत्तरोविसयइसेसिअ बुद्धिसासण काविलवेसिअ लोगायत सट्टिततमाटरपुराणवागरणनाडगाइअहवावात्तरिकला

आगमन्दे तेभणी ए आगम यकी भावयुत कत्तो अथवीजो भेद कहेके सेकित नो आगमो भावसुअ अथ किसोते नो आगम यकी भावयुत इति प्रश्न  
इषो उत्तर नो आगमो भावसुय नो आगमयो भावयुत विडु भेदे प्ररुथो तद्यथा लौकिक अने लोकोत्तरिक तिहा आद्य भेद कहेके सेकित लोइअ  
भावसुअ अथ किसो तेलौकिक भावयुत इति प्रश्न इहा उत्तर लोइअ भावसुअ लोकनो प्ररुथो तेलौकिक कहिजे तेहिज तेभाययुत ते लौकिक भाय  
युत कहिजे ते लौकिक भावयुत कहेके जेए अज्ञानीये मियाहटीये स्वच्छद बुद्धिमते विकल्पो तेलौकिक भावयुत कहिजे ए सवध तिहा योडाज्ञान यकी  
सम्यक हटी पनि अज्ञानी कहिजे ते टालवा भणी कहेके मियाहटीये अथप्रईहा ते बुद्धि कहिजे अपायधारणामति कहिजे पूस अर्थकरीये स्वच्छेदेपो  
ताने अभिप्राये करी तत्वयकी सर्वज्ञ प्रणीत अर्थानुसारविना अपणीबुद्धे अनुमतेकरी विकल्पो जेयुत ते स्वच्छद बुद्धिमते विकल्पित कहिजे स्वबुद्धिकल्पना  
रूपीये गिल्पीयेनिपायोए भाव हिजे तेहिज प्रकटकरवा भणी कहेके तद्यथा एभारतादिनाटकादिक पर्यंत न्युतलोक प्रसिद्धयकी जाणवा अथ प्रकारांत

सामवेद ऋग्वेदे यत्पूर्वेदा र्वर्षगवेद लक्षणाः सागोपांगानि शिक्षा ? कल्पे व्याकरणश्च छंदश्च निरुक्तम् ज्योतिष्कानयनश्च लक्षणानि पटुपांगानि तद्व्याख्यानरूपाणितैः सह वर्तते इति सागोपांगाः सेतमित्यादिनिगमनं उक्तं नो आगमतो लोकोत्तरिकं तदेवाह सेकितमित्यादि लोकोत्तरे लोकाप्रधानैरहङ्गिः प्रणीतं लोकोत्तरिकं किंपुनस्तदित्याह लोउत्तरियं भावसुतं जंइममित्यादि यद्विदमहंद्भिर्हादियांगणपिटकं प्रणीतं तन्नोको

**ओचत्तारिवेत्त्रासंगोवगाणं सेतं लोइत्रं नो आगमतो भावसुत्रं ? जंइमं**

रे लोकोत्तरिकं श्रुत देखाखिना भणी कहेछे अहवेत्यादि तिसा कला कहिये वस्तुना ज्ञान तेहने कला कहिये तेकला बहत्तर समावायागादिकग्रंथसे प्रसिद्ध जाणवी तथाचारिनेद ऋग्वेदे यजुर्वेदे सामवेदे अथर्वगवेदे तथा अंगरूकत्या शिक्षा ? कल्पे व्याकरणश्च छंदसश्च निरुक्तम् ज्योतिष्कानयनश्च छउपांग तेहना व्याख्यान रूप ते सहित वर्त्ते तेषांगोपाग कहिये सेतं लोइत्रं भावसुत्रं ए लौकिक भावयुत एतले नो आगमयकी लौकिक भावयुत वपांगयो अय लोकोत्तरिक नो आगम यकी भावयुत कहियेछे सेकितं लोउत्तरियं भावसुत्रं अथ किमुन्ते लोकोत्तरिक भावयुत इति प्रश्न दूधा लोउत्तरं भावसुत्रं तिहा लोकोत्तर कहतां लौकिकमें प्रधान अरिहन्त भगवन्त तेगो जे प्ररूप्यो ते लोकोत्तरिक कहिये तेहिज ते भावयुत ते लोकोत्तरिक भावयुत कहिये किहुं ते कहेछे जंइमं जे ए श्रुत अरिहन्तद् द्वादयाग प्ररूप्या ते लोकोत्तरिक भावयुत कहिये ए संबंध तिहां सदेवमनुजा सुरलोचनीकीधी पूजाने अहंयोग्य छद् ते अहन्त कहिये तेगो एहवा केवल्यादिक पणि छद् ते भणी श्रीतीर्थंकरनो विगोप कहया भणी कहेछे भगवन्ते समग्रंख्यं निरूप मरूप अथ श्रीधर्म प्रयत्नवंतहे इत्यर्थ एहवा श्रीभगवन्तने कोइ एकवादी अनादि प्रतिपत्त ज्ञानादिक मतमानेदे इम कहेछे ज्ञानमप्रतिबंधय वैराग्यं च जगत्पते ऐश्वर्यं चैवधर्मस्य सहसिद्धं चतुष्टयं ? एतला भणी तेहने निराकरवाने अर्थ कहेछे ज्ञानावरणीयादिकने जये करी ऊपना परं सहजानानधी

कारिक भावयति सवध सद्यया आचारोच्छ्रयगडमित्यादि तत्र सदेव मनुजासुरलोक विरचिता पूजामहतीति अर्हत सौ एषभूताय तीर्थकरा अपि  
 केवलशब्दोभवत्यततीर्थकर प्रतिपत्तये प्राप भगवद्भिरिति समयेख्यनिरूपमरुपयथीधर्म प्रयत्नपरिस्थयं इच्छ भूताये भगवत्स्य प्रतिपत्तादिमत  
 तेविभुपुगम्यते उक्तचेतहादिभि ज्ञानमप्रतिपयस्य वैराग्य च जगत्प्रते एथयंचेवधर्मच सचसिद्धचतुष्टयमित्यादि अथरूपद्यवच्छेदायमाह ज्ञाना  
 वरणक्षेपणादि प्रकारेणात्यन्त ननु सचज्ञानदर्थनेधरतीत्युत्पन्नज्ञानदयनधरा सौ नचप्रसुतवियेपेण व्यवच्छेज्जाअप्येवभूता एव सच सिद्ध चतुष्टय  
 मित्यादि विरोधप्रसंगो नहि सुगता इत्य भूता अपि भवियन्तीत्यासप्याह दुतीयपत्रुमुखेत्यादि अतीतयत्तर्मांनिभियदर्थज्ञाचक्रेत्यर्थ नचसुगता  
 नामतीतभविष्यर्थज्ञानप्रसभय एकांतज्ञानभगवत्येन तत्सत्वाभ्युपगमादि सताच सप्रज्ञेणेति प्रसगादयसतानहारेण कालत्रयेयथीनां सद्भावावदती

**अरिर्तेह भगवन्तेहि उपमन्न खाण दसण धरेहि तीय पच्चुप्पण मणागय जाणएहि सब्वर्णुहिं सब्वदरिसीहि**

एवञ्च ज्ञान एने दर्शने धरेते सत्त्वज्ञानदर्शनधर कश्चिये एतने तेहना ज्ञानादिक अनादिना नयी को अनादिना इद्वतो उप्पसुणणे इत्यादि  
 सयाने विरोधगाइ तेभणी एववा क्वाधिरोहना देवउवाकटे तेभणी वियेय कहे अतीत वर्तमान अनागत पदायना जाणकार तेणे बोद्धने मते अतीत  
 अनागत पदायना जाणनो सभवन्थी एकांतचरभगवादी यथा यत्ती ते अतीत अनागत पदार्थना अज्ञतापणाना मानवा यकी अतीत अनागतनो  
 आणात्माने एने को उच्छ्रयच्छे तेभणी तेहनी जाणनचार पणिये इम जोता तेहने पणि तिकालज्ञालपणोइणाइ नयी एषयो आसकीने करेछे सर्वज्ञ  
 एने सर्वदर्शा इवा नेणे शाक्यनामतने विये अतीतादिक अर्थने ज्ञातापणे छतैपणिय सर्वज्ञपणोयुक्ते पट्टनशीजिभणी तेबोद्धने मते केतला एक धर्मादिक  
 अशीठ पण्यना जाणचारने सर्वज्ञकारीमाने यदुक्त तत्तियै सर्वपयत्तुमायासा विष्टमर्थतुपयत्त कीटीसत्यापरिज्ञान तत्रन कोपयुज्यत इति। तथात्वे

तथा ज्ञातव्यं तेषामपिनविचरन्त्य इत्याशयंकाच सर्वज्ञैः सर्वदृग्भि रिति सर्वमेकैद्रियद्वौद्रिय जीवादि वस्तु केवलज्ञानेन जानंतीति सर्वज्ञा सादेय सर्वं केवल दर्शनेन पश्यन्तीति सर्वदर्शिनेन सौः शाश्वतानात्वतीताद्यर्थज्ञात्वत्वेपि सर्वज्ञादित्यं नोपपद्यते कातिपयधर्माद्यभीष्टापदार्थज्ञात्वत्वेन तेष्वभ्युपगमाद्यत उक्तं तच्छब्दैः सर्वं पश्यन्नुमावासा धिष्टमर्थं तु पश्यतु कौटसंस्थ्यापरिज्ञानं तदतः कोपयुज्यत इत्यादि यथोक्तगुणविशिष्टत्वा तिल्लोकवहियमहियेत्यादि वद्विद्यन्ति धिगलङ्घनान्दाशुदृष्टिभिः सहस्रं निरीक्षता यथावस्थितात्यसाधारण गुणोक्तोक्तनलक्षणो न भावसत्त्वेनमहितता अभिष्टता सुगन्धिपुष्प प्रकारक्षेपादिनातु द्रव्यसत्त्वेन पूजिता सतएपां द्वंद्वे तैलाख्येन भवनपति व्यन्तर नर विद्याधर वैमानिकादि समुदायलक्षणो न महिता पूजितासौः अत्राह ननूयन्नज्ञान

तिलुक्कवहितमहितपूदृथिंहिं अथ्यडिहय वरणण दंसण धरेहिं पणौं अं दुवालसंगं गणिपिडगं तंजहा आथारो

लोभ्य कचता भवनपति व्यन्तरनरविद्याधर वैमानिकादिक समुदायरूपतेगो वहित कचता आनंदाशुवहती दृष्टे स रुर्पपगो निरव्याच्छे जे भगवन्त तेगो तथा महिता, निकेमल गुणोक्तीर्त्तन रूप जे भावसत्त्व तेगो तथा पूजित कचतां चदन पुष्पादिक द्रव्य पूजाद् करी पूज्याच्छे जे भगवन्त तिगो ए अर्थ महासतिमन्त वृत्तिकारनो कीषोच्छे ते भगीमे माचरीमति कल्पनाद् 'फेरव्युं नथी पछे इम अर्थकरीद्' तैलोक्य वहित महित पूजिता कचिये तेगो श्रीभगवन्ते इहा प्रश्न जे उत्पन्न ज्ञान दर्शनधर कच्या ते जे वस्तु उत्पन्न महितके तेखलावा सहितदीसे जिम अरूपी वस्तुने विषे अवधिज्ञान खलाद् एतने अरूपीने जाणे देपेन ही तिम केवल ज्ञान केवलदर्शनजनकपनाच्छे ते भगो तेपणि अप्रतिहत कचतां रूपी अने अरूपीवस्तुने विषेखलाद् नही जे ज्ञान अने दर्शन एहज कारणथकी वरप्रधान जे केवलज्ञान केवलदर्शन तेहनेधरे ते अप्रतिहत वर ज्ञानदर्शनधर तेगो श्रीभगवन्ते जे अवधि ज्ञाननेना संप्रतिहत पणोच्छे उतातिना हेतुथकी ते आवरणना छतापणा थकीच्छे ते भगी केवल ज्ञानदर्शन अप्रतिहतच्छे जे भगी सर्व आवरणनाचथ थकी ऊपनाच्छे अने जो

दर्शनधरेरित्युक्तं चत्समिसमसप्रतिप हृष्ट यथाश्रुतैव्यवथादिज्ञान उत्पन्ने च तत्ज्ञानरर्गने अभ्युपगते अतस्तास्या ते समप्रतिपत्नानि प्रागुच्यन्ति तथाच पूर्वोक्तं सर्वं च आदिशानिरित्यागफ्याच अप्रतिष्ठतपरज्ञानदर्शनधरैरिति समस्तावरणक्षयसभूतत्वात्प्रतिष्ठते मूर्त्तान्मूर्त्तैषु समस्तयस्तुख्यगुणलते अतएवधरे प्रथमने केवलज्ञानदर्शनलक्षणे ज्ञानदर्शनधरन्ति तथाते यववथादे समतिष्ठत्व तस्योत्पत्तिमत्येन कित्तर्थावरणसदावा दतोऽप्रतिष्ठे केवलज्ञानादर्गने समजावरणक्षयसभूतत्वात्तत्त्वयोपि समप्रतिष्ठत्वाभ्युपगमे अतिप्रसंगादिल्ल च विभेपण कस्यांचिदेववाचनायां इत्यने न सर्व्यत्वादेव यथोक्तप्रकारेण ताव द्वाप्यात्तान्यमनि विभेपणोव्यपयावाविरोधत सुधिया व्याख्या नितरैर्यथैकधनद्वारेण प्रणीत प्ररूपित कि तद्दहादद्यांग युत परमपुरुषस्यांगानीवांगानि ह्यरग च मान्यापारादीनि यत तत् ह्यदद्यांग किभूतगणपिटकं गुणगणोस्यासौतिगणो आचार्यसदृपिटकं सर्वस्य गणपिटक तद्यथा आचारांग इत्यादि गुणम अत ह्यदद्यांग तस्य चरणगुण समन्वितस्य विवचित्तत्वाच्चो आगमत्व भावनीय देगस्य चरणगुणलक्षणस्य आगमना चो गदस्य च देगप्रति

सुश्रुतगडो ठाण समवाचो निवाहपणुत्तो नायाधम्यकहाचो उवासगदसाचो अतगडदसाचो अणुत्तरोवयाद् अददसाचो

सर्वं आचरणे चयपणे स प्रतिष्ठत पणोमानीये तो अखलित ज्ञाननीनासिथाद् एखेइलौविशेषणपद कोइ वाचनाने विषे दोसेखे चर्यत गयी तेणे एषवे श्री अदिरन्ते भगवते प्रणीत कृष्टता अर्थ कथन हारेकरी प्ररूप्यो किडु तेकरेत्ते युतज्ञानरूप परमपुरुषाआचानीपरेयगतेह्यदद्यांग आचारांगदिक जिहृष्टि तेहदद्यांग कश्चिदे तेकेइवोखे तेकरेखे गण कृष्टता गव्यजेइनेखे ते गणि कश्चिये आचार्यं तेइनो पिट कृष्टतां सर्वस्य तेगणपिटक कश्चिये शेष सुगम इषा ह्यदद्यांग युतने परण गुण सुचित विवचित पणायकीनो आगम पणो जाणवो चरणरूप देगने विषे आगमनयी तेभणी नो गद प्ररुहां देग प्रतिपेध पायो जाणवो इम सर्वत नोकिन्न भावयुतने विषे य पाणवो विषे समाप्त कहेखे सेतलोउत्तरिच भावयुच्य तेइलोकात्तरिक भावयुत ए पूरो



षेधनाश्रयणादिसं पर्वत्वापिलोकिकभावश्च तेवाच्यं निगमन्वाह सेतलोत्तरियमित्यादि एतद्गणनेच समर्थितं द्विविधमपि नो आगमतो भावश्रुतं सदापि निगमयति सेतं नो आगमतो भावसुतं इत्यादि एतद्गणनेचोक्तं सर्वमपि भावश्रुत मतो निगमयति सेतं भावश्रुतमिति तदेवं स्वरूपत उक्तं भावश्रुतमनो वचात्वाधिकार इत्यतोयेय पर्याय निरूपणार्थमाह तस्मिन् इमेत्यादि तस्यश्रुतस्याश्रुत्यनंतरमेव बह्यमाणतया एकार्थिकानि तत्वत एकार्थं विपयाणि नानाषोषाणि पृथग्भिन्नो दात्तादिस्वराणि नानाव्यंजनानि पृथक्भिन्नाक्षराणि नामधेयानि पर्यायध्वनिरूपाणि भवति तद्यथा सुतगाथा आख्या गुरुस मीपे श्रूयत इति श्रुतं अर्थाना सूचनात्बलं विप्रकीर्णग्रंथनादृश्यः सिद्धं प्रमाणं प्रतिष्ठितमर्थसंतंसेदनं निष्कारुणं भवतीति सिद्धांतः मिथ्यात्वाविरतिक

### परहावागरणाद् दिवागसुषं दिद्विवाउष सेतं लोशुत्तरिश्च नो आगमतो भावसुतं तस्मिन् इमे एगद्विधा शणाधो

करतां विद्धं भेद प्रायथा तेहनी समाप्ति करेच्छे सेतं नो आगममोमावसुषए कश्चेत्तेऽनुते सर्वभावश्रुत रूपयको वपाखो एहजनी इहां अधिकारके तेहभणी एहना पर्यायनाम कहेच्छे तस्मिन् इमे ते श्रुतना एतलानां व जोहिवडा कश्चियेच्छे एकार्थिक परमार्थ यकीएकज अर्थेच्छे जेहनी एहवा तयानानाषोषा जूनूभा उदात्तादिखरच्छे जेहना एहवा तयानाना व्यंजना जूनूभा ककारादिक अक्षरच्छे जेहना एहवानामधेज्जा कहतां पर्याय शब्दरूप छुड तद्यथा सुषगाहा गुरुनें समीपे सांभलिये ते श्रुत कश्चिये, तथा अर्थना सूचवायकी सूत कश्चिये तयावीपखा अर्थना गूथवा यकी ग्रंथ कश्चिये तथा सिद्ध कश्चिता प्रमाणने विषे प्रतिष्ठी अर्थ तेहने अन्त कहतां निश्चय रूप ज्ञाननो पर्वतपणो तेहने पञ्चचाडे तेणे सिद्धान्त कश्चिये तयामिथ्यात्व अविरति कपायादिके प्रवर्त्तता जीवने सीखवाथी शासन कश्चिये तथापवयणं एहवो पाठान्तर तेहने ए अर्थ कहतां प्रयस अथवा प्रथम जेअचन तेप्रवचन कश्चिये तयामोज्जना अर्थ भणी जीवने आज्ञादीजे इणै करी तेभणी आज्ञाप्ति कश्चिये तथा बोलवो तेभणी बचन कश्चिये एतले वचनयोग एभाव तथाहिताहितनी प्रवृत्तिह

प्रायादि प्रकृत्योपानां यासनाच्छिद्व्यासासुं प्रचनमिति पाठोत्तरतत्रापि प्रथमपदान् प्रथमत्वा यचन प्रवचनसोच्चार्यमाच्चाप्यते प्राणिनोऽनयेत्याच्चा  
उक्तिवचन चेतीत्यर्थः शिवाहित प्रकृति निरुत्पुपदेय यथायस्यित जीवादिपदार्थं ज्ञापनात्प्रज्ञापना आचार्यपारपर्येणा गच्छयीत्यागम आप्तवचन चागम  
इति सूत्रे सूत्रविषयेषा एकार्थी पर्याया इतिगार्यार्थं चेत्त सुतमित्यादि तदेतन्नामादिभेदेऽपि अतमित्यय इति अनुयोगहार ग्रथेऽनुताधिकार कथित । २।  
अथस्तथाधिकार कथ्यते सप्रतयदुक्तं स्त धनिषेऽग्रामीतित्तव पादनार्थं सुयकमते सेकितमित्यादि अयकिततत्स्तवइत्युच्यत इतिप्रत्ये निर्वचामाह खधेच  
उच्यिहे इत्यादि अत्रनामस्त ध आषष्ठकसूत्र स्थापनास्त वप्रतिपादकसूत्र नामस्थापनावस्थकप्रतिपादकसूत्रव्याख्यानुसारेण स्वयमेव भावनीय द्रव्यस्तध सूत्र

सायाथावज्ज्ञा नाम धेया भवति तजहा सुत्रसुत्त गथसिद्ध त सासुण आणत्ति वयण लवएसे पन्तवण आगमेत्त्र  
एगठ्ठापञ्जयासुत्ते ॥१॥ सेत सुत्र सेकितखधेर् चउच्चिहे पथसे तजहा नामखधे दृवणाखधे दृवखधे भावखधेना

सिना उपदेशदेवा यकी उपदेश कश्चिये तयायथावस्यित जीवादिक पदार्थं प्ररूपवायकी प्रस्थापना कश्चिये तथा आचार्यं परपरद्रव्याल्यु साये  
तेभणो धागम कश्चिये अथवा आगू केवलीनो वचन तेभणो धागम कश्चिये सुत्तेसूत्रने विषे एतला एकार्थ पर्याय यच्च जाणिया एगाथार्थं लडधो  
सेत्त सुत्त सेए नामादिक भेदेशुत्त वपाण्यो इति अनुयोगहारय य वालासोधिं अुताथिका रकथित ॥ २ ॥ अयस्क धाधिकार कथ्यते । शिधे केकसो  
हुतो स्तधने निषेपस्यु तेप्रतिज्ञा निर्वीइया भणो उपकमेष्टे सेकितखधे चउच्चिहेपञ्चते अयकिस्यु तेस्तन्व इति प्रत्र इहा स्तन्वपिड भेदे प्ररूप्यो  
तद्यथा सुगम इहा नामस्तन्वनो कश्चणहारोसूत्र अनेपली स्थापनास्तन्वनो कश्चणहारोसूत्र नामस्थापनाना कश्चणहारोसूत्रनी व्यात्यनि अनुसारे

सपि भयशरीर द्रव्यस्त्वंधं स्वं यावद्रव्यावशयोक्त व्याख्यानुसारेणैव भावनीयं प्रातस्तुल्यवक्तव्यत्वादिति सेकितं जाणयशरीरभविष्य सरीरवहरित्ते दव्वखंधे द्रुतिप्रत्ये निर्वचनमाह जाणगसरीरभविष्यसरीरवद्वरित्ते द्रव्यखंधे तिविहेपन्नत्ते इत्यादिज्ञशरीर भयशरीरव्यतिरिक्त द्रव्यस्त्वंधं वस्त्रिविधः प्रज्ञाप्र तद्यथा सचि तोयचित्तोभिय सताद्याभेदं जिज्ञासुः दृच्छति सेकितमित्यादि अतोत्तरं सचित्तदव्वखंधेअणोविहेपयत्ते इत्यादिसचित्तं मनोविज्ञानमितिपर्यायाः सहचित्त नवत्ततद्वृत्ति सचित्तः सघासौद्रव्यस्त्वंधश्चेतिसचित्त द्रव्यस्त्वंधः अनेकविधोक्तिभेदतो अनेकप्रकारः प्रज्ञाप्र सद्यथा इत्यस्त्वंध इत्यादि इयस्वरगाः स एवविधि

सद्रवणाओ पुव्वभणि आणुकुमेण भाणिअव्वाओ सेकितं दव्वखंधेइ दुविहे पयत्ते तंजहा आगमतोअ नोआगमतोअ सेकितं आगमओदव्वखंधेइ नस्सणं खंधेत्ति पयंसिक्खितं सेसंजहा दव्वावस्सए तहाभाणियव्वं नरं खंधाभिलावो जावसेकितं जाणियसरीर भविष्यसरीरइ वद्वरित्ते दव्वखंधेइ तिविहेपयत्ते तं सचित्ते अचित्ते सोसए सेकितं

स्वयमेव वपाणवो प्रायेद्वल्यक्तव्यताक्के तेभणी तथा द्रव्यस्त्वन्ध सूत्रपणि भयशरीर द्रव्यस्त्वन्ध सूत्रलगे द्रव्यावशक व्याख्याने अनुसारे जाणवो प्राये तुल्यक्तव्यताक्के तेभणी सेकितं जाणयसरीर भविष्यसरीर वेरित्तिदव्वखंधे यावत् अयकिसू तेजाणग शरीर भयशरीरव्यतिरिक्त द्रव्य स्त्वन्ध इति प्रत्य इत्हां उत्तर जाणग शरीरभयशरीर व्यतिरिक्त द्रव्यस्त्वन्ध तिव्धंभेदे प्ररूपो तद्यथा सचित्त अचित्त भिय तिव्हां अद्यभेद पच्छेत्ते सेकितं सचित्ते दव्वखंधे इति इत्हां उत्तर सचित्ते दव्वखंधे तिव्हां चित्त कहता मन तथा विज्ञान एपर्यायदेपाडीने इम अर्थ करीये चित्त सहितवत्ते ते सचित्त ते सचित्तज केद्रव्यस्त्वन्ध तेसचित्त द्रव्यस्त्वन्ध ते गतिना भेदयी अनेक प्रकार प्ररूपो तद्यथा तिव्हा इयतरंग तेहिजविधिए एक परिणामना

द्वैपरिणामपरिणतत्वात् सूक्ष्मो ह्यसूक्ष्म एव गजस्कन्धादिकने विषे समास करणो नवर किनरादिक विण व्यतरा विषेप तथा उभयकश्चिदे ह्यपभ तथा  
 धिक्त्वात्पदाचरणानि दृश्यन्ते सुगमानि च नवरपशुपसयविष्णुगवानरखधेति कश्चिदृश्यते ततपशुद्व्यगलक पसयस्वाटविकोहिगुर चतुष्पदविशेष विङ्ग  
 पक्षी वानर प्रतीत सूक्ष्मगद्गल प्रत्येक द्रष्टव्य इह च सपित्तस्तथाधिकाराल्बीधानामेव च परमार्थत सचेतनत्वात्कथंचिच्छरीरे सहभेदे सत्यमिहया  
 दीनां सपक्षिनी लीवाएव विवक्षिता ननु तदधिदितयरीराणीति सप्रदायो नच जीवानां सूक्ष्मत्व नोपपद्यते प्रत्येकमसत्त्वोयप्रदेयात्मकत्वेन तेषां सूक्ष्म  
 त्वस्यप्रतीतत्वादिति ह्यसूक्ष्मादीनामन्यतरैरेकेनाप्युदाहरणेन सिद्धम् किं प्रभूतोदाहरणभिधानेति चेत्कृत्य किंतु उभयगुणिसरूपविजातीय  
 सूक्ष्मवस्तुत्वाभिधानेनात्माद्य हेतवादनिरस्यति तथाभ्युपगमे सुप्तेतरादिव्यवहारोच्छेदे प्रसंगात्वेतमित्यादि निगमन स्याद्विस्त द्रव्यम्न धनिरूपणार्थं

सचिन्ते द्रव्यसुधेरे अग्नेगनिहे पशुत्ते तजहा ह्यसुधेरे उपसमखधे सेतं सचिन्ते द्रव्यसूक्ष्मधे सेकित अचि

परिणमवा यकी स्तन्व कश्चिदे इमज गजस्कन्धादिकने विषे समास करणो नवर किनरादिक विण व्यतरा विषेप तथा उभयकश्चिदे ह्यपभ तथा  
 क्लिष्टां एकेगत्यसूक्ष्मादिक यथा उदाहरण दीसेहे तैस्सुगम जाणवा नवरपशुपसय विष्णुगवानरखधे एहवो पाठदीसेहे तिष्ठा पशुकट्टियेवाग विषेप तथा  
 पशय क्लृष्टां चटयोना द्विपदपौपदजीव विशेष विष्णुग तेषयो स्तन्व गद्गप्रत्येकर विषे जाणवो दूल्हांसचित्त सूक्ष्मत्वनना अधिकारनेविषे परगार्थयक्कजीव  
 नासभेतन पणायकी अनेकेशे एत प्रकारे यरीर यकी भेदनथी तेभणी च्यादिक सबधिया लीवअजाणया पर शरीराशी ए सप्रदाय यने पुम  
 नथी जेजीवपैकन्व पणो युक्तइतमिने प्रत्येकर सर्व जीव यसख्यात प्रदेशीयाछे तेभणीतेचनेस्तन्व पणो प्रसिद्धे तेभणी दूल्हां प्रत्य च्यादिक एक उदा  
 हरणेश्वर्यानी सिद्धियाइ तोपणा उदाहरण किसाभणो कक्षा एहवोल्याए सत्यपर उत्तर साभलो जूजइ जातिगा जूजुषास्त्रानेक चिचिकरी आत्मा को

सुवृत्तान्तरेखि लिखितानि

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

माह से किंतमित्यादि अत्र निर्वचनं अचित्तद्वयसंबंधे इत्यादि अविद्यमानचित्तोऽचित्तं सचासौ द्रव्यसंबंधश्चेति समासः अयम् अनेकविधः प्रश्नस्तद्व्याख्यादि प्रदेशकसंबंध इत्यादि तत्र प्रकृतः पुद्गलास्तिकायदेशः प्रदेशः परमाणुरित्यर्थः द्वीप्रदेशौ यत्र सद्विप्रदेशिकः सचासौ स्तंधेऽद्विप्रदेशिकसंबंधः एवमन्य तापि यथा योगं समासः सेतमित्यादिनिगमनं अयं मित्रद्रव्यसंबंधनिरूपणायाहः सेकिंतमित्यादि अतोत्तरं मीशब्दसंबंधसेषणा इत्यादि सचेतनाचेतनसंकीर्णो मित्रः सचासौ द्रव्यसंबंधश्चेति मित्रद्रव्यसंबंधः कोसाधित्याह सेनायाहस्यखरथ पदातिसम्बाह खड्गकुंतादि ससुदाय क्षणायामाया अग्रस्कंधोयानौकमित्यर्थः मध्यमस्कंधोमध्यमानीकं पश्चिमस्कंधः पश्चिमानीकं एतेषु हि हस्त्यादयः सचिक्ता खड्गादयश्चिक्ता इत्यतोमित्रत्वं भावनीयमिति सेतमित्या

त्ते द्रव्यसंबंधेऽत्र अणेगविहे पणत्ते तंजहा दुपएसिए तिपएसिए संखिज्जपएसिए असंखिज्जपएसिए अणंतपएसिए सेतं अचित्ते द्रव्यसंबंधेऽत्र अणेग विहे पणत्ते तंजहा सेणा अणिसेखंधे सेणा

हेतवादनिरा कस्यो जेभणी आत्माहेतपयोमानता बंध मोक्षादिक सर्व व्यवहारनो उच्छेदयाद्दतेभणी सेतं तेएसचित्त द्रव्यसन्ध कस्यो सेकिन्तं अचित्त द्रव्यसंबंधं किंउते अचित्त द्रव्यसन्ध इतिप्रश्न इहां उत्तर अचित्त द्रव्यसंबंधेनयी चित्त जेहने तेअचित्त तेहज तेद्रव्यसन्धते अचित्त द्रव्यसन्ध तेअनेकविध प्ररूप्यो तद्वया तिहां पुद्गलास्तिकायनो प्रकृत जे देश प्रदेश इत्यर्थं विप्रदेशके तिहां तेद्विप्रदेशक तेहज तेसन्ध तेद्विप्रदेशिकसन्ध इम शब्दनो यथायोग्य समास करवो सेतं तेए अचित्त द्रव्यसंबंध अयमित्र द्रव्यसन्ध कहेके सेकिन्तं द्रव्यमित्रसंबंध अयकिंउते द्रव्यमित्रसन्ध इतिप्रश्न इहां उत्तर मीसएद्रव्यसंबंधे तिहा सचेतन अने अचेतननो एकठा पणो तेमित्र तेहिज जेद्रव्यसन्ध तेमित्रद्रव्यसन्ध ते अनेकविध प्ररूप्यो तद्वया सेना नोआगलोबंध

दिनिगमने तदेवमेकेन प्रकारेण तद्यत्तिरिक्तो द्रव्यस्तथ प्रकृपितो अथतमेव प्रकारांतरेण प्रकृपियितुमात्रं अथवा जाणगोत्यादि अथवा अन्येन प्रकारेण शरीर भव्यशरीर व्यतिरिक्तो द्रव्यस्तथ क्विविप्रकृतं साद्यथाकृतस्तस्तथ धोमेकं द्रव्यस्तथस्तथाद्युमेदं निरूपणार्थमात्रं सेकितमित्यादि अतोऽपि रससिणस्तथ इत्यादि वखादन्यो वृत्तस्तथ धो नास्ति अकृतस्तपरिपूर्णस्तथ अकृतस्तथ धो कथमित्यात्र सेवेत्यादि एतेषु उच्यते इत्यनेनोच्यते इत्यादि स्तथ अकृतस्तथ अत्र यद्येव प्रकारांतरत्वमस्ति च सचितस्तथ तदैव प्रागुच्यते अकृतस्तथ धो अस्ति इति उच्यते इत्यादि इत्यनेन एवोक्तं इत्थं जीयतद्विहितं शरीरावयवकणश्च समुदाय अकृतस्तथ त्वेन विवचयित इत्यतोभिधेयमेदास्ति च प्रकारांतरत्व यद्येव तद्विद्वत्यादि स्तथ अकृतत्व नोपपद्यते तदा पेक्षया गजस्तथ इत्येव च शरीरावयववत्त्वम् एतेषु प्रदेयात्मको जीवसादृशताश्च शरीरावयवता इत्येव लक्षणं

एतच्चभ्रमेवुधे सेणाएपच्छिमेखधे सेत मीसए द्रव्यखधे अथवा जाणयसरीर भवियसरीर वद्वित्तं द्रव्यखधे तिविहे

सेनापो पीचलोपध सेनानो पाच्छलोपध ते एणीपरे एक प्रकारे द्रव्यस्तथ प्रकृपो तेजिन वली प्रकारे प्रकृपवा भव्यो कहेते अथवा कवतां अन्येरे प्रकारे जाणयसरीर भव्यशरीर व्यतिरिक्तस्तथ विड भेदे प्रकृपो तद्यथा अकृतस्तथ अकृतस्तथ अनेक द्रव्यस्तथ तेषां आदि भेद कहेते सेकित्त अथकिरु तैकृतस्तथ इति प्रत्य इत्थं अन्तर इत्थं अन्तरे कसिणपन्थे अथकी अन्येरो मोटोस्तथ नयो तैकृतस्तपरिपूर्णं अस्तथ तैकृतस्तथ तैकृत तेकृते तेथिन अपूर्णेक वयादिस्तथ तैकृतस्तथ कश्चिये इत्थं प्रत्य जी इमतो प्रकारान्तरपणोयुक्तं न वते अेभणी तैसचित्त स्तथज सज्जान्तरे कश्चो परप्रकारान्तरकाइ न इतो तैमणी इत्थं अन्तर एमेरणा अयुक्ती अेभणी पूर्वं सचित्तस्तथ द्रव्यना अधिकारथकी शरीरपकी भिन्न अणुतो जे बुद्धिइ करो शरीर थकी असागोशरीने जीवजने सचित्त द्रव्यस्तथ कश्चो अन्ये इत्थं जीव अधिहित शरीरस्तथनो अथयवरूप समुदाय अकृतस्तथपणेविवक्ष्यो एत्थया अर्थना

॥ अथ जाणगोत्यादि अथवा अन्येन प्रकारेण ॥

अनु टी० १०२ धर भाषा

समुदायो ह्यादि स्खंधलेन विवक्षितो जीवस्य वासं ख्येयप्रदेशात्मकमया सर्वत्र तल्यत्वाद्गजादिस्खंधस्य दृष्टत्तरत्वमसिद्धं यद्विह जीवगदेश पुद्गलसमुदाय सामस्तेन बद्धं त तदास्याद्गजादिस्खंधस्य दृष्टत्वं तच्चनास्ति समुदाय दृष्टप्रभावात्तस्यादितरेतरापेक्षया जीवप्रदेशपुद्गलसमुदायस्य हीनाधिक्याभावात्सर्वेपि समुदायादिस्खंधः परिपूर्णत्वात्कृतस्खंधः अन्ये तु दर्शयित्वात्कृतस्खंधविचारे जीवतद्विहितशरीरावयव समुदायः सच्चित्तस्खंधोत्तगुशरीरात्बुद्ध्याष्ट्यगुत्तय जीवएव केवलः कृतस्खंध इति व्यत्ययंथाचलते अतवथाख्याने प्रथमेवनास्तिहयगजादि जीवानां प्रदेशतो हीनाधिक्या भावेन कृतस्खंधत्वस्य सर्वेताविरोधादित्यलं प्रसंगेन सेत्तमित्यादि निगमनं अथाकृतस्खंधनिरूपणार्थमाह सेकितमित्यादि अतोत्तर शकसिण खंधो सचेत्यादि न कृतस्खंधो

पणत्ते तंजहा कसिणखंधे अकसिणखंधे अणेगद्वियखंधे सेकितं कसिणखंधे शेचिव हयखंधे गयखंधे जावउ

भेदधी प्रकारान्तर पणोयुक्ते घटतो जाणवो वली इहां प्रश्न को इमच्छे तो ह्यादिस्खंधने कृतस्खणो युक्तसंभाने न मिले जेभणी ह्यादिकस्तन्वनी अपेक्षा इंगजादिकस्तन्व मोटोच्छे तेभणी इहां उत्तर ए प्रेरणा अयुक्ती जेभणी असंख्यात प्रदेशियो जीवच्छे अनेतद्विहित शरीरना अवयवच्छे तेविच्छंमिली समुदायरूप ह्यादिकस्तन्व पणेविवक्षुं ते जीवना असंख्यात प्रदेशियापणाना सगले तुल्यपणायकी गजादिकस्तन्वनोमोटापणोयुक्तिन मिलेजे जीवना प्रदेश अने पुद्गलनो समुदाय ए विच्छं मिलीने गजादिकस्तन्वनो मोटापणोनीपनो जेभणी समुदायनी दृष्टिनथी तेभणी परस्परनी अपेक्षाए जीव यने पुद्गल समुदायनाचीनाधिक पणाना अभावयकी ह्यादिकस्तन्वना परिपूर्णपणायकी कृतस्खन्व जाणवा तथा अनैरा आचार्य पूर्वला सच्चित्तस्तन्व नाविचारने विषे जीव अने तद्विहित शरीरावयव समुदाय रूप सच्चित्तस्तन्वकहे अने इहां बुद्धेकरी अलगोकरी एकलो जीवज कृतस्खन्वकहे इम विपरीत भावे अर्थ वयाणो एख्याख्याने मेले इहां प्रेरणानी नास्तिथाइ जेभणी ह्यादिक जीव प्रदेशेकरीचीनाधिक नथी तेभणी कृतस्खणो







द्रव्यस्त्वद्रति अथभावस्त्वन्धिरूपणार्थमाह सेकित्तमित्यादि अतोत्तर भावखधेदुविहेत्यादि भावधासीस्त्वन्ध भावस्त्वन्ध भावस्त्वन्ध भावस्त्वन्धोभावस्त्वन्ध  
 सप्त द्विविध प्रकृत सद्यथा आगमतश्च नोआगमतश्च तत्तागमत स्त्वन्धपर्यार्यस्र साताचोपयुक्त सादुपयोग वाङ्मावस्त्वन्ध नो आगमतस्तु एतेयमेव प्रस्तु  
 तावद्व्यभेदानां सामाधिकारीनां पणामध्ययनानां समुदाय सचेतेषां विशकलितानामपि तथाविध देवदत्तादीनामिषस्यादतउच्यते समुदयस्य समिति  
 नैरतयेणमीक्षना साधनैरतर्वावस्थापिता च शिलाकानामिष परस्परानरपेक्षाणामपिस्यादतउच्यते तस्यासमुदयसमितेयं समागम परस्पर सवष्टतया

वतिरिति द्रव्यत्वे सेत नो आगतो द्रव्यत्वे सेकित्त भावखधे दुविहे पणत्ते तजहा आगमतोश्च नोआगमतोश्च  
 सेकित्त आगमतो भावखधे १ जाणए उवउत्ते सेत आगमतो भावखधे १ एएसिचैव

अचेतन द्रव्य तेष्टने अनेकस्त्वन्धपर्युर्जाणयो ए विगेषण्णे इत्यल विसारेण सेतं तेए अनेक द्रव्यस्त्वन्ध सेत तेए जाण्यगयरीर भव्य गरीर व्यतिरिक्तद्रव्य  
 स्त्वन्ध सेत तेएनो आगम यकी द्रव्यस्त्वन्ध सेततेए द्रव्यस्त्वन्धकल्लोसय भावस्त्वन्ध कहेहे चेकित्तपयकिउ तेभावस्त्वन्ध इति प्रत्र द्रव्हां उत्तर भापख धे इहा  
 भाष तेष्टज जेस्त्वन्ध तेभावस्त्वन्ध अथ भाव आथी जे स्त्वन्ध तेभावस्त्वन्ध तेविह्व भेदे प्रकृत्यो तद्यथा आगमत अनेनो आगमत' तिहा आगम यकी भाव  
 स्त्वन्ध ते जेस्त्वन्धपर्यार्य जाणे अने तेष्टने विघे उपयुक्त तेउपयोग सवाते एक पणा यकी भावस्त्वन्धकल्लिये अने नो आगमयकी तेएष्टज सामाधिकारिक  
 अथयननो समुदाय ते समुदाय जूज्जा येगला रखांतु मणि ऊइ तेभणी विघेप कहेहे तेसमुदायनी जे समिति कहतां निरतर पणो मिलयु तेवली  
 मिरत्सरपणे खापीखलीनी परे परस्पर माओमांइ जूज्जा पणियाइ तेभणी वली विघेप कहेहे जे समुदायनो समितिनो समागम कहतां परस्पर





पुत्र्याहिलचणः समुद्राचार्यः प्रतिपादितो भवत्येवमनायासात्कथुतस्मथ इति सातयसामन्तना देवापस्यं हरणीयं सापद्योगिरिभारिं । अनादिभिः  
स्यत इति समुद्राचार्यः प्रतिपादितो भवति गतउर्ध्वं पुनरेकैकमथयनं कीर्तिविज्ञानि भण्ड्यानीति गायार्थः तत्कीर्तनार्थमेवात्र तद्युग समादिने  
चतुर्विंशतिसुगो यन्दनं प्रतिकमर्णं त्तयोर्जर्गं प्रत्याख्यानं ततायुनन्तरोद्विष्टेयु पट्टसुष्ययनेयु गये प्रयममाद्यमथयनं समादिनें व्यापुत्र्याभ्यामस्मिनिः  
शेषवरणादिगुणाधारत्वेन प्रधानमुक्ततारणताएतं च सामाधिकं गुणाना माभारः स्वमित्तमं तापानो जति सामाधिकीना वरणादिगुणान्नितादेनः  
तस्मात्तुगानु सासादिगुणैः निरूपणोपायं गरीरमानपानेक एवनागम्य मोक्षस्य अमोभोपांदाभिकमथयनं भाषणमथयनं प्रपदती इत्यमान

त्यचोर्वंदरायं पंडिकमर्णं काउसर्गो पञ्चनलागं तत्यपट्टसं यउभयदं सामादरं तस्यगं इमे चतारि यगुउंगदारा

प्रम इवा यपय्यक युतस्मथ एवयुं खे गुण संपन्न नाम तेनामना कश्चित्पयी आगुदरणीय इया भाषययोग विरच्यदित इत्यु इवा मोक्षोसे  
एवयुं समुद्राचार्यं कर्णं अद एता ए उपरान्त यनीएकेता अययन कीर्तिया भण्म्यो इति गालार्थे इति त्रेनीतमिने अर्थेकते हे सामादिकः  
चतुर्विंशतिला २ पंडनक ३ प्रतिकमर्ण ४ कार्योर्जर्ग ५ प्रत्याख्याने ६ तत तित्वा पूर्वोक्त अर्थमने विने अयम अययन सामादिक एतयो पयम  
यद्युग एतलापणी कर्णं धोभणी सामादिक ममसा गुणगो आकारेहे अने त्रैलज्य पयान मोक्षोहारणहे जेभणी अयम वरण्य कलो उत्तय  
सामादिक गुणाना सापारग्यसिासंभयातना कश्चिादि गुणान्नितायेन १ तन्नाञ्जगाः अगपयु सामादित्तिय निरूपणेऽप  
यगरीरमानानेत्स्य इगनागम्य मोक्षस्य २ तित्वा अययन यदार्थे स विद्वर आग ३ कश्चित्पयी अने भासादिक ४ ग-मर्णं जे छुं अने आयानी ५ वरे  
देहे रागहेप रचित जीवने मम कश्चित्पये तेहेने सा ६ कथता सुगये २ अनादिगुणान्निता कश्चित्पये ऐभणी यमनेना

पसु टी०

११२

सुत

भाषा

अनु टी०

११३

सुत

भाषा

ग्रन्थार्थ सामायिकमित्यत्र य सर्वभूतान्यात्मवत्प्रकृत्यति सरागहेपधियुक्त समस्तस्याय प्रतिक्षण श्रानादिगुणोत्कर्षप्राप्ति समाय सामायियति क्षणमपूव्ये श्रानदर्शने चरणपर्यायेर्भवाटवी भ्रमणहेतु सको गविच्छेदकै निरूपमसुखहेतुभि सयुज्यते समये प्रयोजनमस्याध्ययनस्य श्रानकियासमुदायरूपा स्येति समाय ते एव सामायिक तस्य सामायिकस्य णमिति वाच्यपालकारे इमेति अर्थेति वक्ष्यमाणलक्षणानि चत्वार्यनुयोगद्वाराणि भवन्ति तत्राध्यय

यण सामादय तस्यण इमे चत्वारि अणुश्रोगदाराभवति तजहा उवक्कमेरु गनिकवे वेरुअणुगमेरु नएरु सेकित उवक्कमेरु छ्विरिपणुत्ते तजहा शासोवक्कमे ठवणोवक्कमे दब्बोसक्कमे खे तोवक्कमे कालोवक्कमे भावोवक्कमे नामठवणुओ गयाओ

जेगुण तेसमयेर अपूर्वज्ञान दर्शन चारित पयाय भवाटवी भ्रमण हेतु कोयना छेदणशारा निरूपम सुखना कारण तेरुसु सुत ऊइते भणी पछे वनो इम अर्थ करीये तेमोटा प्रयोजन कइता फलये जे अध्ययनो तेसामायिक अध्ययन कइये अथवा समाय कइये तेरुज सामायिक इशाकरण प्रत्यय क्षणव तस्य तेसामायिकनाण वाक्पालकारे इमेजे प्यागम कइयेछे प्यार अनुयोगदारे तिहा अध्ययनार्थ कइवानी जे विधि तेचनुयोग कइये तथामणपुरता हारनी परे जे द्वार सामायिकने अनुयोग कइता वपाणयाने अर्थे जेद्वार तेचनुयोग द्वार कइये इहा आचार्य नगरनो दृष्टान्त वर्णये जिमद्वार रहित नगर मध्ये नीकल्यो पेठो नजाइ तथा एकद्विनिष्णहारनो नगरपणि दुरधिगम ऊइ अने प्यारिहारनो नगर सुखादिगम ऊइ सामायि काथयन रूपियो नगरपणि अर्याधिगमना उपयवहारविना दुरधिगम जोइ तथा एकादिक द्वार सहित पणिदुरधिगम ऊइ अने प्यारिहार सहित सुखाधिगम ऊइ एतला भणी प्यारिहारनो ग्रहण कयो छिये। कियो तेद्वार तेकहेछे अपक्कमेत्यादि तिहा उपक्रम कइता दूरथी वसुने तेणेर



नार्थशयनविचित्रयोग हाराणीवहाराणि सामाविकस्यानुयोगार्थं व्याख्यानाथं हाराण्वनुयोगहाराणि अत्र नगरहठान्तं वर्णयन्त्याचार्या  
 यथाशाश्वतानगरमनगरमेव भवति निर्गमप्रवेयोपाया भावतो नधिगमनीयत्वात् इतैकहिकादिद्वारमपि दुरधिगम कार्यातिपत्तये च भवति चतुश्च  
 द्वारे तुमनिहाराणुगत सुखाधिगमकार्याप्रतिपत्तये च सपश्यते एव सामाविकदुरस्यार्थोधिगममायहारन्त्यमयाक्वधिगमस्यादेकादि द्वारानुगतमपि  
 दुरधिगमं भवेत्प्रभेदचटुद्वारानुगतन्तु सुखाधिगम भवत्यत्र क्लृप्तासदधिगमार्थो द्वारोपन्यास कानि पुनसान्नीति तद्दृग्नाद्यमात्रं तद्यथेत्यादि ततोप  
 लमण दूरस्यस्य वस्तुनसौ सौ प्रतिपादनप्रकारै समीपमानीय निक्षेपयोप्यताकरणमुपक्रम उपक्रान्तं सुपक्रमान्तर्गताभेदैर्विचारितं चि निक्षिप्यते ना  
 स्यायेति भाव उपक्रम्यतेवा निक्षेपयोग्यं क्लियतेनेन गुरुवाप्योविनेत्युपक्रम अथवा उपक्रमते अस्मिन् शिष्य अमणभावे सतीत्युपक्रम अथवा उपक्रमस्यत  
 व्याहृतीतविनेय विनयादित्युपक्रम विनेयेनाराधितोचि गुरुनिक्षेपयोग्यं सास्य करोतीति भाव तदेव करणाधिकरणपादानकारकैर्गुरु श्वाख्योषादयो  
 भेदज्ञोक्ता यदित्येकोप्यन्तरोर्यं करणादिकारकवाच्यत्वेन विवक्ष्यते तथापि न होय एव निक्षेपेण शास्त्रादेर्नामस्यापनादिभेदे व्यासन्न व्यपस्थापन निक्षेप  
 निक्षिप्यते नामादिभेदैर्यं वस्थाप्यते अनेनास्मिन्नस्मादिति या निक्षेप वाक्यार्थविषया तथेव एवमनुगमन सूत्रस्यानुगमनस्यार्थकथनमनुगम अथवानुगम्यते  
 व्याख्यायते शत मनेनास्मिन्वस्मादिति वासुगम वाक्यार्थविषयातथेव एव अनुगमन नयोनीयते परिक्षिप्यते अनेनास्मिन्नस्मादिति या नय सर्वतानन्तधर्मा  
 ध्यामिने वस्तुन्येकागपाचको बोध इति अर्थ अत्र चोपत्तांतसेय निक्षेपयोग्यतामानीतमेव निक्षिप्यत इत्युपक्रमानन्तरं निक्षेप उपन्यास नामादिभेदेर्नि  
 क्षिप्तमेव वासुगम्यत इति निक्षेपानन्तरमनुगम अनुगम्यमानामेष न यैर्विचारितोनाम्ययेति तदनन्तरं नयइति यथोक्तकामणोपन्यास फलवानिति ततो  
 पक्रमो विधा गाक्षीय इतरस्य लोकप्रसिद्धं तत्रैतराजिगिष्यया प्राण संकित्त उपक्रमे उच्यक्रमेण्विहेपक्षे इत्यादि अत्र कश्चिदेव हृष्यते उच्यक्रमे दुविहेप



तेषां वेदवंगानां विटंबका विद्रूपका नानाविधाकारण इत्यर्थः तेषां कण्ठगानां प्रतीतानां परगानांति सवगा ये उत्सवन्ति गच्छीदिकं  
 कृपाभिर्लक्षयन्ति नद्यादिकं वा तरन्ति तेषां लासगानांति लासकाये रासकान् गायंति तेषां जयगद्गप्रयोक्तारणां वा भण्डानामित्यर्थः शायंशुगानांति  
 येसुभाशुभमाख्यायंति ते आख्यायका खेषां लंघनांति ये महाशंभुगानामारोहन्ति श्लेषां सोपां संगानांति ये चित्रपटादिकशासिनां चरन्ति ते मंषा  
 सोपा दृशांति हवाभिधान वाद्यविशेषतां तुं वीणाशास्त्रज्ञानां कानोत्तानांति काण्डि वाद्यज्ञानां सागशांति संगलपावतानामिषां  
 सर्वेषामपि यद्दृष्टाद्युपयोगेन बलवर्णोदिकरणं यर्णस्कन्धार्थं नादिक्रियावास परिकर्माणि सुचित द्रव्योपक्रमः यस्तु सक्तादिभि रेषां नाशए षोपक्रमस्यते  
 सम्पाद्यते सर्वस्तु नागे सचित द्रव्योपक्रम इति वाक्ययोगः अन्येऽपि गानां गन्धर्वनृत्यादिकलासम्पादनसपि परिकर्माणि द्रव्योपक्रम इति व्याचक्षते एतच्चा

**सुष्ठियाणं वेदवंगानां कर्तव्यगानां लासगानां पवगानां आद्रक्वगानां लंघनां मंषाणं तुंगद्वाराणं तुं वीणागानां कायागं**

द्रव्योपक्रम कर्तव्ये तेऽसु सुचित द्रव्योपक्रम एके तन्नाभिभेद कक्षा तेभ्योपवानी दृष्ट्वा कहेके चेत्किनां दृष्टांततर इत्याणतिश्वा नाटकना नवावणशर ते  
 नाटक कर्तव्ये तेऽसु उपक्रम इम सगले संबंध कर्तव्ये तथा नावणशराना तेनर्त्त क कर्तव्ये जज्ञते वरतने धिये येनेते अथवा राजानामोत्तना भणनशर  
 तयामत्र तेऽसिद्ध जेसुठीकरी प्रशरदीये तेसुठिक सन्ननीज विगेष तथावलंबणाणं विडंरक्तेविद्रूपता नानानियमा करणशर इत्यर्थः तथा कथक तेऽथा  
 नाकणशराना प्रसिद्ध तथास्यकते जेगर्त्तदिकने उत्रंये अथवा नद्यादिकनेतरै तथा लामक तेऽसामगार अथवा जेअथलय शब्द प्रदंजन करेते भांड तथा  
 आद्रयग तेऽजे ज्योतिषनिमित्तने यने शुभाशुभ कहे लाकोतादिक तथालंघ तेषां मंषां गानेषिषे चढीने ऐनेतयामंष तेषां कान्दिवरे गोपालानी जाति  
 ना इत्यर्थः तथादूग इत्याणति तुंगवाजित विगेष तुं वीणागानांति कान्दिवराणां तथासागशांति ते जेसद्रल भणे

शुक्त विज्ञान वियोगालक्षणागाक्षादि परिज्ञानस्य च भावत्वादिति अथवा यद्यत्कञ्च द्रव्यसंस्कारमात्रापेक्षया शरीरवर्णादिकरणवदित्यस्य च ते तर्ह्येतदप्य बुटमेवेति चेत्तमित्यादि निगमन अथ चतुष्पदानां द्विविधमप्युक्तमविभण्णिषु राष्ट्रं चैकितमित्यादि अत्र निर्वचन चतुष्पदाणां आसाण ह्युद्योगमित्यादि अत्रादय प्रतीता एव एतेषां शिष्या गुणविगोपकरण परिकर्मांश्चि चङ्गादिभिस्त्वेषां नायोपक्रमण वस्तुनामे सचित्तद्रव्योपक्रम इतीशानि वाक्ययोगे चैकमित्यादि निगमन अथापदानां द्विविधमप्युक्तम विभण्णिषु राष्ट्रं चैकितमित्यादि अत्र निर्वचन अथाण अथाण चारगणमित्यादि इष्टान्वाहयो देयप्रतीता एव नवर चारणति येषु चारकुत्तिका उत्पद्यन्ते ते चारबद्धा आम्वादिशब्दाश्च ह्येषासात्फलानि वा गृह्यन्ते तत्र ह्येषाणां ह्येषासुबंदोपदेया

सागहाण सेतं दुपएउवक्कमे सेकित चउप्पए उवक्कमे चउप्पयाण आसाण हत्थीणं इच्चादि सेतं चउप्पय उवक्कमे से कित अप्पए उवक्कमे अप्पयाण अथाण अत्राडुगाण इच्चाइ सेत अप्पयउवक्कमे सेत सचित्तद्रव्योपक्रमे सेकितं अचित्तं

एगत्रा सगहाण जे हत्तादित्त उपाये करी वलवर्णादिकतो करवो अथवा कान पांधादिकनो धारयो ते परिकर्मने विपे सचित्त द्रव्योपक्रम जाणवु अने जे एउगणदिके करी एउनो नाग उवक्कमि ते वस्तुने सचित्त द्रव्योपक्रम कश्चिये ए गेपवाण जाणवु इष्ठां अनेरा वली इम वदोणे छे गधर्वं इत्यादिक कस्यण सीपवु ते परिकर्मने विपे सचित्त द्रव्योपक्रम कश्चिये ए व्याख्यान अयुक्त जाणवो जे भणी यास्सादिक कलानो जाणवु ते विज्ञान विगोपरूप छे अने जेविज्ञान विगोपसो भाव कश्चिये तेभणी अयुक्त अथवा जेषालाना संस्कारमातनी अपेक्षायै शरीर वर्णादिकनी परे इम शीलिये तो ए व्याख्यान परिण निर्देय जाणवु येत निगमन अथ चतुष्पददिपद उवक्कम कहे छे असाण हत्थीण इत्यादि अच्चादिक प्रतीत चैकिएणकु सिद्धा दिरुण सचित्त

शुक्त विज्ञान वियोगालक्षणागाक्षादि परिज्ञानस्य च भावत्वादिति अथवा यद्यत्कञ्च द्रव्यसंस्कारमात्रापेक्षया शरीरवर्णादिकरणवदित्यस्य च ते तर्ह्येतदप्य बुटमेवेति चेत्तमित्यादि निगमन अथ चतुष्पदानां द्विविधमप्युक्तमविभण्णिषु राष्ट्रं चैकितमित्यादि अत्र निर्वचन चतुष्पदाणां आसाण ह्युद्योगमित्यादि अत्रादय प्रतीता एव एतेषां शिष्या गुणविगोपकरण परिकर्मांश्चि चङ्गादिभिस्त्वेषां नायोपक्रमण वस्तुनामे सचित्तद्रव्योपक्रम इतीशानि वाक्ययोगे चैकमित्यादि निगमन अथापदानां द्विविधमप्युक्तम विभण्णिषु राष्ट्रं चैकितमित्यादि अत्र निर्वचन अथाण अथाण चारगणमित्यादि इष्टान्वाहयो देयप्रतीता एव नवर चारणति येषु चारकुत्तिका उत्पद्यन्ते ते चारबद्धा आम्वादिशब्दाश्च ह्येषासात्फलानि वा गृह्यन्ते तत्र ह्येषाणां ह्येषासुबंदोपदेया

शुक्त विज्ञान वियोगालक्षणागाक्षादि परिज्ञानस्य च भावत्वादिति अथवा यद्यत्कञ्च द्रव्यसंस्कारमात्रापेक्षया शरीरवर्णादिकरणवदित्यस्य च ते तर्ह्येतदप्य बुटमेवेति चेत्तमित्यादि निगमन अथ चतुष्पदानां द्विविधमप्युक्तमविभण्णिषु राष्ट्रं चैकितमित्यादि अत्र निर्वचन चतुष्पदाणां आसाण ह्युद्योगमित्यादि अत्रादय प्रतीता एव एतेषां शिष्या गुणविगोपकरण परिकर्मांश्चि चङ्गादिभिस्त्वेषां नायोपक्रमण वस्तुनामे सचित्तद्रव्योपक्रम इतीशानि वाक्ययोगे चैकमित्यादि निगमन अथापदानां द्विविधमप्युक्तम विभण्णिषु राष्ट्रं चैकितमित्यादि अत्र निर्वचन अथाण अथाण चारगणमित्यादि इष्टान्वाहयो देयप्रतीता एव नवर चारणति येषु चारकुत्तिका उत्पद्यन्ते ते चारबद्धा आम्वादिशब्दाश्च ह्येषासात्फलानि वा गृह्यन्ते तत्र ह्येषाणां ह्येषासुबंदोपदेया

हावैषादिगुणानंतलानां त गतं प्रक्षेपसोत्युपलालस्यगनादिना आश्लेषपाकादिकरणं परिकर्मणि यस्मादिभिसु मूलत एव विनायनं वस्तुनाये स  
 चित्तद्रव्योपक्रम इत्यत्रापि वापयणेप; सेत मित्यादिनिगमनद्वयं यथाचित्तद्रव्योपक्रम विवक्षुराह सेकितं अचित्तद्रव्योपक्रमे इत्यादि खंडादवः प्रतीता एव  
 नवरं मच्छं डीखंडयकैरा एतेषां खंडाद्यचित्तद्रव्याणां उपाय विधेयतोमाधुर्यादिगुणविधेयतरणं परिकर्मणि सर्वथा विनाशकरणं वस्तुनाये अचित्त  
 द्रव्योपक्रम इत्यत्रापि वापयणेप; सेतमित्यादिनिगमनं अथ मित्र द्रव्योपक्रमस्य सेतितमित्यादि स्यासकोऽप्याभरण विधेयः आदर्शस्तु ह्यपभादिगीया  
 भरणं आदिशब्दात् कुंजुमादिपरिगच्छं ततश्च तेषामशब्दादीना कुंजुमादिभिर्मण्डिताना स्यासकादिभिल्ल विभूषितानां यच्छ्रियादिगुणविधेय

**द्वोवक्रमे खंडाईणं गुडाईणं सेतं अचित्तं द्वोवक्रमे सेकितं मीसए दकोवक्रमे १ साचेव घासगमंडिए आसाइ**

करणा सेकितं उत्तर अपयाणं इहां आयादित्त प्रसिद्धज छे नवरं चारणान्ति जेहने विभे चार उली उपजे तेचार ह्ये कश्चिये इहां आवादिक्र शब्दे  
 तेहना ह्येफन फल्लेया तिहां ह्येवाउाईना उपदेगयो सोटपणादिन गुणनुं करवुं तथा तेहना फल्लने स्याउादिकने विधे कोद्वय फलादिके आशा  
 दीने यो प्रपाचवादिकतुं करवुं तेपरिकर्मने विधे अने यस्मादिके करी मून वी एहनां विनागनुं करवुं तेवस्तुनायने िधे सचित्त अपद द्रव्योपक्रम  
 कश्चिये ए शेपवाक्य अथ अचित्त द्रव्योपक्रम देयाडेछे सेकितं इत्यादि सुगमं नवरं मच्छं डी तेसाकर एतला खंडादिक द्रव्यना मधुरादिक गुणविधेय  
 उपाययो जे करवुं तेपरिकर्मने विधे अने संयथा विनाग करवुं तेवस्तु विनाग विधे अचित्त द्रव्योपक्रम जाणवु इति वाक्येयप सेतं समाप्त अथ मित्रद्रव्यो  
 पक्रम कहेछे सेकितं मित्यादि सुगमं इहा स्यासग कचता अश्वना आभरण विधेय तथा आदर्शं ते ह्यपभादिनागलातुं आभरण आदिगच्छ वी कुंजु  
 आदिकलीजे तेअश्रादिक एउकपर्यन्त लगे जिम कुंजुमादिके करी मांयाउडय अने आभूषणादिके करी विभूषणाउडय तेहनुं जेगिच्छादिक गुण विधेयनुं

करण षष्ठादिभिर्विनागो वा समिच द्रव्योपक्रम प्रतिशेष आम्नादीनां सचेतनत्वात् हां सलाहीनामचेतनत्वात् मित्रद्रव्यात्मिभ्रभावनीय अत्रवसच्चिप्रतरा अपि याचना विगेषा दृश्यते तेषु नातुसारेण भाषनीया सेतमित्यादि निगमन षटुष्टय उत्क्रो द्रव्योपक्रम इत सेतोपक्रममभिधित्सुराच सेकितमित्यादि सेतस्योपक्रम परिकर्मविनायकरण सेतोपक्रम सक इत्याच खेत्तोवक्रमे जण हलकृलियोष खेत्नाइ उवकाभियतिस्त तत्र हल प्रतीत अधो निषहृ तिर्यक्तीच्छ नोषपट्टिक कुलिक लघुतर काट लपादि छेदार्थं यत् सेतोबास्थिते ततमरुमडलादि प्रसिद्ध कुलिकमुच्यते ततश्च यदत्र हलकृलिकादिभि खेत्वाण्युपक्रम्य ते वीजवपनादि योग्यतासानीयते सपरिकर्मणि सेतोपक्रम आदिश्रयज्ञजे द्रवधनादिभि खेत्वाण्युपक्रम्य ते विनाय्य ते सवसु नाये

सेतमोसए दन्वोपक्रमे सेतजाणयसरीर भविअसरीर वतिरित्ते दन्वोवक्रमे सेत नो आगमतो दन्वोवक्रमे सेत दन्वोवक्रमे सेकित खेत्तोवक्रमे जण हल कुलिशार्इहि खेत्नाइ उवक्रमिच्छ ति सेत खेत्तोवक्रमे सेकित कालोवक्रमे ३ जण नालि

कारु तैपरिकर्म विषय अनेषडगादिके करी एषना विनायतु करु तेवस्तु विनाय विषे मित्रद्रव्योपक्रम कश्चिये एयेप वाथ्य इहां आयादिकाना सचित्त पणाथी अने आभूणादिकाना अचेतन पणाथी मित्रद्रव्य पणौ भावतु इहां अति सजेपवाचनाना विशेषदीसेछे तेपण कक्षाने अमुषारे जाणना सेत समान एतो प्यार द्रव्योपक्रम यपांथा शिषे सेतोपक्रम कहेछे सेकित अर्थकिउ तेसेतोपक्रम इहा उत्तर सेतोपक्रमे सेततु जेउपक्रमतु कहतां परिसर्य अनेविनासुनो करु तेजेतोपक्रम कश्चिये तेकिउ तेकहेछे तिशा इलते प्रसिद्ध तथाटणादिक छेदवाने अर्थे सेतने विषे जेवाहिये तेमरुदेशादिक प्रसिद्ध कुलिक कश्चिये तोजे तेइकुलिका करी सेत उपक्रमीइ कहतां वीजययायोग्य करिये तैपरिकर्म सेतोपक्रम कश्चिये आदिश्रय्ययी इस्यादिकने यांधये

सर्वत्रानुसारेण सर्वत्रानुसारेण

चेतनोपक्रमः गजेंद्रसूत्रपुरीषादिवेदेषु चेतनेषु बीजानामप्ररोहणाहिनष्टानि चेतानि इति व्यपदिश्यंते आह यद्येवं चेतगत प्रथिव्यादि द्रव्याणामएतो परिकर्मविनाशो इत्यं च द्रव्योपक्रम एवायं कथं चेतनोपक्रम इति सत्यं किंत्व चेतनमाकासं तस्यचामूर्त्तत्वात् मुख्यतेह्योपक्रमसंभवति किंतु तदाधेय द्रव्याणां प्रथिव्यादीनां यः उपक्रमः सचेत्त्रेपि उपचर्यते दृश्यतेच अधियधर्मोपचारात् आधार उक्तं च चेतनमरूवंनिच्चंतस्य परिक्रम्याणंनयविशासो आह्येगयवसेणउ करणविशासोवयारोत्य इत्यादि सेतमित्यादि निगमनं इदानीं कालोपक्रमसूत्र कालोद्रव्यपर्यायं सएव द्रव्यपर्यायो चित्तकामणिवत्स ललितरूपान्ति द्रव्योपक्रमाभिधाने कालोपक्रम उक्त एव भवति अथवा समयवलयमञ्जते त्यादिरूपस्य कालस्य स्वतंत्रमेवोपक्रममभिधित्सुराहः सूत्र

**आद्रिंहिं कालसोवक्रमणं कौरद्र सेतं कालोवक्रमे सेकिंतं भावोवक्रमेर् दुविहे पणत्ते तंजहा आगमतोअ नो आगम**

करी चेत उपक्रमीद्र कहता विशासीये तेवस्तुनाय चेतोप्रक्रम कहिद्र तिहा गजेंद्र सूत्र पुरीषादिके करी वत्या जेचेत तेवीजादिकना अणजगवाथी विणठा चेत कहिये इहां प्रअ जो इम चेतने विषे रक्षा द्रव्यनाज परिकर्म विनाश होय इम करतां तो एद्रव्योपक्रमज ऊउं चेतोपक्रम किम कहिये इहा उत्तर ए प्रअ सत्य पर चेत कहिये साकाश तेतो अमूर्त्तके तेभणी तेहना अरूपी पणाथी मुख्यरूपे उपक्रम संभवे नही किंतु ते चेतना जेअधिव द्रव्य प्रथव्यादिक तेहनो उपक्रम तेचेतनेविषे पणि उपचारहोय एतले अधियने विषे आधारनो उपचार कारवाथी चेतोपक्रम कहिये उक्तं च खेतनमरूवंनि चंतस्य परिक्रम नय विशासो आह्येअ गयवसेणउ वरविशासोवयारोत्य ? सेतं तेए चेतोपक्रम हिवे कालोपक्रम कहियेके तिहांकालते निश्चये द्रव्यसुं पर्यायज कहिये अने द्रव्यपर्याय तेकावरीमणिनी परे तथा चित्तपापना पतंगीयानी परे माहो माहि एकमेकथइ रक्षाके तेभणी तेद्रव्योपक्रमना कहिवा ने विषे कालोपक्रमज कर्त्तुंके अथवा समयवलय सुञ्जता इत्यादिरूप व्यवहारनो उपक्रम निरुपचाररूपपणि ऊइ तेसूत्रकार कहेके सेकिन्तं अथ किंसुं

कार सेकितमित्यादि कालस्थोपक्रम कालोपक्रम सकइत्याच जण नालियाइइ कालसोउपक्रमण णामिति यावत्कालकारे यद्विच नालिकादिभिरा दिग्बदात् तृणणांश्च नक्षत्रचारादि परिग्रहसौ कालउपक्रम इति शेषे तत्र नालिकातान्त्रादिमय वटिका तृणसफुष्पाद्यादिना या एतावथो रव्यादि कालोऽतिक्रान्त इति यत्परिज्ञान भवति परिक्रमार्थेण कालोपक्रम यथा तत्परिज्ञानमेवश्चित्तस्यैहपरिक्रमयत्तनञ्जवादिचारे कालस्य पिनायन सवस्तुना गेकालोपक्रम सधात्पनेनयश्चनञ्जवादिचारेण विनागित कालो न भवियत्यधुनाधान्यादिसपत्तय इतिपत्तारो भवति उक्तं च पूज्ये ज्ञावाएनालियाए परि क्रमसे लक्ष्णविज्ञाण रिक्त्याईयचारेद्विय तस्मविणासोविषज्जासो इत्यादि सेत्तमित्यादिनिगमन अथ भावोपक्रमार्थमाह सेकितमित्यादि भावोपक्रमो द्वि विध मश्चर तथा आगमत नो आगमतय ततोपक्रमशब्दार्थश्च सूत्रोपयुक्त्यागमतो भावोपक्रम सेकित नो आगमत नो आगमतो

तोच जाणए उववत्तो नो आगमतो दुविद्धे पयत्ते तजहा पसत्थेअ अयसत्थे डोडिणिगणिआ अमत्था

तेकालोपक्रम पूर्ण उत्तर कालोपक्रमे कालतु जे उपक्रम तेकालोपक्रम कश्चिये तेकहेछे जण नालियाइइ जेनालिकापडी चादिके करी प्यारिग्रह्यथी तृणानीळांश्च तयानञ्जत चारादिक ग्रहीथे तेणे करीकाल उपक्रमीथे तेकालोपक्रम जाणथो एयेप याप्य तिसां पडीथे करी तथा तृणणांश्च नञ्जत चारादिके करी एतलो पोरसी आदि काल अतिक्रम्यो एहथो जाणपणो छइ तेपरिक्रमने विषे कालोपक्रम कश्चिये तयानञ्जवादिक्चारे करी जेकाराज विनागयु तेसस्तुनाथ कालोपक्रम कश्चिये लोकने विषे इम शोलाइछे जेएणे प्रश्नञ्जत चारादिके करी कालविनास्यो तेभणी शिषडाधान्यादिकनी विप्यति नशी छइ उक्तं च ज्ञावाएनालियाए परिक्रमशेजशायविगाणं रिक्खाइयचारेद्विय तस्मविणासोवशेषोइ । येत तेएकालोपक्रम इये भावोप क्रम कहेछे सेकित अथ किउ तेभावोपक्रम पूर्ण उत्तर भावोपक्रम द्विविध प्ररूपु तद्यथा आगमत अनेनो आगमत तिसां चादिमे- कहेछे सेकित

भावोपक्रमे दुब्बिहेत्यादि दृष्टाभिधायाख्यो जीवद्रव्यपर्यायोभावशब्देनाभिप्रेतः उक्तं च भावाभिख्यापंच स्वभावसत्तात्मयोन्यभिप्राय सातश्च भावस्यपरकीया  
 भिप्रायस्योपक्रमणं यथातत्परिज्ञानं भावोपक्रमः सच द्विविधः प्रथसोप्रथसश्चेति तत्राप्रथसाभिधित्वाया आह सेकितमित्यादि अत्र निर्वचनं अप्यसत्ये  
 ङोसगिगणिया अमञ्जाइणति इहतात्यर्थं ब्राह्मण्यवैखया अमाले न च यत्परकीयभावस्य यथातत्परिज्ञानलक्षणसुपक्रमणं कृतं सोप्रथस भावोपक्रमः  
 संसारफलत्वात् तत्र ब्राह्मण्यादिभिः परभावोपक्रमणमकारीत्यतोच्यते एकस्याब्राह्मण्यास्तिष्ठः पुत्रिका सासाच परिणयनानंतरं तथाकरोमि यथैतास्तुखि  
 ता भवंतीति विचिंत्य माता ज्येष्ठदुहितरं प्रत्यवोचत् यदुक्तं त्वयावासभवनसमागमने स्वभर्ता किंचिदपरधसुझाव्य स्तुङ्ग पादप्रचारेण इंतव्यो इतश्च  
 यदनुतिष्ठति तन्ममाख्येयं कृतंच तथा तथैव कृत सोप्यतिस्त्रे इतरलितमना अपि प्रियतमे पीडितस्तत्सुकुमालश्चरणो भविष्यतीति अभिधानपूर्वकं तस्याश्चर  
 णोपमर्दनंचकार असुंच व्यतिकरं सामाले निवेदितवती सायुपकांत जामालतावा हृष्टा दुहितरं प्रत्यवादीत् पुत्रिके यद्भावते तत् त्वदीयगृहेषु वचन  
 करो भर्ता भविष्यतीति द्वितीयापि तथैव शिञ्चितं तथापिच तथैव स्वभर्ताशिरसि प्रचतः केवलमनैतच्छिष्टाना युज्यत इत्यादिकिंचित् कोपंकत्वा निवर्त्तितं  
 असुंचव्यतिकरं सामालेनिवेदितवती हृष्टपुत्रिं प्रतिभवादीत् पुत्रिकेत्वङ्गत्तच्छिष्टां एवंच तृतीयापिप्रहरन् एवं उच्छलदनुष्ककोतेन उक्त  
 मकुलीनावं एवंशिष्टजनान्तएतदुक्तेइत्याद्यभिधाय गडंकुडयित्वा गृहान्तिशान्तिक्वाथितं तथाचागत्यसधाम साचापि विज्ञातर्जामालभावायागत्वा तत्प्रसीपे  
 वत्स कुलस्यौ प्रथमसमागमेवध्वावरस्यैत्यकर्त्तव्य इत्यादि किंचिदभिधाय दुहिताच प्रोक्ता वत्से दुराराधस्ते भर्ता भविष्यति परमादवता वद प्रसत्तया  
 समाराधनाय इति तथैकस्मिन्नगरे चटुःप्रष्टिविज्ञानसहितता गणिकातया च पराभिप्राय परिज्ञानार्थं रतिभवनभित्ति खस्यव्यापारं कुर्वात्यः सर्वा अपि राज  
 पुत्रादियच्चित्तकर्मणि लेखिता सत्वच यः कश्चिद्राजपुत्रादि रागच्छति सतत्रैव कृताभ्यासतया स्वकीयर व्यापारमेव वाहं प्रशंसति ततोसोविलासिनी राज

पुत्रादीनामन्यतरत्वे न त विधियस्य यथोचितेनोपचरति आनुकूल्ये नोपचरिताय भुञ्जु गामप्रचुरमर्थजात तस्यै प्रयच्छतीति तथैकस्मिन्नगरैकविद्राजा  
 क्षमात्ये न सचाय वाचनिकाया निर्गतसत्त्वच पथिगच्छता राजतरु कुलचित् सखिलप्रदेशे प्रयवणमकारितञ्च तत्प्रदेशे दृषिव्याखिरत्वे न बहुच्छिलस्त  
 विरेणाप्यशुक ग्भवत्मानो राजा तथैव स्थितमद्राक्षी स्यिरावस्याखिलजल शोभनमत्तमदेशे तडाग भवतीति चित्तय शिरमवलोकितवांश तदिगिताकार  
 परिज्ञान कुशलतया कामाल्ये न राज्ञा भणितेनापि विदित तदभिप्रायेण खानित तत्र प्रदेशो महासरसास्याल्यवरोपिता सर्वदुर्कपुम्पफलसम्पद्यो  
 नाजाजातीय तद्वनिपथा अन्यदा च तेनैव प्रदेशेन गच्छता दृपोय दृष्ट चाक्षो माससरवद्रमणीयक केनेद खानित अमात्यो जगद  
 भवतिरेव राजा सविषय प्राञ्च कदा कश्चिन्मयैतत्करणाय निरूपित दृत्यत सचिवो यथास्थित सर्वकथितवाणो परचित्तोपलभ्यत्वममात्यस्येति विचिन्त्य  
 परिरुढो राजा तस्य दृत्ति सर्वयामासेति तदेवमित्यादिक ससारफलोपरोप्यप्रयसाभावोपक्रम अथ प्रयसाभावोपक्रममात्र पसत्यो गुरुमादृणति तत्र  
 न्युतादि निमित्त गुर्वादीना यद्भावोपक्रमण स प्रयसाभावोपक्रम आह नन्यनुयोगद्वारविचारो ऽत्रप्रकातो ऽनुयोगश्च व्याख्यात तत्रयथैतदुपकारि किञ्चि

ईग पसत्ये गुरुमार्द्रिण सेत नो आगमतो भावोवक्रमे सेत उवक्रमे अहवा उवक्रमे छ्विद्वे पणत्ते तज

बोच्यो ए सरोवर करारिवाने अर्थसे किवारे केशने आम्नादीधीहती तिवारे स्वबुद्धीये सर्वं दृत्तांत मूलथी कर्त्तो तेवात साभलो राजाद् कस्यो अञ्जोत्  
 मोटो परचित्तनु लक्षणशर इम पणीस्तुति करी तेहनी दृत्तिवधारी तेए ससारना फलभणी अमगस्त भावोपक्रम कश्चिये दृष्टा प्रेरक पूष्टेणे दृष्टा अउ  
 योगद्वारतो विचार प्रारभ्योछे अनुयोग कश्चिये व्याख्यान तेभणी जेहने उपगारी भावते कस्यो जोद्वये अने जेगुब भावोपक्रमे तोप्रारभित व्याख्यानो  
 उपगारीनयी हीसतो गुरु बोल्या प्रेरणा असक्तो जेभणी गुरुभावोपक्रम सुत्य व्याख्यानो कारणछे उक्त्तच गुर्वायतावग्राह्यास्वारभा भवति सर्वेपि तथा

अनु टी० १२० सूत भाषा



तदेव वक्तव्यं भवति गुरुभावोपक्रमस्वप्रस्तो व्याख्यानाहुपकारित्वात्तदेतदुक्तं गुरुभावोपक्रमस्यैवसुखव्याख्यानात् तदुक्तं च गुर्वीयत्तायस्माच्छास्त्रारंभा  
 भवति सर्वेऽपि तस्माद्गुर्वीराधनपरेण हितकाञ्चिणा भाव्यं ॥ १ ॥ अन्यच्च उक्तं गुरुमणगहणं नाजण तयजहृदिवं ततो जहृदोईसुपसन्नं तहजइयव्वं  
 गुणलीहिं २ गुरुचित्तोयत्ताइं वखाणांगंईयेणसव्वाइं तेण जहसुपसन्नं होइतयंततहाकुज्याः उआगारंगियकुसलं जइसेयंवायसंवपुज्जो तहवियसं  
 नविकूडे विरहम्मियकारणंपुच्छे ४ नवपुच्छिएणभणियो गुरुणांगंकाकउसुहीवहइं संपाईयवंसीसो जहृतहसव्वयकायव्वमित्यादि ५ भवत्येवं  
 तहिंभावोपक्रमस्य सार्थकत्वं शेपास्तुनामस्यापना ग्रन्थाद्युपक्रमा अनर्थका नैतदेवं यतौगुरोस्तथाविध प्रयोजनेत्ये त्वै तच्चित्तप्रसादनार्थमेवालाशन  
 पानवस्तुपातौपधादिद्रव्य स्थानादिज्ञेत्वं उपक्रमतो विनेयस्य द्रव्यचेत कालोपक्रमा अप्रसार्थका एव नामस्यापनोपक्रमौपयोगित्वेऽप्युपक्रमसास्या  
 दत्तोक्तो अथवा सर्वेयमी प्रकृतानुपयोगिनोप्यन्यतोपसोच्यंते उपक्रमसास्यात्वातोक्ता इत्यदोश सदेवं लोकोपक्रमप्रकारेणोक्तउपक्रमः सांप्रतं  
 एवशास्त्रीयोपक्रमलक्षणेन प्रकारंतरेणाधित्सुराह अहवाउवक्रमे इत्यादि अथवा अनंतरं वः प्रथस भावोपक्रमः उक्तलोके पूर्वोदि विभागः

हा आणुपुब्बो १ नाम २ पमाण ३ वत्तव्वया ४ अत्याहिगारे ५ समो आरे ६ सेकिंतं आणुपुब्बो २ दसविहा पणत्ता तंज

इगुर्वीराधन परेण हितकाञ्चिणा भाव्यं १ अन्यच्च उक्तं गुरुमणगहणं नाजण तयजहृदिवं ततो जहृदोईसुपसन्नं तहजइ अंबंगुणलीहिं १ गुरुचित्ताय  
 ताइ वखाणांगंइजेण सव्वाइं तेणजह सुपसन्नं होइतयंततहा कुज्जार आगारिगिअ कुसलं जेसे अंवाय संवदे पुज्जो तहवियसंनविकूडे विरहंमिकारणं  
 पुच्छे ३ निवपुच्छिएणभणियं गुरुणांगंकाकउं सुहीवहइ संपाइ अवंसंसो जहृतहसव्वयकायव्वं ४ वलीप्रेरक बोल्यो एइमजहोवो तो भावोकमनुं इहां स  
 प्रयोजन पणुथयो परशेपनाम स्यापना द्रव्यादिक उपक्रम तो निरर्थकजदीसेहे गुरु बोल्या इम नही जैभणी तथाविध प्रयोजन उपने ऊते तेहना

सति द्विविधो द्रष्टव्यो गुरुभावोपक्रम यास्त्रभावोपक्रम यास्त्रलक्षणो भावस्योपक्रम यास्त्रभावोपक्रम सतैकेन गुरुभावोपक्रमलक्षणेन प्रकारेणोक्तो  
 इय द्वितीयेन यास्त्रभावोपक्रमलक्षणो न प्रकारान्तरेण तमभिधिकुराच अथवा स्वकमे इत्यादि अथयेति पदान्तर सूचक, उपक्रम प्रथमपातनापक्षे या  
 खोयोपक्रमो द्वितीयपातनापक्षेन यास्त्रभावोपक्रम पडविष पटप्रकार मन्त्रस साद्यथा आनुपूर्वो नामरममाणश्चक्यताऽध्याधिकार ५ समवतार ६ एतेषा  
 खयद्भ्युत्पत्त्यादि स्वरूप यथावसर पुरस्तादेव वक्ष्याम सात्वानुपूर्वी स्वरूपनिरूपणार्थमाह सेकितमित्यादि अथ कि तदाऽनुपूर्वी वस्त्विति प्रत्यार्थो अत निर्व  
 पन आनुपूर्वी दसविधेत्यादि इह हि पूर्वं प्रथममादिरिति पर्याया पूर्वस्य अनुपचादनुपूर्वं तस्य भाव इति यत्प्रत्यये स्त्रियामीकारे आनुपूर्वी अनुक्रमो अनु

हृत् नामाणुपुव्वो १ ठवणाणुपुव्वो २ दव्याणुपुव्वो ३ खेताणुपुव्वो ४ कालाणुपुव्वो ५ उक्त्रिस्ताणुपुव्वो ६ गय्याणुपुव्वो ७ सठा

विसृते प्रपन्न करवामणी अयनपान वस्त्रपात ओषधादिक क्षेत्प्रतज्यालगादिक उपक्रमतां ग्रियने द्रव्यक्षेत्रकालपणि स्वार्थक जाणवा अनेनामस्यापना  
 उपक्रमनो प्रयोजन काहनयी तो पणि उपक्रमना सरीवापणामाटे, इडाकक्षा अथवा एतला सर्व उपक्रमनु दृशां प्रयोग नयी तो पणि अनेरे ठामे  
 प्रयोग आरस्ये उपक्रमना तुल्यपणां माटे दृशां कक्षा तेभणी दोपवशी तेदूम लोकिक उपक्रम प्रकारिकरी उपक्रम कक्षौ षिये तेद्विज उपक्रम यास्त्री  
 दोपक्रम रूपप्रकारान्ते कटी कण्वानी इच्छाद् कहेखे अथवा अनन्तर जेप्रथस भावोपक्रम कक्षौ तेद्विविध छाणु एका गुरुभावोपक्रम वीजोयास्त्रभावो  
 पक्रम तिष्ठां एक गुरुभावोपक्रमप्रकारे कक्षौ षिये वीजोयास्त्र भावोपक्रम रूप प्रकारे कण्वानी इच्छाद् कहेखे अथवा उपक्रमे तिष्ठां अथवा ए  
 गद्यप्रधान्तरनो जणावणधारके अने उपक्रम तेदृशां प्रथम पक्षनी अपेक्षाये शास्त्रीयोपक्रम अने वीजापक्षनी अपेक्षाये यास्त्रभावोपक्रम ते ज प्रकार  
 प्रकृत्योतयथा आनुपूर्वी १ नामर प्रमाण ३ वक्तव्यता ४ अध्याधिकार ५ समवतार ६ एतला नो गन्धार्थो दिक स्वरूप यथावसर भागल कश्चित्से तिष्ठा आनु

अनुपुव्वो १ ठवणाणुपुव्वो २ दव्याणुपुव्वो ३ खेताणुपुव्वो ४ कालाणुपुव्वो ५ उक्त्रिस्ताणुपुव्वो ६ गय्याणुपुव्वो ७ सठा

अनुपुव्वो १ ठवणाणुपुव्वो २ दव्याणुपुव्वो ३ खेताणुपुव्वो ४ कालाणुपुव्वो ५ उक्त्रिस्ताणुपुव्वो ६ गय्याणुपुव्वो ७ सठा

अनुपुव्वो १ ठवणाणुपुव्वो २ दव्याणुपुव्वो ३ खेताणुपुव्वो ४ कालाणुपुव्वो ५ उक्त्रिस्ताणुपुव्वो ६ गय्याणुपुव्वो ७ सठा

परिपाटीति पर्यायाः आदिवस्त्रसंज्ञा इत्यर्थः इयमातुपूर्वी गणनातुपूर्वी संस्थानातुपूर्वी सामाचार्यातुपूर्वी भावातुपूर्वीति अत नामस्थापनातुपूर्वी  
सूते नामस्थापनावश्यकसूत व्याख्यातुसारिण व्याख्येयो द्रव्यातुपूर्वीसूत्रमपि द्रव्यावश्यकवदेव भावनीयं यावत् जाणगशरीर भविष्य शरीरवदेरिच्छादब्बा

याणुपुब्बोत्त समोच्चारणपुब्बोत्त भावाणुपुब्बोत्त ० नामठवणाओ गयाओ सेकितं दब्बाणुपुब्बोत्त दुविहा पसुत्ता तंजहा  
आगमतोत्त नो आगमतोत्त सेकितं आगमतोत्त दब्बाणुपुब्बोत्तजसणं आणुपुब्बोत्तपदं सिक्खितं ठितं जितं भितं पविजि  
तं जाव नो अणुपेहाए कम्हा अणुवत्तो गद्वमित्तिक्कट्टु गेगमस्सणं एगो अणुवत्तो आगमतो एगादब्बाणुपुब्बोत्त जाव  
कम्हा जतिजाणए अणुवत्ते न भवति सेतं आगमतोत्त दब्बाणुपुब्बोत्त सेकितं नो आगमतो दब्बाणुपुब्बोत्त ति विहा पण  
त्ता तंजहा जाणगशरीर दब्बाणुपुब्बोत्त भविअसरीर दब्बाणुपुब्बोत्त जाणगशरीर भविअसरीरव्यतिरिक्का दब्बाणुपुब्बोत्त  
सेकितं जाणगशरीर दब्बाणुपुब्बोत्त २ पदत्थाहिगार जाणयस्स जंसरोरयं ववगतत्तुत्तचित्तं चत्तदेह सेसंजहा  
दब्बावस्सए तहाभाणिअवंजावसेतं जाणगशरीरदब्बाणुपुब्बोत्त सेकितं भवि असरीरदब्बाणुपुब्बोत्त ३ जेजोवे जोणीजसण  
निकखंते सेसंजहा दब्बावस्सए जावसेतं भविअसरीरदब्बाणुपुब्बोत्त सेकितं जाणयसरीर भविअसरीरवतिरिक्कादब्बाणु

पूर्वीसुखरूप कहेत्ते सेकित्तं अथ किंत्तं ते आतुपूर्वी वस्सए ए प्रथमं उत्तर आतुपूर्वी इत्था पूर्णं कहिंये अथम तथा आदि ए पूर्वना पर्याय नाम पछे ए अर्थ  
पूर्वीसुजेअतुपत्तात् भाव ते अनुपूर्वं कहिंये तेअतुपूर्वंत्तु' जेभाव तेआतुपूर्वी कहिंये इत्थां भावे यण् प्रत्यय आखे छते पछे स्त्रीलिंगने विषे ई प्रत्यय

शुभोदुविशेषेत्यादि अत्र निधान निधिनिर्घोषोपन्यासो विरचना प्रसार स्थापनेति पर्याय स्यात्तत्र लौकिके निषेधोद निश्चितमित्यत्र निषेधस्य धामो निजपर्याय प्रतीयत एव उपसर्गोपनिधि निषिद्धिपरिधि एकस्मिन्विशेषतोय प्रुध व्यस्थितापि नै तत्त्वमोप एवोपरपरस्य वक्ष्यमाण पूर्वानुपूर्व्यादिक्रमेणय त्विनेपण्य स उपनिधिरित्यर्थ उपनिधि प्रयोजन यस्या आनुपूर्व्या सा उपनिधिकीति प्रयोजनार्थे द्रव्यप्रत्यय सामाधिकार्ययनादि यस्तूना वक्ष्यमाण पूर्वानुपूर्व्यादि विस्तार प्रयोजना आनुपूर्व्या उपनिधिकीत्युच्यते इति तात्पर्यं वक्ष्यमाणपूर्वानुपूर्व्यादिक्रमेणविरचन प्रयोजन यस्य प्रत्यनौप निधिकी यस्या वक्ष्यमाण पूर्वानुपूर्व्यादिक्रमेण विरचना न कियते सा त्वादिपरमाणु निष्पन्नसूक्ष्म विषया आनुपूर्व्या ते षोपनिधिकीत्युच्यते इति भाव आत्तन्वात्पूर्वी परित्पाटिरुच्यते भवताच अणुकादिकोऽजताणुकावसान एकैकासूक्ष्मो षोपनिधिविषयानुपूर्व्येनाभिप्रेतो नवसूक्ष्मगत आदिपरमाणुना

**पुर्वोरद्विविधा पणुत्ता तजहा उवगिणिहियाय तत्पण जासालवगिणिहिया साठप्या तत्पणजासात्रणो**

आप्ये उते आनुपूर्वी ए गदनीपजे तेआनुपूर्वीना ए पर्याय नाम आनुपूर्वी कश्चिे अनुक्रम कश्चिे एतले त्रिणि आदियस्तुनु एव ठापणो इत्यर्थ एषानुपूर्वी द्यप्रकार प्ररूपो तद्यथा नामानुपूर्वी स्थापनननुपूर्वीर द्रव्यानुपूर्वीर चेतानुपूर्वीर काळानुपूर्वीर उक्तीर्त्तानुपूर्वीर गणनानु पूर्वो संस्थानानुपूर्वीर सामाचार्यानुपूर्वीर भावानुपूर्वी । ० इहा नामस्थापनावस्यक सूत्रनी व्याख्याने अनुसारे यदाणवा तथाद्रव्यानुपूर्वीनु सूत्रपणि द्रव्यापण्यकनी परे जाणवु जाय जाणय सरीरभवि असरीरेर्येरित्तादव्याणुपूर्वी इविशा पणुत्ता तद्यथा उपनिधिकी अने अनोपनिधिकी त्रिषां निधान निधि निधिना एतला पर्यायनाम निधि निघोषत्यास विरचना प्रसारस्थापना उपसर्गोपनिधि जेनिधि तेउपनिधि एतले एक विषयिद्यतार्थ प्रथम व्यवस्थाप्ये उते तेरने सर्गीपे अनैरानुवचमाण पूर्वानुपूर्व्यादिक अनुक्रमे स्थापवु तेउपनिधि कश्चिे तेउपनिधि प्रयोजनहे जेआनुपूर्वीनु तेउपनिधिकी आनुपूर्वी

कहिये इहां प्रयोजनार्थ इ कण प्रत्यय के एतले सामायिकादिः अथयन वस्तुनवत्त्वमांण पूर्वानुपव्यादि विस्वार प्रयोजन जेहनु तेअनुपूर्वी उपनिधिकी  
 कहिये इति तात्पर्यार्थ तथा वक्ष्यमाण पूर्वानुपव्यादि प्रकारे 'अणस्यापठ' तेअनुपनिधि कहिये तेहज प्रयोजनके तेहनुं तेअनोपनिधिकी कहिये एतले  
 जेहने विषे पूर्वानुपव्यादि प्रकारे विरचना न करिये तेतिप्रदेशियाखंडादिक विषे जे आनुपूर्वी ते अनोपनिधिकी कहिये एभाव इहां प्रेरक पूछैके आनु  
 पूर्वी तेपरिपाटी कहिये अने तुम्हेति प्रदेशियादिक अनन्त प्रदेशिक पर्यन्त जेखंध तेसर्व जूअ अनोपनिधिकी आनुपूर्वीपणे मानो केो तोतिप्रदेशिया  
 खंडादिकने विषे त्रिणि आदि परमाणुनीनियत मर्यादारूप किसी परिपाटी दीसती नथी तेपरमाखादिकनो विशिष्ट एक परणामने परिणमवा थी  
 इहां आनुपूर्वी पणोकिमथाइ गुरु बोल्या ए सत्यं परं उत्तर साभलो त्रिणि आदि परमाणुने आदिमध्यावसान भावे करी नियत परिपाटीनी व्यष  
 स्थापवानो योग्य पणोतोछे तेभणी ते योग्यपणा आत्री जोकां इहां पणि आनुपूर्वी पणोविरोधाइ नही तत्य तिहां जेअपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी ते ठप्पा  
 कहतां स्थापीरापवी एतले ते अल्पवक्त्यता पणा ऊती इमजअइ रच्यौ तेपछे वपांगीजिखे एभाव अने जेअनोपनिधिकी तेप्रथम वपाणीयेछे चर्चापिपाछे  
 उच्चरीछे तो पणि तेहना वऊ वक्त्यता पणाथी प्रथम वपांगिये के एतले वऊवक्त्य पणावालो वस्त्र प्रथम वपांग्ये ऊते अल्पतर वक्त्यवस्तु सांझिलो  
 कोइ एक अर्थ तेमध्ये कस्यौ ऊइ तेभणी एहवो अधिक गुण चालोचो सूतका अनोपनिधि आनुपूर्वीना स्वरूपने विवरवानी इच्छाइं कहेके तत्य तिहां  
 जे अनोपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी तेनयनी वक्त्यताये द्रव्यास्तिक नयनेमते द्विविध प्ररूपी तद्यथा एकनेगम व्यवहारनामतनी वीजीसंग्रचना मतनी एतले  
 एकनेगम व्यवहार नयनेमाने अने वीजी संग्रहनयनेमाने इत्यर्थ इहां एभाव इहा औजिनमार्गनेविषे समुच्चयरूप सातनय ऊइ नेगम संग्रह र  
 व्यवहारइ ऋजुसूतइ शब्द समभिरूढइ एवंभूत० एसातनयछे तेद्रव्यास्तिक अने पर्यायास्तिक रूप विऊंनयके तेविऊंनय सांझि एसातेनय सावे तिहां

नियतो काचित्परिपाटिरसि विग्रहैक परिणामपरिणतत्वात्तेजातत्कथमिहागुणपूर्वत्वसत्यं किंतु त्यादिपरमाणूनां सादि मध्यावसानभावेन नियतपरिपाट्या  
 व्यवस्थापनयोग्यतासौति योग्यतामाश्रित्या ताप्यागुणपूर्वत्व न विरुध्यते तत्त्वगमित्यादि तत्र यासाचौपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वो सास्याप्या सायासिकीतिष्ठत ताप  
 दस्यतरवत्त्वत्वेन तस्या उपरि वक्ष्यमाणत्वादिति भाव अनोपनिधिकीतु पद्यात्रिद्विष्टापि यद्धतरवत्त्वत्वेन प्रथम व्याख्यायते यद्धतरवत्त्वत्वं चि यशुनि  
 प्रथमगुण्यमानोऽल्पतर वक्ष्य वस्तुगत कश्चिदर्थसम्बन्धेषु ऋणधियं पयालोच्य सूत्रकारेनोपनिधिका स्वरूप विवरीपुराच तत्त्वण  
 मित्यादि तत्र यासावनोपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वो सा नयवक्ष्यताग्रयणात् द्रव्याशिक्षकनयमते न द्विविधा प्रश्ना तद्यथा नेगमथ्यवहारयो सग्रहस्य धानेगम

**वनिच्छिन्ना सादुविहा पणत्ता तजहा नेगमववहाराण सग्रहस्य सेकितनेगमववहाराण अथोवनिहिद्या द्रव्यागुणुवो**

द्रव्याशिक्षक नय इम कहे द्रव्य परमाद्यधीष्टे पर पयाय नधी तेभणी द्रव्याशिक्षक नय कश्चिये अने जेनय इम माने पर्यायण परमार्यथीष्टे परद्रव्य सर्वथा  
 नयी तेपर्यायाशिक्षक नय कश्चिये तिसां सातनय मध्ये जेप्रथम नयत्रिणि तेद्रव्याशिक्षक कश्चिये अने जेशेप भागलाप्यारनय तेपर्यायाशिक्षक कश्चिये तिवार  
 पक्षी पक्षीजे द्रव्याशिक्षकनय वपाया तेरुना समुच्चयरूपे विभेदहे एक अविशुद्ध द्रव्याशिक्षक बीजो विशुद्ध द्रव्याशिक्षक तिसा जेद्रव्याशिक्षक नयमध्ये त्रिणिनय  
 कक्षा छता तेमध्ये जेनेगम व्यवहार नय ते अविशुद्ध द्रव्याशिक्षकनय कश्चिये अने जे सग्रह तेविशुद्ध द्रव्याशिक्षक नय कश्चिये चिये ते अविशुद्ध अने विशुद्ध  
 किस्या भणी कश्चिये ते कहेहे तिसां नेगम व्यवहार नय ते अनन्त परमाणु तथा अनन्त द्विमदेशिकादिक अनेक व्यक्तिरूप द्रव्यमाने तथा कृष्णादिक  
 अनेक गुणसु आधाररूप द्रव्यमाने अने वली त्रिकाल विषे माने ते भणी अविशुद्ध द्रव्याशिक्षक नय कश्चिये चिये अनेक व्यक्तिरूप तथा अनेक गुणाधार  
 रूप तथा त्रिकाल विषयरूप जे द्रव्य ते अविशुद्ध कश्चिये तेरुने माने ते भणी अविशुद्ध नय कश्चिये अने जेसग्रह नय तेपरमाण्वादिने परमाण्वादिक

व्यवहारसंमता संग्रह संमतावेत्यर्थः अयमत्रभाषार्थः द्रष्टव्यतः सप्तमया भवति नैगमादयः उक्तं च नैगमसंग्रह व्यवहार ऋजू सप्तम्यब्दसमभिरुडेवंभू नत  
याएतेवं द्रव्यास्तिक पर्यायास्तिकलक्षणा नयहृथे तर्भाव्यते द्रव्यमेव परमार्थतोऽस्मिन् पर्याया इत्युभयपगमपरो द्रव्यास्तिकः पर्यायाएव वस्तुतः सन्तिन द्रव्यमि  
त्युभयपगमपरः पर्यायास्तिकसत्त्वाद्यासयोद्रव्यास्तिकः शेषास्तुपर्यायास्तिकः पुनर्द्रव्यास्तिकोपि सामान्यतो द्विविधो विद्युद्धश्च तत्र नैगमव्यवहाररूपो  
विद्युद्धः संग्रहरूपस्तु विद्युद्धः कथं यतो नैगम व्यवहाररायनंतपरमाणा अनंतक्षणुकाद्यनेक्यक्त्यात्मकं क्षणाद्यनेक गुणाधारं त्रिकालविषयं वाचिद्युद्धं द्रव्य  
मिच्छतः संग्रहश्च परमाणवादिकं परमाखादि साम्यादिकं तिरोभूत गुणकलापमविद्यमानपूर्वापरविभागं नित्यं सामान्यमेव द्रव्यमिच्छत्ये तच्च किलानेक  
ताद्युभयपगमकलं केनोऽकलंकितत्वाच्छुद्धं ततश्चुद्ध द्रव्याभ्युपगम परत्वादयमेव शुद्धः अत्र च द्रव्यानुपूर्वोवविचारयितुं प्रकृतांता शतः शुद्धाशुद्धस्वरूप द्रव्या  
स्तिकमतेनैवासौ दर्शयिष्यते तपर्यायास्तिकमतेन पर्याय विचारस्थानुपकांतत्वादित्यलं विश्वरेण तत्र नैगमव्यवहार संमतामिसां दर्शयितुमाहः सेकिंतमि

पंचविहा प्रणत्ता तंजहा अद्रुपयप्ररुवणया१भंगससुक्त्तणया२भंगोवदंसणया३समोत्रारे४अणुगमेप्रुसेकिंतं नैगमववहा

संघाते तुल्यपणाथी एकज द्रव्यसर्वगुण समुदाय रचित तथा प्रूर्वापरभाग रचित तथा नित्यग्राह्यसुं एतदुं सामान्यरूप द्रव्यमाने तेभ्यो शुद्धद्रव्यास्तिक  
नय कश्चिदे द्रष्टा अनेक व्यक्तरूप तथा अनेक गुणरूप तथा त्रिकालविषे रूप जेमानवु तेरूपीद्रुकलंके करी अकलंकित पणाथी शुद्धरूप द्रव्यास्तिकनयने  
मतेज ए देखाडीजसे पर्यायास्तिक नयने मते नही देखाडीये पर्यायनुं विचार प्रारंभ्यो नथी तेभ्यो इत्यलं विश्वरेण द्रुहां नैगम व्यवहार नयने  
सान्यरूप द्विवैचनोपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी कहेछे सेकिन्नं अथ किंउं तेनैगम व्यवहारनामतनी चनोपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी एप्रअइहां उत्तरनैगम व्यवहार  
नामतनी अनोपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी अर्थपद प्ररुपणादिक पाचप्रकारे विचार वापणाथी पांच प्रकारे प्ररुपी तद्यथा अर्थपद प्ररुपणता१ भंगससुक्तीत्त

त्यादि अतः निर्वचनं नैगमव्यवहारण अणोव्यञ्जित्याद्याणु पुञीपञ्चविहत्यादि अर्थपदं प्रकृपणतादिभिः पञ्चभिः प्रकारे विधायमाणात्पञ्चविधा पञ्च प्रकारा प्रकृता तद्यथा अर्थपदप्रकृपणता भगोपदर्थनता भगोपदर्थनता एभिः पञ्चभिः प्रकारे नैगमव्यवहारनयमतेन अनोपनिधिव्या द्रव्यानुपुञ्जा स्वरूप निरूप्यत इतीष्टतात्पर्यं इत्यर्थं त्व्यणुकस्त्वधादिसाद्युक्तं तद्विषयं वा पदमानुपूर्व्यादिकं तस्य प्रकृपणं कथनं तद्भावोर्थपदं प्रकृपणता इयमानुपूर्व्यादिकासञ्जात्पप तदभिधेयत्वणुकादिरर्थं संज्ञीत्येव, सञ्जासञ्जिष्वर्थे कथनमात्रं प्रथमं कर्तव्यमिति भावार्थं तेषामेवानुपूर्व्यादि पदानां सदुद्दितानां वक्ष्यमाणान्यायेन समन्वितो विकल्पा भगा लभ्यते विभज्यते इति क्त्वा तेषां अनुपूर्व्यात्तंनं अनुपूर्व्यात्तंनं भगवत्सुक्तीत्तंनं तदभावोभगवत्सुक्तीत्तंनता आनुपूर्व्यादि पदनिष्पन्नानां प्रत्येकभगवतां सञ्चारणमित्यर्थं सोऽप्येव सूत्रमात्रतया अनन्तरं अनु

राण अट्टपयपरूवणयारं तिपएसिआए आणुपुञ्जी वावदसपएसिए आणुपुञ्जी सखेज्जपएसिए

नन्तरं भगोपदर्थनतां समवतारं अनुगम्य एतत्ते प्रकारे नैगमव्यवहारने मते अनोपमनिधि द्रव्यानुपूर्वीषु स्वरूपं देखाडीयेत्ते एपरमार्थं तिष्ठा अर्थिये लोणीये तेषार्थं परमाणु स्वन्यादिकरूपतद्गुक्तं तथा तेषु विषयत्वे पदो तेषु पद आनुपूर्व्यादिकं तेषु नो जे मरूपवो कश्चो ते तथा तेषु नो जे भाव तेषार्थपदं प्रकृपणता कश्चिये एतले एषानुपूर्व्यादिकं सञ्जा अने ए तेषु नो अभिधेयं त्विप्रदेशिकं स्वधादिकं सञ्जा अने सञ्जानो स्ववध तेषु नो जे तेषु तेप्रथमं करो ए भावार्थं जाणयुं तथा तेषु तेषु आनुपूर्व्यादिकं पदना एकठा स्वरूपं सभावत्तं तेषां कश्चिये विभज्जीइ विज्जलीइ तेभणीभागा कश्चिये एषया शब्दार्थधी तेषां आनुपूर्व्यादिकं कश्चिये एतले एषानुपूर्व्यादिकं पदना नीपना जजुषा द्विजसयोगा द्विकं भांगानुं सञ्चार्युं तेभनसुक्तीत्तंनता कश्चिये तथा तेषु पूर्वोक्तं सूत्रमात्रं पणेलसञ्चया जे भागा तेषु नो आपणा



ल्लोचिन्तितं भंगानां प्रत्येकं स्वाभिधेयेन त्व्यणुकाद्यर्थेन भंगोपदर्शनं तद्भाषो भंगोपदर्शनता भंगसमुत्कीर्त्तने भंगकविषयं सूत्रमेव केवलमुच्चारणीयं भंगोपदर्शने तु तदेव स्वविषय भूतेनार्थेन सङ्घोच्चारयितव्यमिति विज्ञेयाः तथा तेषामेवानुपूर्व्यादि द्रव्याणां सत्यदप्ररूपणादिभि रनुयोगद्वारैरनुगमनं विचारणमनुगमः तत्वाद्यभेदं विवरीपुराह सेकिंतं नेगमव्यवहारयोः सम्प्रता अर्थपद प्ररूपणतेत्यतोत्तराः अर्थपद प्ररूपणतेत्यतोत्तराः अर्थपद प्ररूपणतेत्यतोत्तराः अर्थपद प्ररूपणतेत्यतोत्तराः अर्थपद प्ररूपणतेत्यतोत्तराः

आणुपुष्पो असंखिज्जपएसिए आणुपुष्पो अणंतपएसिए आणुपुष्पो परमाणुपोगले अणुपुष्पोदुपएसिए अवत्त्वएतिपए

अभिधेय त्विप्रदेशियादिक अर्थ सङ्घित देखाडिबो तेषां भंगोपदर्शनं कश्चिदेतेरुनो जेभाव तेषां भंगोपदर्शनता कश्चिदे एतले भंग समुत्कीर्त्तनेने विषे भांगानुसृत केवल उच्चरवुं अने भंगोपदर्शनने विषे तेरुज सूत्र आपणा अर्थ सङ्घित उच्चरवुं ए विच्छिनो विषेपण जांगवुं तथा तेरुज आनुपूर्वी द्रव्यादिक स्वस्थानक परस्थानकने विषे अन्तर भावनो जेविचारवुंते समवतार कश्चिदे० तथा ते आनुपूर्व्यादिक द्रव्यानो सत्यद प्ररूपणतादिक अनुयोगद्वारे करी अनुगमनं कश्चिता विचारवुं ते अनुगम कश्चिदे ५ तिहां आदिभेद कश्चिदे सेकिन्तं अथ किंसी ते नैगम व्यवहार नामतनी अर्थ पद प्ररूपणता उत्तर नैगम व्यवहारनामतनी अर्थ पद प्ररूपणता त्विणिय प्रदेय कश्चिता परमाणु त्विणिरूप जेखंधने विषेदे तैत्तिप्रदेशिक सूत्रमेव तेरुने आनुपूर्वी कश्चिदे यावत् अनन्त प्रदेश कश्चितां परमाणुके जेखंधने विषे ते अनन्त प्रदेशिक सूत्रमेव कश्चिदे तथा एक परमाणु उ

पूर्वावकाशकयो प्रकृपणमसगतमिति चेन्न तत् प्रतिपद्यत्वात्प्रतिपद्य परिधाने च प्रस्तुत वस्तुन सुधावरोयत्वादिति भावार्थं  
 इष्टासुपूर्वा अस्तुपरिपाटिरिति पूर्वसक्त साच यत्तैवादि मध्योतल्लक्षणस्यूर्णो गणनानुकुमोसि तत्तैवोपपद्यते नाच्यत एतच्च त्विपदेशिकादिस्कधेव्ये च तथा  
 कि यत्प्रान्तरमसि न प्थं स आदि यत्प्रान्त पूर्वमस्तिनपर सोच्यत सायोच्यतर मध्यसुच्यते अथच सपूर्णा गणनानुकुमस्तिप्रदेशादि स्कध एव न परमाणु

**सिध्यागुपुस्योउ वाचअणतपएसिअत्तआणुपुस्योउ परमाणुपोगलाअणानुपुस्योउ दुपएिआअनत्तखयाइ सेत अट्ट**

परमाणु वन्तने विषे अणमित्यो तेषानुपूर्वो कश्चिये तथा विप्रदेश परमाणुत्वे जेहने विषे तेद्विप्रदेशिक स्तन्व कश्चिये तेषकव्य कश्चिये तथा यणा  
 विप्रदेशिकत्वध तेषणो आनुपूर्वो कश्चिये तथा यथा परमाणु पुञ्जल ते षणो अनानुपूर्वो कश्चिये तथा यथा द्विप्रदेशीया स्वध ते यथा अव्यक्तय कश्चिये  
 इशा प्रेरत पूर्यै भगवन् आनुपूर्वो प्रारभीत्ते तेषानुपूर्वोना अधिकारने विषे अनानुपूर्वो अपक्तव्यनु प्रकृपठ तेषयुक्तदीयेत्ते गुरु बोल्या ए प्रेरणाअस्तुकी  
 जेभणी तेषानुपूर्वो अथकथ तेषानुपूर्वोना मतिपक्षीत्ते अनेवस्तुनी प्रतिपद्यतु स्वरूप जाणे ऊते यस्तुतु स्वरूप परमार्थवी सुजेजाख्यु जाइ तेभणी तेउगु  
 प्रकृपयु अयुक्त नशी एभाष इशा आनुपूर्वो तेषानुपरपाटी पूर्व कश्चियेत्ते तेषादि मध्य अन्तरूप सपूर्णगणना अतुकम जिहत्ते तिहाज ऊट्ट अनेचि न  
 ऊट्ट तेसपूर्ण गणनातुकम विप्रदेशिकादिक स्तन्वनेविषेजऊट्ट तथाचि जेथी आगल भागए परवाञ्जलनथी तेषादि कश्चिये अने जेथीपाछला भागहे  
 पर आगलनथी तेषन्त कश्चिये तेविड नो धीपपणो तेमध्य कश्चिये एहयु सपूर्ण गणनानुकम तेतिप्रदेशिकादिक स्तन्वने विषेजऊट्ट परपरमाणुने विषे  
 न ऊट्ट जेभणी तेइना एक द्रव्यपणाथी आदि मध्य अन्त एहयु व्यशर तेइने विषेनथी तेभणी तेपरमाणु अनानुपूर्वो पणैकस्तु तथा द्विप्रदेशिसाखध  
 नेविषे पिण एपर्ण मय गानुकमनऊट्ट जेभणी तेइने विषे मध्यभावनथी तेभणी सपूर्णगणनानुकम तिहां नथी इशा प्रत्र पूर्व इम यथाख्योउतो पूर्वैगुपाइतो



ननु कद्रव्यत्वेनादिमार्थात् व्यवहारा भावाद्गत एवायमनानुपूर्वीत्वे नोक्तेनापिहणुक स्तुष तन्नापि सध्याभावेन सपूर्णगणनातुकमा भावादत्वात् ननु पूर्वस्थानुपचादनूर्ध्वं तस्य भाव आनुपूर्वीति पूर्व व्याख्यात एतच्च द्यगुकस्तुषेपि षटत एव परमाणुद्वयस्यापि परस्परं पेल्लया पूर्वपचाङ्गायस्य विद्यमानत्वात्तत सपूर्ण गणनातुकमाभावेपि कस्मादयमप्यानुपूर्वीन भवति नै तदैव यतो यथामेवोदिके कश्चित्पदावर्णमाध्ययधिभूतस्य कस्यचिद भावधेत्यव स्यापिते प्रसिद्धसाधा यदत्तापि स्यात्तदास्यादप्येव नचैवमत्वात्सि मध्ये ऽधिभूतस्य कस्यचिदभावतो असाकार्येण पूर्वपचाङ्गावस्यासिद्धत्वाद्यदेय परमा णपत् द्यगुकस्तुषोप्यनानुपूर्वीत्वेन कस्मान्नोच्यते सत्य किंतु परस्परापेक्षया पूर्वपचाङ्गावामातस्य सद्भावदेवमप्यभिधातुमगप्योसौ तस्मादातुपूर्व्या नानुपूर्वी प्रकाराभ्यां यत्तु मगप्यत्वाद्यक्तव्यक्तमेव द्यगुकस्तुष कस्माद्यवस्थितमिद सध्यांतभावेवधिभूतमध्यवर्तिन न सपेक्ष्यासांकार्येण सुख्यस्य पूर्वपचा ङ्गावस्य स्यावात् तिमदेयादिस्तुषेधएवानुपूर्वीं परमाणुसूक्ष्मयुक्तानानुपूर्वीं त्रिगुकोऽवक्तव्यक इत्येव रूपा अर्थपदप्ररूपणा कृता भवति यद्येय तिमदेयिकः आनुपूर्व्यं इत्यादि बहुवचन निर्द्देशे किमर्थं एकत्वमात्रेणैव सञ्चासन्निसर्वधकस्य तस्यासिद्धत्वात्स्य कित्यानुपूर्व्यादि द्रव्याणां प्रतिभेद मनतव्यतो स्थापनार्थेनेगमथवधारयोरित्य भूताभ्युपगम प्रदर्शनार्थेव बहुत्वनिर्देश इत्यदोप अत्राह नन्वनानुपूर्वीं द्रव्यमेकेन परमाणुना निष्पद्यते अतकथ्यद्रव्य परमाणुद्वयेन आनुपूर्वीं द्रव्य तुजधस्यतोपि परमाणत्रये इत्त्वं द्रव्यदृष्ट्यापूर्वसुपूर्वीकममात्रित्यप्रथमनानुपूर्वीततोवक्तव्यं ततद्यानुपूर्वीत्येव निर्देशोयुज्यते पचानुपूर्वीकमात्रयेणैतु ध्यायेन युक्तसत्कथ कमहयसुसु परान्यथानिर्देशे कृत सत्यमेतत्किावनानुपूर्व्येपि व्याख्यागमिति स्यापार्थं यदिवा ल्यणुक्त्वत् रणुकादीनानुपूर्वीं द्रव्याख्यानानुपूर्व्वं वक्तव्यं कद्रव्यो तेभ्योऽनानुपूर्वीं द्रव्याख्यत्वतराणीत्यत्रेय वक्ष्यते ततचेत्य द्रव्यसाध्यापूर्वानुपूर्वीकमनिर्देशे एव मित्यल विसारेण सेतमित्यादि निगमन एताएणमित्यादि एतदर्थापदप्ररूपणतया सञ्चासन्नियथवधारो निरूपित

ननु कद्रव्यत्वेनादिमार्थात् व्यवहारा भावाद्गत एवायमनानुपूर्वीत्वे नोक्तेनापिहणुक स्तुष तन्नापि सध्याभावेन सपूर्णगणनातुकमा भावादत्वात् ननु पूर्वस्थानुपचादनूर्ध्वं तस्य भाव आनुपूर्वीति पूर्व व्याख्यात एतच्च द्यगुकस्तुषेपि षटत एव परमाणुद्वयस्यापि परस्परं पेल्लया पूर्वपचाङ्गायस्य विद्यमानत्वात्तत सपूर्ण गणनातुकमाभावेपि कस्मादयमप्यानुपूर्वीन भवति नै तदैव यतो यथामेवोदिके कश्चित्पदावर्णमाध्ययधिभूतस्य कस्यचिद भावधेत्यव स्यापिते प्रसिद्धसाधा यदत्तापि स्यात्तदास्यादप्येव नचैवमत्वात्सि मध्ये ऽधिभूतस्य कस्यचिदभावतो असाकार्येण पूर्वपचाङ्गावस्यासिद्धत्वाद्यदेय परमा णपत् द्यगुकस्तुषोप्यनानुपूर्वीत्वेन कस्मान्नोच्यते सत्य किंतु परस्परापेक्षया पूर्वपचाङ्गावामातस्य सद्भावदेवमप्यभिधातुमगप्योसौ तस्मादातुपूर्व्या नानुपूर्वी प्रकाराभ्यां यत्तु मगप्यत्वाद्यक्तव्यक्तमेव द्यगुकस्तुष कस्माद्यवस्थितमिद सध्यांतभावेवधिभूतमध्यवर्तिन न सपेक्ष्यासांकार्येण सुख्यस्य पूर्वपचा ङ्गावस्य स्यावात् तिमदेयादिस्तुषेधएवानुपूर्वीं परमाणुसूक्ष्मयुक्तानानुपूर्वीं त्रिगुकोऽवक्तव्यक इत्येव रूपा अर्थपदप्ररूपणा कृता भवति यद्येय तिमदेयिकः आनुपूर्व्यं इत्यादि बहुवचन निर्द्देशे किमर्थं एकत्वमात्रेणैव सञ्चासन्निसर्वधकस्य तस्यासिद्धत्वात्स्य कित्यानुपूर्व्यादि द्रव्याणां प्रतिभेद मनतव्यतो स्थापनार्थेनेगमथवधारयोरित्य भूताभ्युपगम प्रदर्शनार्थेव बहुत्वनिर्देश इत्यदोप अत्राह नन्वनानुपूर्वीं द्रव्यमेकेन परमाणुना निष्पद्यते अतकथ्यद्रव्य परमाणुद्वयेन आनुपूर्वीं द्रव्य तुजधस्यतोपि परमाणत्रये इत्त्वं द्रव्यदृष्ट्यापूर्वसुपूर्वीकममात्रित्यप्रथमनानुपूर्वीततोवक्तव्यं ततद्यानुपूर्वीत्येव निर्देशोयुज्यते पचानुपूर्वीकमात्रयेणैतु ध्यायेन युक्तसत्कथ कमहयसुसु परान्यथानिर्देशे कृत सत्यमेतत्किावनानुपूर्व्येपि व्याख्यागमिति स्यापार्थं यदिवा ल्यणुक्त्वत् रणुकादीनानुपूर्वीं द्रव्याख्यानानुपूर्व्वं वक्तव्यं कद्रव्यो तेभ्योऽनानुपूर्वीं द्रव्याख्यत्वतराणीत्यत्रेय वक्ष्यते ततचेत्य द्रव्यसाध्यापूर्वानुपूर्वीकमनिर्देशे एव मित्यल विसारेण सेतमित्यादि निगमन एताएणमित्यादि एतदर्थापदप्ररूपणतया सञ्चासन्नियथवधारो निरूपित

सांख्यस्य सत्यैवं भंगकाः समुत्कीर्त्तयितुं शक्यं ते नान्यथा संश्रामंतरेण निर्विषयाना भंगाना प्ररूपयितुमशक्यत्वा तस्माद्दुस्तम्भता सेतदार्थपदप्ररूपण  
तथा भंगसमुत्कीर्त्तनाक्रियत इति तामेव भंगसमुत्कीर्त्ततां निरूपयितुमाह सेकितमित्यादि प्रत्रोत्तरातुपूर्व्यादि पदत्वयैशेक वचनातेन त्रयोभंग  
भवंति वहुवचनातेनापि तेन त्वयएव भंगा एवमेते संयोगतः प्रत्येकं भंगाः पद्मवंति संयोगपक्षे त पदत्वयस्यास्यतयोद्विकसंयोग एतेकस्त्रिंशु द्विकसंयोगे

पयप्ररूवणया एत्राएणं नेगमववहारणं अद्रुपयप्ररूवणयाए किंपउअणं एत्राएणं नेगमववहारणं अद्रुपयप्ररूवणया  
णयाएनेगमववहारणं भंगसमुक्कित्तणया कज्जइ सेकितं नेगमववहारणं भंगसमुक्कित्तणया२ अत्यिआणुपुब्बो १  
अत्यि आणुपुब्बो २ अत्यिअवत्त्वएइ अत्यिआणुपुब्बोओ १ अत्यिआणुपुब्बोओ २ अत्यिअवत्त्वयाइ ६ इकसंयो  
गौछभांगा अहवा अत्यिआणुपुब्बो अणुपुब्बोओ १ अहवा अत्यिआणुपुब्बोओ २ अणुपुब्बोओ ३ अहवा अत्यिआणु  
पुब्बोओ ४ अणुपुब्बोओ ५ अहवा अत्यिआणुपुब्बोओ ६ अहवा अत्यिआणुपुब्बोओ ७ अहवा अत्यिआणुपुब्बो  
अहवा अत्यिआणुपुब्बोओ ८ अहवा अत्यिआणुपुब्बोओ ९ अहवा अत्यिआणुपुब्बोओ १० अहवा अत्यिआणुपुब्बोओ ११

देखाडो तेदेखाडौ ऊते भागासमुत्कीर्त्ता सकीइ नान्यथा जेभणी संत्राविनानिर्विषय भांगाप्ररूपी न सकिचे तेभणी एयुक्तकत्तो जेएणे चर्थपद प्ररूपवा  
पयेकरी भंगसमुत्कीर्त्तवापणो करिये तेहिज भंगसमुत्कीर्त्तवापणुं कहेछे सेकित्तं अय किडुं ते नेगम व्यवहारना मतनो भंगसमुत्कीर्त्तवा पणो  
उत्तर नेगम व्यवहारना मतनो जेभंग समुत्कीर्त्तवा पणुं तेए इहा आनुपूर्व्यादिक त्रिणपद एकवचनतिकरी त्रिणभागा ऊइछे वली तेणेज वहुवचनात

एकवचन बहुवचनान्यां पठभंगो सद्भाषत तिव्यपि द्विकयोगेषु हादशभगा सपद्यते त्विकयोगस्त्वैकएव तत च इति एकवचनांता स्वय एते  
 बहुवचनानां स्वय एकवचन बहुवचनान्यामिदोभगा सर्वेषामीपट्विशतिरतस्यापनाचिय  
 आनुपूर्वीं अवक्तव्यकर कयोगेषठभंगी इति द्वितीयद्रव्यानुपूर्वीं अवक्तव्यकर कयोगेषठभगीता आनुपूर्वीं इतिप्रथमद्वि आनुपूर्वीं  
 आनुपूर्वीं अवक्तव्यकर पठभगी आनुपूर्वीं आनुपूर्वीं इति कत्विकयोगा अनानुपूर्वीं  
 आनुपूर्वीं अवक्तव्यकर भपति आनुपूर्वीं नानुपूर्वीं इति अनानुपूर्वीं कत्विकयोगा अनानुपूर्वीं  
 आनुपूर्वीं अवक्तव्यकर क्तमेण आनुपूर्वीं नानुपूर्वीं इति अवक्तव्यकर त्वपटवगा अवक्तव्यर

ओच्य अवत्तन्वयाद् च ८ अहवा अत्यिअणानुपूर्वीअचवत्तएअट अहवा अत्यिअणानुपूर्वीअ अवत्तव्यद् च १०  
 अहवा अत्यिअणानुपूर्वीओ अवत्तव्यएअ ११ अहवा अत्यि० अवत्तव्ययाद् च द्विकसयोगीभागा १२ अहवा अत्यि  
 घाणुपूर्वीओ अणानुपूर्वीअ अवत्तव्यएअ १ अहवा अत्यिअणानुपूर्वीओ अणानुपूर्वीअ अवत्तव्ययाद् च२ अहवा  
 अत्यिअणानुपूर्वीओ अणानुपूर्वीओ अवत्तव्यएओ अहवा अत्यिअणानुपूर्वीओ अणानुपूर्वीओ अवत्तव्ययाद् च ४

पदेकरी त्रिणिष भांगाद्ध एवए असयोगी जूअषा भांगाद्ध अनेसयोग पद्यते विषे त्रिणिपदना त्रिणिद्विक सयोग ऊद् तिषा ऐकैकद्विक सयोगने  
 विषे एक वषनेकरी चोभगीना ऊवा पणाथी त्रिणिद्विक सयोगनेविषे थारे भागानीपजे अनेद्विक सयोग एकज ऊद् तेभणी तिषा एक वचन बहुवचने

अनुपूर्वीं अवक्तव्यकर कत्विकयोगा अनानुपूर्वीं

अनुपूर्वीं अवक्तव्यकर कत्विकयोगा अनानुपूर्वीं



तत्राग समुत्कीर्त्तिते एष कथञ्चिदु ग्रन्थते वाचकमतरेण वाच्यस्य कथञ्चित्तु मया क्त्वाद्दतो युक्त भगवत्समुत्कीर्त्तनताया भंगोपदर्शनताप्रयोजन  
पत्राच ननु भगोपदर्शनता वाच्यस्य ल्यणुक्त्वात् धादे । कथनकाले चासुपूर्वादि सूत पुनरप्युत्कीर्त्तयित्वा तत्कि भगवत्समुत्कीर्त्तनया प्रयोजनमिति  
सत्य किठ भगवत्समुत्कीर्त्तनता सिद्धस्यैव सूत्रस्य भगोपदर्शनतरया वाच्यवाचक भावसुख प्रतिपत्त्यर्थ प्रसगत पुनरपि समुत्कीर्त्तन करियते न सुख्यतये

गुपुत्कीर्त्तयोश्च अवत्यव्ययाद् चट् विक्रसयोगीभागा अडभगाए एसब्बच्छ्वीसभगा सेत नेगमववहाराण भगवत्समुत्कीर्त्त  
णयाए आणण नेगमववहाराण भगवत्समुत्कीर्त्तणयाए किपञ्चोअण एआणणं नेगमववहाराण भगवत्समुत्कीर्त्तणयाए नेग  
मववहाराण भगोवदसणयाकोरद् सेकित नेगमववहाराण भगोवदंसणया १ तिपएसिए आणणुत्कीर्त्तौ १ परमाणुपो  
रगले अणणणुत्कीर्त्तौ १ दयपएसिए अरवत्सवएइ अरहवा तिपएसियानुत्कीर्त्तौ अओ परमाणुपोगला अणणणुत्कीर्त्तौ अओ दुपसिया

पूर्वाधादित विष्णुपदेकरी तेरकी एक वपनान्त पणे यडवचनान्त पणकरी मत्येक रूप चनेसयोग रूपविचाराता खयोसभांगा मध्ये योखणशाय जेणे  
केणेभागे द्रव्यने योलबाबाले तेणे भागे बोले तेभणी सर्वयोलपाना प्रकार कत्था तेसर्वप्रकारनेगम व्यवहार नयमाने एखबो जणावया भणी भगवत्स  
त्कीर्त्तनकणु सुत तेए नेगम व्यवहारनामतनो भगवत्समुत्कीर्त्तवा पणे एषाएण एणे योगम व्यवहारनामतने भगवत्समुत्कीर्त्तवा पणेकरी किमु प्रयोजन  
पूति प्रय उत्तर एषाएण नेगम व्यवहार नयनामतसे भगवत्समुत्कीर्त्तवा पणेकरी भगोपदर्शनपणोकीजे एतले इम कसो भगवत्समुत्कीर्त्तनताने पिपे  
भागानो सूत्रकापो च्छेभगोपदर्शनताने विपे तेचिज सुवनो पर्थ विप्रदेगिष्वाष्वादिकरूप कश्चिस्से तेसर्थसूत्र कस्येड तेज कत्तोजाइ जेभणी वापक



त्यदोषः यथा हि संहिता च पदं चेत्यादि व्याख्याक्रम सूत्रं संहिताकाले समुच्चारितमपि पदार्थकथनकाले पुनरर्थकथनार्थमुच्चार्थं तदवापीति भावः अर्थकेयं पुनर्भंगोपदर्शनंति प्रश्नपूर्वकं तामेव निरूपयितुमाह सेकिंतमित्यादि तिप्रेसिएआणपुव्वत्ति तिप्रदेशिको अर्थ आनुपूर्वीत्युच्यते लि प्रदेशिक स्तं धलक्षणे नार्थानातुपूर्वीति भंगको निव्यद्यत इत्यर्थ एवं परमाणुपुद्गलक्षणोऽर्थानातुपूर्वीत्युच्यते द्विप्रदेशिक स्तं धलक्षण अर्थोऽव्यक्तसुच्यते एवं बहवस्त्रि प्रदेशिका आनुपूर्व्यः बहवः परमाणु पुद्गला अनानुपूर्व्योः बहवो द्विप्रदेशिकस्तं धा अद्यत्तयकानीति षष्ठा प्रत्येक भंगानामर्थ कथनं एवं

अब्जत्त्वयाद् ३ अहवा तिप्रेसिया परमाणुपुद्गलेअ आणपुव्वीअ अउभंगो अहवा दुपएसिय तिप्रेसिएअ आणपुव्वीअ अबत्त्वएय चउभंगो अहवा दुपएसिआय परमाणुपोगलेअ अणुपुव्वीअ अहवा तिप्रेसिआय परमाणुपुव्वीअ अउभंगो अहवा तिप्रेसिअ दुपएसिअ अणुपुव्वीअ अ वत्त्वएअ अहवा तिप्रेसिअ दुपएसिअय आणपुव्वीअ अबत्त्वयाद् च ६ अहवा तिप्रेसिआय आणपुव्वीअ

विनावाचककक्षी नजाइ तेभणी एयुक्त जाणवुं जेभंगसमुत्कोत्तनतानो भंगोपदर्शनता अउभंगोपदर्शनताइ करी विप्रदेशि आखंथादिअना कहवानाकालने विषे आनुपूर्व्यादिकसूत्र वली उत्कीर्त्तिये तोभंगसमुत्कीर्त्तनतानो कियो प्रयोजन एउब बोल्या एसत्य परं भंगसमुत्कीर्त्तनताइ करीपनो तेसूत्र तेहिजनोवली भंगोपदर्शनताइ करी वाच्यवाचकभाव सुषेजणाविवाभणी प्रसंगहंती समुत्कीर्त्तन करीखे परं सुखरूप षष्ठी नही करीये तेभणी दोषनही जिम संहिताषपदंचैवत्यादि व्याख्यानअनुक्रमनेविषे सूत्रसंहिताने काले उत्तरीने वलीपदार्थ कहवानेकाले अर्थ

द्विसप्तदशोपेति त्रिमदेगिकस्तु ध परमाणु पुद्गलयातुपूर्वोत्पत्ते यदा त्रिमदेगिकस्तुपरमाणुपुद्गलश्च प्रतिपादयितुमभीष्टो भवति तदा अत्रि  
 ष्याणुपूर्वा अणुाणुपूर्वा इत्येवं भगोनियव्ययत इत्यर्थ एवमर्थकथनपुरश्चरा येष भगा अपि भावनीया अत्राह नन्वर्थोव्यानुपूर्व्यादि पदानां स्वर्ण्युक्त  
 स्तु धात्तिकोर्धं पदप्ररूपणता लवणे प्रथमद्वारे कथितमेव तत्किमनेन सत्य किठ तत्र पदार्थमावसुक्त मन् त तेपा सेषातुपूर्व्यादिपदाना भगकरचनना

अथत्तत्त्वयाद् च ईअहमा तिपएसिआय दुपएसिएअ अहवा तिपएसिआय दुपएसिएअ  
 आणु०अवत्तत्त्वएअ अहवातिपएसिआय दुपएसिआयआणु० अवत्तत्त्वयाद् च ८ अहवा परमाणुपोगलेअ दुपएसिए  
 अणुाणु० अतत्त्वएअ ८ अहवा परमाणुपोगलेअ दुपएसिआय अणुाणु० अवत्तत्त्वयाद् च ०अहवा परमाणुपोगलाय

कथवा भणी वसुरीद् तिम दूषा पणिजाणु एभान धिने तेचिज भगोपदर्गता कहेले सेकिन्ता किन्तु तेनेगम व्ययहारनामतनो भगोपदर्गनपणो उत्तर  
 नेगम व्ययहारनामतनो भगोपदर्गन पणु ते त्रिमदेगिक स्तुत्वरूप जे अर्थ तेचातुपूर्वा कश्चिये एतले त्रिमदेगिया स्तुत्वरूप अथकरीद् ते चातुपूर्वा  
 एचवो भागोनीपजे दूमज परमाणु पुद्गलरूप जेअर्थ तेचनानुपूर्वा कश्चिये तथा द्विमदेगिक रूप जेअर्थ तेअवक्तव्य कश्चिद् तथाएणीज परे घणातिपदे  
 गिक पणीचातुपूर्वा कश्चिये तथा यथा परमाणु पुद्गल तेषणी अनानुपूर्वा कश्चिये तथा घणाद्विमदेगिक तेवथा अयकय कश्चिये एतने छ प्रत्येक भागातु  
 अर्थ कणो अय द्विक सयोगने विपे अर्थ कश्चियेले एक त्रिमदेगियोखध अने एक एपरमाणुवो तेचिज एकठाने चातुपूर्वरूप भागो कश्चिये एतले एभाव  
 जिबारे एकत्रिमदेगित अने एक परमाणुत एकद्वयोत्पत्तिकाश्चिये तिबारे अणुपुष्पीअ अणुपुष्पीअ एचयु भागोनीपजे इत्यर्थ एष अर्थ कथन पूर्वक

समाविष्टायामर्थः कथ्यत इत्यदोषो नय मत वैचित्तप्रदर्शनार्थं वा पुनरित्यमर्थोपदर्शनमित्यलंविस्तरेण सेतमित्यादि निगमनं उक्त्वा भंगोपदर्शनता अथ समवतारं विभिण्णपुराह सेकिंतमित्यादि अथ कीर्थं समवतार इति प्रश्ने सत्याह समोयारेत्ति अयं समवतार उच्यत इति शेषः कः समवतारमित्याह नैयमववहाराराण आणुपुब्बोदब्बाईं कच्चिं समोयरंतीत्यादि प्रस्न सा नेगमववहाराराणं आनुपुब्बी इत्यादि आणुपूर्वी द्रव्याणुपूर्वी द्रव्यलक्षणया स्वजातावेव वर्त्तते नस्वजात्यातिक्रमेणेत्यर्थः इदसुक्तं भवति सम्यग्विरोधनावतरणं वर्त्तनं समवतारो अविरोध वृत्तिना प्रोच्यते सावस्वजातिवृत्तमित्यस्यात् परजाति

दुपएसिएअ अणायु० अवत्तव्वएअ ११ अहवा परमाणुपोगलाय दुपसिआय अणायु० अवत्तव्वयाइं च १२ अहवा तिपएसिएअ परमाणुपोगलेअ अणायु० अवत्तव्वएअ १ अहवा तिपएसिएअपरमाणुपोगलेय दुपएसिआयअणुपुब्बोअ अणायुपुब्बोअ अवत्तव्वयाइं च २ अहवा तिपएसिएअ परमाणुपुगलेअ दुपएसिआयअणुपुब्बोअ

सर्वभागा पाठसिद्धजटे इहां प्रश्न आनुपूर्वीदिक पदनो अर्थ तिप्रदेशियादिका तेतो अर्थपद प्ररूपपतारूप प्रथमद्वारने विषे कदाञ्चै तोएहनोसुं प्रयोजन गुर वोल्या ए सत्या कच्चुं परं तिहा पदार्थमात्र कच्चुं अने इहा तेहिज पद आनुपूर्वीदिक भांगरूपे रच्चाछे तेभांगरूपनो अर्थ कच्चो तेभणी दोपनहो अथवा नयनामतनुं धिचित्त पणुं देखाडिवाभणी इम अर्थोपदर्शन कच्चुं इत्यलं विस्तरेण सेतं तेए नैगम व्यवहार नामतनुं भागानुं देखाडिवा पणु एतले भागोपदर्शनता रूप ती जोहारकच्चुं चिबे समवताररूप चोयुं हार कहेछे सेकिन्तं अथ किचुं तेसमवतार उत्तर समोअरे एसमवतार कच्चियेछे शेषवाक्य नैगम व्यवहारनामतनी आनुपूर्वी द्रव्य कच्चिं समोअरंति किचं समवतरे कइलां वर्त्ते इति प्रश्न उत्तर आनुपूर्वी द्रव्य सर्व ते आनुपूर्वी

दृक्ते विश्वत्वा जतो नामादेगादिदृक्तीत्यपि सवाख्यानुपूर्वीं द्रव्यत्वेवर्षन्तं प्रुति स्थित एव मनानुपूर्व्यादीनामपि स्वस्थानावतारो भावनीय सेचानि  
त्यादिनिगमन उक्त समपतारी यथातुगमविभिण्णिरुप कस्यते सेकितमित्यादि अतोत्तर अणुगमेनयधिके इत्यादि तत्र सुत्रार्थयानुकुलमनुरूप या ग  
मन यथाख्यात मनुगम यथवा मत्र पठनादनुपयाहसन व्याख्यान मनुगम यदिव अमुसुत्रमर्थो गम्यते प्रायते अनेनेत्यनुगमो व्याख्यानेमेवे त्याद्यन्वदपि  
स्वपि विरोधनस्यधियावाच्यमिति सचनवविधौ नयप्रकारो भवति तदेव ऽथविधत्त दर्शयति तद्यथेत्यु पदर्थनाथ सतपयगाशा सदर्थयियव पद सत्पद

अणानुपूर्व्वोत्तत्र अयत्तत्त्व एत्तद्वहवा तिपएसिएत्त परमाणुपोगलाय दुपएसिएत्त अणानुपूर्व्वीत्त अणानुपूर्व्वीत्त अणानुपूर्व्वीत्त अणानुपूर्व्वीत्त  
सत्य एत्त ४ अहना तिपएसिएत्त परमाणुपोगलाय दुपएसिएत्त अणानुपूर्व्वीत्त अणानुपूर्व्वीत्त अणानुपूर्व्वीत्त अणानुपूर्व्वीत्त अणानुपूर्व्वीत्त अणानुपूर्व्वीत्त  
तिपएसिएत्त अणानुपूर्व्वीत्त अणानुपूर्व्वीत्त अणानुपूर्व्वीत्त अणानुपूर्व्वीत्त अणानुपूर्व्वीत्त अणानुपूर्व्वीत्त अणानुपूर्व्वीत्त अणानुपूर्व्वीत्त अणानुपूर्व्वीत्त अणानुपूर्व्वीत्त

द्रव्यरूप जे आपणीजाति तेहने त्रिपेवत्ते आपणीजातिथी अनेरी जातिने विपेनवत्ते एभाव एतले इम कक्षी संकष्टतां सम्यग् अविविहृत् स्वरूपे अथतर  
पोकष्टतां वत्तां तु तेममथतार कश्चिदे तेचविविहृत्तत्ता पणो आपणीज जातिने विपे वत्तां तां उद्व जेभणी जूजू आठामने विपे रक्षा सर्वेषानुपूर्व्वीद्रव्य ते  
आनुपूर्व्वीं द्रव्यने किले एत्त अनानुपूर्व्वीं अयत्तत्त्व एत्तार स्वस्थाना अथतार स्वयमेव जाणवु येत ते ए समवतार एतले वत्तयो समवताररूप हारकक्षी अथपाचमो  
अनुगमधार कश्चिदे सेकिन्ता अथकिण्ड तेअनुगम उत्तर अणुगमे तिष्ठां सुत्रनो अतुलरूप यथवा अतुलरूप गमन कष्टता वपाणवु तेअनुगम कश्चिदे  
यथवा अनुकष्टतां ० जूजो अर्थ तेगमीद्व कष्टतां जाणीये एणेकरी तेअनुगम कश्चिदे एतने सुत्रनु व्याख्यानज जाणवु तेनय प्रकार प्ररूपो तद्यथा

तस्य प्ररूपणं प्रज्ञापनं सत्यप्ररूपणं तस्यभावः सत्यप्ररूपणता सा प्रथमं कर्तव्या इदमुक्तं भवति इत्थंभक्तं भादीनि पदानि सदर्थविपयाणि प्ररूप्यं  
 व्योमकुसुमादीनि त्वसदर्थविपयाणि इत्यन्ते तानुपूर्व्यादि पदानि किं संभादिपदानि सदर्थविपयाणाञ्च कश्चित् प्ररविपाणादिपदवत् असदर्थगोचराणी  
 एतत्प्रथमं पर्यायालोचयितव्यं तथा आनुपूर्व्यादि पदाभिधेय द्रव्याणां प्रमाणं संख्यास्वरूपं प्ररूपणीयं चः समुच्चय एवमन्वतापि तेषामेवज्ञेयं तदा  
 धारस्वरूपं प्ररूपणीयं कियति ज्ञेते तानि भवतीति चिंतनीयमित्यर्थः तथा सर्गनावपत्तयक्रियत्ज्ञेयं तानि स्पृगंतीति चिंतनीयमित्यर्थः कालसत्त्वं

परमाणुपोगलेऽत्र द्रूपसिञ्जाय आणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र  
 दुपसिञ्जाय आणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र  
 गमववहारारणं अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र अणुपुब्बीऽत्र

संतपयगाहा कृता अर्थतुंपद तेसंतपद तेजेचनो प्ररूपणुं तेसत्वद प्ररूपणा कश्चिदे तेचनो जेभाव तेसत्वद प्ररूपणता कश्चिदे तेप्रथम करयी एतले प्रम  
 कस्यो लोकने विपे संभ कुंभादिक जेपद तेकृता अर्थनाछे अनेखरश्चिंग आकाया कुमुमादिक पदते कृता अर्थने विपे प्रतीछे तिसा सांतुपूर्वीं सादिक  
 जेपद तेसंभादिकदिकनी परे कृता अर्थने विपे प्रवर्त्तछे किंथा सरणं गदिकनी परे अथता अर्थने विपे प्रवर्त्तछे एचनो विचार प्रथम करयो तया  
 दव्यपमाणं आनुपूर्व्यादिक द्रव्यनुं प्रमाण संख्यास्वरूप प्ररूपणुं २ च अत्र सर्वत्र समुच्चयार्थ जाणयो तथा तेत्तं तेद्रव्यनुं जेत आधार स्वरूप प्ररूपणोर  
 जेतलाचेवने विपे तेद्रव्य लुद्ध एभाव विचारनुं इत्यर्थे ३ तथा प्रमाण केतलोचेत तेद्रव्य फरसे एचयो विचारनुं ४ तया कालो तेद्रव्यनुं स्थितिरूपकाश्च



तानि च त्वगुक्तस्कां धादीनि पूर्वं दर्शितान्येव एवमनानुपूर्व्यवक्तव्यं क्वहावपि वाच्यं क्वतासत्पदप्रपणा अथद्रव्यप्रमाणसम्बन्धित्पराच नेगसम्बन्धित्पराच्यं चाणुपूर्व्यी दब्बाई किंचिच्छेज्जाईमित्यादि अयमल भावार्थ इहातुपूर्व्यं वक्तव्यकद्रव्यानि प्रत्येकमनंतान्येकैकस्मिन्नप्याकाशप्रदेशे प्राप्यंते किं पुनः सर्वं लोकतः संख्यासंख्येय प्रकारद्वयनिषेधेन त्विष्यपि स्थानेष्वानेतव्यं न च वक्तव्यं कथमसंश्लेषेणोक्ते अनंतानि द्रव्याणि तिष्ठंति सचिंत्यत्वा पुञ्जलपरिणामस्थयक्ति दृश्यते चेक गृहातवर्तीकाशप्रदेशेष्वेकप्रहीपभापरमाणुव्याप्तेष्वयनेकापरप्रहीपप्रभा परमाणुनां तत्रैवावस्थानं मचाट्टेणार्थेदुपपत्ति इत्यलं प्रपंचेन दृष्टानी चेतद्वारसुच्यते नेगमववधारणामित्यादि आनुपूर्वीं द्रव्याणि किं लोकस्थैकस्मिन्नग्यातसेभोगेहाज्जोत्ति आपित्वाद्भवति अथ गार्हतं इति यावत् यदि वा एकस्मिन्नसंख्यातसे भोगेभवति वज्जपु संख्येयेतु भोगेषु भवंति कश्चिद्वज्जसंख्येयेषु भोगेषु भवंत्यय सर्वलोकैके भवंतीति पंच

ब्बेहिं समोअरंति नेगमववधारणं अवत्तव्य दब्बाइं कहिं समोअरंति किं आणुपुब्बिदब्बेहिं समोअरंति अणुणुपु  
ब्बिदब्बेहिं समोअरंति अवत्तव्यदब्बेहिं समोअरंति नो अणुणुपुब्बिदब्बेहिं समो

विप्रदेशिआदिक खंध तेहे किंया नही ए प्रश्न उत्तर निग्रमा अल्लि आनुपूर्वीं इत्यादि जे पद तेपर गंगादिकनी परे क्वता अर्थ गोचर नही तेभणी निग्रमा निश्चय आनुपूर्वीं गब्दनो बोलणीक द्रव्ये तेविप्रदेशिआदिक पूर्वं देखायाहे एणं अणुणुपुर्णी अयत्तव्यने धिये पण जाणवो एतले सत्पद प्ररूपणतारूप द्वार कस्यो ? द्विवे द्रव्यप्रमाणद्वार कहेहे २ गौगम व्यवधारनी आनुपूर्वीं द्रव्यसं संख्याता हे किंया असंख्याताये के अनन्ताहे इति प्रश्न इहा उत्तर एभावार्थ जाणतुं अनानुपूर्वींद्रव्य अयत्तव्यद्रव्य प्रत्येके अनन्ता एकेक आकाश प्रदेशने धिये पांसिये तो सर्वलोकतुं कचवो

राय अनन्त विषय पंचादिकां अणुणुपु २४५

दृष्ट्याथायतनिवचन सुखस्येयभाषना दृष्टानुपूर्वी द्रव्याणि त्व्यणुकक्यधदीन्यनताणुस्वधपर्यवसानान्युक्तानि तत्रच सामान्यत एक द्रव्यमाश्रित्य तथा विध परिणाम वैचित्यात्किञ्चिद्व्योक्तस्यै कश्चि सख्यातमे भागे भवत्येक तत्त्वख्याता भागमवगाह्येय अन्येतुतरुख्येय भागमवगाह्यते अपर उ बद्ध सादस्येयभागानवगाह्यवृत्तते अन्यच्चतरुख्येयभागानवगाह्यतिष्ठतीति सुखलोए याद्वोज्ञान्ति दृष्टानतानत परमाणु प्रथयनिष्पन्न प्रज्ञापनादि प्रसिद्ध अपचितमणस्व धलक्षणमातुपूर्वाद्रव्य समयमेक सकललोक्यावगाहि प्रतिपत्तव्यमिति कथ पुनरयमचित्तमणस्व ध सकललोकायगाहीस्यादुष्यते शुभुदयातवर्त्तिकेपलिध तयादि लोकमध्यव्यवस्थितोसो प्रथमसमयेतिर्यग् सख्यातयोजनविधार वाडर्हअधस्त षटई गरजायत विश्रसापरिणामेत् वृत्तं

अरति अत्रत्तव्यद्वेषेहि समोअरति सेत समोअरि सेकित अणुगमेरु नमविहे प्रणत्ते तजहा सतपयपरुवणया १  
द्वेषमाणव २ खित्त ३ फु सुगाय ४ कालोयथ ४ अतरई भाग ७ भावट अप्पावडु चैव ८ १ नेगमववहाराण आणुपुब्धि

किड तेभणी सण्याता असख्याता वेप्रकार निपधीने त्रिष्विस्थानकने विपे अनन्त पणौ पालवो पूरां कोद्रे एक प्रेरक कथै असख्याता लोकने विपे अनन्त द्रव्य किमतिटे तेरने एउत्तर खे पुप्रलनो परणाम अखिल्ये विधारवा गोवरनयो केवन ज्ञानगस्ये अनेदीचेपणिजे एकघरमध्यवर्ती पाकागने विपे एकनीथानी प्रभाना परमाणुयाथाप्याड्ड तेरजने विपे वकी अनेक दीयाना परमाणुया समाद्र तो प्रत्यनदीसता अर्थने विपे अषट मान युक्ति किम कश्चिये जेभणी प्रत्यघदीवो अर्थ जो युक्तिइ न मिले तो सर्व्यस्तुनी नासिधाए दृष्टा तर्कवणू इ रक्षोये पर विसारपूरोथाय यथपणु याद्र तेभणी दृष्टान्दिकारी एतने द्रव्य प्रमाणहार कसौ इ विपे खेतवार कहैजे नेगम व्यवहारानी आतुपूर्वाद्रव्य लोकना किड एक सख्यातमाभागने विपे



दंडं करोति द्वितीये कपाटं तृतीयेसंयानं चतुर्थे लोकस्याग्निं प्रतिपद्यते पंचमे अंतराणि संहरति षष्ठे संयानं सप्तमे कपाटं सटमे तु दंडं संश्रयत्वं  
 उगोभिज्जात इत्येके अन्ये त्वन्यतापिव्याचक्ष्यते तच्चुचियोगेपावय्य तादयसेयमिति वा गद्ः समुच्चये एवं यथा संभयसन्तत्वापिनाशादृष्यार्द्रं पञ्चमेत्यादि नाना  
 द्रव्याख्यानपूर्वी परिणामेत्वेन प्रतीत्यप्रकृत्यावा अधिष्ठत्येत्यर्थः नियमाच्चियसेन सर्वलोकैकं भवति न संत्येयादि भागेषु यतः सर्वलोकानामस्य समंद्गोपि  
 नास्ति यत स्वरूपपरिणामसंत्यंतान्यानुपूर्वी द्रव्याणि न भवतीति अनानुपूर्व्यकथकद्रव्येदुलोकं द्रव्यमाच्यित्वलोकस्यासंत्येयभागएव इति न संत्येय  
 भागादिषु यतोऽनानुपूर्वीतायत्परमाणु रूच्यते सचेककागप्रदेशावगढोपस्थिति यतोक्त भागवृत्तितेवेति नानाद्रव्यभावना पूर्वपरिद्व्यक्तं चेतदासं

दब्बाद् किं अत्यिगत्थि शिअमाअत्थि नेगमववहारणं अण्णाणुव्विदब्बाद् किं अत्थि गत्थि निअमाअत्थि नेगमवववरा  
 राणं अतत्तव्वगदब्बाद् किं अत्थि गत्थि निअमाअत्थि नेगमववहारणं आणुणुव्विदब्बाद् किं संखिज्जाद् अंसंखिज्जाद्

शोज्जा नाव ऊध दूरा इर्पपणाथी विभक्तिनुं विपर्यय जां गधुं अथवा लोकना एक असंख्यातमा भागने विपे मयवा लोकना यणासंख्याता भागने विपे  
 अथवा लोकना घणा असंख्याता भागने विपे ऊध एपांच पच्छासाने जाणवा पृहां उत्तर दोभानो एभावाथे दूहां आणुपूर्वीदस्य  
 तिप्रदेशिआ खंधादिअ अनन्त प्रदेशिया खंभपयंत कक्षाच्छे तिचं समुचय एक द्रव्य आथी तथाविध परिणामनापिचित पणाथी कोद् एत द्रव्य लोकने  
 संख्यातमे भागेऊध कोद् एव संख्यातसोभाग अयगाचीतिष्ठे इत्यर्थ तथा कोद् एज्जदस्य लोकनो यसख्यातसोभाग अगाचीतिष्ठे तथा कोद् एज्जदस्य लोकना  
 घणासंख्याताभागने विपे तिष्ठे तथाकोद् एव अनेरोद्रव्य लोकनायणासंख्याताभागने विपे तिष्ठे यथवा कोद् एक द्रव्य सर्वलोकने विपे अतगाानीने रसे

साम्रस्यगनाहारमुच्यते नैगमववहाराणमित्यादि भावतु चेतद्वारय फर्त्तव्या नवरक्षेत्रस्वर्गनयोऽयविशेषे चेतमवगाणकत प्रदेगमाल स्वर्गना तु  
 प्रदेगसाहचिरपि भवति तथाच परमाणु द्रव्यमाश्रित्य तावदवगाणना स्वर्गनरन्वतोक्तोभेद एगपएसोगाट सत्तपएसयसेफुसणति अस्याय  
 परमाणुद्रव्यमवगाट तावदेकस्मिन्नेवाकायाप्रदेगे स्वर्गनातु एतस्य सप्तप्रदेगा भवति पद्विग्व्यवस्थितान् प्रदेगान्यतसावगाड स्य च स्पृयतीत्यर्थ एवमय  
 त्वापि चेतस्वर्गनयोर्भेदो भावनीय अत्रसुगता प्रेरयति यदि परिमाणो पद्विग्वस्वर्गनातुपगम्यते तथैकत्वमस्यहीयते तथाचि प्रटव्यमत कि येनेवस्वरू  
 पेणासोषूणागन्त्यतरदियासवद्द्वे त्नेवाव्यदिद्विसतस्वरूपातरेण यदि तेनेव तदाय पूर्वदिक्सवधोय चापरदिक्सवध इत्यादिविभगेन अस्थानैकस्वरूपताहि  
 भागभावेच पद्विक्सवध वचनमुपरिलुवत् एष अथा परोविकल्पकल्पते तर्हि यद्वस्वरूपापत्तग्राएकत्व विशीर्यते उक्ता च दिग्भागभेदोस्यासि तस्यैकत्वेन

**अणताइ नोसखिज्जाइ नो असखिज्जाइ अणताइ एव अण्णामुव्विद्व्याइ अरत्तस्वगद्व्याइ च अणताइ भाणिअ  
 व्याइ नैगमववहाराण अणुपुव्विद्व्याइ लोगस्स किसखिज्जाइ भागे होज्जा असखिज्जाइ भागेहोज्जा सखेज्जेसुभागेसु**

इत्थां अन्त परमाणु निम्नत्र पश्यणादिक प्रवने विषे प्रसित् अचित्त महास्मृत्तूप व्यावुर्शीद्रव्य समय एकमे सर्पलोक अवगाणो जाणवु विषेएअचित्त  
 मणास्वरूप सवलोक्यामीओइ तैकठियेक्के केवमसमुदघातनी परे अचित्त महास्मृत्त लोक्कना मवने विषे रस्सो प्रथम समयने विषे तीळो सत्याता  
 तथा अमव्याता चोजन विशारतो ऊर्येयधोचउदे राजजावो वीससपरंरथानि करी वाटलु दडकरे तथावीजेसमये कपाटकरे तीजेसमयेमथाणुकरे  
 चउये समये लोक्क्यात्तिकरे पाचमे समये आतरासउरे ऊट्टे समये मथाणु सउरे सातमे समये कपाटसउरे आठमे समये दडसउरोत्तैसउर घाइर





उत्कृष्टाया अपि पुञ्जसंयोगस्थितेरसंख्येयकालत्वादिति नानाद्रव्याणि बहूनि पुनरानुपूर्वीं द्रव्याण्यधिकृत्य सर्वाद्वास्थितिर्भवति नास्ति सकृच्चित्कालो यतानुपूर्वीं द्रव्यविरहितोयं लोकः स्यादिति भावः अनानुपूर्वीं अवक्तव्यक द्रव्ये ष्वपि जघन्यादिभेदभिन्नएतावानिवावस्थितिकालस्यार्थि ! कश्चित्परमाशुरेकं समयमेवाकीभूत्वा ततः परमाणावादिनीः अन्येन सप्त संयुज्यत इच्छमेकामनानुपूर्वीं द्रव्यमधिकृत्य जघन्यतः समयोवस्थिति कालः यदातुसएवा संख्यातं कालं तद्भावेन स्थित्वा अनेन परमाणावादिना सप्तः संयुज्यते ततोत्कृष्टतो संख्येयोवस्थितकालः संप्राप्यते नानाद्रव्यपञ्चस्तु पूर्ववदेव शावनीयः अवक्तव्यक द्रव्यमपि परमाणाद्वयलक्षणं यदा समयमेकं स्थित्वा ततो विद्युज्यते तदवस्थसेववाज्येनपरमाखादिनाः संयुज्यते तदा तस्यावक्तव्यक द्रव्यतया जघन्यतः सम योऽवस्थानं लभ्यते यदातु तदेवासंख्यातं कालं तद्भावेन स्थित्वा विपटते तदवस्थसेवचान्येन परमाखादिनासंयुज्यते ततोत्कृष्टः अवक्तव्यकद्रव्यतया एसंख्यातं

### खेज्जद्र भागीहोज्जा असंखिज्जद्रभागे होज्जा नो संखिज्जेसु भागेषु होज्जा नोसब्बलो

दिशिनी फारसना इत्यादि विभागनयाद् परमाणुना एक स्वरूपपणाथी अने विभागेने अभाषे छद्विधि संघाते फारसनानो वचन सर्वथा बहीजाद् अथ जो पूर्वोक्त विकल्प कल्पिये तो तेपरमाणूना छ स्वरूपनाहोवाथी एक पणो विसरालथर्देजाद् उक्तं च दिग्नागभेदोयस्यास्ति तस्यैकत्वंन बुज्यते इति एहवी नौद्वनीप्रमाणो उत्तर कश्चित्ते द्रुडा परमाणु द्रव्यते आदि मध्य अंत्यादि विभाग रचित निरंश एक स्वरूप जाणवुं तेभगी पूर्वोक्त विकल्प निरास पस्तुन संभवे तेनिराकस्या जाणया अथ वलो बोद्ध इम कहे परमाणूने तुम्हे अंश सच्चित पणुनमानोतो पणिपूर्वीक विकल्पने बले अंश सच्चित पणुयाइत्ते तिचारबलीए उत्तर अम्हे तुम्हने पूणुं तुम्हारामतने विणे इमम्हे कीर्दे एक विज्ञानने विणे कीर्दे एक विद्यान क्षण पोताना उपजावणहारा पूर्वलाक्षण नुं कार्येहे अनेपोताथी जेउपजस्ये आगलक्षण तेहनोकारणहे इम तुम्हेमानोळी तो इहां पणि विचारीयेहे, एविज्ञानक्षण जेणे स्वरूपे पूर्वलाक्षणो

कालमवस्थान प्राप्यते नानाद्रव्यपक्षसु तथैवभावनीय उक्त कालह र अथातरद्वार प्रतिपादयिपरश्च नैगमव्यवधारणमित्यादि नैगमव्यवधारणयोरानुपूर्वी  
 द्रव्याणामतर कालत कियच्चिर भवतीति प्रत्र अन्तर व्यवधान तच्चक्षेत्ततोपि भवति अथवाभूतलक्ष्ययो रद्वैतीयनसतान्यत रमित्यतस्तद्व्यवस्थेदार्थ्य  
 सुक्त कालत कालमाश्रित्य तदव्यवस्थायै चानुपूर्वीद्रव्य विग्रसा परिणामात्मयोगपरिणामाहाश्रद्धगो विद्युज्य परित्यक्तासुपूर्वी भाग सजात एकस्मात्  
 समया दृष्ट्विच्यसादि परिणामात्पुनस्ते परमाणुभिसाथैव तत्रियन्त्रमित्येव सर्वसोक्तया एक द्रव्यमाश्रित्यासुपूर्वीत्वपरित्याग पुनकालयोरतरै

**एहोवजा यायाद्व्वाद् पडुच्य निश्चमा सब्वलोएहोवजा एव अत्रत्तव्वग दव्वाद् भाणियञ्चव्वाद् नैगमव्यवधारण आ**

कार्येहे तेषेज स्वरूपे आगलाक्षणनो कारणके अय अनेरुपेहे जो प्रथमपक्ष ग्रहस्यो तो निम पूर्वक्षणनो कार्य तिम आगलाक्षणनो पणिकार्यथाद्  
 अनेजिम आगलाक्षणनो कारण तिम पूर्वक्षणत पिणकारणथाद् तैविज्ञानक्षणना एसरूपपण्याथी अय बीजो पक्षग्रहस्योतो तैविज्ञान सतानने  
 अग सन्धित पणो घातो दृशा पणि वारता दुडिलु थाद् अय दृशां वली सौगत इम कचे एविज्ञानक्षण ते निरगजहे कार्यकारण भावरहितेहे  
 पर तैवस्तने विषे वापगता पण्याथी तिमर कार्यकारणरूप बोलिये पर ते विज्ञानक्षणने अनेक स्वरूपपणू नथी तिवारे वीहुने इम कचतां सिध्दांतयादी  
 इम कचे तो अन्हारि पणि परमाणु आथी एउत्तरदुडिलो नथी जेभणो परमाण द्रव्यरूपे अग्ररहितहतो तथाविध अचित्तत्वपरिणामपण्याथी छद्दियि  
 सपाने निरन्तरपणे रक्षा पण्याथी ते छद्दियनो सासक्कोलीये पर तिष्ठा अगेकरी किरी फरसना नथी इति दृशा घणो तर्कहे तैकचता गथी अनैरा  
 तर्कपन्थने विषे अत्यन्त चर्चुं हे तैभणो इत्यत्रविसरेण एतले स्वर्गनाद्वार कक्षा ४ अय कालहारकहेहे नैगमव्यवधारना मतनी आनुपूर्वीद्रव्य काल  
 लकियच्चिर पिरकालआथी केतलो कालकड्ड आनुपूर्वी पणाने पर्याय तेतलो काल तिटे एप्रत्र उत्तर एगदव्य पडुचु दृशां इसी भापना परमाणवे

अथवाभूतलक्ष्ययो रद्वैतीयनसतान्यत रमित्यतस्तद्व्यवस्थेदार्थ्य

नैगमव्यवधारणमित्यादि नैगमव्यवधारणयोरानुपूर्वी

समयः प्राप्यते उत्कृष्टतः सर्ववृद्धतयाः पुनरंतरमनंतं कालं भवति तथाहि तदेवविचित्रं किमप्यानुपूर्वी द्रव्यं तथैवभिन्नं भित्वाच्च ते परमाणुवोऽन्येषु परमाणुषु त्व्यगुकादिषु अणुताणुकस्त्वंधपर्यंतैषू अनंतस्थामेषूत्कृष्टातराधिकारा दसकृत्प्रतिस्थानमुत्कृष्टास्थितितनुभवंतो पर्यटति हात्वा चेत्यं पर्यटनं कालस्थानं तत्वाहित्वासादि परिणामतो यदा तदेवपरमाणुभिसादेव विवक्षितमानुपूर्वी द्रव्यं निष्पद्यते ततोऽनंत उत्कृष्टांतरकालः प्राप्यते नाद्याद्रव्याख्यधि

**णुपुव्विद्व्वाइं लोगस्य किंसंखेजजइभागं कृ,संति असंखेजजइभागं कृ,संति असंखेजजेभागे कृ,संति असंखेजजेभागे कृ,**

आदिकमे अनरो एक परमाणुञ्चो मिलते अपूर्वं किञ्च एक आनुपूर्वी द्रव्य जपनो तिवारपच्छी एकसमयधी तेएकादिक परमाणुं टलते ऊंते आनुपूर्वी भावटली जाइ तेभगी एक आनुपूर्वी द्रव्यञ्चाञ्ची जोतां जघन्य एक समय अवस्थितिकाल.जांणवो अने तिवारे तेदिज आनुपूर्वी द्रव्य असंख्यात उत्कालतेणो भावे रक्षीने पूर्वेक्तः स्वरूपेभेदाइं तो उत्कृष्ट असंख्यातो अवस्थितिकाल ऊइ परं अनन्तकालनरहे पुङ्गलनी संयोगस्थिति उत्कृष्टं असंख्यातोजकालछे तेभगी तथा नानाद्रव्य आञ्ची विचारनियमा सर्वाद्वा स्थितिच्छय जेभगी तेकोई कालनथी जेकालने विषे आनुपूर्वी द्रव्यरहित एलो कऊइ एभाव अय अनानुपूर्वी अवक्तव्य द्रव्यने विषे पणि जघन्यादि भेदभिन्न एतलोज अवस्थिति कालजाणुवो तथाहि कीई एज विपरमाणुञ्चा एकस समयमात्र एकाकी रक्षीने तिवारपच्छी अनैरा परमाणु संघाते एकथाइ एणी परे एक अनानुपूर्वी द्रव्यञ्चाञ्ची जघन्य एक समय अवस्थितिकाल पामिये अने जिवारे तेपरमाणुञ्चो असंख्यातो काल तेणे भावे रक्षीने अनैरा परमाण्वादिक संघाते मिले तिवारे उत्कृष्ट असंख्यातो अवस्थितिकाल पामीये तथा नानाद्रव्यपक्ष ते पाछली परे भाववो अने अवक्तव्यपणि परमाणुद्वयरूप एकसमय रक्षीने भेदाय तिवारे अनैरा परमाण्वादिक संघाते संघुता ऊइ तिवारे तेअवक्तव्यने जघन्यएक समयस्थिति लाभे अने जिवारेते अवक्तव्य. तेणे भावे असंख्यातो काल रक्षीने भेदाइं अथवा अनैरा द्रव्य

लक्ष्युपान्त्यतर नचि सकचिकालोसि तत सर्वाग्यथासुपूर्वो द्रव्याणि युगपदासुपूर्वो भाष परित्यज्यन्ति अनतानतैरासुपूर्वीद्रव्ये सर्वदैव लोकस्या  
नृत्यत्वान्तिभाव अनसुपूर्वो द्रव्यांतरकालचिंताया एगद्वय पडच्च जइन्ने ण एक समयति इच यदा किचिदानसुपूर्वी द्रव्य परमाणुनक्षणनयेन पर

सति सखलोग फु, सति एग द्ब्य पडुच्च लोगस्ससखेवजइभाग वा फु, सति जाव सखलोगं वा फु, सति शायादव्याइ पडुच्च

सुपाते मिने तिवारे उल्कृष्टो अवक्त्यद्रव्येने पणि असंथातो अपस्थितिकालपाभिधे यने नानाद्रव्यतु पच तिमजभाषयु एतले कालद्वारकरो ५ अथा  
तरद्वार कडेरे ६ नेगमय्यधारना मतनी आसुपूर्वी द्रव्यतु आतरो केतलो कालउइ तिष्ठा आतरो जेतथी पणि उइ जिमभ्नि यने स्वर्थो आतरो  
आठमय योजन कसुं उ नेटालयभणी कडेछे कालोकावथी कसतां कालआथी तिवारपथी एअर्थथासुपूर्वीद्रव्य आसुपूर्वी स्वरूपपणु छाडीने केतलेकालेते  
बली तिमज घाइ एतने आसुपूर्वी पणो छाडीने बली आसुपूर्वी पणाना लाभतु आतरो केतलो उइ इत्थर्थ ए प्रश्न उत्तर एगद्वय पडुच्च इइ इइ इइभीभाप  
ता इइं विवक्षित तिमदेगिमादिक कोइ एक आसुपूर्वी द्रव्य वीससापरिणामथी अथवा प्रयोगपरणामथी उएइअएउ डोइने आसुपूर्वीद्रव्यतु स्वरूप  
खाडीने अनसुपूर्वी अवक्त्यस्वरूप यामीने एक समयथी उपरांत वीससादिक परिणामथी बली तेणेज परमाणुइ करी आसुपूर्वीद्रव्य नीपनो एणीपरे  
जस्यथी मोक पणे एकद्रव्य आथी आसुपूर्वी पणानां छाडवाना कालथी बली लाभनो आतरो एक समयपामीये उएइइसर्व वड्ड पणे बली यन्तरो  
अनने कालसणे उइ नेकचिडेजे नेवियक्षित कोइ एक आसुपूर्वीद्रव्य तिमज भेदाणो भेदायने तेपरमाणु अनैरा परमाणूया चिप्रदेशिक तिमप्रदेशिकादि  
अनन्तप्रदेशिक पर्वन्त अनन्तस्थानकने विषे उल्कृष्ट अनन्तना अधिकारथी एकेक स्थानकने विषे अनेकवार उल्कृष्टस्थिति असुभयता उता पर्वटनकरी  
ने एणी परे परम्भमथ कालना अनन्तपणायी खिवारे वीससापरिणामथी तेणेज परमाणु'इ तेखिज विवक्षित आसुपूर्वी द्रव्य नीपजे तिवारे उल्कृष्टो



मागुत्तुणुकत्तुणुकादिना केनचित् द्रव्येण। सह संयुज्य समया पूर्वोविशुज्य पुनरपि तथा स्वरूपमेव भवति तदा समयग्रहणो जघन्यांतरकालः प्राप्यते  
 उक्तोसंज्ञं प्रसंखेज्जं कालंति तदेवानानुपूर्वीं द्रव्यं यदा अन्येन परमाणुघुणुकत्तुणुकादिना केनचिद्रव्येण सह संयुज्यते तत्संयुक्तं वाख्येयं कालं  
 स्थित्वा विशुज्य पुनस्तथास्वरूपमेव भवति तदा संख्यात उत्कृष्टान्तरकालो लभ्यते अत्राह ननु अनानुपूर्वीं द्रव्यं यदा अनन्तानंतरपरमाणु प्रचितस्कां न्येन  
 सह संयुज्यते तत्संयुक्तं वासंखेप्रयं कालमवतिष्ठते ततोऽसौ स्कांधाभिज्यते भिन्नचलस्माह्णगुक्लंधो भवति तेनापि सह संयुक्तमसंख्यातं कालमवतिष्ठते  
 पुनस्तस्मिन्नभिज्यमानेच सास्माह्णघुतमः स्कांधो भवति तेनापि संयुक्तमसंखेयं कालमवतिष्ठत इत्येवं तत भिज्यमाने क्रमेण कदाचिदनन्ता अपि  
 स्कांन्यासंभाय्यंते तत च प्रतिस्कांन्यं संयुक्तमनानुपूर्वीं द्रव्यं यदा यथोक्तास्थितिमनुभूय तत एकाक्येव भवति तदा तस्य यथोक्तानंतरं स्कांन्यस्थित्यपेक्षया अनं  
 तोपि कालोऽन्तरे प्राप्यते किमित्यसंखेय एवोक्तोत्वोच्यते स्यादेवं यदि संयुक्तोऽणुरेतावंतकालं तिष्ठेदेतस्त्वधनास्ति पुद्गलसंयोगस्थितेरत्कृष्टतोषसं  
 खेयकालत्वादित्युक्तमेव अथवा यस्मिन् स्कांधं संयुज्यते असोपरमाणुः सचस्कांधे असंखेयकालाद्भिद्यते तत्त्वोत्तावतैववरितार्थः पुद्गलसंयोगा संश्लेष  
 कालनियमो विवक्षित परमाणु द्रव्याणंतु वियोगोमाभदपीतिनेतदेवं यस्या अन्येन संयोगो जात स्यात्त संश्लेषय कालाद्वियोगश्चित्यते यदि च परमात्वा  
 अयः स्कांधोऽविशुज्यते तर्हि परमाणोः किं आयातं तस्यान्यसंयोगस्य तदवस्थत्वात्तस्मादणुत्वेनासौ संयुक्तो असंश्लेषयणालत्वेनेव विवोजनीय इति योक्त  
 एवांतरकालो नत्वन्तं इति कथं पुनरणुत्वेनैवतस्त्ववियोगश्चितनीय इतिचेत् स्रुत प्रमाण्यात् प्रस्तुतस्त्वे व्याग्राप्रश्नादिषु परमाणोः पुनः परमाणु  
 भवनेसंश्लेषरूपस्य चांतरकालस्योक्तत्वादित्यलं विस्तरेण नाणाद्व्यादं पडुञ्चेत्यादि पूर्ववद्भावनीयं अतस्त्वव्यकद्रव्यागामंतरचिंतायां एगं द्रव्यं पडुञ्चेत्यादि  
 तत्र भावना इह कश्चिद्विप्रदेशिकस्कांन्योपि अवटितस्वतन्त्रं परमाणुद्वयं जातं समयचेकं तथास्थित्वा पुनस्ताभ्यामेवपरमाणुभ्योद्विप्रदेशिकस्कांन्योनियमोऽग्र

विघटित एष द्विप्रदेशिककम्बोऽयेन परमाण्वादिना सयुज्य समयाद्गर्भं पुनस्तैवैश्वर्यवियुक्तं प्रत्यप्यकस्य पुनरप्यकस्य भवने उभयोपि समयोऽपतरे सभ्यते उक्तौषेण अणत काल इति कथमन्तोष्यते अवकथ्यद्रव्य किमपि विघटित विगमकलित परमाणुहयजात तच्चानतै परमाणुभि रनतैस्त्रणुजस्तुधै चविदमनै ररताणुकस्तुधै सङ्कमेण सयोगमासाद्य उत्कृष्टांतराधिकारात् प्रतिस्थानमसङ्कटुत्कृष्टासयोगस्थितिमनुभूय कालस्यानतया नदा पुनरपि तयैवएणुक स्तन्मतया सयुज्यते अयत्कथ्यतेकद्रव्यस्य पुनस्तथाभक्ते चनतो अंतरकाल प्राप्यते नानाद्रव्यपञ्चभाषना लोके सर्वदैवतद्वावात्पूर्ववद्वक्तव्या उक्तमंतरद्वार ई

निश्चमासव्वलोग फु,सति योगमत्रवचाराण अणुपुव्विद्वद्वाद् लोचस्स किस्खेज्जद्द भाग फु,सति जाव सव्वलोगं फु,सति एगद्व्व पडुच्च नो सखिज्जद्दभाग फु,सति असखिज्जद्दभाग फु,सति नो सखिज्जे भागे फु,सति नो असखेज्जे भागे फु,सति नो सव्वलोच्चं फु,सति नाणाद्वद्वाद् पडुच्च निश्चमा सव्वलोच्च फु,सति एव अत्रवत्तव्वगद्वद्वाद् भागिच्च व्वाद् योगमत्रवचाराण अणुपुव्विद्वद्वाद् कापअथोक्किवच्चिर होद्द एगद्व्व पडुच्च जहण्ण एण समय उक्कोसेण अत्रसखे

अननकालपरिमिते तथा नानाद्रव्य आत्मीजोता आतद्द अथी केमणी तेकोद्दे कालसथी जिज्ञा सर्वं आनुपूर्वीं द्रव्य समयकाले आनुपूर्वीं भावच्छाडे अन्नन्ता आनुपूर्वीं द्रव्यद्द कटी सर्वलोकना अभूत्य पणायी एभाव तथाअनानुपूर्वीं द्रव्यांतरालकालनी विचार्याने विपे एगद्व्वपडुच्च द्रष्टा विचारे कोद्दे एक अनानुपूर्वीं द्रव्यपरमाणुरूप अनेरा परमाणुथा द्विप्रदेशिकादिक केणे एक द्रव्य सघाते सयुक्त उद्देने एक समय उपरांतपत्नी तथा स्वरूप जेयाद्द तियारे समयरूप जघन्य अन्तरकालपरिमीये तथा तैद्विज अनानुपूर्वीं द्रव्य विचारे अनेरा परमाणुथा द्विप्रदेशिकादिक कोद्दे एक द्रव्य सघाते सयुक्त उद्द तिसयुक्त

सुयानुवर्तमानस्य प्रमाणानुसारेण

सांप्रतं भागद्वारं निर्विचुराह ७ नेगमववहाराणामित्यादि नेगमव्यवहारयो रूपाणु कस्तन्म्यादीन्वनं ताणु कस्तंघपयंतानि सर्वाण्यथापुपूर्वीद्रव्याणि शेष द्रव्याणां समस्ता अनानुपूर्व्यवक्तव्यकद्रव्यलक्षणाना कतिभागेहोज्जति कतिसे भागेभवंति इत्यर्थं किंसंख्यातमभागे भवंति यथासक्तत्पनया यतस्य विंशति मित्ता किंसंख्यातसे भागे भवंति यथा यतस्यैव वदय संख्यातेषु भागेषु भवंति यथा यतस्यैव चत्वारिंशत्पटिर्वा किंसंख्यातेषु भागेषु भवंति यथा यतस्यै भाषीतिरिति प्रश्नः अत्र नोसंखेज्जैर्भागेभोज्जा इत्यादि नियमा असंखेद्येषु भागेषुहोज्जति इच्छततीयार्थे सप्तमी ततश्चानुपूर्वी द्रव्याणियेषभ्योऽनानु

उजंकालं णाणाद्व्वाद् पडुच्च णिअमासव्वद्धी अणणुपुव्विद्व्वाद् अवत्तव्वगद्व्वाद् च एवंचेव भाणिअव्वाद् णेगम ववहागणं अणुपुव्विद्व्वाणं अंतरंकालउ कीवच्चिरं होई एगं दव्वं पडुच्च जहणेणं एगं समयं उक्कोसेणं अणंतंकालं ना णाद्व्वाद् पडुच्च णत्थिअन्तरं णेगमववहाराणं अणणुपुव्वीद्व्वाणं अन्तरंकालओ कीवच्चिरं होइ एगं दव्वं पडुच्च जह णेणं एगं समयं उक्कोसेणं असंखेवजं कालं नाणाद्व्वाद् पडुच्च णत्थि अंतरं णेगमववहाराणं अवत्तव्वगद्व्वाणं अं

यको असंख्यातो कालरहीने वलीभेदाणो ऊतो तथा स्वरूपे ऊई तिवारे उत्तदो असंख्यातो अन्तरकालर्पाभीये इया प्रेरक बोद्धो भगवन् अनानुपूर्वी द्रव्य तिवारे अनन्तानंत परमाणुमय स्तन्ध संघाते संयुक्त ऊइ तेसंयुक्तयइ असंख्यातो कालरहे तिवार पच्छी तेसंघ भेदाणे ऊये जेवली तेथीलसुखंघ ऊइ तेसंघाते संयुक्त असंख्यातो कालतिटे तिवार पच्छी तेणे खंघे भेदाणे ऊते वलीतेथी अतिनान्होस्तन्ध ऊइ तेसंघाते संयुक्त असंख्यातो ताव तिटे इणी परे अरुक्रमे कदाचि चिह्वां अनन्ता पणिस्तन्ध संभावीये तिहा एकेकस्तन्ध संयुक्त अनानुपूर्वी द्रव्य तिवारे यथोत्तस्थिति चतुभवीने तेथी एकाकी ऊइ

राय धर्मपुत्रे विषु मीयारका अणुपुव्वीद्व्वाणं अन्तरंकालं ४४५

पूर्वविषयकद्रव्येभ्यो असत्यवैभक्तिभिरधिकानि सभवती तिवाक्येयोद्वय सातसायमर्थं प्रतिपत्तव्यं चाणुपूर्वीं द्रव्याणि शेषद्रव्येभ्योऽसत्येयगुणानि शेषद्रव्याणि तु तदसत्त्वैय भागे वर्तन्ते न पुन गतस्यायीतिरिक्तपूर्वीं द्रव्याणि शेषेभ्यः सोकानीतिक्रमादेय व्याख्यायते सोकान्यपितानि भवन्ति तित्थेतेत्यस्यमपटमानकत्वा तयास्तानामुपूर्वकत्वक द्रव्ये एकाकिन परमाणु पुनलाघणुकाद्य स्रधा इत्येतावत्येव द्रव्याणि सभ्यते गोपाणि तु व्यणुक स्रधादीत्यनतायुक स्रध पर्यतानि द्रव्याणि समस्योत्पन्नानामुपूर्वीं द्रव्याण्येव तानि च पूर्वस्योत्पन्नैयगुणानि यत उक्त एवसिण्य भते परमवोगलाण सविज्जपएसिधाण असतेज्जपएसिधाण्यः अणतपएसिधाण्येयसधाण कयरे कयरे कितो अयावा वज्जयावा उष्ठावा विवेसावि

तर कालत्रो केवच्चिर होइ एगंद्वय पडुच्च अहण्येण एगंसमय उक्कोसेण अणतकाल नाणाद्व्याइ पडुच्च खत्थिअंतरं गोममवहारण आणुपुखिट्वाइ सेसट्वाण कतिभागे होज्जा किसिखिज्जइभागे होज्जा असिखिज्जइ भागेहोवजा

तिशरे तदने ययोत्त अनन्तास्सधनी स्थितिनो अपेवाये आन्तरने विपे अनतोकास पण्णिपामीये तो असत्थातोकास आंतरो किम कथो गुरुबोल्या हेवस इमन ऊइ जोसयुक्त परमाणुयो एतलोकास तिटे तेतोतयो जेभणी पुनल सवोगस्थिति उत्कृष्ट असत्थाताकालनीछे उपरततनयी वलीपेरक बोल्या जेस्कन्धने विपे परमाणू सयुक्त ऊइ तेस्कन्धज असत्थातोकास पथी भेदाइतो एतले पणि पुनल सवोग स्थितिनो असत्थातोकास पधवेसे परमाणू द्रव्यनो विदोग मूलन ऊइ गुरुबोल्या हेवस इमनचि जेभणी जेठने अनैरासघाते सधज्जउ तेठनो असत्थाता कासपथी विदोग चितवीये जोपरमाणु यागो आत्रय स्कन्ध भेदाइ तो परमाणूनो किउ यथो तेउइ सवोग तो तिमज्जे तेभणी परमाणुआपणे सयुक्त असत्थाता कालपणे विदोग करता

सुखिनिभिरसिधाण्यः अणतपएसिधाण्येयसधाण कयरे कयरे कितो अयावा वज्जयावा उष्ठावा विवेसावि

सुखिनिभिरसिधाण्यः अणतपएसिधाण्येयसधाण कयरे कयरे कितो अयावा वज्जयावा उष्ठावा विवेसावि

यावा गीयमा सव्यथोवाअगंतपएसियाबंधा परमाणुपोगला अगंतगुणा संखिज्जपएसियाबंधा संखिज्जगुणा असंखेज्ज गुणा तदवस्तवैवपुद्गलजातेः सर्वस्या अपिसकायादसंख्यात प्रदेयिकाः स्तंधाअसंख्यातगुणाउक्ता सोचाउपूर्वोसंतर्भवति तदपेक्षया आउपूर्वी द्रव्याणि येषाल्मसादपि द्रव्यादसंख्यातगुणानि किं पुनरनउपूर्व्यं वक्तव्यं द्रव्यमात्वात्ततोयथोक्तमेव व्याख्यानं कर्तव्यं मित्यलं तिसरेण अणुणुष्विद्व्याद्वि सित्वादि इहाउपूर्वो द्रव्याख्यवक्तव्यकद्रव्याणि च श्रेयद्रव्याणां संख्यातसएव भागे भवंति न गेपभागेषु तथाऽनंतरोक्तव्याथादेव भावनीयं त्रित्युक्तं भागद्वारं ० सांप्रतं भावद्वारमाहः नेगमववकाराणमित्यादि प्रज्ञो तचोदाविकादिभावानां ग्रन्थार्योभावार्यथं तिसरेणोपरिष्ठात् स्वस्थानएववस्यते अतनिर्वचनं सूते नियमासा ईपरिणामिएभावेत्तोज्जत्ति परिणामनं द्रव्यस्य तेन तेन रूपेण वर्त्तनं भयनं परिणामं स एव परिणामिक सातभवस्येन वा निर्दत्त इति निर्दत्त पारि

**संखेज्जे तु भागेषु होज्जा असंखेज्जेसु भागेसु होज्जा नो संखिज्जइभागे होज्जा नो असंखिज्जइ भागे होज्जा नो**

हुता यथोक्तज अनन्तर काललाभे परं अनन्तकाल नही तोवली गिय पूरेहे परमाण पणजे किम वियोग चित्तपीये एहो नियस किम जास्थिये गुरूवोला हेवस्य त्रीसूतना प्रमाण पगाथी एनियस जाणवो एप्रारंभित सूत्रने यिपे तथा त्रीसगमतीने विपे परमाणुवाथी परमाणुजा शेवा विचले असंख्यातो अन्तरकाल कस्योहे तेभगी ओजिन वचनना प्रमाण पगाथी इस जाणो इत्यलं तिसरेण तथा नानाद्रव्य साथी पाखिली परे भास्यं चिपे अवक्तव्य द्रव्यनी विचारणाने विपे एगंद्वंपडुच्च तिहां इसीभावना कोई एक्क हिप्रदेशिकसूक्ष्म विषय्यो स्वयमेव परमाणुया नेवया अने तिराज एका समय रहींने वली तेणेज परमाणुइ हिप्रदेशिकस्तन्धीपनो अथया अणविषय्योज द्विप्रदेशिकस्तन्धे उनिरा परमाखादिक संघाते संसुत्तयइने एजसमय उपरात वली तिमज विद्युक्त ऊइ एणी परे अवक्तव्यनोवली अयक्तव्य ऊइ तो मज्जं प्रकारे एह समय आंतराने यिपे लाभे तथा उत्तटाठो पनन्तोकाल

राव धनपत सिधु धरिहरिणी भाषास संशय भाग ४४५१

शाक्तिक सच द्विविध सादिरनादित् तत्त्वकर्मास्त्रिकायाश्च रूपीद्रव्याण्यमनादि परिणामोऽनादिकालात्तद्द्रव्यत्वेन तेषां परिणतत्वात्पि द्रव्याणां च सादि परिणामो अर्धेद्रुधपुरादीनां तथा परिणतेरनादित्वा भावादेश्च स्थिते नियमादवश्यतया आनुपूर्वीं द्रव्याणि सादिपरिणामिक एव भावे भवत्यानुपूर्वीत्वं परिणतेरनादित्वा सभायादिगिद्वैक परिणामेन पुत्रत्वानामसख्ये यकालमेवावस्थानादितिभाव अनानुपूर्व्यं पक्ष्यक द्रव्येष्वपीपमेव भावनाकार्या इत्युक्तं भाष्यद्वारम्बु इदानीमन्य शक्यत्वद्वार विभक्तिपुराचं एणसिणमित्यादि द्रव्यमेवार्थो द्रव्यार्थं सास्यभावो द्रव्यार्थतो तथा द्रव्यत्वेन इत्यर्थं प्रकृतो निरगोदेग प्रदेशे सचसाधर्म्य प्रदेशार्थं तस्यभाव प्रदेशार्थता तथापरमाणुत्वेनेतिभाव द्रव्यार्थप्रदेशार्थतया यद्योक्तोभयरूपतयेतिभाव सदायमर्थ एतेषा आनुपूर्व्यादि द्रव्याणामर्थे कथरेक्यरेऽपि कतरागिकान्वाचित्य द्रव्यपेक्षया प्रदेशार्थतया वात्यानि विशेष्येनान्वादिना वल्लव्यमिसखेयगुणयादिना तुल्यानि सम

**सत्वेवेनेसु भागे सु होवजा असखेवेजेसु भागे सु होवजा रोगमववहाराण अथाणुपुब्बिदब्बाइ सेसदब्बाण कतिभागे**

तेकिम कोद एक अक्षय्य द्रव्य विषयो विषयीने वेपरमाणू घया ते अनत परमाणू सघाते अनन्त त्रिप्रदेशिभादिक यापद् अनन्त प्रदेशिय आसघाते असुकते सयोग्यामीने उत्कृष्ट आंतराना अधिकारथी एकेअस्थानकने विषे अनेकवार उत्कृष्ट सयोगस्थिति असुभवीने कारणाना अनत पणायो जिथारेवली द्विप्रदेशिकस्त्वपणे सकृत्कृद् तोएकेत अक्षय्यसु एकेअक्षय्य द्रव्य द्रव्योव्यानेविषे अनतो अंतरकालपांमीये तथातानाद्रव्य पक्षनी भावना पाच्छली परे जाणवी एतले अंतरवार कस्योद अथभागवार कहेहे ७ नैगम व्यपचारना मतनी त्रिप्रदेशिक व्यादिदेहे अनत प्रदेशिक पर्यंत सर्व आनुपूर्वी द्रव्य तेषेप द्रव्य कषता अनानुपूर्वी अक्षय्य द्रव्यरूपने कतिभागेओजा केतले भागे ऊद् इत्यर्थं किंउ सख्यातसे भागे ऊद् जिम असत्कल्पयाद् सीनी अपेक्षायेवीस अक्षय्यसत्यातसे भागेऊद् जिमसीनी अपेक्षायेदग अक्षय्य घणा सख्याता भागनेविषे ऊद् जिमसीनी अपेक्षाये चालीस अक्षय्यसात

अथ टी० १५५ ३४ भाषा

अथ टी० १५५ ३४ भाषा

संख्यात्वेन विशेषाधिकानि किञ्चिदाधिक्येनेति वाशब्दाः पञ्चांतरवृत्तिद्योतका इति वृष्टेवाचः क्रमवर्त्तित्वाद्द्रव्यार्थता चेत्तथा तावदुत्तरमुच्यते ततस्त्वयथोवा  
 द्वेनेगमवधारणं अथत्त्वगद्व्याङ्गद्व्यहयाएत्ति नैगमव्यवहारयोः द्रव्यार्थतामपेक्ष्य तावद वक्तव्यमद्रव्याणि सर्वेभ्योऽप्येभ्यः श्लोकानि सर्वश्लोकानि अनाउ  
 पूर्वीं द्रव्याणि तु द्रव्यार्थतामेवापेक्ष्यविशेषाधिकानिकथं वस्तुस्थिति स्वभावा दुक्तं च एएसिगं भंते परमाणुपोगलागं रुपएसियागखंषाणं कयरेकयरेचिंती  
 वञ्जयावा गोथमा रुपएसिचिंती खंधेचिंती परमाणुपोगलावञ्जगत्ति तेभ्यमानुपूर्वीं द्रव्याणिद्रव्यार्थं तथेवासंखेयगुणानि अतोऽनानुपूर्वींद्रव्येष्ववक्तव्यक  
 द्रव्येषु च परमाणुलक्षणं यणुजस्त्वं धलक्षणं चैकैकमेवस्थानं लभ्यते आनुपूर्वीं द्रव्येषु त्यणुकस्त्वादीन्चेको हरद्वृद्धानंताणुकु स्तं ष पयंताम्यनंतानि  
 स्थानानि प्राप्यंते तस्थानवञ्जत्वादानुपूर्वीं द्रव्याणि पूर्वभ्योऽसंख्यातगुणानि ननु यदितेषु स्थानान्यनंतानि तद्यंनंतगुणानि पूर्वभ्यस्थानि कस्मान्नभवंतीति

**होज्जा किंसंखिज्जइ भागे होज्जा असंखेज्जेसु भागेसु होज्जा असंखेज्जेसु भागेसु होज्जा**

अथवा घणा असंख्याता भागने विषे ऊइ जिमसौनी अपेचाये असौ एअप्रउत्तर.नियमा निश्चये आनुपूर्वींद्रव्य शेषअनानुपूर्वीं अवक्तव्य द्रव्यथी असंख्याते  
 भागे अधिकादोइ एशेष वाक्य जाणवो इहां लतीयाने अर्थे सप्तमी जाणनी तेभणी इम अर्थे जाणवो आनुपूर्वीं द्रव्यथी असंख्यात गुणाहे अनेशेषद्रव्य  
 तेमांनुपूर्वीं द्रव्येने असंख्यात मे भागेहे परं सोनी अपेचाइ अथीनीपरि आनुपूर्वींद्रव्य शेष द्रव्यथी योछानथी इहां प्रेरक पूछेहे किस्वाभणी इम  
 वपाणो छी जेभूणी तेआनुपूर्वीं द्रव्य योडापणि ऊइ तो कौणवारि गुरूबोल्या वत्स इम नही जेभणी तेद्रव्य योडा युक्तिइं घटे नही तेकिस अनानुपूर्वीं  
 अनेअवक्तव्य द्रव्येने विषे एकाकी परमाणु पुत्रल अने द्विप्रदेशिकस्त्वन्ध एतलाज द्रव्यलाभे अनेशेषं त्यणुकस्त्वन्धादिक अनंताणुक स्त्वन्ध पयंत सप्तमा  
 द्रव्य आनुपूर्वींद्रव्य कश्चिथे ते पूर्वला द्रव्यथी असंख्यात गुणाहे यत उक्तं च एएसिगंभंते परमाणुपोगलागं संखेज्जापएसिआणं खंधा असंखेज्जा गुणा

चेन्नैय यतोनताणुकस्तु धा केवलानानुपूर्वा द्रव्ये श्योष्यतभागवत्ति त्वात् स्वभावादेव लोका इति नकिचित्ति रिहवर्द्धं ते तावस्तुहृत्त्वाकिला सख्यातान्ये ष  
 तेषु स्थानानि प्राप्य ते तदर्थे क्षयायस खातगुणान्ये ष तान्ये तच्चद्रव्यं भागद्वारे लिखित प्रज्ञापना स्वत्वात्तुं भावनीयमित्यल विसारेण उक्त द्रव्यान्वितया  
 अन्यवृत्तत्व मिदानी प्रदेशार्थतया तदेवाह पएकद्वयाए नैगमव्यवहारार्णमित्यादि नैगमव्यवहाराया प्रदेशार्थं तथा अल्पवृत्तत्वे चित्यमाने अनानुपूर्वी  
 द्रव्याणि सर्वेभ्य सोक्तानि कुत इत्याह अपएकद्वयाएत्ति प्रदेशलक्षणस्थार्थस्यतेष्वभावमित्यर्थं यदिति तेषु प्रदेशाः स्यु सादा द्रव्यान्वितयामिव प्रदेशार्थता

नो सखेज्जद्र भागे होज्जा असखिज्जद्र भागे होज्जा नो सखेज्जनेसु भागे सु होज्जा असखेज्जनेसु भागे सु होज्जा

एवञ्चवत्तत्त्वग द्रव्याणिवि भाणिञ्चव्याणि शेगमववहाराण आणुपुब्बिद्व्याद्र कतरमिभावेहोल्या किउदद्वएमवेहोज्जा  
 तेएस्सुरने विपे सर्वं पुद्गल जातिथी असख्यात प्रदेशिक स्तस्य अस ख्यात गुणा कस्या तेसर्वं आनुपूर्वी द्रव्यमादि भावे एतला भणी तेइनी अपेक्षाये  
 आनुपूर्वीद्रव्यं शेप समस द्रव्यथी असख्यात एणाद्धे ती अनानुपूर्वी अवक्तव्य द्रव्यमात्वथी किउ कश्चिउ तेभणी यथोक्त व्याख्या करयु इत्यल विसारेण  
 तथा नैगम व्यवहारना अणुपुब्बिद्व्याद्र इषां अनानुपूर्वीद्रव्यं अनैवक्तव्यद्रव्यं तेस्येय द्रव्यने असख्यातमे भागेशोद्व शेपभागने विपे नउद्व तथापूर्वीक्त  
 न्याययथीज इमभायनो एतले भागहार कस्यो० अयभावाहारकहेहेट्टे नैगम व्यवहारना मतनी आनुपूर्वीद्रव्यं कदरमिभायेहोज्जाकोणभावेनेविपे उद्वकिउ  
 उदयिक भावने विपे उद्व इत्यादि इषां उदयिकादिक भावतो यद्वाय्य अनैभावाय्य अणलि आपणे स्थानके सविसार कश्चित्ते एप्रत्र इहांतत्तरना सुवने  
 विपे णिअमा साद्वारणांसिए तिषां परिणमनु कसतां द्रव्यतु तेषे रूप इषां होणो तेपरिणाम कश्चित्ते अथवा तेइने विपे उद्वथो अथवा तेषे

अणु टी० १६० सूत भाषा



यामयवक्तव्यका पेक्षयाधिकत्वस्यान्वय तदस्ति परमाणुरप्रदेश इति वचनादत सर्वसोकाव्येतानि ननु वहि प्रदेशार्थतापु नास्ति तद्विधया विचारोपि तेपा न युक्त इति चेन्नेत देव' तेषु प्रकृष्टासर्वस्वत्वां पुत्रलास्त्रिकायस्य देशोनिर्गोभागः प्रदेश इत्युक्तातः प्रति परमाणु प्रदेशार्थतास्य पणस्यत एव आत्मव्यतिरिक्तप्रदेशान्तरपेक्षयात्वप्रदेशार्थतेत्यदोषः स्वक्तव्यकद्रव्याणि प्रदेशार्थतयाऽनानुपूर्वीद्रव्येभ्यो विशेषाधिकानि यतः किलासक्तव्ययानि त्रयवक्तव्यकद्रव्याणा षष्टिः अनानुपूर्वीद्रव्याणात्तु यतं ततो द्रव्यार्थविचारे एतानीतरापेक्षया विशेषाधिकान्युक्तान्यत ए प्रदेशार्थताविचारि नानुपूर्वीद्रव्याणां निःप्रदेशत्वात्तदेवयतमवस्थितं प्रवक्तव्यद्रव्याणांत्विह प्रत्येकं द्विप्रदेशत्वाद्द्विगुणिताना विगत्युत्तरं प्रदेशगतं जायतइति तेपामितरेभ्यः प्रदेशार्थतया विशेषाधि

उवसमिए भावेहोज्जा खइए भावेहोज्जा खओवसमिए भावेहोज्जा पारिणामिए भावेहोज्जा संनिवाइए भावेहो  
ज्जा णिअसा सादिपारिणामिए भावेहोज्जा अणानुपुब्बिद्व्वाणि अवत्तव्वगद्व्वाणिअ एवंचेवभाणिअव्वाणि एएसि

कारी नीपनो तेपारिणामिक अने बीजो अनादि पारिणामिक तिहा धर्मास्त्रिकायादिक अरूपी द्रव्यनो अनादि पारिणामे कश्चिये जेभणी तेचनादि कालशी तेद्रचपणो परणस्याच्छे अनेरूपी द्रव्यनोमादि परिणाम कश्चिये अन्नइ द्रधनुपादिकनोसादि परिणाम जाणवो इमकच्छेछते नियम निउये जातु पूर्वीद्रव्य सादिपारिणामिक भावनेविपेज्जइ आनुपूर्वी पणानी परिणतिना अनादि परणामेपुत्रलने अंसत्यातोज कालरहवुं छे तेभणी एभा तयाअनानु पूर्वी अक्तव्यने विपे पणि इमज भावना करवी एतले भावहार कच्चो ऽ चिये यल्पमज्जत्वडार कहेछे एएसिणं द्रव्य तेहिज जेअर्थ तेद्रव्यार्थ तेहनो जेभाव कहतां खरूप तेद्रव्यार्थ तातेणं द्रव्यार्थ पणे एतले द्रव्यपणे एभाव तथा प्रउट अंगरचित जेदेग तेप्रदेग जेअर्थ तेप्रदेगार्थ तेहनो

राव धनपतिचि यथाइतना यथाव सयस कान ४४ का

काल भावनीय आनुपूर्वीद्रव्याणि प्रदेयार्थतया अवकाशक द्रव्येभ्योऽनन्तगुणानि भवन्ति क्व यतोऽद्रव्याप्यतयापि तावदेतानिपूर्वेषु भ्रंशत्वात्तुणान्युक्तानि यदाह सत्यात्प्रदेशिकसक्त्या नाम अत्र स्यात्प्रदेशिकसक्त्या नाम नन्ताणुकसक्त्यानां सवधिन सर्वेषु प्रदेयाविवक्ष्यते तदामकानसीराधिभषतीति प्रदेयार्थे तायमपूर्वेषुऽनन्तरुणत्वं भावनीय उक्त प्रदेयार्थतयाप्यल्पवृद्धवमिदानोऽनुभवार्थताभाश्रित्यतदाह द्रव्यपएसहयाए इत्यादि इतो भयार्थताधिकारेपि यदे

योगमववहाराण अणानुपुब्बिद्व्याण अवसव्वगद्व्याण्य द्रव्यद्वयाए पएसद्वयाए द्रव्यद्वयाए पएसद्वयाए कतरेकतरेहितो  
अप्पावा वड्ढाया तुल्लावा विसेसाहिआवा सवत्योवाइ' योगमववहाराण अवसव्वगद्व्याइ द्रव्यद्वयाए अणानुपुब्बिद

जेभाव तेप्रदेयार्थता तेणे प्रदेयार्थं पणे एतले परमाणु पणे एभाव तथा द्रव्यार्थं प्रदेयार्थं ताते यथोक्त उभावरूप पणो तेणे द्रव्यार्थं प्रदेयार्थं पणे एतले देभदत्त आनुपूर्वीआदिक द्रव्यमध्ये क्यरेरहितो कुणर आश्रीओताद्रव्यनी अपेक्षायै प्रदेयनी अपेक्षायै उभयनी अपेक्षायै अल्पयोडाविपेपचीन पणादि केकरी तथा वड्ढाया घणा एसखेज्ज गुणमण्यादि केकरी तथातुल्य समसख्या पणेकरी तथावियेयाधिक किञ्चित अधिकपणे करी इहावायद्व सर्वपजातर एहि जणावणशर जाणवा इम प्रत्र कस्ये ऊने वचन तो असुकमे प्रवर्त्ते तेभणी प्रथम द्रव्यार्थं पणानी अपेक्षायै अल्प वड्ढत्व अन्वियेले तिसा द्रव्यार्थं पणे नैगमस्यवधारना अवकाश द्रव्य सर्वपनेरा द्रव्ययीसोकयोडाळे तेथी अनानुपूर्वी द्रव्य द्रव्यार्थं पणानी अपेक्षायै वियेयाधिकले इहा गिय पुरेले भगवन् कोणपेते वीओचेतुनयी जेभणी श्रीसिद्धांत साहि इम कस्येले एएसिण भ ते परमाणु योगजाण पएसिषाण खधाण क्यरे क्यरेरहितो अप्यावा वड्ढाया तोयगादुपएसिहितो परमाणुयोगला वड्ढयत्ति तथा तेथी आनुपूर्वी द्रव्य द्रव्यार्थपणे असत्यात् गुणाळे जेभणी अनानुपूर्वी द्रव्यपने अवकाश

अनुपूर्वीद्रव्याणि प्रदेयार्थतया अवकाशक द्रव्येभ्योऽनन्तगुणानि भवन्ति क्व यतोऽद्रव्याप्यतयापि तावदेतानिपूर्वेषु भ्रंशत्वात्तुणान्युक्तानि यदाह सत्यात्प्रदेशिकसक्त्या नाम अत्र स्यात्प्रदेशिकसक्त्या नाम नन्ताणुकसक्त्यानां सवधिन सर्वेषु प्रदेयाविवक्ष्यते तदामकानसीराधिभषतीति प्रदेयार्थे तायमपूर्वेषुऽनन्तरुणत्वं भावनीय उक्त प्रदेयार्थतयाप्यल्पवृद्धवमिदानोऽनुभवार्थताभाश्रित्यतदाह द्रव्यपएसहयाए इत्यादि इतो भयार्थताधिकारेपि यदे

अनुपूर्वीद्रव्याणि प्रदेयार्थतया अवकाशक द्रव्येभ्योऽनन्तगुणानि भवन्ति क्व यतोऽद्रव्याप्यतयापि तावदेतानिपूर्वेषु भ्रंशत्वात्तुणान्युक्तानि यदाह सत्यात्प्रदेशिकसक्त्या नाम अत्र स्यात्प्रदेशिकसक्त्या नाम नन्ताणुकसक्त्यानां सवधिन सर्वेषु प्रदेयाविवक्ष्यते तदामकानसीराधिभषतीति प्रदेयार्थे तायमपूर्वेषुऽनन्तरुणत्वं भावनीय उक्त प्रदेयार्थतयाप्यल्पवृद्धवमिदानोऽनुभवार्थताभाश्रित्यतदाह द्रव्यपएसहयाए इत्यादि इतो भयार्थताधिकारेपि यदे

द्रव्यने विषे परमाणुरूप अने द्विप्रदेशिकरूप एकेकज स्थानलाभेके अने आनुपूर्वी द्रव्यने विषे तो विप्रदेशिक स्तम्भादिक एकेकवधारतां अगतं प्रदेशिक पर्यन्ता अनन्ता स्थानपामीथे तेभणी स्थानकना बद्धपणाथी आनुपूर्वीद्रव्य पूर्वला द्रव्यथी असंख्यात गुणाके इहाइसी प्रेरणा कोइ करे जो अनन्ता स्थान

ब्वाइं द्रव्यद्रव्याए विसेसाहिआइं आणुपुब्बिद्व्वाइं पएसद्रव्याए असंखेवजगुणाइं पएसद्रव्याए सब्बत्थोवाइं ऐगमववहा  
राणं अणुपुब्बिद्व्वाइं अपएसद्रव्याए अवत्तव्वगद्व्वाइं पएसद्रव्याए विसेसाहिआइं आणुपुब्बिद्व्वाइं पएसद्रव्याए

कळे तो पूर्वला द्रव्यथी अनत गुणा कित्या भणी न ऊइ तिहा एउत्तर एप्रेरणा अयुक्ती जेभणी अनंत प्रदेशिक स्तम्भ एकला अनानुपूर्वी द्रव्यथी अनंतमे भागेवत्तेच्छ तेभणी तेस्वभावथी थोडाके एणेकारणे तेणेवाधे नही तेभणी वस्तुथी असंख्याताज स्थानक तेहने विषे जांगवा एभाव पूर्वे भागद्वार सांघि कक्षीके विस्वार्थे त्रीपन्नवणा सूत्रथी सर्वभाववुं अलंविस्वरेण एतले द्रव्यार्थे पणे अल्पवज्जत्व कक्षीके हिचे प्रदेशार्थताइं तेकहेके प्रदेशार्थता विचारता ऊंता नैगम व्यवहारना मतनी आनुपूर्वीद्रव्य सर्वथी थोडा कित्याभणी तेकहेके अपएसद्रव्याए प्रदेशरूपअर्थ तेहने विषे प्रदेशहोइ तो द्रव्यार्थ तानीपरे प्रदेशार्थताने विषे पणि अक्कथतानी अपेचाये अद्विकपणी ऊइ तेतो नथी परमाणु अपएसो इति वचनात् तेभणी एसर्वस्तोक जागवा इहा प्रेरक पूरुके जो तेहने विषे प्रदेशार्थतानथी तो तेणे प्रदेशार्थताइं तेहच्चं विचारपणि युक्तनची रुक्कोल्या इमनची जेभणी तेहने विषे शब्दार्थे पणे प्रदेशार्थतामानिके उतुकट सर्वसूत्र पुत्रलासिकायनो जेदेण रचित भाग तेप्रदेश एछवा शब्दार्थे पणाथी परमाणुने प्रदेशार्थतामानिके अने आत्म व्यतिरिक्त अनेरा प्रदेशांतरनी अपेचाये अप्रदेशार्थता जांगवा तेभणीदोपनची तथा अवत्तव्व द्रव्य प्रदेशार्थताइं अनानुपूर्वीद्रव्यथी विशेषाधिकके जिम

वाच्य तदेवादी दृग्गते अथ्यक्त्यकद्वयाणि च सर्पाण्यल्पाणि द्रुति प्रथमनेवीक सञ्जल्योषाद् नेगमव्यवहाराण अञ्जत्तगद्व्याद् द्रव्यद्वयाएनि अपरषो भवाये ताधिकारैपि अणाणपुत्रिद्व्याद् द्रव्यद्वयाए इत्यादि यत्क अपए सट्टयाएनि तदाज्यतिरिक्त प्रदेयांतरा भावतो अनानुपूर्वीद्रव्याणामप्रदेयिकत्वादिति

अगतगुणाद् द्रव्यद्वयप्रसट्टयाए सञ्जल्योषाद्' खेगमव्यवहाराण अवत्तव्यगद्व्याद् द्रव्यद्वयाए अणाणपुत्रिद्व्याद् द्रव्यद्वयाए अ  
याए अपएसट्टयाए त्रिसैसाहिआद्' अवत्तव्यगद्व्याद्' पप्रसट्टयाए विसैसाहिआद्' अवत्तव्यगद्व्याद् द्रव्यद्वयाए अ

असत्कल्पनाद् अवत्तव्य द्रव्यजाणे किसाकिले अने अनानुपूर्वी द्रव्यजाणे इसोखे तोद्रव्यार्थताना विचारने विषेअवत्तव्य द्रव्यथी एविषेपधिका अत्ताखे अने प्रदेयार्थताना विचारने विषे अनानुपूर्वी द्रव्यनानिप्रदेयपणाथी तिसाज रक्षा अने अवत्तव्यना प्रत्येकर द्विप्रदेयिक पणाथी विमणा करता एकसौवीस प्रदेययाद् तेभणी तेचतु तेथी प्रदेयार्थताद् विषेयाधिक पणो जाणवु तथा अनानुपूर्वी द्रव्य प्रदेयार्थताद् अवत्तव्यथी अनत गुणाखे तेकिम जेभणी पद्रव्यार्थताद् पूर्ववाथी अवत्तात गुणा कत्ताखे विषे विवारे सत्तात प्रदेयिक सबधीया असत्तात प्रदेयिक सबधिया अनत प्रदेयिक सबधिया संप्रदेय विषधीये विवारे एसोटीरासि इद्द तेभणी प्रदेयार्थताद् एहनो पूर्ववाथी अनत गुणापणो जाणवो एतले प्रदेयार्थताद् अवत्तव्यद्वया पणु कत्तो विषे उभयार्थता आथी कहेखे द्रव्यद्वयप्रसट्टयाए इडा उभयार्थताना अधिकारने विषे जेषत्प तेप्रथम देखाडेखे तिसा अवत्तव्य द्रव्य सर्वमांशि अत्ताखे तेभणी प्रथम कत्तो सञ्जल्योषाद् नेगम व्यवहाराण अवत्तव्यगद्व्याद् द्रव्यद्वयाए तथा उभयार्थताना अधिकारने विषे पणि इम कत्तो अणाणपुत्रिद्वयाद् द्रव्यद्वयाए तथा जेकत्तो अपएसट्टयाए तेचाम व्यतिरिक्त प्रदेयांतरना अभावथी अनानुपूर्वी द्रव्यना अप्रदेय पणाथी इम जाणवु तोदिने इम कत्ता

संतव्यं ततश्चेदसुक्तं भवति द्रव्यार्थतया अप्रदेशार्थतया च विशिष्टान्वयानुपूर्वी द्रव्याण्यवक्तव्यक द्रव्येभ्यो विशेषाधिकानि शेष भावनात् प्रत्ये कचिंतावत्पूर्वा कार्या आह यद्यैवं प्रत्ये कचिंतायामेव प्रस्तुतीर्थसिद्धेः किमनयो भयार्थताचिंतयेति नैवं यत आनुपूर्वी द्रव्येभ्य स्वल्पदेश्याः क्विदाप्यधिका इति प्रत्ये कचिं तायां न निश्चितं अत्रतु ताद् चेव पएसदृथाए अणंतगुणाद् द्रव्यत्वेन तन्विणीतमेव गतार्थं प्रतिपादनार्थत्वात्प्रत्ये कावस्थानोभिन्ने चोभयावस्थावस्तूनामिति दर्शनार्थत्वाच्च युक्तमेवोभयार्थताचिंतन मित्यदोष सदैवसुक्तो नवविधोयतुगमइति सेत्तं अणुगमेति तद्गणनेच समिर्थिता नैगमव्यवहारयोरनौपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी इति निगमयति सेत्तं नैगमेत्यादि व्याख्याता नैगमव्यवहारनयमतेन अनौपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी सांप्रतं संग्रहनयमतेन तामेव व्याचिख्या संखेजगुणाद् ताद् चेव पएसदृथाए अणंतगुणाद् सेतं अणुगमे सेतं शैगमववहाराणं अणोवणिहिआ द्रव्याणुपुब्बी

द्रव्यार्थताद् अने प्रदेशार्थताद् विशेष्यां अनानुपूर्वी द्रव्य अवक्तव्य द्रव्ययी विशेषाधिक जाणवा शेष सर्वभावना प्रत्येक विचारणावत् इहा कोर्दे एक प्रेरणाकरे जोप्रत्येक विचारणाने विषे एअर्थ कच्छूँहे तो उभयार्थतानी विचारणानो स्थुं प्रयोजन उत्तर इमनही जेभणी आनुपूर्वीद्रव्ययी तेहना प्रदेश केतला अधिक एहवो प्रत्येक चिंतानेविषे निर्णयकीधुं अने इहातो इमज कच्छुं ताद् चेवपएसदृथाए अणंत गुणाद् एषे वचनेकरी निर्णयकीयो तेभणी तथा अणजाण्यो अथं जणाववा भणी अथवा प्रत्येकावस्थायी उभय अवस्था वस्तुनी भिन्नछे एहवो जाणाववा भणी उभयार्थतानो विचारतुं युक्त जाणवो तेएणे प्रकारे नयविध अनुगम कच्छी तेभणी तेहनी समाप्त सेतं तेएअनुगम तेभणते ऊं ते नैगम व्यवहारना मतनी अनौपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी परिण पुरीयद्दे तेभणी तेहनी समाप्त सेत मित्यादि सुगमं नैगम व्यवहारनामतनी अनौपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी वषांणी हिवे संग्रह नयनामतनी अनौपनिधिकी वषाणेछे सेकिंतं अथकिसी तेसंग्रहनामतनी अनौपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी तिहां संग्रहनी स्थुं शब्दार्थसामान्य संग्रहवानुंशीबछे जेहनो तेसंग्रहकहिचे इहां

खराच चैर्विंशतित्यादि सामान्यभावस्य प्रवृत्तौ ननु सप्रबोधनय एव तस्य सप्रबोधनस्य कितहस्त्वमोपनिधिकी द्रव्याणुपूर्वीति प्रश्न आह ननु नैगम सगण ववणारेत्यादि सुतकमप्रमाणान् नैगमानंतर सप्रबोधनोपन्यासोयुक्तमिति व्यवहारमपि निर्दिश्यते ततोयसुष्यत इति सत्यं कित नैगमस्यैव वारयो रत्न तुल्यमतत्वा सापवादं सुगमसिद्धिं ईय क्त्वा पचास्यजो निर्दिष्ट इत्यदोशोत्त निर्बचनमाह सप्रबोधनस्योपनिधिकी द्रव्याणुपूर्वी पचविषयापण साति सप्रबोधनमेतानुपनिधिकी द्रव्याणुपूर्वी मात्तिकावितयस्यायां पचभिर्यपदप्रकृत्यादि प्रकारैर्विचार्यमाणत्वात्प चप्रकारा प्रवृत्ता तदेव दर्शयति तज्जैत्यादि चान् ध्यात्वानुभवदेव यावत्सिपएसियाद्याणुपूर्वी इत्यादि इह पूर्वमेकस्मिन्प्रदेशिक आणुपूर्वी अनेक तिमदेशिक आणुपूर्वी इत्या

सेकितं स गहस अणोवणिहिआ द्रव्याणुपूर्वी पचविहा पन्नसा तज  
हाअद्रुपयपरूवणया१ भगससुक्तिगया२ भगोवदसणया३ समोआरे४ अणुगमेप्रसेकितं स गहस अद्रुपयपरूवणया२ तिप

प्रेरक कहेये नैगम सप्रबोधन इत्यादि सुतासुक्तमना प्रमाणपणायो नैगम अनंतर सप्रबोधन यवहार कचित्ते ते आगलि सप्रबोधन्या भणी कसौ गुरुगोत्या सत्यत्वे पर नैगम व्यवहारना इहा तुल्यमतपणायी यथनाहकुआभणी तेवनी एकदो प्रवण करीने पछे सप्रब कसौ प्रतिप्रत्त सप्रबोधन सप्रबोधने मते अनोपनिधिकी द्रव्याणुपूर्वी अयपद प्रकृत्यादि पांचप्रकारे विचारवा ऊ ती पांचप्रकारनी प्रकृती तेविज देयाडेहे इहा अर्थ पूर्ववत् यावत् तिपएसिए आणुपूर्वी इहा पूर्व इम कसौ क्तो एकतिमदेशियो एक आणुपूर्वी कचित्ते अनेक तिमदेशिया अनेक आणुपूर्वी कचित्ते अने इहा सप्रबोधन सामान्यशदो पणायो सर्व तिमदेशिया एकव आणुपूर्वी कचित्ते तेसप्रबोधन इहा इसी सुक्ति कहे तिमदेशिया अथतिमदेशिक



सामान्याव्यतिरेकात्पूर्वैपि परमाणुपुङ्गवा एकैवानानुपूर्वी तथा अव्यक्तव्यक्तसामान्या व्यतिरेकात्पूर्वैपि द्विप्रदेशिक रूपा एकमेवाव्यक्तव्यक्तमिति सामान्यथा दित्वेन सर्वत्र बहुवचनभावात् सेतमित्यादि निगमन भगवत्समुत्कीर्तनतां निर्दिष्ट्वा एवाएणमित्यादि अत्रापि व्याख्यातयद्द्रव्या यावत् अत्रि अथाणुपूर्वैत्यादि द्वैकवचनात् स्वर एव प्रत्येकभगा सामान्यत्वादित्वेन व्यक्तिपङ्गवाभावतो बहुवचनभावादानुपूर्वी पदत्वस्य च तयोधिकयोगा भवत्येकैकस्मिन् द्विकयोगे एकवचनात् एकएवभग स्मिकयोगेपि एक एवैक वचनात् इति सर्वेषु सप्तभगा सपद्य ते शेषास्त्रैकोन विशतिर्बहुवचन सप्तस्वानुभवत्यतस्यापना आनुपूर्वी चानुपूर्वी अनानुपूर्वी इति प्रथमोद्विकयोग आनुपूर्वी

एत्राएण सगहस अद्रुपयपरुवणयाए किपउअण एत्राएण सगहस अद्रुपयपरुवणयाए सगहस भगवत्समुत्कीर्तनतां कज्जइ सेकित स गहस भगवत्समुत्कीर्तनतां अत्रिअथाणुपूर्वी अत्रिअवत्तए अहवा

मात्र स्वरूपयो व्यतिरेक नथी तेभणी तेसर्वचनत प्रदेशिथा एकज आनुपूर्वी कश्चिये एविगुह सग्रह नय इम तेप्रदेशिकादिक अनत प्रदेशिक पर्यंत सवस्तन्वने एकज आनुपूर्वी कश्चिये जेभणी त्रिप्रदेशिक सर्वस्तन्व आनुपूर्वी पणू एहवो जेसामान्य स्वरूपतेयो जूषानथी तेभणी तथा सर्व परमाणु पुङ्गवने एकज अनानुपूर्वी कश्चिये तथा अवक्तव्य पणू एहवो जेसामान्य स्वरूपत्वे तेयी अवक्तव्य जूषोनथी तेभणी सर्व द्विप्रदेशिथाने एकजो अवक्तव्य कश्चिये एनत्ते सग्रह नय जाति स्वरूपमाने परविगति स्वरूपमाने तेमणी एहनेमते बहुवचन नथी सेत तेए सग्रह नया सतनी चर्थपद प्ररूपणता एत्राएण इहं सर्वपूर्ववत् चिये तेहिज भग वत्समुत्कीर्तनता कहेत्ते सेकित अयकिस्र तेसग्रहनी भगवत्समुत्कीर्तनतां भगवत्समुत्कीर्तनतां

अत्रिअवत्तए अहवा

अत्रिअवत्तए अहवा



अवक्तव्यकः इति द्वितीयोद्वेकयोगः अनासुपूर्वी अवक्तव्यः इति तृतीयोद्वेकयोगः अनासुपूर्वी अनासुपूर्वी अवक्तव्यः इति तृतीयोद्वेकयोग एवमेते सप्तभंगा  
 सेतमित्यादि निगमनं भंगोपदर्शनतां विभक्तिपुराह एथायेणमित्यादि अत्रापि सप्तभंगा सप्तभंगस्य एवावक्तव्यस्य सर्वः पूर्ववत्वेत्तमित्यादि  
 निगमनं अथ समवताराजिष्वय्या प्राह सेकितं समोयारित्यादि इदं च द्वारं पूर्ववन्निखिलं भावनीयं अथानुगमं व्याचिख्यास्वच्छाह सेकितं अणुगमेति  
 अत्रोत्तरं अणुगमे अष्टविहेपन्नतेति पूर्वं नवविधेउक्तोत्त्वष्टविधे एवात्स्य वक्तव्यद्वारा भावात्तदेवाष्टविधत्वं दर्शयति तद्यथेत्युपदर्शनार्थः संतपयगाहा  
 इयं पूर्वं व्याख्यातेव नवरं अथावहंनत्यसंग्रहस्य सामान्यवादित्वात्सामान्यस्य च सर्वत्रैकत्वादल्पबह्वलविचारोऽजनसंभवतीत्यर्थः तत्र सत्यदप्ररूपयता

अत्यि अणुपुव्वी अणुपुव्वी १ अहवा अत्यि अणुपुव्वी अवत्तव्व अ २ अहवा अत्यि अणुपुव्वी अवत्त  
 व्व अ ३ अहवा अत्यि अणुपुव्वी अणुपुव्वी अवत्तव्व अ एवं सत्तभंगा सेतं संग्रहस्स भंगससुत्तिकत्तणयाए आए

तेकहिदेके अत्यि अणुपुव्वी इहा एकवचनांत त्रिणज प्रत्येक भांगा ऊइ जेभणी संग्रह नय जाति स्वरूपने माने तेतो एकजंके तथावी जोव्वक्ति  
 स्वरूप तेपनी तो नासिमाने तेभणी तथाव्यक्तिना वक्तव्यनाथी वक्तवचन ऊइ तेवक्तवचननौ एहनेमते नथी तेभणी त्रिणज प्रत्येक भांगाऊइ तथाआनु  
 पूर्व्यादिक त्रिण पदनादिक संयोगीया त्रिण भांगाऊइ तेदिक संयोग एकने विषे एक वचनांत एकज भागोऊइ तेभणीदिक संयोगीना त्रिणज भांगाऊइ  
 अने त्रिकसंगीयो एक भंग ऊइ एवंसातज सर्वभांगाती परे अने शेष उगणी सभांगा वक्तवचनथीनीप जे तेभणी इहां नसंभवे एवं एइमएसात भागा  
 नीऊइ तेए संग्रहनी भंग ससुत्तीत्तं वा पणौ २ एआएणं अर्थ पूर्ववत् त्रिषे तेद्विज भंगोपदर्शनता कहेके सेकितं अथ किंत्वं तेसंग्रहना मतनु' भांगानो

ए सगहस्रभगसमुक्तिस्तथाए किप्रउअए एआएण सगहस्र भगसमुक्तिस्तथाए सगहस्र भगोवदसणयाकज्जवि  
 सेकित सगहस्र भगोवदसणया२ तिपएसिए आणुपुब्बी परमाणुपोगले अणणपुब्बी दुपएसिए अवत्तवए अरवा तिप  
 एसिएअ परमाणुपोगलेय आणुपुब्बीय अहवा तिपएसिएअ दुपएसिएअ आणुपुब्बीय अवत्तवएय अहवा परमाणुपो  
 गलेय दुपएसिएय अणणपुब्बीय अवत्तवएय अहवा तिपएसिएअ परमाणुपोगलेअ दुपएसिएय आणु० अणण० अय  
 त्तवएय सेत सगहस्र भगोवदसणया सेकित समोआरे २ सगहस्र आणुपुब्बिदव्वाइ कहिं समोयरति कि आणुपु  
 ब्बिदव्वेहि समोयरति अणणपुब्बिदव्वेहि समोयरति अवत्तवगदव्वेहि समोयरति तिथिसद्वारे समोयरति सेत  
 समोयारे सेकित अणुगमे २ अट्टविहे पणत्ते तजहा सतपयपरुवणया १ दव्वपमाणव २ खित्त ३ फुसणाय ४ का

देखाडिवा पणौ उत्तर सप्रश्न सप्रश्नामतनो भागानो देखाडिवा पणौ तेकडियेले इष्ठां पणि तेडिज सातभांगा अर्थ कयन पूर्वक भाववा सेत तेएसप्र  
 नामतनु भागागु देखाडिया पणु ३ अथ समवतार कहेछे सेकित समोयार उत्तर एहार सपूर्णपूर्ववत्पथ अणुगम कहेछे सेकित अथकिसुतेअणुगम एत्त  
 र अणुगम अटविध प्ररूप्यो पूर्वद नपविध कस्यो कुतौ तेइष्ठां अटविधजज्जहार इष्ठांनयी तेइज अटविध पणौदेपाडेछे तंजहा एयद  
 देखाडवाने अर्थसे संतपयगाथा ए पूर्व वपांणीजले नवर अप्पावड नदिय सप्रश्ना सामान्यवादी पणायी अनेसामान्यता सर्वत एकपणायी अल्पवडल  
 विचार इष्ठां समये नष्ठी इत्यर्थ तिष्ठां सत्यद प्ररूपणता हार कहेछे अर्थ सर्व पूर्ववत् इष्ठां प्रेरक पूछेले भगवन् सप्रश्नयनाविचारने विधे सगहस्र आणु

भिधानार्थमाह संगहस्मेत्यादि ननु संग्रहविचार प्रकांते आनुपूर्वी द्रव्याणि संतीयनुपपन्नं आनुपूर्वी सामान्यत्वात् नस्य ते नास्ति त्वारःपुणान्वत्यं सुख  
रूपतया सामान्यमेवास्ति गुण भूतं तु व्यवहारमात्र निर्वचनं द्रव्यब्राह्मण्यमप्यसौवर्ततीत्यदोषः प्रोपभावनापूर्ववदिति द्रव्यप्रमाणद्वारे चदुक्तं निवमाएगोरा  
सिद्धि अत्राह ननु यदि संखेयतदस्वरूपाख्ये तानि न भवति तच्च कोराशित्त्वपि नोपपद्यते द्रव्यबाहुल्ये सति तस्योपपद्यमानत्वाद्भीत्यादिराशियु तथैव  
दर्शनाखत्यं किंलेकोराशित्त्ववदितः कोभिप्रायोऽक्तनामपि तेषां आनुपूर्वीचसामान्यत्वेएको कृतत्वादेकत्वमेव किंच वग्नियैकपरिणाम परिणिते

लोचयु अंतरं द्वभागऽभाविट अथावङ्गं ल्यिसंगहस्य आणुपुब्बिद्वद्वाइं किं अत्य नत्य निअमाअत्य एवंदोस्त्तिसि विसंग  
हस्य आणुपुब्बिद्वद्वाइं किंसंखेज्जाइं अंशंताइं नोअसंखिज्जाइं नोअणंताइं नोअसंखिज्जाइं निअमाएगो  
रासी एवं दोस्त्तिवि संगहस्य आणुपुब्बिद्वद्वाइं लोसंग किंसंखेज्जाइं भागेहोज्जा असंखेज्जाइं संखेज्जेसु

पुब्बिद्वद्वाइं किं अत्य एतोयुक्तिमिले नही जेभणोति आनुपूर्वी द्रव्यतुं सामान्य स्वरूपज तेषामिते तेषामान्य स्वरूप तो एकजके तो इहां पड्डवचन  
किंस वटे गुरु वोल्या एतं सत्य कच्चुं परंतेतुल्यरूपे सामान्य रूपपणो माने अने गुणभूत व्यवहार भावनो कारण द्रव्यतुं पड्ड पणोपणि एमानेके तेभणी  
दोपनही कृतापदना प्ररूपवा पणानो द्वार कच्चो चिचे द्रव्य प्रमाणद्वार कहेके र संगहस्मेत्यादि सुगमं गिअमा एगोरासी इहा इसी चालना जोएभा  
नुपूर्वीदिद्रव्य संख्याता असंख्याता अनंतानयो तो एगोरासी एवचन पणियुक्तिं निमित्ते एतले द्रव्यवणाङ्कइ तो एवचन युक्तिस्त्वमिलेइ जेभणी बाख्यादि  
क राशिते विषे तिमज दीसेके तेभणी नमित्ते इहां गुरु कहेके एसत्य परं एक राशि कक्षानो एअभिप्रय घणा आनुपूर्वी द्रव्यतुं जेआनुपूर्वी पणो एहवुं

भागिसुहोक्त्वा असुरेजसु भागिसुहोक्त्वा सवलोएहोक्त्वा नोसखिज्जद्र भागिहोक्त्वा नो असखेज्जद्र भागिहोक्त्वा नो  
 सरेजसु भागिसुहोक्त्वा खो असखेजसु भागिसुहोक्त्वा थिथमा सवलोएहोक्त्वा एव दोथिवि सगहस आण, पुब्बिद  
 व्वाद्र लोगस कि सखेज्जद्र भाग फु सति असखेज्जद्र भाग फु सति सखेज्जभागे फु सति असखेज्जभागे फु सति नो  
 लोअ फु सति नो सखेज्जद्र भाग फु सति नो असखेज्जद्र भाग फु सति नो सखेज्जभागे फु सति नो असखेज्जने

सामान्य स्वरूप तेणेसामान्य स्वरूपे तेसु एककीथा निम विगिट एक परिणामेपरिणम्या स्तन्वनेविषे तेहना नियजायणकारा अययवनी यज्जल पणोत्ते  
 तोपणि तेहने विषे एक पणोज मुख्येद पणि अयय आत्री पणापणे कोई नरुहे तिम द्रुषा चांसुपूर्वी द्रव्यने यज्जल पणोत्ते तेथना सामाय  
 स्वरूपना एकपणाद्ध ती एकपणोज सप्रहनय मुख्यमाने जेभणी तेथे सामान्य स्वरूपेजतेहने आनुपूर्वी पणोनीपनो अथथा तेआनुपूर्वी तेहनेअभाययाद  
 तेभणी मुख्यरूपे एकपणाना अगीकारकरवाची सखेयादि स्वरूपनो निपथ अनेगुणभूत द्रय आत्री रागिभाय पणिविरोधाद् ७ठी इम अन्यत  
 यणि विरोधाय नशी इम अन्यत पणि भायय अलप्रपचेन एतते द्रयप्रमाण द्वार कक्षी २ चिये खेतहारने विषे निअमासव्यलोए आनुपूर्वीना सामान्य  
 पणाद्ध ती एकपणोज सयथ मुख्यमाने तेभणी निचे सर्वलोकने विषे छद्द तथा अनानुपूर्वी अयक्तथने विषे पिण इम जाणयोश अय ख्यंगना स्वरूपतो  
 द्वारपणि इमज विचारवो ४ चिये कालहारने विषे यणि तेसामान्य स्वरूपना सदा अत्यर्ध्द्ध ३ पणावी त्रिज्जनो सर्वेद्वार कक्षी ५ एतलाजमणी  
 अतारहारने विषे निअमा नतिअतर जे सामान्यरूपनो थयवर्ध्द्धेद कदाचित्पणि न छद्द तेभणी निचये नासि अतर कक्षी ६ तथा भागहारने विषे

सवलोएहोक्त्वा भागिहोक्त्वा नोसखिज्जद्र भागिहोक्त्वा नो असखेज्जद्र भागिहोक्त्वा नो

सवलोएहोक्त्वा भागिहोक्त्वा नोसखिज्जद्र भागिहोक्त्वा नो असखेज्जद्र भागिहोक्त्वा नो असखेज्जभागे फु सति नो असखेज्जने

सवलोएहोक्त्वा भागिहोक्त्वा नोसखिज्जद्र भागिहोक्त्वा नो असखेज्जद्र भागिहोक्त्वा नो असखेज्जभागे फु सति नो असखेज्जने

स्त्वं धे तद्द्वारं भावावयवानां बाहुल्ये ध्ये कथेवमुल्याः तद्द्वारादुपूर्वीं द्रव्यबाहुल्ये पि तत्पामान्यस्यैकरूपत्वादेकत्वधेयमुद्यमसो नवः प्रतिपद्यते तद्द्वयेनैतेषा  
 मानुपूर्वीं त्व सिद्धे रन्वया तदभाव प्रसंगत्तस्मान्मु ख्यस्यैकत्वसाधनेन कञ्चीकृतत्वात्वं श्येयकृपादिनिषेधो युगमूतानि तु द्रव्याण्यत्वाच्चित्त्य सति भावोपि न  
 विरुध्यते एव मन्यत्वापि भावनीयमित्यलं प्रपञ्चेन ज्ञेयद्वारे नियमा सञ्जलोए होज्जति आनुपूर्वीं सामान्यस्यैकरूपत्वादेकत्वमेव मुत्तमसो नवः प्रतिपद्यते  
 तद्द्वयेनैव तेषामानुपूर्वीं द्वाराण्यव इतरद्वयेष्यभ्युत्थमिति स्वयंनद्वारमप्ये वमेव चिंतनीयं इति कालद्वारेपि तत्पामान्यस्य सर्वदा सयवच्छिन्नत्व इति  
 णामपि सर्वाद्भावस्थानं भावनीयमिति अतएवांतरद्वारेनाभ्यंतरमित्युक्तं तद्भाव स्यच्छेदस्यकदाचि दप्यभावादिति भागद्वारे नियमा तिभागेहोज्जति  
 तत्पामानुपूर्वीं राशीस्त्रिभाग एवकर्त्तव्य इतिभावः यत्पुराणिगतद्रव्याणां पूर्वीकृतत्ववत्त्वं तद्वतनगच्छते द्रव्याणां प्रस्तुतनयमतंवाशर संदृष्टिमात्रे

भागेफु संति शिअमा सब्वलोगं फु संति एवं दोखिवि संगहस आणुपुब्बिद्व्याद् कालउकेवच्चिरं होइ गिअमास  
 अद्वा एवं दोणिवि संगहस आणुपुब्बिद्व्याणं अंतरं कालउ केवच्चिरं होइ नत्थि अंतरं एवंअणा० अत्रत्तव्वगद्व्याण  
 वि संगहस आणुपुब्बिद्व्याद् सेसद्व्याणं कतिभागेहोज्जा किंसखेज्जाइभागे होज्जा यावत् नोअसंखेज्जेसुभागेसुहोज्जा

नियमा तिभागेहोज्जा निचइ विगिरायिनो एकज भागइइ एसाय तथा जेरायिगत द्रयनोपूर्वीकृत सत्ववच्छिन्नभाव तैइहां नगणीये जेभणी एतवने मते  
 द्रव्यना घणापणानो कृतापणो व्यवहारमात्रज जांगयो० तथा भावद्वारे नियमा सादि परिणामिए धिम पाहुपुर्योदिक द्रव्यनो भावने धिये वत्तंवापणो  
 पूर्वे भाव्युं तिम इत्था पणि भावयोट सेतं तेए अनुगमं ५ तेसंपूर्णे करतां संग्रह नयने मते अनोपनिगितो द्रव्यानुपूर्वीं संदर्णकीधी तेभणी तेहनी एमसास

लोचनत्वादिति भावश्चारे सादिपरिणामिए भावे होजाति यथा आनुपूर्व्यादि द्रव्याणामेतद्भवति स्वं पूर्वभाषित तथा ज्ञापि भावनीयं तैर्यायथा सामान्याद  
 व्यतिरिक्त चादिति अल्पबहुत्वहारारुभयसुसुक्रमेति समर्थितो प्रगुगम तत्समर्थनेच समर्थिता समर्थनयमतेनानोपनिधिकीद्रव्यानुपूर्वी तत्समर्थनेचव्याख्यासर्व  
 व्यापीयमत सेत्तमित्यादि निगमनतय गतो अनोपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी साप्रत प्रादुर्दिटामेवोपनिधिकीद्रव्यानुपूर्वी तांयाचिख्यासुराच सेकितमित्यादि अय  
 प्राप्तिरूपत यद्दार्थमात्रा उपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वीति प्रत्यो अतर्नियेचन उपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वीति विविधा प्रपन्ना तद्यथा पूर्वगुणपूर्वैत्यादि उपनिधिनिर्देशेभो  
 विरचन प्रयोजनमस्य इत्योपनिधिकीद्रव्यविषया आनुपूर्वी परिपाटि द्रव्यानुपूर्वी सा त्रिप्रकारा तत्र विवक्षित धर्मासिकायादि द्रव्यवियेपकासमुदाये य  
 पूर्व प्रथम प्रकाशानुपूर्वी अनुक्रम परिपाटिनिश्चियते विरचने यस्यां सा पूर्वानुपूर्वी तत्वेव य पाचात्मचरमसास्यादारभ्यथात्ययेनेवानुपूर्वी परिपाटि  
 विरचने यस्यां सा निरुक्त विधिनो यदानुपूर्वी न आनुपूर्वी अनानुपूर्वी यथोक्तप्रकारद्वयातिरिक्त स्वरूपलक्ष्यं सात्वाद्यभेद तावन्निरूपयित् प्रथमाह सेकित

**थियमातिभागे होजा एव दोषिविसगहस आणपुखिद्वधद् कतरमि भावे होजा शिञ्जमा साद्रपरिणामि एभावे**

सेतं इत्यादि निगमन तेषुटी करतां संपूणे अनोपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी समाप्तिकीधो तेषुणो तेषुनौ एसमाप्ति सेत मित्यादि निगमन एतले यनो  
 पनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी संपूणेयद् द्विवेपूर्वैक उपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी वषाणया पाकतो कहेत्से सेकित अथकिसी तैउपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी वत्तर  
 उष णैकिया उपनिधि कश्चिये निक्षेप तद्याविरचन तैप्रत्येकनक्षेएकनो तैमण्णो उपनिधिकीकश्चिये तथाद्रव्यने धिये जेव्यानुपूर्वी कश्चिये परिपाटी ते  
 द्रव्यानुपूर्वी कश्चिये तैउपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वीका त्रिणि प्रकार प्रक्या ते कहेत्से तिसां विवक्षित धर्मोशिकायादि द्रव्य विग्रेष तेषना समुदायने  
 धिये जेपूर्वं कहतां प्रथम तेयो धारभोने आनुपूर्वी कहता अनुक्रमे परपाटी मिलेपिये विरचिये ते पुर्वानुपूर्वी कश्चिये तथा पिच्छाडीसे अतसे

अनुपूर्वी तत्समर्थनेच समर्थिता समर्थनयमतेनानोपनिधिकीद्रव्यानुपूर्वी तांयाचिख्यासुराच सेकितमित्यादि अय प्राप्तिरूपत यद्दार्थमात्रा उपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वीति प्रत्यो अतर्नियेचन उपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वीति विविधा प्रपन्ना तद्यथा पूर्वगुणपूर्वैत्यादि उपनिधिनिर्देशेभो विरचन प्रयोजनमस्य इत्योपनिधिकीद्रव्यविषया आनुपूर्वी परिपाटि द्रव्यानुपूर्वी सा त्रिप्रकारा तत्र विवक्षित धर्मासिकायादि द्रव्यवियेपकासमुदाये य पूर्व प्रथम प्रकाशानुपूर्वी अनुक्रम परिपाटिनिश्चियते विरचने यस्यां सा पूर्वानुपूर्वी तत्वेव य पाचात्मचरमसास्यादारभ्यथात्ययेनेवानुपूर्वी परिपाटि विरचने यस्यां सा निरुक्त विधिनो यदानुपूर्वी न आनुपूर्वी अनानुपूर्वी यथोक्तप्रकारद्वयातिरिक्त स्वरूपलक्ष्यं सात्वाद्यभेद तावन्निरूपयित् प्रथमाह सेकित

मित्यादि इहचद्रव्यानुपूर्व्याधिकाराद्धर्मासिकायादीनामेव चद्रव्यत्वादित्यं निर्वचनमाह धम्मत्विगाए इत्यादि तत जीवपुत्रत्वानां स्वतएवगति क्रियापरिणतानां तस्मिन्भावधारणाद्धर्मः प्रसयः प्रदेशा स्त्रेयां कायः संघातोऽसिकायः धर्मश्चासावसिकाययेति समासं सकललोकव्याप्यसंश्लेष प्रदेशालम्बकभ्रमत्तद्रव्यविशेष इत्यर्थः जीवपुत्रत्वानामेव तथैव गतिपरिणतानां तत्स्वभावा अधरणाद्धर्मः जीवपुत्रत्वानां स्थित्यनुपष्टंभ इत्यर्थः शेषधर्मासिकायवत्स्वैवं सर्वभाववकायानादाकाशं आमर्यादद्या तत्संयोगेति स्वकीयर रूपेऽवस्थानतः सर्वथा तत्स्वरूपत्वा प्राप्तिलक्षणवाकाशं ते स्वभावलाभेनावस्थिति करणेन च दीप्यंते पदार्थसार्था यत तदाकायमिति यद्यथा आत्मभिविधना सर्वालना तत्संयोगानुभवनलक्षणेन कायते तत्रैव दीप्यंते पदार्था यत तदा कायमितिभाव सञ्च तदसिकायचेत्याकायासिकायः लोकालोक व्यापनंतप्रदेशालम्बत्तद्रव्यविशेष इत्यर्थः जीवंति जीविप्यंति जीवितवंत द्रुतिजीवा सोच

**होञ्जा एवं दोणिवि संगहस अप्पावडुंनत्थि सेतं अणुगसे सेतं संगहस अणोवणिहिया दव्वाणुपुव्वो सेतं अणोव**

उलठी परिपाटी निच्छेपोये तथा विरचीये जैरुने विपे तेपद्यानुपूर्वी कश्चिये तथा तथोक्त प्रकार पिडुंथी अनरी ते अनानुपूर्वी कश्चिये तिहां आदि भेद कहेच्छे सेकिंतं अथ किसी तेपूर्वीनुपूर्वी इहा द्रव्यानुपूर्वीना अधिकार ऊंती धर्मासिकायादिकनाज द्रव्यपणागो एणीपरिकहेच्छे तिहां अनुक्रम ते जीव पुत्रल स्वयमेवगतिक्रिया परिणाम्याने तेस्वरूपना धरवाऊंती धर्म कश्चिये अने अस्सि कश्चिये प्रदेशे तेरुनोकाया + ंघात तेअसिका कयश्चिये पच्छे धर्म तेहिज जैअसिकाय तेधर्मासिकाय इम समास करिये एतलै सकल लोकव्यापी असंश्लेष प्रदेशरूप अरूपी द्रव्यतुं विशेष एभाव तथा जीव पुत्रलने स्वयमेव गति परिणामे परिणाम्याने तेस्वरूपना अधरवा ऊंती अधर्म कश्चिये जीव पुत्रलने स्थितिनो उपटभत्तुं कारक एभाव येप समास सर्व धर्मासिकायवत् तथा सर्वभावकुंअक्कासदैजिसकुं आकाय कश्चिये तिहां आकहतां मर्यादा तेकिसो जेतैरुने संयोगरुते पणि आपापणा स्वरूपने विपे

तेशिकायाचेति समास प्रत्येकमसत्त्वेय प्रदेशात्मक सकललोकभाषि नानाजीवद्रव्यसमूह इत्यर्थं पूरणगलनधर्माण पुत्रला परमाखादय अनताणुक  
 स्तु धर्पयता सेचि कुतश्चिद्रव्या ब्रलति धियुज्य ति किञ्चित्तु द्रव्य तस्य योगत पूर्यतीति भाय सेच तेऽशिकाययेति समास चद्वागद् कालवचन समय  
 सेतेताद्रिधाषकोप्यसि ततोऽिगियते चद्धारूप समयोद्वासमय अवस्थमाणपट्टशाटिका पाटनट्टातसिद्ध सर्वसूत्र्य पूर्वोपरकोटिविप्रमुक्ता वर्त्तमान एक  
 कालांग इत्यर्थोऽतएवात्राशिकायत्वा अभावो बह्वप्रदेयत्व एव तद्भावादत्वतीतानागतयोर्विनष्टा उत्पन्नत्वेन वर्त्तमानस्यैव कालप्रदेयस्य सद्भावाच्चत्वेव  
 मानलिकादिकालाभाव समयबहुय एव तदुपपत्तेरिति चेद्भवत तर्हि को भिचारयिता समयावलियमुक्त्वा दिवसमहोरत्तपक्व माभायेत्याद्यागमविरोध  
 इति चित्रेवमभिप्राया परिज्ञानाद्यवहारायमतेनैव तत्रत्वाभ्युपगमादत्र तु निययनयमतेन तदद्यसत्वप्रतिपादनाच्च पुत्रलसूत्रे परमाणु सघात

गिहिया द्रव्याणुपुञ्जो सेकित उवनिहिया द्रव्याणुपुञ्जो २ तिविहा पयत्ता तजहा पुववाणुपुञ्जो पच्छाणुपुञ्जो

रहयाथी तेहना स्वरूपनो अणुहोषो एहथी मयादाद् कासे कहता चापणा स्वरूपने लाभवेकरी अथवा अवस्थितने करवेकरी दीपे पदार्थ जेहने विपे  
 तेचकाय कश्चिये अथवा आकहतां अभाविये सर्वथा व्यापवेकरी तेहना सयोगने अनुभव रूपेकरी कासे कहता दीपे पदार्थ जिहां तेचकाय कश्चिये  
 एभाव तेहज जेअशिकाय ते आकाशाशिकाय एसमास लीकालोक व्यापी अनत प्रदेशरूप अर्थात् द्रव्यनो विशेष इत्यर्थं तथा जीव्या जीवद्रव्ये अने  
 जीवस्यद् तेजीव तेहज जेअशिकाय तेजीवाशिकाय एसमास प्रत्येक असत्त्वात प्रदेश रूप सकललोक भावी नानाजीव द्रव्यनो समूह इत्यर्थं तथापूरण  
 अने गलन धर्महे जेहनी तेपुत्रलपरमाखादिक अनत प्रदेशिकसूत्र्य पर्यंत जेभथी तेकिया एकद्रव्यथी गलेविषट्क अने किया एक द्रव्यने तेहना सयोगने  
 करये करीपूरे तेभणीपुत्रल कश्चिये एभावतेहज जेअशिकाय तेपुत्रलाशिकाय एसमास तथा चद्वागद् तेकालभाषी अने समयग्रह्द ते सेकेतादिकभाषी



इवावलिकादिगतसमय संघातः कश्चिदवस्त्रितः समस्तीति तदसत्वमसौ प्रतिपद्यत इत्यलं धिसारेण अत्र च जीवपुत्रलानां गत्यन्यथानुपपत्तेर्द्धर्मासिकायस्य  
 तेषा मेवस्थितान्यथानुपपत्तेरधर्मासिकायस्य सत्त्वं प्रतिपत्तव्यं नच यत्तव्यं तद्गतस्थिती च भवियतो धर्माधर्मासिकायेच न भवियत इति प्रतिबंधा  
 यभावाद्देनातिकतेति तावंतरिणापितङ्गणे अलोकेपि तत्प्रसंगाद्यदित्वलोकेपि तन्नतिस्थितीस्यतो तदालोकस्यानंतत्वाच्चोकात्रिगत्य जीवपुत्रलानां तत्र  
 प्रवेयादेकहित्यादि जीवपुत्रलयुक्तः सर्वथा तच्छून्योवाकदाधिसोकास्यान्वेतदहमिदं चेत्याद्यन्यदपि दूषणजालमपि अस्ति नोच्यते गंधविस्तरभयादिति  
 आकाशं तु जीवादिपदार्थानामाधारान्यथानुपपत्तेरस्तीति अष्टेयं नचधर्माधर्मासिकायावेवतदाधारी भवियत इति यत्तव्यं तयोस्तद्गतिस्थिति साधकत्वे  
 नोक्तत्वान्नचान्यसाध्यं कार्यमन्यः प्रसाधयत्यति प्रसंगादि षटादिज्ञानगुणस्य प्रतिप्राणिससंवेदनसिद्धत्वात्कीवस्यासिद्धत्वमवगंतव्यं नचगुणिनमन्तरेणगुण  
 सत्ता युक्ताति प्रसगान्नचदेष्टव्यास्यगुणी युज्यते यतोज्ञानसम्भूतं चिद्रूपं सदैवेद्रिवगोचरतीतवादिधर्मापेतमतस्तस्यानुरूपएव कश्चिद्गुणीसमस्ये पणीयः

### अणानुपुष्वी सेकितं पुव्वाणपुव्वौ २ धम्मत्थिकाए अग्गासत्थिकाए जीवत्थिकाए पोगलत्थिकाए

पणित्ते तेभणी वियेयइत्ते अङ्कारूप जेसमय तेचइहा समय एतले वच्यमाण पट्याटिका पाटण इदंते जणाव्यो सर्वं शून्य पूर्वोपर भाग रचित वत्तमान  
 कालनो एक षंय इत्यर्थ एतलाभणी इहा अस्तिकाय पणानुं अभाव जाणानु वरु प्रदेगपणेइताज तेऊइ अने इहानो षतीत समय विणठो अनेअनागत  
 समय उपनो नथी जेभणी एकजकाल प्रदेगनाइता पणा ऊती अस्तिकाय पणोन ऊइ इहां गियथ पूरेहे भगवन् इम तो आवलिकादिकनो अभावथयो  
 जेभणी तेसमय घणां विनांनथाइ गुरु बोल्या आबलिकादिकनो अभावथाइ तो थाबाद्यो कियंथयो जेतेइहुं अभावथयुं तो तिवाव वली गियव  
 बोल्या भगवन् इहा आगम मध्यज इम कत्तौहे समयवलिच सुळत्ता दिवसमहोरत्त पक्खमासाय इत्यादि ते आगम विरोधाइ गुरु बोल्या हे

वच इम नष्टो जेभणो ठ अभिप्राय नथी जाणतो तिशां व्यवहार गयने मते ते आवलिकादिकना कृता पणाना मानवा छती अने पृष्ठा निचय नयनेमते तेआवलिकादिकना अस्ततापणाना कष्टवाची आगम विरोधनयाद् जेभणो जिन पुत्रलने विपे परमाणु आना सघातदीसेछे तिम आपलिकादिकने विपे समयनो सघातदीसतो नथी तेभणी निचयनय आवलिकादिकनी नाशिमने पृष्ठा अर्धा पूरीयाय इहांषड द्रव्यना असा पणामी युक्ति कष्टेले धर्माशिक्षायाविना जीव पुत्रलनीगति युक्ति सू नमिच्छद् अने अधर्माशिक्षायाविना जीव पुत्रलनीस्थिति युक्ति नमिले तेभणी तेविग्र नोक्षतापणोमानयु तथा कोर्द एककटे जीव पुत्रलनी गति स्थितिरे पर धर्माशिक्षायादिक नथी इम प्रतिबध अभावयो अनेक्रांतिक पणुकहे तेचनो एउत्तर तेविना जोगतिस्थिति इद्द तो अलोकने विपे पणि तेछद् अने जो अलोकने विपे पणि तेगतिस्थिति छद्द तो अलोकना अनन्तपणा छती लोकाश्रमाश्रिनीकलीने जीवपुत्रलअलोकने विपेपणिजाद् तिवारेलोकनादेग प्रदेशजीव पुत्रलन्यथाद् इमकरतो कदाचित् सर्वजीव पुत्रलन्यूलोश्रयाद् नेतो इमफेने केयलीयेदीठो सदृशो नथी इत्यादि अनेरा घणा द्रूपणनो समूहछे तेकश्तानथी ग्रन्थना विशारना भयछती तथा आकाय विना जीवा दिक पदार्थने आधार युक्तिउनमिले तेभणी तेछतो मानवु इहां इम नकश्चु धर्माशिक्षाय अधर्माशिक्षायज जीवादिक पदार्थना आधार छद्द जेभणी तेगतिस्थिति नाजकारण कष्टाछे अनेजो अनेरा कार्दने साधेतो सर्वकार्यनो एककारणयाद् माटी आदिकथी यक्षादिक पणियाद् इमअति प्रसगयाद् तथायट ज्ञान पट ज्ञान इत्यादि ज्ञान गुण जूञ्चा जीवने आपापणे ज्ञानेकरी प्रत्यक्षसिद्धछे तेभणी जीवनो अक्षिपणो जाणयु तथागुणीनिना गुणनी सत्तान इद्द तो अतिप्रसग दोष उपजे अयषट अयषट एथवशरनो छेद्द इहा कोर्द इम कहे ज्ञात तेगुण अनेदेव तेगुणी तेवचन मिलेनथी जेभणी ज्ञान तेचेतन्यरूप अमूर्तछे अने सदा द्रन्द्रिय गोचरातीत पणादिक अनेक धर्मोपेतछे तेभणी तेसरिखोज तेचनो गुणी होय तेतो जीवज

सचजीव एवम तु देशो विपरीतत्वाद्यदि पुनरभनाशुरूपोपि रुणानां शुथीकल्पते तर्ह्यनवस्थारूपादि गुणानामयाकाशादेर्गुणत्वकल्पना प्रसं  
गादिति पुत्रलाशिकायस्य तु घटादिकायान्यथानुपपत्तेः प्रत्यक्षत्वाच्च सत्त्वं प्रतीतामेवेति तालोप्यसि बहुलाशोकचंपकादिशु पुष्पफलप्रदानस्या नियमेना

### पुगलत्थिकाए अद्वासमए सेतंपुखानुपुखी सेकितंपच्छानुपुखीर अद्वासमए पोगलत्थिकाए जीवधम्मत्थिकाए सेतंपच्छा

जाणवो परंदेह नही जेभणी देह तेसूत्तं अचेतन्य तथा इन्द्रिय गोचर पणादिक अनेक तेथी विपरीत स्वरूप सचित्ते अने जो असरीवो शुद्धनो  
शुणीथा तो कल्पिये तो अनवस्था दोप जपजे जेभणी जो इम तो वणोदिक शुणनो शुणी आकायादिक पण्णोयइम अनवस्था दोप जपजे इत्यादिक  
युक्तइ करी जीवाशिकायनो असि पणो सदेहणो अने पुत्रलाशिकायनो अतापणो प्रत्यक्षादिक प्रमाण सिद्धवळे जेभणी पुत्रलाशिकाय विना घटादिक  
अनेक कार्य युक्तिसुंमिलेनही तथाकालपण्णि छतोळे जेभणीबहुल अयोकचंपकादिकने विपे पुष्पफलादिक देणुं नियमरूपदी घेळे जेतिहां नियमनोकारण  
तेकाल जाणवो अनेजोस्वभायथी तेस्वरूपमानियेतो नित्यंसत्वसत्त्वंवा तेतोरन्यान्यपेक्षणात् अपेक्षातोडिभायानी कदाचित्त्वत्त्व संभवा इत्यादिक दूषणनो  
प्रसंगथाइ इहांअतिवणोतर्कळे तेनही कहता ग्रंथदुरगमना भयथी वली शिष्यपूळेळे भगवन् धर्माशिकायनइप्रथमपणो अनेअधर्माशिकायादिजनेशाग  
लअनुकमे निर्देशकीधुं ते किणीयुक्त ए अनुकमनीपनी जे भणी इहां पूर्वातुपूर्वी रूपपणी छइ उत्तर आगमने विपेएणो अनुकमे अणुंते ते भणी पूर्वी  
तुपूर्वी रूपपणुंथाइ वलो शिष्य कहेळे ते आगमने विपे इसे अनुकमनो कियुं हेतुळे शुद्ध बोला इहां यादि धर्माशिकायनो ग्रहण सांगलिक भणी  
कीवो तिवारवली तेहना प्रतिपत्ती अधर्माशिकायनो ग्रहण कीधुं पळे ते विडंवा आधारपणाधी आकायाशिकायनो ग्रहण करी पळे स्वाभाविक  
असत्तंपणांना तुल्य पणाथी जीवाशिकायनो ग्रहण करी पळे तेहना प्रयोग पणाऊंती पुत्रलाशिकायनो ग्रहण करी पळे जीवना पर्यायपणाधी

दर्शनाद्यस्तु तत्र भिद्यमानः सकाल इति स्वाभावाद्देवत तद्गुणने नित्य सत्वमसत्त्वचेत्यादिद्रूपप्रसंगोऽत्र वडवक्रय्य तन्नुनोप्यते य यदुरगमताभयादिति  
 आह धर्माशिक्षायास्य प्रथम्य अधर्माशिक्षायादीना उ तदनतर क्रमेणेत्यनिर्देश्य कृत सिद्धो येनोत्तरपूर्वीरूपस्यादित्यतोऽप्येते भागमे द्रव्यमेव  
 पठितस्या तत्रापि कथमिच्छमेव पाठ इति चेदुच्यते धर्माशिक्षाया इत्यत्र यदादा धर्मोति पद तस्य मांगलिकत्वाद्वाशिक्षायास्य प्रथममुपयास सातशत्प्रति  
 पद्यत्वादधर्माशिक्षायास्य तत साधारणाशिक्षायास्य तत स्थाभावात्क्रान्तत्वसास्या ज्ञीयाशिक्षायास्य ततसादुपयोगित्यात् पुनर्वाशिक्षायास्य  
 ततो ज्ञीयाश्रीषयीयत्वात्तदनतरमहासमयस्योपन्यास इति पूर्वीरुपूर्वीसिद्धिरिति अथ पञ्चानुपूर्वीं निरूपयितुमाह सेकित मद्यानुपूर्वीत्यादि मद्यात्या दा  
 रम्य प्रतिबन्धोमथ्यायनेवानुपूर्वीं परिपाटि कियते यस्या सा मद्यानुपूर्वीं अत्रोदाहरणसुतक्रमेणोदमयाह अत्रासमेत्येत्यादि गतार्थमेव अथाऽऽनुपूर्वीं पूर्व  
 निरूपयति सेकितमित्यादि अत्र निर्वचन अणानुपूर्वी एताएवेवेत्यादि न विद्यते आनुपूर्वीं यथोक्त परिपाटिद्वयरूपा यस्या सा अनानुपूर्वीं विवक्षित

**नुपूर्वी सेकितअणानुपूर्वीरत्राएचैव एगाद्रत्राए एगुत्तरिआए ऋगच्छगयाएसेटीए अन्नमन्भासो दूरूवूणो सेतंत्रया**

अत्रा समयनो प्रकरण कस्यो एणोपरे पर्वाणुपूर्वीं सिद्धिर्यदे सेत समप्ति अथ पञ्चानुपूर्वीं कहेहे सेकित अथ किसी ते पञ्चानुपूर्वीं उत्तर पादलक्षकी  
 आरभीने विपरीत पुणे आनुपूर्वीं परपाटीकरिये जेरने विवे ते पञ्चानुपूर्वीं कधीये इहा उदाहरण विपरीतपणे एह ज कहेहे अत्रा समय इत्यादि  
 सुगमार्थ सेत समाप्त अथ अनानुपूर्वीं कहेहे सेकित अथ किसीते अनानुपूर्वीं उत्तरयथोक्त परपाटी रूप आनुपूर्वीं नथी जेरने विवे ते अनानुपूर्वीं  
 कश्चिये विवक्षित पदने पूर्वोक्त असुकम उल्लंघने परस्पर असरीये जूजुये भांगे करी जिहा विरचना करिये ते अनानुपूर्वीं कश्चिये इत्यर्थ  
 तेकिसी तेकहेहे अन्नमन्त्रभ्या सो परस्पर अस्यास कर्षतां गुणवु ते अन्योन्याभ्यास कश्चिये दूरूवूणो दोह रूप जन एतले पाद्यत रूप रचित तेअनानु

पदानामन्तरोक्त कमहयसुखं ध्य परस्परसदृशैः संतवद्भिर्भगकैर्यस्या विरचमाक्रियते सानानुपूर्वीत्यर्थः कापुनरियमित्याह आनसणभ्यासोऽन्ति अन्योन्यं परस्परमभ्यासो गुणानमन्योन्याभ्यासः दूरुवोणोत्ति द्विरूपन्यून आद्यं तरूपरहितो अनानुपूर्वीतिसंटकः कस्यां विषये योः सावभ्यास इत्याह अत्रेखापत्नौ कस्यां पुनः अत्रेयामित्याह एता एवेति आस्यामेवानंतराधिष्ठत धर्मास्त्रिकायादि संबंधिन्यां कथं भूतायामित्याह एक आदियस्या सा एकादिकी एकेक उत्तरः प्रवर्द्धमानो यस्यां पुनः कथं भूतायामित्याह छगच्छगताएत्ति पणांगच्छः समुदायः पन्नच्छसंगता प्राप्तापङ्कच्छगता सस्या धर्मास्त्रिकायादिवस्त्रूप द्विपयामित्यर्थः आदौ व्यवस्थापितैकक्रायपर्यतैन्यसपट्काया धर्मास्त्रिकायादि वस्तुपट्कविपया यार्पकैर्यापरस्परगुणाना भंगकसंख्या भवति सा आद्यं त भंगद्वयरहितता अनानुपूर्वैति भावार्थसालोहधिः किलैककादयः पट्पर्यंतात्रंका स्यापिता सत्रचैकाकेनद्विके गुणितेधातो द्वानेव ताभ्या त्रिकोगुणि

तुपुव्वी अहवाउवनिहिआ दव्वाणुपुव्वी तिविहा पंतं० पुव्वानुपुव्वी पच्छानुपुव्वी अणाणुपुव्वी सेकिंतं पुव्वानुपुव्वी ?

पूर्वी कहिये ए संबंध हिये आभ्यास तेकेहने विषे करवुं तिसां कहेछे सेढी एत्रेणि पंक्तिने विषे अथ किसी तेत्रेणि एषाएव एहज जेसियडाधर्मास्त्रिकाया द्विक संबंधिनी कहिये तेहने विषे वली किसी तेत्रेणि एगाइषाए एक आदिके जेहनी तेएकादिकी तेहने विषे तथा एगुत्तरिषाए एकरउत्तर कहता वधतोछे जेहने विषे तेएकोत्तरिका वली किसीछे तेत्रेणि छगच्छगवाए छनी जेगच्छकहतां समुदाय तेपडंगच्छकहिये तेहने जेगता कहतापुहतोतेपट् गच्छगता कहिये तेहने विषे धर्मास्त्रिकायादिक पट्वस्तु विषे इत्यर्थ एतले आदिस्थापीयेएकनो आक अंतस्थापिये छनो आं क तेपंक्तिनुं जेपरस्पर गुण ओगुण्ये छंते जेभागानी संख्यालाभेते संख्यामध्ये आद्यं नाना भांगवेकादिडे तेकाढापच्छी श्रेष संख्यासर्वपनानुपूर्वी कहिये एभावार्थ तिहा उर्द्धमधी एक आदिछगडापर्यंत आंकस्थाय्या जता तिसां एकडे करी विगडउ गुणीये तिवारेवेशाइ तेने विळइ करी तिवारिणे गुणीये तिवारेखयाइ तेणे छगडे करी

राज वनपन विं व लखारिका वनपन संवत् मना ४८५

तो जाता पट् तैरपिषट्कारुणितो जाता चटर्विगति पचकस्य ठ तद्वृणने जात विगति यत पट्कस्य तद्वृणने जातानि विंशत्यधिकानि सप्तसता नि स्थापना ६ ५ ४ ३ २ १ आगत ७२० अताद्योभग पूर्वोत्पूर्वी अत्यथ पश्चात्पूर्वीति तदपगमेगोपाय्यटादयोत्तराणी सप्तभगकगतान्यथाशुपूर्वीति सतथ्यानि अत च भगकसरूपा नयनार्थं करणगाथा पुव्याणुपुव्यिष्टिष्ठा समयभिरेणकुरजज्ञेच उधरिभटुषु पुरठ निसेज्जपुव्यफमोचेसन्ति । व्याख्या इह विबलित पदानकमेस्थापना पूर्वोत्पूर्वी त्पुष्यते तस्माच्छेदन्ति अधस्तात् द्वितीयादि भगकान् जिष्ठासु कुरुन्ति स्थापय एकादीनिपदानोतिशेष काथा मित्याह जेटस्थानति क्रमेण यथाज्येष्ट यो यस्यादौ सतस्य ज्येष्ठो यथादिकस्यै कोज्येष्ट त्रिकस्यै ककोजुजेट चतुष्कादीनात् स एवाजेटाजुजेट एधतिनस्य द्विकोच्येष्ट स एव चतुष्कस्याजुजेट पचकादीनां ठ स एव ज्जे टातुज्जेष्ट इत्यादि एव च सति उपरितानां कस्य अधस्ताजेटोच्चिष्यते ततानुस्यमानो यतुज्जेष्ट साताप्यल्लथमानजटातुज्जेष्ट इति यथानेट निक्षेप कुर्यात् कथमित्याह समयो भेदेनेतिसमय सकेत प्रस्तुतभगकरचनव्यवस्था तस्य अधेदोष्पनति क्रम्य सस्य च भेदेसादा भवति यदा तस्मोनेव भगकेनिक्षिप्तकसद्वृशोथपारांक पतति ततो यथोक्त समयभेद यज्जैयनेय जेटास्तुक्त निक्षेप कुर्यादुक्त च जडियमित्तनिक्षिउत्ते पुनरविसेचिवचोद्दकाद्व्यो सोष्ठोद्देशप्रयभेचा यज्जे यव्यो पयन्ते ण । निक्षिप्तस्य चैकस्य यथासभय पुरठन्ति अथत उपरितनांके सत्य सह्य तथा भयत्येवतस्यापरितनाकसद्वृथानि वांकात्रिषुपेदित्यर्थं पुव्यकमोचेसेति स्थापितशेषानकानिक्षिप्तां कस्य यथा सभय षष्टत पूर्वकमेण स्थापयेदित्यर्थं य सत्व्या लघुरेककादि प्रथम स्थाप्यते वस्तुतया मशान् द्विकादि सपचादितिपूर्वक्रम पूर्वोत्पूर्वत्वज्ञेणे प्रथमभगके पूत्यमेव इदत्वा

परमाणुपोगले दपएसिए तिपएसिए जावदसपएसिए सखिज्जपएसिए असिएअणतपएसिए सेतंपुव्वोचुपुव्वी  
 चौगुडगुणीये तिवारे चठवीसथाइ तेणे ववी पाचनो आकगुणीये तो १२० याइ तेणे छनो आंकगुणीये तो ७२० याइ चतथादिनो भांगउ पूर्वांश

६ पूर्वी कहिये अने छेहलो भांगो पञ्चानुपूर्वी कहिये तेभणी तेकाटीने शेषभागा ७१८ अनानुपूर्वी कहिये इहां भांगानो स्वरू  
 ५ पजाणवा भणी करणगाथा पुव्वाणुपुत्वी हेडा समयभएण कुवजहाजिठ उघरिमनुल्लं पुरउ नसेज्ज पुव्वकम्मोसेसे? व्याख्या इहांवि  
 ४ वच्चित पदनी अनुक्रमे जेस्थापना तेपूर्वानुपूर्वी कहिये तेहने हेटेवीजादिक भागां जाणवा भणी कुव कहतां स्थापिएकादिक  
 ३ पद शेष वाक्य किम तेकहेछे ज्ये एने अणतिक्रमवे तेभणी यथा ज्ये ए जेजेहनी च्याइइ ऊइ ते ज्ये ए कहिये जिम विगडाने  
 २ १ एकडो ज्ये ए अने विगडाने विगडो ज्ये ए एकडो अनुज्ये ए कहीये अने चौगडादिकने एकडो ज्ये ए अनुज्ये ए  
 कहीये इम विगडाने विगडो ज्ये ए चौगडाने ते अनुज्ये ए अने पांचडादिकने ज्ये ए अनुज्ये ए इत्यादि इम जाण्ये ऊते उपरलाआक हेठलि ज्ये ए अंकां  
 स्थापीये ते नु लाभे तो अनुज्ये ए स्थापीये ते वली किम स्थापीये ते कहेछे समयभएण समय कहतां संकेत आरंभित भागानी रचनानी व्यवस्था ते  
 हनो अभेद कहता अणतिक्रमवुं ते समयनो भेद तिवारेऊइ जिवारे तेहज भांगाने विषे स्थाप्या अंकासरीषो अनरो अंकां पडे तेभणी ते समय भेद  
 वर्त्ताऊता ज्ये ए अदेक अंकां थापीये उक्तञ्च जहिमित निश्चिते पुणरविसोचेवहोइकायवो सोहोइइ समयभेउ वज्जे अब्बोपयतेणं ? ते ज्ये ए अंकां  
 स्थाप्यापक्कीपुरतः कहतां आगलिउवरिम उल्लं उपरलाआकअंठुल्लपणुं जिमऊइतिम सर्व अंकां स्थापै पुव्वकम्मोसेसे स्थापता जेषे अंकां हे ते निचेपवुं  
 आकने पाछलि पूर्वादिक अनुक्रमेथाइ एतले जे लहु अंकां एक आदिते प्रथम स्थापे अने जे तेथी मोटो अंकां द्विकारादिक ते आबल स्थापे ते पूर्वक्रम  
 कहीये ए गाथानो अक्षरार्थ विषांख्यो हिवे भावार्थदियि मात्त देषाडिवा भणी त्रिणपदआची प्रथम देषाडियेछे ते त्रिण पदने परस्पर अभ्यास  
 कखे ऊते भागाथाइ ते एणी परे अंशीये पूर्वानुपूर्वीरूप प्रथम भांनो ए जांणवो १३ ए पूर्वानुपूर्वी हेठलभंगक रचना करतां ऊतां एकडाने ज्ये ए

दिति भाव भावागसुदिग्मात्रदर्शनार्थं सुधाधिगमाद्यच्च त्रीणिपदान्यात्रत्यातायत् पश्यति तेषां च परस्वरास्यासेयङ्गका भवति तेनैवमानीयते  
 पूर्वानुपूर्वलिखणशापत्रयसो भग सद्यथा १२३ अस्याचपूर्वानुपूर्वां अथसाङ्गकारवने कियमाणे एकेकस्यतावद्येष्ट एवनास्ति द्विकस्यात् विद्यते एक  
 स्यतदधोनिश्चिप्यते तस्यचाग्रत स्त्रिकोदीयते अवरिमतुष्टमित्यादि वचनात् दृष्टतस्तु स्थापितयेपोदिको दीयते ततोय द्वितीयो भग २१२ अत्रषट्कस्य  
 विद्यते एककोद्येष्ट पर नाचीतदधस्तान्निश्चिप्यतेऽग्रत सहायक पातेन समयभंग प्रसगादेकेकस्य तु ज्येष्ट एव नास्ति त्रिकस्य तु विद्यते द्विकोल्पेष्ट स  
 त्प्रसाङ्गिश्चिप्यते अत चाग्रभागस्यतावद् स भव एव दृष्टतस्तु स्थापितयेपादेकेकत्रिकौ क्रमेण स्थाप्येते पुष्यक्रमोसेरुति वचनात्तत्तृतीयोय भग १२२  
 अत्राप्येकस्यज्येष्ट एव नास्ति त्रिकस्य तु ज्येष्टोस्ति द्विको न च द्विप्यते ये सहयोगपातेन समयमेदापात्तलतोऽस्यैवाज्येष्ट एकक स्याप्यते अग्रतस्तुद्विक  
 अवरिमतुष्टमित्यादि वचनात् दृष्टतस्तु स्थापित येपस्त्रिको दीयते इति चतुर्थोभग ३१२ एवमनयादिगा पचमपष्टायप्यभ्युत्थौ सर्वेषां चामो  
 परमिय स्थापना १ २ ३ अत्राप्याद्यभगस्य पूर्वानुपूर्वोत्वादित्यस्य च यथातुपूर्वोत्वा मध्यमाण चत्वारोनातुपूर्वोत्वेन मतथा एव मनयादिगा चतरादि  
 पदसभविनीपिभगा १ २ ३ भावनीया भूयांसचोत्तराध्ययनटीकादि निर्दिष्टा प्रस्तुतभगा नवनेपाया सति नवोच्यते इति विस्तरभयात्तद्विधिनात्

सेकितपच्छानुपुञ्जो २ अणतमएसिए असखिज्जपएसिए आयदसपएसिए जायतिपएसिए दुपएसिए

षोडशतयो अने विगडानेतो एकडोज्येष्टे ते एकडो विगडाने टेस्यापिये ते आगलि तिगडु स्यापिये अवरिम तुल्यमिति वचनात् ते पूटे स्थापतां श्रेय  
 जेरत्तो विगडु ते स्यापीये तिवारे ए वीको भागोनीय जे २१३ इहा विगडाने ज्येष्ट एकडोज्येष्टे परते षट्कलि नस्यापीये जे भणो आगल सहय षोडश  
 स्यापवापी समबभेद जपजे तो आगला एकडाने कोर्दे ज्येष्टे नञी तेमणी तेरेष्टे पणिन स्यापीये तिगडाने विगडो ज्येष्टे तेविगडा षट्कस्यापीये

अनुपुञ्जो २ अणतमएसिए असखिज्जपएसिए आयदसपएसिए जायतिपएसिए दुपएसिए



ततएवावधारणीया १ ३ २ खादिदमत्वतात्पर्यं पूर्वानुपूर्व्यं तावच्चर्मास्तिकायादीना द्वितीयादित्वं पश्चानुपूर्व्यं । त्व  
 हासमयस्यप्रथमत्वं ३ १ २ पुद्गलास्तिकायादीना तु प्रतिलोमतया द्वितीयादित्वं अनानुपूर्व्यं । त्व नियमेन कश्चिद्भंगके कस्यचित्प्रथमादित्यलं विस्था  
 रेण सेत्तमित्यादि २ ३ १ निगमनं तदेवमत्वपक्षे घर्मास्तिकायादीनिषडपि द्रव्याणिपूर्वानुपूर्व्यादित्वे नोदाहृतानि साप्रतं त्वेकमेव पुद्गलास्तिकायामुदा  
 हर्त्तुं माह अहवेत्यादि ३ २ १ अत्रचोपनिषिक्त्या द्रव्यानुपूर्व्या ज्ञातमपित्वेवध्यं यत्पु नरूपन्य त्वं तत्रकारातरभरणनप्रत्वावादेवेति संतव्यं अणंतगच्छगताएषि

**परमाणुपुगले सेतं पच्छानुपूर्व्यौ सेकितं अणायुपूर्वो १ एत्राएचेव एगाइत्राए एगुत्तरित्राए अणंतगच्छगयाएसेटीए**

इहा आगल आकछे नही ते भणी शेष एकडो पूठ अनुक्रमे स्थापीये पुव्वकमोसेसेत्ति वचनात् तिवार पछी तीजोए भागौनीपजे १ ३ २ पछे वली इहं  
 एकडाने विगडो ज्येष्टछे परं निज्जेपीये नही आगलि सरिषा आंकने स्थापवे करी समय भेदथाइ तेभणी तेत्तिगडानो अनुज्जेष्ट एकडो स्थापीये  
 तेआगल विगडो स्थापीये उवरिमतुक्कमित्यादि वचनात् अने पूठिने विषे शेष रहतो त्रिगडौदीजे तिवारे एचतुथो भांगौनीपजे ३ १ २ इम पांच मौच्छड्ड  
 भागौपरिण स्वयमेव करनु एसर्वभांगानीए स्थापना इहं आद्यभागाने पूर्वानुपूर्वी पणायी अने अंत्यभागाने पश्चानुपूर्वी पणा ऊती मध्यमस्थारिभांगज  
 अनानुपूर्वी पणे जाणवा इम विज्जं आदि पदना भागास्वयमेव भाववा उत्तराध्ययननी टीकाने विषे एभांगा जाणवा भणी उपाय घणा कच्छाछे  
 तेकहता नही विस्तारना भयथी हिचे इहं एपरमार्थ पूर्वानुपूर्वीने विषे घर्मास्तिकायानो प्रथम पणोछे अनुक्रमे अथर्मास्तिकायादिकने द्वितीयादिक पणु  
 थाइ अने पश्चानुपूर्वीने विषे अद्धा समयने प्रथमपणौ अने पुद्गलास्तिकायादिकने विपरीतपणे द्वितीयादिक पणौथाइ अने अनानुपूर्वीने विषे कोइ एक  
 भागाने विषे कोइ एकने प्रथमादिक पणौ ऊइ अलंविस्तारेण सेतं निगमन एणी परे एपक्षने विषेछ द्रव्य पूर्व्यानुपूर्वीदिक पणे कच्छी हिचे एक

राज्यवपनत सिद्धं भावोत्तरिका स्थापनं सत्त्वं ४४४

अत्रेतात्तरद्विगन्तु स्तन्व्यानामनतत्त्वादनन्तानां गच्छं ससुदद्योऽनन्तगच्छं स गता अनन्तगच्छगता तस्यां अतएव भद्रा अत्रानन्ता अवसेया इतिशेष  
भाषना च सर्वा पूर्वेणासुरात् स्वसम्यक्सेयेति आह ननु यथैक पुत्रलाशिकायो निर्हाय्यं पुनरपि पूर्वोक्तपूर्व्यादित्थेनोदाहृता एव शेषा अपि प्रत्येक

अनमन्त्रभासो दस्युगो सेत अणाणुपुष्पौ सेत उवणिहिश्चा द्वाणुपुष्पौ सेत आखव्यतिरिक्ता द्वाणुपुष्पौ सेत नो  
आगमतो द्वाणुपुष्पौ सेत द्वाणुपुष्पौ सेकितं खेत्ताणुपुष्पौ तंजहा उवणिहिश्चा दुविहा पणत्ता तजहा उवणिहि  
श्चाय अणोवणिहिश्चाय तत्यण जासा उवणिहिश्चा साठप्पा तत्यण जासा अणोवणिहिश्चा दुविहा पणत्ता तजहा  
गोगम ववहाराण सगहस्सय सेकितं गोगम ववहाराण अणोवणिहिश्चा खेत्ताणुपुष्पौ पंचविहा पणत्ता अट्टवयपवरूव

- १२२ पुत्रलाशिकायनेन उदाहरण रूप कहेत्ते अथवा उवणिहिश्चा इहां अपनिधिको द्रव्यागुपूर्वगु विविधपणु यली कत्ता, प्रकारंतर  
१२३ भणयाना प्रदाव अतो जाणुगु शेष सुगम अणत्त गच्छगता वरिये तेहने विपे एतसा भणी इहा अनता भांगा आणुवा शेष सर्ध  
१२४ भावना पूर्ववत् इहां प्रत्ये जिम एक पुत्रलाशिकाय अलगो काटो पूर्वोक्तपूर्व्यादिक पणे यली उदाहृतो तिम शेष द्रव्य जूया करीने  
१२५ को न उदाहरीये उत्तर द्रव्यत्त असुक्रम परिपाटी रूप पूर्वोक्तपूर्व्यादिकनो विचार इहां प्रारभ्यो छे ते पुत्रल द्रव्यने पणायणे  
१२६ जयाइ अने धर्माधर्माकायासि कायने विपे पुत्रलाशिकायनी परे द्रव्यत्त गच्छलपणो नयी जे भणी ते तेहने एकेकत्त द्रव्य  
१२७ पणेत्ते अने जीवाशिकायनेविपे जीवद्रव्य अनता भणी द्रव्यनो वच्छल भाव छे पर परमाणु द्विप्रदेशिकादिक द्रव्यनी परे जीव

किमिति नोदाहृतवन्ते अत्रोच्यते द्रव्याणां क्रमः परिपाठ्यादिलक्षणः पूर्वानुपूर्व्यादिविचार इह प्रकान्तः स च द्रव्यगच्छत्ये सति सम्भवति घर्षाघर्षाका  
शास्त्रि कार्थेषु च पुरुलाशि कायवन्नास्ति प्रत्येकं द्रव्यगच्छत्येमेकैक द्रव्यत्वात्तेषां जीवांशि कायेत्यनन्तजीवद्रव्याऽऽकृत्वादिनि द्रव्यगच्छत्यं केवलं परमाणु  
द्विप्रदेशिकादि द्रव्याणामिव जीवद्रव्याणां पूर्वानुपूर्व्यादित्यनिवन्धनः प्रथमपदात्वादिभावो नास्ति प्रत्येकससत्ये य प्रदेयत्वेन सर्वेषां तुल्यप्रदेयत्वात्परमा  
णु द्विप्रदेशिकादि द्रव्याणां तु विषमप्रदेशिकत्वादिति अन्नासमयस्यैकत्वादेव तदसम्भवं इत्यलमतिवर्तितेन तदेवं समर्थिता औपनिषिकी द्रव्यानुपूर्वी तत्र

णया भंगसमुत्कर्त्तनया भंगोवदंसणया समोऽत्रारे अणुगमे सेकितं गोगमववहाराणं अद्रपयपरूवणयार् तिपएसोगाटे  
आनुपूर्वो जावदसपएसोगाटे आनुपूर्वो संखिज्जपएसोगाटे आनुपूर्वो असंखिज्जपएसोगाटे आनुपूर्वो एगपएसोगाटे  
अणानुपूर्वो दुपएसोगाटे अवत्तञ्चए तिपएसोगाटा आनुपूर्वो औ जावदसपएसोगाटा आनुपूर्वो औ संखिज्जपएसोगा  
टा आनुपूर्वो औ एगपएसोगाटा अणानुपूर्वो औ दुपएसोगाटा अवत्तञ्चगाइ' सेतं गोगमववहाराणं अद्रपयपरूवणया

द्रव्यने पूर्वानुपूर्व्यादिपणानो कारण प्रथम पदाद्भाननथी जेभणी तेवीवने प्रत्येकर असंख्यात प्रदेयिकु आपणी तुइ छे तेभणी तेरुने तेभावन ऊइ  
अने अद्वा समय तो एक जछे तेभणी तेरुने यिये तेभाव संभवे नही इति घणी चर्चाइ' प्रोचय सेतं तेए अनानुपूर्वी तेपूरी करतां उपनिषिकी  
द्रव्यानुपूर्वी पूरीकीधी तेभणी सेतं निगमनं तंपूरी करतां पूर्वोद्दिष्ट विडं प्रकारनी द्रव्यानुपूर्वी पूरीकीधी तेभणी सेतं निगमन एवं त्विणि समाप्त जाणवी  
इति द्रव्यानुपूर्वी समाप्ता अय पूर्वोद्दिष्ट ज्ञानानुपूर्वीं कछेछे सेकितं अय किसी तेज्ञानानुपूर्वीं उत्तर जेतनेविषे जे आनुपूर्वी तेज्ञानानुपूर्वी तेद्विविध प्ररूपी

मर्थनेन राम र्चता प्राणुषिटाहिप्रकारापि द्रव्यानुपूर्वी तत खेत्तमित्यादि निगमन इति द्रव्यानुपूर्वीसमाप्ता अथ प्राणुषिटाभेव खेत्तानुपूर्वी आषिष्या  
सुटाथ सेकित भिन्नाणुषिन्ति इह खेतविषया आनुपूर्वीखेत्तानुपूर्वी आणुरियमित्यत्र निर्घषन खेत्तानुपूर्वीद्विविधाप्रज्ञप्ता तद्यथा औपनिधिकीसानययक्तथ  
तायवणाद्विधिषा प्रज्ञप्ता तद्यथा नैगमव्यवहारयो उपपत्त्य च सम्भतेति गोप तत्रैव नैगमव्यवहारसम्प्रदातो तावदर्थंविद्युत्ताम सैकित मित्यादि इह व्याख्या  
यथा द्रव्यानुपूर्वीतथैव कत्तव्या विषये तु कस्याम खत तिपएसोगाढे आणुषिन्ति त्रिषु नम प्रदेगेष्यवगाढ स्थित तिमदेगायगाढ स्यगुकादिकोऽनन्ता

एत्राण गेगमववहाराण अद्वयपरुवणयाए किपञ्चोअण गेगमववहाराण अद्वयपरुवणयाए गेगमववहाराण भगस  
सुक्तिज्ञणया कञ्ज्द्र सेकित गेगमववहाराण भगसुक्तिज्ञणया २ अत्रिअनुपूर्वी अत्रि अणानुपूर्वी अत्रि अत्रवत्तव्यए  
एनद्वानुपुत्रिगमेण खेत्तानुपूर्वीएवि तेवेव छन्वोसभगाभाणिअन्वा नाव सेत गेगमववहाराण भगससुक्तिज्ञणया ए  
अण गेगमववहाराण भगससुक्तिज्ञणया किपञ्चोअण एअण गेगमववहाराण भगससुक्तिज्ञणया गेगमववहाराण

तेकटे अण उपनिधिकी अने बीबी अनोपनिधिकी तिहा के उपनिधिकी खेत्तानुपूर्वी ते ठप्या कठतां स्यापणी इमजरयणी अत्य वक्तव्यपणा ऊती  
आगस कश्चिसे तिहा के अनोपनिधिकी ते नयवप्रयत्तानो आत्रवलेषा ऊती द्विषिष प्ररूपी तद्यथा नेगम व्यवहारलेमान् अने सप्रउने मान् एगेषवाक्य  
तिहा नेगम व्यवहारने मान् प्रयत्न कहेके सेकित इहा व्याख्या निम द्रव्यने विपेकोधी तिमकी तिमकारवी पर विषय तेवयाणीजस्ये तिहा त्रिणप्रदेयने  
विषे खेअवगाढ कठता रत्वी तेतिप्रदेगावगाढ कश्चि तेति प्रदेगिकादिक अनत प्रदेयिक पर्यत द्रव्यसक्तज आनुपूर्वींआणु इहा खाला जोद्रव्यसक्त

अनुपनिधिप्रकाशिका

शुभपर्यन्तो द्रव्यस्वस्व एवानुपूर्वी ननु यदि द्रव्यस्वस्व एवानुपूर्वी कथं तर्हि तस्य चेतानुपूर्वीत्वं सत्यं किन्तु चेतप्रदेशवयावगाह पर्याय विशिष्टोसौ द्रव्य स्वस्वो गृहीतो नाविशिष्ट स्ततोऽत चेतानुपूर्व्याधिकारा चेतानुपूर्व्याधिकारा प्रदेशत्रयलक्षणस्य चेतस्यैवात्मसुखं चेतानुपूर्वीत्वं तदधिकारादेव किन्तु तदेव गणं द्रव्यमपि तत्पर्यायस्य प्राधान्येन विवक्षितत्वात् चेतानुपूर्वीत्वेन न विरुध्यत इति भावः यद्येवं तर्हि सुखं चेतं परित्यज्य किमिति तदवगाह द्रव्यस्यानुपूर्व्यादिभावश्चिन्त्यते उच्यते सन्तपय परूषणयेत्यादि वक्ष्यमाण बहुतरविचारविषयत्वे न द्रव्यस्य शिष्यगतियुत्पादना र्थत्वात् चेतस्य तु नित्यत्वेन सदावस्थित मातृत्वाद्बलत्वाच्च प्रायो वक्ष्यमाणविचारस्य सुप्रतीतत्वेन तथाविध शिष्यमति व्युत्पत्तिविषयत्वादेव मन्यदपि

भंगोवदंसणया कज्जद्व सेकिंतं णेमवव हाराणं भंगोवदंसणया २ तिपएसोगाढे आनुपूर्वी एगपएसोगाढे अणानुपु  
 वी दपएसोगाढे अवत्तवए तिपएसोगाढा अणुपूर्वीओ एगपएसोगाढा अणानुपूर्वीओ दपएसोगाढा अवत्तवगाढं  
 अहवा तिपएसोगाढे अणपएसोगाढेओ अणुपूर्वीओ अणानुपूर्वीओ एवंतहाचेव दव्याणुपूर्वीओ गमेणं छवीसं भंगा

जानुपूर्वी कश्चिदे तो तेहने चेतानुपूर्वी पणो किमथाए गुरु बोल्या ए सत्य परं चेतानुपूर्वीना अधिकारी चेतानुपूर्वीना पर्यायना प्रधान पणा उठती तेद्रव्यस्वस्व पणि चेतानुपूर्वी कश्चिदे तेभणी दीप नही प्रदेशत्रयरूप चेतनं सुखपणं तेहने चेतानुपूर्वी पणो जाणवो तेचेतना अधिकारीज अने तदव गाढ द्रव्यने तेहना पर्यायना प्रधान पणानी विवक्षाधी चेतानुपूर्वी पणं विरोधाद् नही एभाव बली प्रेरक कहेछे जोइस तो सुख चेत परिरहरीने तदवगाढ द्रव्यने आनुपूर्व्यादि भाव किये भणी विचारिये उत्तर संतपय परूषणया इत्यादि अतिवणो विचार द्रव्यनो छे तथा शिष्यनी मति

तारणमभ्यूहमित्यल विस्तरेण एव षट् प्रदेशावगाढादिष्वपि भावनाकार्या यावत्सङ्घातप्रदेशावगाढा  
 दिष्वपि भावना कार्या यावत्सङ्घात प्रदेशावगाढो असत्याताणुको अणुताणुको वा द्रव्यस्त्वथो मतव्यो यत् पुद्गलद्रव्याणामवगाहमित्य जगद्गुरव प्रति  
 पादयन्ति परमाणुगणनायैकस्मिन्नेव प्रदेशेऽवगाहते हिमदेशिकादयो ऽसत्यात प्रदेशिकातास्तु स्त्वन्वा प्रत्येक जघन्यतएकस्मिन्नाकाशप्रदेशेऽवगाहन्ते इत्  
 खटवन्तु यावत्स्त्वये यावन्त परमाणवो भवन्ति स तावत्तस्येव नभ प्रदेशेऽवगाहते अनन्ताणुकस्त्वस्तु जघन्यतसाथैव इत्ठट्टास्त्वसख्येऽव्यवगाह तेनान  
 त्तोपु जाकाकाशस्यैव प्रदेशानात् लोकाकाशे च द्रव्यस्यावगाहाभावादित्यलं प्रसङ्गे न प्रकृतमुच्यते तत्रानुपूर्वी प्रतिपत्तानादनानुपूर्वीदिसरूपमाह

भागिचर्या जावसित गेगमववहाराणं भगोवदसणया सेकित समोअरिर् शेगमववहाराण आणुपुब्बिदब्बाद् कहि  
 समोतरति कि आणुपुब्बिदब्बेहि समोतरति अणुणुपुब्बिदब्बेहि समोतर ति अवत्तव्यग्दब्बेहि समोतरति आणुपुब्बि  
 दब्बेहि समोतरति सेत समोतरि सेकित अनुगमेर् नवविहे पणत्ते तजहा सतपयपखुवणयाजाव अण्णावड चैव १ शेग

निपुण करवा भणी द्रव्य संयुक्त जेतनी विचारणा कीधी जेमणी जेत सदाशास्त्रतोच्छे तेहनो विचार अति सुगमयाद् अने द्रव्य संयुक्त विचार करता  
 इरगम पणाथो गियलीमति कुत्तत्रयाद् तेभणी द्रव्य संयुक्तजेततु विचारकोथो इम अरो पणि कारण विचारोने बोलु इत्तलविस्तरेण एव षट्  
 प्रदेशे चदयाढानिके विपे भावना करवी यावदसत्यात प्रदेशावगाढने विपे एज विचारणा करवी ते असत्यात प्रदेशावगाढ असत्यात प्रदेशियो  
 तथा अनत प्रदेशियो द्रव्यतु स्त्वथ पाणुज जेमणी पुद्गल द्रव्यनो अवगाह जगद्गुरव इम वपाणे परमाणुथो आकाशना एक प्रदेशने विपे अवगाहे अने

एगणएसोगाढे अणाणुपुब्बिन्ति एकस्मिन्नभः प्रदेशेष्यगाढः स्थित एकप्रदेशाऽवगाढः परमाणुसङ्घात स्तन्धसङ्घातश्चेत्ततोऽनानुपूर्तीति मन्तव्यः इष्यएसा  
वगाढे अखसज्जएन्ति प्रदेशद्वेष्यगाढौ द्विप्रदेशिकादिस्तन्धः चेत्ततोऽवगाढ्यत्तं श्रेयो मङ्गलवचननिर्देशादिको गंथोयथाधस्यारू द्रव्यानुपूर्व्यां व्याख्यात सण्ये  
हापि तदुक्तानुसारतो व्याख्याया याव द्रव्यप्रमाणहारे गोगम वचनाराणं आणुपुब्बिद्व्याद् किं संश्लेष्याद् प्रत्यादि प्रश्नः सतोत्तरं नो संश्लेष्यादिसिद्ध्यादि  
त्यादिप्रदेशविभागवगाढानि द्रव्याणि चेत्तत आनुपूर्वीत्वे न निर्दिष्टानि त्यादिप्रदेशविभागसङ्घात प्रदेशालक्ये लोकेऽसङ्घाता भवन्ति अतो द्रव्य  
तथा पञ्चनामपि चेत्ताप्यगणसमेष्य तस्यप्रदेशवगाढानामेकत्वात् चेत्तानुपूर्व्यामसङ्घातान्येवानुपूर्वी द्रव्याणि भवन्तीति भावः एतमेकप्रदेशवगाढं पञ्चपि

भववहाराणं आणुपुब्बिद्व्याद् किंअत्यिनत्यि णिअमाअत्यि एवंतिणिवि नेगमववहाराणं आनुपुब्बिद्व्याद् किंसं  
खिज्जाद् असंखिज्जाद् अणंताद् नोसंखिज्जाद् असंखिज्जाद् दोणिवि नेगमववहाराणं आनुपुब्बिद्व्याद् अणं  
ताद् नोसंखिज्जाद् असंखिज्जाद् नोअणंताद् एवंतिणिवि नेगमववहाराणं आनुपुब्बिद्व्याद् लोणस किंसंखिज्जाद्

द्विप्रदेशिआदिक असंख्यात प्रदेशियालगे जेखंध तेप्रत्येक एवमन्यतो आकाशना एक प्रदेशने विपे अवगाहे उत्कृष्टो स्तम्भने विपे जेतला प्रदेशे उद्  
तेतलास्तम्भ उद् तेखंधर तेतला आकाशने विपे अवगाहे परं अनंत प्रदेशिउ स्तम्भजघन्यतो एक प्रदेशने विपे अवगाहे उत्कृष्टो असंख्यात प्रदेशने विपे  
अवगाहे परं अनंतप्रदेशने विपे न अवगाहे जेभणी लोकाकाशना असंख्याता प्रदेशे अने अलोकने विपे द्रव्यनो अवगाहजनशी प्रति विसार पूरीयाय  
अथ प्रारंभ्यो कश्चियेत् एगणएसोगाढे एकप्रदेशने विपे अवगाढे अहतां रत्तो परमाणुनो समुत्त अने स्तम्भनो समुत्त ते एक प्रदेशवगाढ कश्चिये तेचनो

द्रव्य क्षेत्र एकेवाजानुपूर्वीत्युक्त लोकेव प्रदेशा असख्याता भवन्त्यस्तु तुल्यसङ्ख्यात्वादानुपूर्वी द्रव्याण्यप्यसङ्ख्येयानीति एव प्रदेशग्रहयेत्कञ्चपि द्रव्य क्षेत्रत एक  
 नेवापत्तयस्तुत हिमदेशालकाय विभागालाकेऽसङ्ख्याता भवन्त्यत सान्यप्यसख्येयानीति क्षेत्रद्वारे निर्घषनसूत्रे एगद्वय पदुप लोकास्य सखेज्जद्द भागे  
 वाशेज्जेयादि इत्त स्तन्त्रद्रव्याणां विवितरूपत्वात् कथितस्फुटो लोकस्य सङ्ख्येय सङ्ख्येयांसाङ्गान वगासा वर्त्तते  
 अत्यस्वसङ्ख्येयानि इत्यतस्तत् स्तन्त्रद्रव्यापेक्षया सङ्ख्येयादिभागवन्तित्य भावनीय विविष्ट क्षेत्रावगाशो २०० पलञ्चितानां स्तन्त्रद्रव्याणामेव क्षेत्रानुपूर्वीत्वे  
 नोक्तत्वादितिभाष्य देसुणोशालोएडोज्जान्ति देगोणोबालोके आनुपूर्वी द्रव्य भयेदित्यतारहन्यचिप्त महास्तन्त्रस्य सर्वलोकयापिकत्व पूर्वसुक्त तस्यैव समसलोक  
 प्रवर्ष्य सङ्ख्येय प्रदेशलक्षणायां क्षेत्रानुपूर्व्यांमवगादुत्वात्परिपूर्णस्यापि क्षेत्रानुपूर्वीत्य न किञ्चिद्विरुध्यते सदर्पेच क्षेत्रतोयाऽनुपूर्वी द्रव्य सर्वलोकव्यापि

**भागेहोञ्जा असखिज्जद्दभागेहोञ्जा जाव सब्वलोएहोञ्जा एगद्वय पदुञ्च सखिज्जद्द भागेवाहोञ्जा असखिज्जद्द भागे**

आनुपूर्वी नाम जाणुतु तथा रुपपसोगाटे हिमदेशेने विषे अवगात्ता हिमदेशिकादिक स्तन्त्र ते क्षेत्रथी अपत्तय्य कश्चिये येप वडवचन निर्देशादिक प्रत्य  
 खिम हेठलि द्रव्यानुपूर्वीने विषे यथास्तो तिम इत्तां पणि वपाणवा यावत् द्रव्य प्रमाणद्वारेने विषे नेगम यवचाराण आणुपुत्तो दब्बाइ कि सखेज्जाइ  
 इत्यादि प्रत्र उत्तर नो सखिज्जाइ त्रिणिआदि पदेश विभागने विषे अवगात्ता द्रव्यक्षेत्रथी आनुपूर्वीं पणे निर्दिस्थात्वे तेत्रिणि आदि प्रदेशना अवगात्  
 भाग असख्यात प्रदेशरूप लोकने विषे असख्याताज ज्जद्द इत्तां द्रव्यपणे पणाई द्रव्यने क्षेत्रना अवगात्तनी अपेक्षाइ अने तुल्य प्रदेशावगादाना एकपणा  
 थी क्षेत्रानुपूर्वीने विषे असख्याताज आनुपूर्वी द्रव्य ज्जद्द एमाष एवं एकप्रदेशने विषे अवगात्ता पणाई द्रव्य तेचने क्षेत्रथी एक अनानुपूर्वीज कश्चिये  
 अनेलोकने विषे असख्याता प्रदेशत्वे तेभणी जेतला लोकाकाशना प्रदेश तेतलाक्षेत्रथी अनानुपूर्वी द्रव्य जाणवा एव हिमदेशेने विषे अवगात्ता पणाइ

असखिज्जद्दभागेहोञ्जा जाव सब्वलोएहोञ्जा एगद्वय पदुञ्च सखिज्जद्द भागेवाहोञ्जा असखिज्जद्द भागे



प्राप्यते किमिति देशेनलोकव्यापिता मोच्यते सत्यं किन्तु लोकोयमानुपूर्व्यानानुपूर्व्यं वक्तव्यं क द्रव्यः सर्वदेवानुपूर्व्यदृश्य इति समयस्थितिर्यदि चालातु पूर्व्याः सर्वलोकव्यापितानिर्दिश्येत तदाऽनानुपूर्व्यं वक्तव्यं क द्रव्याणां निरवकाशतयाभावः प्रतीतत्वेन ततोमहास्कंधपुरितेपि कोक्रे जघन्यतोयेकः प्रदेशोऽनातु पूर्व्यविषयत्वेन प्रदेशद्वयं चाऽवक्तव्यं क विषयत्वेन विवक्ष्यते चानुपूर्व्यद्रव्यस्य तत्र सत्त्वेऽप्राधान्यविचक्षणानुपूर्व्यावक्तव्यकयोः प्राधान्यविचक्षणत्वादितिभावः ततोऽनेन प्रदेशतलक्षणोऽपि देयेन हीनोऽतल्लोकः प्रतिपादित इत्यदोषः उक्तं पूर्वमुनिभिः महास्कंधापुत्रे वी ब्रह्मण गणाणुपूर्व्यद्व्यादे जहसो गाढाद् तद्दे सेणं सबोगणी १ ननु यद्येवं तर्हि द्रव्यानुपूर्व्यामपि सर्वलोकव्यापित्वानुपूर्व्यं द्रव्यस्य यदुक्तं तत्रसकृतं प्राप्नोत्यनानुपूर्व्यं वक्तव्यं क द्रव्याणामनवकाशत्वेन तत्रायभाय प्रतीति प्रसङ्गात् सर्वकालं तेषामयवस्थिति प्रतिपादनान्नै तदेवं यतो द्रव्यानुपूर्व्यां द्रव्याणामेवानुपूर्व्यादिभाव उक्तो न चोक्तस्य तस्य तत्रानधि

वाह्यज्जा संखेज्जेसु असंखेज्जेसु भागेषुवा होज्जा देसुणालोएवाहोज्जा नाणाद्व्वाइं पडुच्च निअमा सब्वलोएहोज्जा नेगज्जववहाराणं अणाणुपूर्व्वि द्व्वाइं पुच्छए एगद्व्वंपडुच्च नो संखिज्जइ भागेहोज्जा असंखिज्जइ भागेहोज्जा नो

द्रव्येने एकज अवक्तव्य द्रव्य आणवुं ते द्विप्रदेशरूप विभाग लोकेने विषे असंख्याताज ऊइ तेभणी तेद्रव्य असंख्याता आणवार तथा जेतद्वारने विषे उत्तर दानमध्ये एगद्व्वंपडुच्च द्रव्यां स्तन्व द्रव्यना विचितपणाधी कोइ एक स्तन्व लोकनो संख्यातमो भाग अवगाहीतिइइ तथाकोइ एत असंख्यातमो भाग अवगाहीरहे तथाकोइ एक तेइना घणा संख्यात भाग अवगाहीरहे एत अवगाहीरहे तेभणी तेस्तन्व द्रव्यनी अपेक्षाये संखेयादिक भागवर्ती पणोभायणु जेभणी विगिट जेतवगाइ संयुक्त स्तन्व द्रव्यनेव जेतानुपूर्वी पणो कसुंहे एभाय देखुणवाखो

एकपवरकार्तगतानेकप्रदीपप्रभावस्यामहटान्तादि चिन्हा  
 हातत्याद्रथाणा चानुपूर्वादीनां परस्परभिन्नानामप्येकत्वापि चेतोवस्थान न किञ्चिद्विरुध्यते। एकापवरकार्तगतानेकप्रदीपप्रभावस्यामहटान्तादि चिन्हा  
 इतो न तत्र कस्याप्यनवकागो अत्र त्र व्याणामोपचारिक एवानुपूर्वादिभावोसुखस्त चेतस्येव चेतानुपूर्वाधिकारात्ततो यदि लोकप्रदेया सामसेनैवाव  
 पूयाकीडीलता म्यु, सादा किमत्यदनानुपूर्व्य वक्तव्यकतया प्रतिपद्यते यस्मिन्नेवाकाशप्रदेयेष्वानुपूर्व्याचित्वेवेतरयोरपि सद्भाव कथयिष्यते सद्रुआव  
 गाश् भेदेन चेतभेदस्य विवक्षितिति तस्मादनानुपूर्व्यवक्तव्यकविषय प्रदेयत्रयलक्षणेन देयेन लोकस्योन्नता विवक्षितेति अथवा आनुपूर्वी द्रव्यस्य स्वा  
 वयवरूपादेया कल्पयते यथा पुरुषस्यांगुल्यादय सातस्र विवक्षिते कश्चि विवेद्ये देयितो च सद्भावो विवक्ष्यते तथा पुरुषस्यांगुलीदेये देयस्यै य  
 तत्र प्राधान्येन विवक्षितत्वादितिभाव नच वक्तव्य देयिनो देयो न कविद्विम्बो दृश्यते एकान्ता भेदे देयमात्रस्यवाभाव प्रसन्नान्ततय समस्त लोक  
 चेतानुपूर्व्यात् पर्यायस्य प्राधान्याश्रयणादत्वावचित्तमहा स्तवस्यानुपूर्वत्वैपि देशेन एव लोक स्तकीयैकस्मिन्देयेन तस्या भायविवचक्षणा तस्मात्तानु  
 पूर्वाद्याप्रदेये इतरयो रवकाश सिद्धो भवतीति भाव नच देयदेयिभाव कल्पनामात्र सम्प्रत्यादिन्या यन्किद्विदृष्टवृत्तिसिद्धत्यादिलाल प्रसङ्गेन नाणादत्वाद्दे

सचेज्जिसु नो असखेज्जिसु नो सब्वलोगेहोज्जा नाणादत्वाद् पडुच्च निअमासव्वलोएहोज्जा एवअन्नत्तग दव्वानि विभा  
 एषोज्जा अथवा देयोन लोकने विपे आनुपूर्वी छद्द इहा प्रेरक पूरुखे भगवन् अचित्त महास्तन्वने सर्वलोक व्यापीपणो पूर्वे कस्योखे तेसमस्त लोकाकाय  
 ना असत्त्वात् प्रदेय रूप चेतानुपूर्वने विपे अथगात्तो छद्द तिवारे पूर्णलोकने चेतानुपूर्वी पशुकाद् विरोधाद् नशी तेभणी तेइनी अपेजाये चेतवी  
 आनुपूर्वी द्रव्यसर्वलोक व्यापीपणि पामीये तो देयूण लोकनो पांमवा पणो कांक्खो गुरु वोल्या ए सत्य परलोकने विपे चेतवी अनानुपूर्वी द्रव्य अने  
 अथवक्तव्य द्रव्य सदापामिये तेभणी महास्तन्वद् पूसा छता लोकने विपे पणि जयन्य तो एक प्रदेय अनानुपूर्वी पणे विवक्षीने विप्रदेय अथवक्तव्य पणे

अनुवर्तमाने वाच्ये कस्य वाच्ये ननु

मित्यादि त्यादिप्रदेशावगाढ द्रव्यभेदतो अत्रानुपूर्वीणां नानात्वं तेषु आदिप्रदेशावगाढे द्रव्यभेदेः सर्वोपि लोको व्याप्त इति भावः अतानानुपूर्वीं चिन्ता यामेकद्रव्यं प्रतीत्य लोकस्या संख्येयभागवत्तित्वमेव एकप्रदेशावगाढस्यैवानानुपूर्वीत्वेन प्रतिपादनादेक प्रदेशस्य च लोकासङ्ख्येयभागवत्तित्वादिति नाशाद व्याईं पदुषु नियमा सबलोए होज्जति एकेकप्रदेशावगाढेरपि द्रव्यभेदेः समसलोकव्याप्तैरिति एवं अव्यक्तव्यगद्व्याणिविति अव्यक्तव्यकद्रव्यसय्येकं लोका संख्येयं भागएय वर्तते द्विप्रदेशावगाढावावक्तव्यकलेनाभिधानात् प्रदेशहयस्य वा लोकासङ्ख्येय भागवत्तित्वादिति तथा प्रत्येकं द्विप्रदेशावगाढैरपि द्रव्य भेदेः समसलोकव्याप्तैर्न नानाद्रव्याणामत्रापि सर्वलोकव्यापिनिद्रव्याणि त्रीण्यपि सर्वलोकव्यापिनीत्युक्तानि ततश्च येष्वेवाकाशप्रदेशेष्वानुपूर्वीष्वेवेतरयोरपि सङ्कावः प्रतिपादितो भवति कथञ्चित्तरस्परविरुद्धं भिन्नविषयं व्यपदेशतय मेकस्यात्वोच्यते इह ल्यादिदेशावगा ढात् द्रव्याङ्गित्वमेव तावदेकप्रदेशावगाढं ताभ्या च भिन्नं द्विप्रदेशावगाढं ततश्चाधेयस्यावगाढकद्रव्यस्य भेदादाघारस्यावगाढस्य भेदः स्यादेव तथाच व्यपदेशाभेदो युक्तएव अनन्तधर्माध्यामिते च वस्तुनि तत्तत्कारसन्निधानात्तदुत्तर्माभिव्यक्तै दृश्यते एव समकालं व्यपदेशे भेदो यथा खड्गकुन्तकवचादि युक्ते देवदत्ते खड्गो कुन्तीकवचीत्यादिरिति इह क्वचिद्वाचनान्तरे अणायुषुष्विदव्याद् अव्यक्तव्यगद्व्याणिय जहेव हिष्ठेत्तिदेशवहस्यते तत्र हेठेति यथा ऽवशात् द्रव्यानुपूर्व्यामनयोः खेतसुक्तं तथा अत्रापि ज्ञातव्यमित्यर्थं सच्च आख्यातमेवोत्ये वमन्यत्वापि यथा सम्भवं वाचनान्तरमवमन्तव्यमिति गतं खेतद्वारं स्वर्गनाद्वारमपि चेत्यमेव निखिलं भावनीयं नवरमत्र कस्यांविहाचनाया अभिप्रायेणानुपूर्व्यां मेकद्रव्यस्य सङ्ख्येयभागदारभ्य यावद्देशो न लोकस्वर्गना भवतीति ज्ञायते अन्यस्यास्त्वभिप्रायेण असङ्ख्येयभागदारभ्य यावत्सम्पूर्णं लोकस्वर्गना स्यादित्यवसीयते एतच्च द्वयमपि बुध्यत एव यतो यदि सुख्यतया खेत प्रदेशाना मानुपूर्वीत्वमङ्गीक्रियते तदा अनानुपूर्व्यं वक्तव्यकयोर्निर्वकाशता प्रसङ्गात्पूर्ववद्देशो न लोकस्य वाच्यो अथानुपूर्वीरूपे खेते अवगाढत्वादचित्त

विवर्तनीते तेवने विपे अनातुपूर्वीं द्रव्य छतोळे तो पण तेवनी अपधान पणो विवर्तिते अने धनातुपूर्वीं अयत्नानो प्रधान पणो विवर्तिते एभाय तेभणी एते त्रिणि प्रदेशेनीपो दृष्टां लोक कालोळे तेभणी शेप नशी जेभणी पूर्वसुनीये पणि इम कसोळे मरुधधपुणोवा पत्तय्यगणाणुपुजिद्व्याइ देसोण गाढाइ तदे येणं सलोगूणा। पली त्रिय कहेळे भगवन् जो इम तो द्रव्यानुपूर्वींने विपे पणि सर्वनोकथ्यापि पणु आतुपूर्वीं द्रव्यातु जेकस्यौ तेअसुक्त याइले जेभणी अनातुपूर्वीं अने अयत्नय सर्वयी अभाययाइ अने तेवनी अशस्विति तो सर्वदु गोळियेले तेभणी तेअसुक्त याइ एरु बोल्या ए इम नशी जेभणी द्रव्यातुपूर्वींने विपे द्रव्यनीज आतुपूर्वीं परचेतनी नशी कशी तेभणी अनातुपूर्व्यादिक द्रव्य परपर भिन्नतातु पणि एकचेतने विपे रश्वो कोंई विरोधाइ नशी एक परते विपे जिम अनेकदीशानी प्रभारहे इत्यादिक हटातइ करी एकठा ररुवापणोनीपजे तेभणी तिकां सर्बथा किखाई द्रव्यनो अभायनयाइ अने इरां द्रव्यनो आतुपूर्व्यादिक भाव रुपपरिकळे सुखतो खेन्नोळे जेभणी खेत्तातुपूर्वींनो अधिभारळे तेभणी चिपे जो लोकना प्रदेश आतुपूर्वीं ये आपणाबीधा छइ तो अनातुपूर्वीं अयत्नय पणे किसुयाइ तथा जेवली इराण इम कशीखे जे आशाय प्रदेशीं विपे आतुपूर्वीं छतापणोळे तेवजने विपे अनातुपूर्वीं अने अकृत्यनुपणि छता पणु तेद्रव्यना अयत्नानयीकीधी तेभणी अनातुपूर्वीं अने अयत्नय सधिया प्रदेश त्रिणि रूप जे देय तेणे देये करी लोकतु नीपनो विपय्युळे अथवा आतुपूर्वीं द्रव्यना पोताना अवयवरूप देय कस्यौये जिम पुरुपना आणुली आदिक देयळे तिशार पळी विवर्तित कोई एक देयने विपे जणो कशता असद्राव विवर्तिते विपे देयनो अभाव विवर्तिते एतले देयना अछता एखाना प्रधान पणाना विवर्तित छती एभाय इरां इम न कइनु देयतो कोई ज्योदीसतोनी एकांति देयतु अभेद करेतां देयभायनोयभावथाय तेभणी समस्त लोक खेतावगाइ पर्यायना प्रधान पणां छती इरां अचित्त मरुा स्वतन्त्रे आतुपूर्वीं पणेछते देय जणुज लोकयाइ जे आपणे

अनातुपूर्वीं अयत्नानो प्रधान पणो विवर्तिते एभाय तेभणी

अनातुपूर्वीं अयत्नानो प्रधान पणो विवर्तिते एभाय तेभणी

एक देशने विषे तेचेतानुपूर्वीना अभावनी विषय्या छती अने तेथ्याय देशने अनानुपूर्वी अवक्तव्यनोपपिण छता पणोनीपनी एसाव इहां देशयी आनुपूर्वीं' जूनभापणो तथा जेभणी तेनिप्रदेशावगाढादिक द्रव्यने भेदे सर्वलोक व्याप्योछे एसाव अथ अनानुपूर्वीनी चिंताने विषे एक द्रव्य आनी लोकने असंख्यातसे' भारी वर्तवा पणो जाणवो जेभणी एक प्रदेशावगाढ द्रव्यनेज अनानुपूर्वीं पणु कस्योछे अने तेएक प्रदेशनु लोकने असंख्यातसेज भागेवर्तइछे तथाणायादव्याइ पडुचु गिणसमासव लोएशेज्जा एकेक प्रदेशावगाढ द्रव्यभेदे करी सर्वलोकने व्याप्युंछे तेभणी एवं अतन्तग दव्यागिविषय द्रम अवक्तव्य पणि एकना असंख्यातमा भागने विषेजवर्तै जेभणी द्विप्रदेशावगाढज अवक्तव्य कस्योछे तथानाना द्रव्य आनी सर्वलोक व्यापीपणो पूर्वलापर जांणवो इहां प्रेरक पूछेछे आनुपूर्वीदिक त्रिणद्रव्य सर्वलोक व्यापी कस्यो जेभणी जेअकाय प्रदेशने विषे आनुपूर्वीछे तेहनो आकाश प्रदेशने विषे अनानुपूर्वीं अवक्तव्य पणि छता कस्यो तो एपरसर विरुद्ध भिन्न विषे त्रिगिनाम एक आकाश प्रदेशना किमथाइ उत्तर इहां त्रिणि मादि प्रदेशाव गाढ द्रव्यजुओछे अने तेविळंथी द्विप्रदेशावगाढ द्रव्यजुओछे तेभणी तेहना आधेय अवगाहक द्रव्यना भेदधी तेहना आवार अवगाह्यानो पणि भेदइइ एणे प्रकारे एकनेज जूनभा स्वरूपने बोलावव युक्त जांणवुं अनंतर स्वरूपपित वस्तुने विषे तेसहकारी कारणना समीपधी ते स्वरूप जूनभो प्रकटा ववाभणी समकाले अनेक बोलाववाना भेददीसेजछे जिम खडग कुंतकवचादिक युक्त देवद्रव्यछे तेखडगी कुंती कवची इत्यादिक एकज पुरुष समकाले जेदनामेबोलाविषे तिम इहां पणि जांणवुं इहां किसी एक वाचनाने विषे एहवो पाठछे अणाणुपुळि दव्याणि अतएव हेठाइति एहवो पूर्वभोलावण रूपपाठदीसेछे तिहा हेठा कहता अधो द्रव्यानुपूर्वीने विषे एहवोलेल कस्योछे तिम इहां पणि जांणवुं इत्यर्थ गतं जेतद्वारं इ अथ स्वर्गनाद्वार पणि इमज जाणवो नवरं इहा किसी एक वाचनाने अभिप्राये आनुपूर्वीने विषे एक द्रव्यने असंख्याता भागधी आरंभीने यावतु देशोन

प्रत्यक्षवपुनि विषे वक्तव्येनी अनानुपूर्वीना ४४ भा०

महात्म्यास्यैवातुपूर्वोत्तरं तर्हि द्रव्यातुपूर्व्याभिवात्तापि संपूर्णता लोकस्यावाचेति नचात्तातुपूर्व्या सकलस्यापि लोकस्यादितरयो रवकायाभाय इति वक्तव्य एकेकप्रदेयकूपे हि हि प्रदेयकूपे च क्षेत्रे वगादानो प्रत्येकमसंख्येयानां द्रव्यभेदानां सद्भावात् सायोरपि प्रत्येकमसंख्येयभेदे यो लोके सद्भावाद् द्रव्यावगाह भेदेन च क्षेत्रभेदस्यैव विवक्षितत्वादिति भाव एवमसंख्युत्तरयमपि पक्ष्योपलक्ष्यते तत्र तु केवलिनो वदन्ति क्षेत्रस्यर्थनयोस्तु विशेषे प्राग्निर्दिशितएवेति गतं स्वर्गनाभारं अथ कालद्वारं तत्रावगाहपर्योयस्य धाम्यविवक्षया त्व्यादि प्रदेयावगाहं द्रव्याणामेवातुपूर्व्यादिभाय पूर्वमुक्तोत्तरयोपामेयावगाहं स्थितिकालं

निश्चयानि योगमववहाराण आणुपुब्बिद्व्याद् लोकास्तु किंसखिज्जद्भाग फुसंद्द असखिज्जतिभाग फुसति सखेत्तेभागे फुसतिजासखलोगफुसति एगद्व्यपडुच्चसखिज्जद्भागवाफुसद्दसखिज्जद्भागैत्रसखिज्जद्भागैवात्रसंखेत्तेभागे

लोक स्वर्गनाभार इमं जाणियेत्ते अने अनेरीगचनाने अभिप्रये सत्यातमोभाग चारभाने सपूर्णनी स्वर्गनाभार इमं जाणियेत्ते एवम् प्रकारनेस्वयमेव जाणीयेत्ते जेभणीपस एवपणे क्षेत्रप्रदेयने आतुपूर्वीं पयोअनीकाकररियेती अनातुपूर्वीं अनेअवक्तव्य अभावनादोप प्रसगधी पूर्व जीपरलोकने देयून पणो बोखोअने आतुपूर्वीं रूपत्तेनेविषे अवगाह्या पणामाटे अचित्त महास्वन्वनेव आतुपूर्वीपणो कल्याइतो द्रव्यातुपूर्वीना विपयनी परे दूढां पणिबोखतु संपूर्णपणु बोखु दूढां इमोमिटरणान करवी जेआतुपूर्वीं इ सर्वलोक फरस्थामाटे अनातुपूर्वीं अयकथनो अभावथाद् जेभणीएकेक प्रदेयरूप अने विप्रदेय रूपत्तेने विषे अवगाह्या प्रत्येक। असत्याता द्रव्यना भेद भावधी तेविज्ज असत्यात भेदरूप लोकने विषे क्षाने एतले द्रव्यना अवगाहना भेदधी क्षेत्रना भेदनी विषया जाणवी तेविषया छती ए भाव जाणवो एपससंयं पूर्वाचार्यने पणि मान्यत्ते इमं जाणियेत्ते दूढां तत्त्वने तो केवली जाणे गत स्वर्गना

अथ टी० २०५ ४२ भाषा

चिन्तयन्नाह एगद्वं पडुञ्चेत्यादि अत्र भावना इह प्रदेशावगाढस्य वा एक प्रदेशावगाढस्य वा द्वयस्य परिणाम वेचित्यात्प्रदेशतयाद्यवगाहभवने आनुपूर्वीयप्रदेशः सञ्जातः समयं चैकं तद्भावमनुभूय पुनः सथैव द्विप्रदेशावगाढमेकप्रदेशावगाढं वा तदुद्भव्यं सञ्जातमित्यानुपूर्व्यासमयोजयन्त्याऽवगाहस्थितिः यदा तु तदेव द्रव्यमसंज्ञोयं कालं तद्भावमनुभूय पुनसथैव द्विप्रदेशावगाढमेक प्रदेशावगाढं वा जायते तदा उत्कृष्टतया असंज्ञोयोऽवगाह स्थिति कालः सिद्धति भनन्तस्तु न भवति विवचितैक द्रव्यस्यैकाव गाहनोत्कृष्ट ताप्यसञ्जातत्वाचमेवास्थानादिति नाना द्रव्याणि तु सर्वाहा सर्वका लमेवावस्थानादिति सर्वकालमेव भवन्ति त्यादिप्रदेशावगाढद्रव्यभेदानां सदैवाऽवस्थानादिति एवं यदा समयमेक किञ्चिदुद्भव्यमेतस्मिन् प्रदेशा

देसृगंवा लोगं फु, सइ नाणादव्वाइं पडुच्च णिअमा सव्वलोगं फु संतिअणाणुपुव्वीदव्वाइं अतत्तव्वगदव्वाइं च जहाखित्तं नवरं फु सणा भाणिअव्वा णेमववहारणं आणुपुव्वी दव्वाइं कालओविवच्चिरं हेइ एवं तिखिवि एगद्वं पडुच्च

हारं ४ अथकाल द्वारमाह तिहां सेतावगाह रूप पर्यायने प्रधान पणानी विवच्चाइं विप्रदेशावगाढ एकद्रव्येन आनुपूर्व्यादिक भावपूर्व कस्योच्छे तेभणी तेहना अवगाहनी स्थितिनो काल कहेच्छे एगद्वं पडुच्च इहा इम भावुं द्विप्रदेशावगाढ द्रव्येने अथवा एक प्रदेशावगाढ द्रव्येने परिणामना विविचित पणायी विवारे विप्रदेशादिकने विषे अवगाह याइ तिवारे आनुपूर्वी पणोनीपनो कहिये, पछे समय एक तेभाव अनुभवीने वली तिमव द्विप्रदेशावगाढ अथवा एक प्रदेशावगाढ याइ तेभणी इम आनुपूर्वीने स्थितिनो जयन्त्य एक समय छइ अने विवारे तेहज द्रव्य असंख्यातो काल तेभाव अनुभवीने वली द्विप्रदेशावगाढ एक प्रदेशावगाढ याइ तिवारे उत्कृष्ट पणे असंख्यातो अवगाह स्थितिकाल छइ अनंतो काल कदापि न छइ

पगाड स्थित्वा ततो धादिप्रदेशात् काल तद्वृत्तेण स्थित्वा ततो धादिप्रदेशा  
 वगाड स्थित्वा ततो धादिप्रदेशावगाट भवति तदा नाशुपूर्व्या समयो जघन्यावगाटस्थिति यदा ए तदेवावगाटस्थिति यदा ए तदेवावगाटस्थिति यदा ए तदेवावगाटस्थिति  
 वगाट भवति तदेतत्कृततोऽसत्ये यावगाट स्थितिकाल नानाद्रव्याणि ए सर्वकाल एक प्रदेशावगाट द्रव्यभेदानां सर्वदाभावा स्थिति अवक्तव्यकाल ए  
 द्विप्रदेशावगाटस्य समयादूर्ध्वमेकस्मि स्यादपि वा प्रदेशेष्ववगाट प्रतिपत्तौ जघन्यासमयोऽवगाटस्थिति असत्ये यकालादूर्ध्वे द्विप्रदेशावगाट परित्यजतो  
 एतत्कृततो सत्ये यो अवगाट स्थितिकाल सिध्यति नानाद्रव्याणि ए सर्वकाल द्विप्रदेशावगाट द्रव्यभेदानां सर्वदा भावांस्त्वियेय समानवक्तव्यत्वात्तद्विद्यति  
 एष दोषविति इदानीमन्तरद्वार जघन्ये एग समयेति अत्र भावना एव यदा त्वादिप्रदेशावगाट किमप्याशुपूर्वी द्रव्य समयमेक तच्छाद्द्विबन्धितत्वेत्वार  
 न्यत्वावगाट प्रतिपदा पुनरपि केवलमन्य द्रव्यसमुत्पन्न वा तेष्वेव विबन्धित त्वाद्याकाश प्रदेशेष्ववगाटने तैरेकाशुपूर्वी द्रव्यस्य समये जघन्यान्तरकाल प्राप्यते

जहन्नेग एग समय उत्कोसेण असखेज्ज काल नाशाद्व्याद् ए पशुच निम्नमा स्वद्धा रोगमवहारारण आणुपुञ्जीद  
 व्याणमतर कालत केवचिद् होद् ति एहपि एगद्व्य पशुच जहणेण एकसमय उत्कोसेण असखेज्ज काल नाशाद्व्याद्

जेभषी विबन्धित एक द्रव्यने अवगाटना एतत्कृतो असत्यतोऽज कालस्थिति बोलीके तथानाना द्रव्य सर्वकाल जने छद् जेभषी त्तिप्रदेशावगाटादिका  
 द्रव्यनाभेद सदात्वे एव जिवारे कोद् एक द्रव्य एकप्रदेशने विपे एक समय अवगाटन करीने विषादि प्रदेशने विपे अवगाहे तिबारे आशुपूर्वनी  
 अवगाटस्थिति एक समय जघन्य छद् एने जिवारे तेचज असत्यतो काल तेणे रूपेरणीने द्विप्रदेशादिकावगाट छद् तिबारे एतत्कृतो असत्यतोऽकाल  
 अवगाटस्थिति छद् तथानाना द्रव्यनीस्थिति सर्वकाल छद् जेभषी एक प्रदेशावगाट द्रव्यना भेद सदात्वे तथा अवक्तव्यने पणि द्विप्रदेशावगाट

सप्तमीवर्षादिके लोकावस्थाविवरणे



उक्तोत्पत्त्यां असंख्येकां कालं तदेव यदाऽन्ये पुं क्षेपप्रदेशश्च संख्येयं कालं परिभस्य केवलमन्यद्रथ्यसंयुक्तं समागत्य पुनरपि तेष्वेव विवक्षितं त्व्याद्याकाशप्रदेशेष्ववगाहते तदोत्कृष्टतोऽसंख्येयोत्तरकालः प्रायते न पुनर्द्रव्यानुपूर्व्याभिधानन्तो यतो द्रव्यानुपूर्व्यां विवक्षितादन्ये द्रव्यविशेषा षानन्ता प्रायते ते च सह क्रमेण संयोगे उक्तो अनन्तः कालः सत तु विवक्षितावगाहं क्षेपमेव प्रतिस्थानं चावगाहनामाश्रित्य संयोगस्थितिरत्वायसंख्येयकालैवः ततश्चासह्यो ये क्षेपे कालपरिभसता द्रव्येण पुनरपि केवलेनास्य संयुक्तेन याऽसह्यो यकालान्तेष्वेव नभः प्रदेशेष्ववगात्यावगाहनीयं नच वक्तव्यं असह्यो यपि

पडुच्च नत्थि अंतरं योगसववहाराणं आणुपुब्बिद्व्वाइं सेसद्व्वाणं कतिभागे होज्जा तिखिवि जहा दव्वाणुपुब्बीए  
योगसववहाराणं आणुपुब्बिद्व्वाइं कतरंमि भावेहोज्जा तिखिवि खिअमा सादिपारिणाभिए भावेहोज्जा एए

ने एकसमयउपरांत एक प्रदेशने विषे अथवा तिणि आदि प्रदेशने विषे अवगाहता उता जघम्य एक समय अवस्थिति काल उद्भू षने असंख्याताकाल उपरांत द्विप्रदेशावगाढ छांडतां उता उत्कृष्टो असंख्यातो अवस्थितिकाल सुद्भू अनेनाना द्रव्यनो सर्वकाल उद्भू द्विप्रदेशावगाढ द्रव्यना भेद सदेवहोवाथी इम समान वक्तव्यता माटे भोलावेछे एवंदोखिवि एतले कालद्वार कक्षौ ५ इदानी अंतरद्वारमाह जहन्नेणं एगंसमय दूहां एभाव ना जिवारि विप्रदेशावगाढादिक आनुपूर्वी द्रव्य तेविवक्षित क्षेपथी एक समय अनेरे ठामि अवगाहने वली तेएकलो तथा अमुद्रव्य संयुक्त तेहज विवक्षित तिणि आदि प्रदेशने विषे अवगाहे तिवारि आनुपूर्वी द्रव्यनु जघम्य एक समय अंतरकाल पामीये उक्तोत्पत्त्यां असंख्येज्जं कालं तेहज जिवारि अनेरा क्षेपे प्रदेशने विषे परभमीने एतलो तथा अन्यद्रव्य संयुक्त आनीने वली तेहज विवक्षित तिणि आदि प्राकाश प्रदेशने विषे अवगाहे तिवारि उत्कृष्टो

अभ्यासो अत्र काल पाप्मिने तदुपनि सयोग कर्ता अनन्ताकाल शोच्यते इषां विवक्षित अथगात्र जेतथी अनेरो घेत असत्यातो जखे तिष्ठा ठाम  
 तामनी अथगात्रमा आयी सयागनीत्यिति इषां असत्याताकालमीजयाद् तैमणी असत्याता खेतने विपे परम तेद्रुय्ये बली एकले अथवा अनेरा  
 द्रव्य मयुक्त जते अथत्याता काणपणी तेवज अथागना प्रदेशने विपे आधीने अथगात्रो जोद्रये इषां इषो प्रेरणान करवी जेअसत्याता खेतने विपे  
 पति बली० तिष्ठां भमपदरी अनन्तोकाल शिस्या भणी न बोलीये जेभणो न बोलीये इषां असत्याता खेतने विपे पणिवली २ भमवेकरी  
 तिष्ठां असत्याताकाल अरोरा जेतने विपे भममु छद्द तिषादि पणी अथस्य बली तेवज विवक्षित खेतने अथगात्रमु छद्द इषां यस्तु ग्निति राभाय  
 नाण्ड एत प हारना आत्यान प्रथम दनायो अनेरा वली इम वपाणेरु जेइभणी त्रिणिआदि प्रदेशरूप विवक्षितयो ते आनुपूर्वा द्रव्य अरोरा जेतने  
 विपे नयो पद ० ने ग राभायवीच असत्याताकाल उपरत तेवज आनुपूर्वी द्रव्य सयाने अथवा वर्णगधरस स्वर्ग सत्यादिक स्यरूपेकरी सर्पघातल्य  
 अनेरा आनुपूर्वी द्रव्य सयाने सयोग मित्ये कुते नियम निरये तथा भूत आघार पणुश्वी याद् तेभणी असत्यातो ज अनन्तरकाल याद् इषां तत्वजेपवी  
 जाले गूर अति गभीरये तेभणी सम्यग् िर्णय कर्ता रोइलोखे तथाणाणादयाद् तिम्रदेशावगाटादिक आनुपूर्वी द्रव्य समसा समकाने तेभायखे  
 ने बली तिष्ठां उपजे इम कदापि एणे समये नशी जेभणी असत्याता तेद्रव्य सर्वदा बोल्याखे एभाय अथ अनासुपूर्वा अथकञ्चने विपे पणि एत  
 बोइ द्रव्यना अतरकालनी वक्तयता एवज जाणवी केवल अनासुपूर्वी द्रव्य एक प्रदेशावगाठनो अने अथकञ्च्य द्रव्य विप्रदेशावगाठनो बली तथा स्यरूपनो  
 बोवा तेवन्तो अनतरकाल चित्तया गेप व्याप्या विना भावनी सधली तिमज जाणवी एतले अन्तरहार वपाण्यो ३ िपे भागधार कश्चित्ते तिष्ठा जिम  
 द्रव्यासुपूर्वी विपे पवाण्य, तिमज इषां पणि आनुपूर्वी द्रव्य अनासुपूर्वा अथकञ्च रूप गेप द्रव्ययो असत्याते भागे अधिकाखे यो गेप द्रव्य तेवने



सद्योगो गच्छन्ते प्रतिसयोगसाधेयद्रव्यस्य भेदात्तद्भेदे साधारभेदादिति भाव एवमन्यान्वपि यत् प्रदेशावगावाद्याधियानाथासितत्वान्तएवाकेषु चतुष्कस्यो  
 गेष्वाकेषु पञ्चकस्योषु यापदने केवलस्येयकस्योषु प्रत्येक सुपयुज्यन्ते एष चतुरादिप्रदेयनिष्यन्तेष्वप्यानुपूर्वीं द्रव्येषु ये चतुरादय प्रदेशासोपामप्यन्या  
 व्यासयोगिताभावनीया तथादसह्यो यमप्रदेयालकेष्वस्थित्या यवचिते लोके यावन्त स्त्रिकसयोगपर्यता सयोग जायन्ते सावन्यानुपूर्वीं  
 दद्याणि मवन्ति प्रतिसयोगसाधेयद्रव्यस्य भेदेनावस्थिति सद्भावाधेयभेदे साधारभेदात्तम प्रदेशा येनेष स्वरूपेयैकस्त्रिनाधेये उपयुज्यन्ते तेनेष स्वरु  
 पेणाधिवान्तरेपि साधेयकता प्रसङ्गादेकस्त्रिनाधारस्वरूपे तदवगावात्स्युपगमाद्य एतत्स्वरूपयत्तस्मात्त्यादिसयोगानां लोके बहुत्वादानुपूर्वीणां बहुत्व भाव  
 नीय एवक्तव्यकानितु लोकाणि द्विकसयोगानां तत्र लोकात्वादानुपूर्वींपि लोके एष लोका प्रदेशसङ्ख्यामात्रत्वादत्र सुपप्रतिपत्त्यर्थं लोके किल पञ्चाकाय

सिद्धि गेगमववहाराण आनुपूर्विविद्व्याय अणानुपूर्विविद्व्याय अवत्तगद्व्याय एवद्व्याय ए पएसद्व्याय ए कतरैर्द्वि त्तो  
 अस्यावा तुल्लावा विसेषाहिआवा लहा दवानुपूर्वोए तथा भाषिच्यन्व नवर अगतग णत्थि सेत अनुगमे सेत

असत्त्वान्ते भागेवर्ते इषा गिव्य प्रेरणाकरेके भगवन् पूर्वै इम कस्यो त्रिणिषादि प्रदेशने विषे अथगास्यो द्रव्य आनुपूर्वीं कश्चिये एक प्रदेशने विषे अथ  
 गास्यो द्रव्य अनानुपूर्वीं कश्चिये द्विप्रदेशने विषे अथगास्यो द्रव्य एवक्तव्य कश्चिये एषवा एवानुपूर्वींदिक्त द्रव्य सर्वलोकने विषे तेभणी तेयुक्ते विषारता  
 आनुपूर्वीं द्रव्यजघोडा जणायके तैकिस असत्कल्पनाद् जाणी लोकेने विषे तीसमदेशके तिष्ठा अनानुपूर्वीं द्रव्यतीसके यादृतिष्ठा अनानुपूर्वीं द्रव्यतीउयाद्  
 एने एवक्तव्य द्रव्यपनरे याद् एने आनुपूर्वीं द्रव्य जो अतिघोडे प्रदेशनीयनागणीये तो पणि एगज इद्द तेभणी तेवानुपूर्वीं द्रव्य गेप द्रव्यथी घोडायाद्

तो अस्यात् गुणा किम ऊहू गुरु बोल्या वस्य एक आनुपूर्वी द्रव्यने विषे जेथाकाश प्रदेश उपयोग आवे तेजो अनेरा द्रव्यने विषे उपयोग आवता न ऊहू तो तेकह्यो तिम थाइ तेतो मयी जेभणी एकज प्रदेशतय निष्पन्न आनुपूर्वी द्रव्यने जेतिणिण प्रदेश अन्योन्य रूपपरणे अवगाह्ये आधेय द्रव्ये आकास्या ऊता प्रत्येकर अनेक तिक संयोगने विषे गणीये तेजुज्या संयोगने विषे रह्या द्रव्यना भेदयो आधारनो भेदथाइ तेभणी आकाश प्रदेश जेणे स्वरूपे एक आधेय द्रव्यने विषे उपयुक्त ऊहू तेणेज स्वरूपे अनेरा आधेय द्रव्यने विषे तेहनो अवगाह मानता जिम घटने विषे घट स्वरूप तिमथाइ तेभणी तिकसंयोगादिकना बद्धपणाथी लोकने विषे आनुपूर्वी द्रव्यतुघणा पणो जांणवुं अने अवक्तव्य द्रव्य घोडाहे जेभणी द्विकसंयोग तिहा घोडाथाइ तथा अनानुपूर्वी द्रव्य पणि घोडाज थाइ जेभणी लोकना जेतला प्रदेशे जेतलाज अनानुपूर्वी द्रव्यथाइ तेभणी इहां सुरो जाणवा भणी इसी असक्तल्पनाइ जाणे लोकने विषे पांच आकाश प्रदेशे तयाथाइ इहा अनानुपूर्वी नो पाचज ऊहू अवक्तव्यक चाठ ऊहू जेभणी द्विक संयोग इहां आठज ऊहू अने आनुपूर्वी इहा सोलियाइ जेभणी इहां तिक संयोगिचा दय भागाथाइ पाचचतुष्क संयोग थाइ एक पंचक संयोग थाइ तिहांद्वयतिक संयोग थाइ मध्य भवन साहियापा संघाते छ तिक संयोग लाभे अनेआरितिक संयोग वाहिरला चिद्धिसिना संघाते लाभे एवं पांचचीक संयोग थाइ एक पंचक संयोग थाइ एवं सोल संयोग थाइ इस प्रदेशना प्रसावने विषे आनुपूर्वीनो वळल पणोहीयेछे एणे अनुसारे सद्भाववी असंख्येय प्रदेश रूपलोकने विषे आनुपूर्वी द्रव्ययी असख्यात गुण पणो भाववो अलंघितरेण एतले भागहार कस्यो० शिषे भावद्वार कस्यो० शिषे विप्रदेशावगाह परणाम एकप्रदेशाव गाह परणामनो द्विप्रदेशावगाह परिणामतु सादि परिणामक पणुछे तेभणी सादिक पारिणामिक भाववर्ती पणोभाववुं एतले भावद्वार कस्यो ८ अथ अल्प वळत्ववारने विषे द्रव्यतुगणवुं तेद्रव्यार्थता कस्ये प्रदेशनो गणवो तेप्रदेशार्थता कस्ये तेद्रव्यार्थता कस्ये तेअभयार्थता कस्ये तिहा आनुपूर्वीनिविषे

प्रदेशा कल्पन्ते तद्यथा अतानानुपूर्व्यसावत्पञ्चे व प्रतीता अयत्कथकानि त्वष्टौ द्विकसयोगागामिहाठानामेष सम्भवादासुपूर्व्यासु पौडय भवन्ति दयानाति कयोगानां पक्षाना अतन्कयोगानामेकस्य तु पञ्चकयोगस्यैव ताभाइयतिकयोगा कथमिह लभ्यतश्चति चेदुच्यते पद्मावत् मध्यव्यवस्थापितेन सप्त लभ्यन्ते चत्वारसु त्रिकयोगादिव्यवस्थापितै अतुर्भिरैव केवलेरिति चतुन्कयोगसु च चारो मध्यव्यवस्थितेन सप्त लभ्यते एकसु तन्त्रिरेवैर्दिग्ब्यवस्थितैरेवेति सर्वे पञ्चपञ्चकयोगसु प्रतीत एवेति तदेव प्रदेशपञ्चकप्रकारेयानुपूर्वीणा बाहुल्य दृश्यते अत एतदनुसारेण सद्भावतो सद्योयप्रदेशालके लोकैकत्वानुपूर्वी रूढ्याणा शेषेभ्योऽसत्यातगुणत्व भावनीयमित्यल विसरेण उक्त भागद्वार।७।साम्प्रत भागद्वारं तत्रच द्रव्याणां त्वादिप्रदेशावगाह परिणामस्य एतत्प्रदेशावगाहपरि णामस्य द्विप्रदेशावगाह परिणामस्य च सादिपरिणामिकात्त्वयाणामपि सादिपरिणामिका भाववर्तित्व भावनीयमिति अल्पबहुत्व द्वारे पूह द्रव्यगणन द्रव्यार्थता प्रदेशागणन प्रदेशार्थता उभयगणन त्वभयार्थता तत्रानुपूर्व्याविधिद द्रव्यावगाहोपलक्षिता स्यादिनभ प्रदेश समुदायासाधारत्याणि समुदाया

योगमववहाराण अणोवणिहिश्चा खेत्ताणुपुब्बो सेक्ति सगहस अणोवणिहिश्चा खेत्ताणुपुब्बो पचविहा पणत्ता

तजहा अद्रुपयपरूवणया भगोव दसणया समोतारे अणुगमे सेक्ति सगहस अद्रुपय परूवणयाए तजहा अद्रुपयपरूवणया भगोव दसणया निपजायणहारा ते प्रदेश कश्चिये अने समुदायना प्रदेश कश्चिये अने समुदायने आनुपूर्वी द्रव्य कश्चिये अने समुदायने निपजायणहारा ते प्रदेश कश्चिये अने विधिद द्रव्यावगाह सहित जेतिणि आदि आकाशानो प्रदेश समुदायने आनुपूर्वी द्रव्य कश्चिये अने समुदायने आकाश प्रदेश तत्रत्येकर अनानुपूर्वी द्रव्य कश्चिये जेहनेविपे प्रदेशसर्वथा नथी जेभणीएक अनानुपूर्वी द्रव्यने विपे एकेक प्रदेशावगाहो द्रव्यसमुक्त समस्त आकाश प्रदेश तत्रत्येकर अनानुपूर्वी द्रव्य कश्चिये जेहनेविपे प्रदेशसर्वथा नथी जेभणीएक प्रदेश द्रव्यने विपे अनेरा प्रदेशानो समभवन्थी तथा अयत्कथकने विपे जेतलालोकने विपे द्विक सयोग समये तेतत्ता प्रत्येकर द्रव्य जाणवा अनेते अयत्कथ

रम्भकास्तु प्रदेशाः अनानुपूर्व्यां त्वेकेकप्रदेशावगाहि द्रव्योऽपलक्षिताः सकलनभःप्रदेशाः प्रत्येकं द्रव्याणिप्रदेशास्तु न सम्भवति एकेकप्रदेशद्रव्ये प्रदेशान्तरयोगाद् वक्तव्यकेषु तुर्यावन्तो लोके द्विकयोगा भवन्ति तावन्तशेप्रत्येकं द्रव्याणि तदारम्भनास्तु प्रदेशा इति शेषात्वव्याख्यानुपूर्वोवक्तव्येति नपरं सबन्धोवाद् नैगमववशाराणां अव्यक्तव्यगद्व्याद्भमित्यादि अत्राह ननु यदा पूर्वोक्तयुक्त्या एकेको नभः प्रदेशोऽनेकेषु विश्वयोगेषूपयुज्यते तदा अनानुपूर्वोद्देशे श्योवक्तव्याक द्रव्याणामिव बाहुल्यमवगस्यते यतः पूर्वोक्तायामपि पञ्चप्रदेशनभःकल्पनायामवक्तव्याक द्रव्याणामेवाटस्योपेताना पञ्चज्ञेय्योऽनानुपूर्वो द्रव्ये श्यो बाहुल्यं हृष्टं तत्कथमत्र वप्रत्ययः प्रतिपाद्यते सत्यमस्ये तत् केवलं लोक मध्ये लोक पर्यंत यत्तिनिष्कटगतास्तु ये कंठगाततयो विश्वेव्यानिर्गता एका किनः प्रदेशा सो विश्वेणिव्यवस्थितत्वादवक्तव्यकत्वाऽवोग्या इत्यनानुपूर्वो सहायामेवान्तर्भवस्यतो लोकमध्यगतां निष्कटगतां च प्रस्तुतद्रव्यसहा मीलधित्वा

तिपएसोगाढे आणुपुब्बी चतुष्पएसोगाढे आणुपुब्बी जाव दसपएसो गाढे आणुपुब्बीए संखिज्जपएसोगाढे आणुपुब्बी असंखिज्ज पएसोगाढे आणुपुब्बी एगपएसोगाढे आणुपुब्बी दृषएसोगाढे अब्रत्तव्वए सेतं संगहस्स अट्टपय पखवणया एआएणं संगहस्सअट्टपय पखवणयाए किंपओअणं संगहस्स अट्टपय पखवणयाए संगहस्स भंगससुक्कित्त

जनानीपजावणधारते प्रदेशे कहिये इहां शेषयाकती व्याख्या द्रव्यानुपूर्वोनी परे करवी नवरं सर्वयोवाद्दुगे गमशयचाराणं अथ तत्वगद्वाद् इहां प्रेरक कहिच्छे जो पूर्वोक्त युक्ते एकेक आकाश प्रदेशे अनेकहिक संयोगने विषे उपयुक्त उद्देशो अनानुपूर्वो द्रव्यथी अथक्तव्य द्रव्यनोजघणा पणुदी तु तोइहां विपरीत भाये अल्पबहुत्व कां कस्यो सुखो बोल्या एसत्य परंलोक मध्ये लोक पर्यंतवर्ती निष्कटने विषे रही जेजाटाने आकारे विश्वेणि तेथी नीकल्या

यदा केवली चिन्तयति तदा शक्त्यकद्रव्याण्येव सोकान्यनासुपूर्वीं द्रव्याणि तु तेभ्यो विशेषाधिकता प्रतिपद्यन्ते अतः निष्कृष्टसापत्ता अतः विशेषेण लिखि  
 ती ही अचक्षुष्यका योयो दृष्टव्यावित्येव भूताश्च किलामी संबंधलोकपर्यन्ते पु षडव सत्यनानुपूर्वीणां बाहुल्यमित्यल विस्तरेण आनुपूर्वीद्रव्याणां तु  
 तेभ्यो सङ्घातगुणत्व भावितमेव यप द्रव्यानुपूर्व्यनुसारेण भावनीय नवरसुभयार्थता विस्तरे आनुपूर्वीं द्रव्याणि स्वरूढेभ्य प्रदेयायतया सह्येयगुणानि  
 कथ एकेकस्य त्वादिभिरसङ्घे यार्तेनम प्रदेशैरारभ्यत्वात्प्रभ प्रदेशानाच समुद्दितानामप्यसङ्घे यत्वादिति सेतमित्यादि िगमनद्वय लता नैगमव्यवहार  
 नामतनी अनौपनिषिकी चेत्तानुपूर्वीं । अथतामेव सप्रश्मतेन विभण्यपुराश्च । सेकितमित्यादि षडप्रश्महाभिमत्तानि द्रव्यानुपूर्वीणुसारिण निष्पिलभावनीय

शया कञ्जद्र सेकित सगहस्य भगससुक्त्तणया २ अत्रिय आनुपुब्बी अत्रिय त्रिअणानुपुब्बी अत्रिय अवत्तव्वए अहवा  
 अत्रिय आनुपुब्बीअ अत्रिय आनुपुब्बीअ एव जहा दव्वानुपुब्बीअ ए सगहस्य तथा भाणियअव्व जावसेतं सगहस्य भगससुक्त्ति  
 तणया एअएण सगहस्य भगससुक्त्तणयाए किपअओअण एअएण सगहस्य भगससुक्त्तणयाए सगहस्य भगोवद  
 सणयाकञ्जद्र सेकित सगहस्य भगोवदंसणया २तिपएसोगाटे आनुपुब्बीएगपएसोगाटे अणानुपुब्बी दुपएसोगाटेअ

एकाकी प्रदय तेविश्रेणिते विपे रक्षा माटैअवक्तव्यक पणाने अयोग्येत्तेभणी ते अनानुपूर्वीनी सत्या मांशि यावे एतला भणी खोक्त मथ्यनी अने  
 नि फुटनी अनानुपूर्वीनी सत्या विस्तरे एकठी नेनीने केवली चित्तये तिवारे अवक्तव्यक द्रव्य घोडायाद् अने अनानुपूर्वीं द्रव्य तेथी वियेपादिक  
 पणु पासे निष्कृटनी स्थापना इषां विश्रेणिते विपे लिखाये जे विप्रदेश ते अवक्तव्यने अयोग्य जाणवा एहवा एसंबलोक पर्यंतने विपे अत्यन्त पणाले



नवरं चेतप्राधान्यादयःतिपएसोगाढा आनुपूर्वी जाव असंखेज्ज पएसोगाढा आणुपूर्वी एगपएसोगाढा अणुणुपूर्वी रुपएसोगाढा अलत्तव्वए इत्यादि वक्तव्यं शेषं तथेवेति उक्ता अनोपनिधिकी चेतानुपूर्वी अनोपनिधिकीं ता निर्दिचुराह सेकितं उवणिहियेत्यादि अत व्याख्या पूर्ववत्कर्तव्या नवरं तत्र द्रव्यानुपूर्वीधिकाराधर्मास्त्रिकायादियु द्रव्याणि पूर्वानुपूर्वीदित्वेनोदाहृतान्यत्र उ चेतानुपूर्वीधिकारादधोलोकादिचेतवियेषा इति इह सोस्तीधयतुदयएज्जाय तस्य विस्तरतत्त्वनिधयतस्य पञ्चास्त्रिकायमयस्य लोकस्य त्रिधा परिकल्पने अधोलोकादिविभागः सम्पद्यते तवास्यां रत्नप्रभाया वज्रसमभूभागे मेरुसध्ये नभः

वत्तव्वए अहवा तिपएसोगाढेअ एगपएसोगाढेअ आनुपूर्वीअ अणानुपूर्वीए एवं गहा दब्बानुपूर्वीए संगहस्स त हा खेतानुपूर्वीएवि भाणिअब्बं जाव सेतं संगहस्स भंगोवदंसणया सेकितं समोअरे २ संगहस्स आनुपुब्बिदब्बाइ कहिं समोतरंति किं आनुपुब्बिदब्बेहिं समोतरति अणानुपुब्बिदब्बेहिं अवत्तव्व गदब्बेहिं तिस्त्रिविअद्वारे समोतरंति सेतं समोअरे सेकितं अनुगमे २ अद्वविहे पणत्ते तंजहा संतपयपरूवणया जाव अप्पावज्जनत्थि २ संगहस्स आनु

तेभणी अनानुपूर्वींश्च' बहुल पणो जाणवो इहा विस्तर पुरोयाय तथा आनुपूर्वी द्रव्य तेषो असंख्यात गुणापणो पूर्वगणाव्युक्ते तथा उभयार्थताना विधारने धिपे आनुपूर्वी द्रव्य आपणा द्रव्यधी प्रदेशार्थपणे असंख्यात गुणाज्जइ जेभणी एकेकद्रव्य त्रिणि षादि असंख्यात पर्यंत आकाशे करोनी पनोक्के अने तेआकाय प्रदेश सर्व असंख्यातक्के तेभणी शेष सर्व द्रव्यानुपूर्वीने अनुसारे भावयो २ सेतं तेए अनुगम सेतं मित्यादि निगमनं एतले नेगम व्यवहारने मते अनोपनिधिको चेतानुपूर्वी कचि चिवे तेद्विज संग्रहने मते कहेक्के सेकितं अथ किंसी तेसंग्रहना मतनी अनोपनिधिकी चेतानुपूर्वी

प्रतरहयच प्रदेशेश्चक समस्थितस्य च प्रतरहयस्य मध्ये एकस्मादयसनप्रतरादारस्थाषोभिमुख नव योजनयतानि परिहृत्य परत सातिरेकसप्तश्लोका यतोऽधोलोकं सत लोच्यते केवलप्रथया परिच्छिद्यत इति लोक अधो व्यस्थितो लोकोऽधोलोक अथवाध यद्वोऽनुभपर्याय सत च क्षेत्रानुभावाद्वाङ्गत्वे मागुभएव परिणामो द्रव्याणो जायते त्तो शुभपरिणामवद्द्रव्ययोगादधो अगुभोलोको अधोलोक उक्तच अष्टव अधो परिणामो क्षेत्राणुभावेण जेण अष्टव अगुभो अर्शोक्त भणिसो दव्याण तेणहोलोगोत्ति । तस्यैव रुचकप्रतरहयस्य मध्ये एकस्मादुपरितनप्रतरादारस्योर्ध्वं नवयोजनयतानि परिहृत्य

पुब्बिदव्याइ किअत्थिनत्थि निअमा अत्थि एव तिणिवि सेसगदारइ सगहसस तथा खेतानुपुब्बोएवि भाणि अत्थि  
इ जावसेत अनुगमे सेत सगहस अणोवनिहिआ खेतानुपुब्बो सेत अणोवनिहिआ खेतानुपुब्बो सेकित उवनिहि  
आ खेतानुपुब्बो २ तिविहा पत्तता तजहा पुब्बाणुपुब्बो पत्तानुपुब्बो अणानुपुब्बो सेकित पुब्बानुपुब्बो २ अहोलोए ति

इहां रुप्रणयना मतनी ७थानुपूर्वोनी परे समस विचार जाणइ नवर क्षेत्रना प्रधान पण्णथी इहां तिपएसो गाटे आणुपुब्बी जाव असरेजेजपएसो गाटे आणुपुब्बी एगपएसो गाटे अण्णणुपुब्बी इपएसोगाटे अवसत्तए इत्यादिवक्तय्य गेपत्तयैव एतलेअनोपनिधिकी क्षेत्रानुपूर्वी कधी अथतेउपनिधिकीकरेखे सेकित अत्रनिधिपायेआणुपुब्बी अय किसीते उपनिधिकी क्षेत्रानुपूर्वी इहां व्याख्या पूर्ववयं नवर तिहां तिहां द्रव्या अनुपूर्वना अधिकारथी धर्माशिकायादिक पुब्बानुपूर्व्यादिक पणे उदाहरया अने इहां तो क्षेत्रानुपूर्वना अधिकारथी अधोलोकादिक क्षेत्रना वि शेष जाणया इहां जहाधोचोचोदरज्जुरूप खोकलायोखे अने विचारथी अनियतत्थे प धानिकायमध्ये तेलोकेने तिणि भागे कल्पतां अधोलोकादिक विभागनीपले तिहां एतल प्रभाने विपे यच्छसम भूमिभागने

परतः किञ्चिन्वृत्तसप्तारब्जायत ऊर्ध्वलोकः ऊर्ध्वसुपरि व्यवस्थितो लोक ऊर्ध्वलोक अथवा उर्ध्वशब्दः शुभपर्यायं सत च चेतस्य शुभत्वात्तदनुभाषाद्द्रव्याणां प्रायः शुभा एव परिणामा भवन्त्यतः शुभपरिणामद्रव्यायोगाद्दूर्ध्वं शुभो लोका ऊर्ध्वलोकः उक्तं च उड्डंति उवरिजंचिय सुभरोत्तं सेततउयद्व्यगुणा उपक्लंति सुभावा तेष तउड्डद्वोगोप्ति ॥१॥तयोच्चाधोलोकोर्ध्वलोकयोर्मध्येषटादयोजनयतामितिर्यग्लोकः समयपरिभाषया तिर्यग्मध्ये व्यवस्थितो लोक तिर्यग्लोक अथवा तिर्यगशब्दो मध्यमपर्यायं सत च चेतानुभावात्त्रायोमध्यपरिणामंत्येव द्रव्याणि भवन्त्यत साद्योगात्तिर्यग्मध्यमो लोकस्तिर्यग्लोकः अथवास्वकी

रिअलोए उड्डलोए सेतं पुब्बानुपुब्बो सेकिंतं पत्यानुपुब्बो २ उड्डलोए तिरिअलोए अहोलोए सेतं पत्यानुपुब्बो से किंतं अणानुपुब्बो २ एआएचेव एगाइआए एगुत्तरिआए तिगित्थिगयाए सेटोए अन्नमन्नभासो दुखूवणो सेतं अणानुपुब्बो अहोलोअ खेतानुपुब्बो तिविहा पयसा तंजहा पुब्बानुपुब्बो पत्यानुपुब्बो अणानुपुब्बो सेकिंतंपुब्बा

ठामि सेरु पर्वत मध्य आकाशनाममध्य प्रतर विषे षट प्रदेशनोरचकच्छे तेषिप्रतरमध्य एक हेठला प्रतरधी पारंभीने अधोभिसुय नवसय योजन परिहरीने उपरांत फेरसातरज्ज प्रमाणलांबी अधोलोक कश्चिये तिषां कोकनो एगदार्यं विलोकिये केवल ज्ञान केवल दर्शने करी केवली जाणंते लोक कश्चिये पक्के इम अर्थं करिये अधो रथोर्ध्वलोक तेषधोलोक अथवा अधोशब्द तेषप्रभनो [पर्याय नाम तेभणी तिषां एष्यर्थं जेतना स्वभावयी बड्डलपणे तिषां द्रथनो अशुभ परिणाम उपजे]तेभणी असुभ परिणामतंत द्रथना योगयी इम अर्थं करवो अधो कहतां अशुभ जेलोक तेषधो लोक एभाव उक्तंच अहव अशोपरिणामो खेत्ताऽणुभायेणजेण जसन्नं असुभो अशोप्ति भणिए द्येषां तेषालोलोगो १ तथा तेहज्जक प्रतर विड्डंमध्ये

यजुर्होधागान्तिर्यग्भाग एवातिविशालतयात् प्रधानमतस्तेन व्यपदेश्य कृत सिर्यग्भोक्त एका च मज्जणुभाषखेत्त कृततिरिय तिवयणवज्जवधो मन्त्रद् तिरियविसाल अतोक्त तिरियलो गोति । वयणवज्जवधत्ति मध्यागुभाषपचनस्य तिर्यग्धने पर्योयतामाश्रित्येत्यर्थं अतश्च अथन्यपरि षामवद्ब्रथयोगतो जपन्यतया गुणस्थानकेषु मिथ्याट्टेरिवाधोकोकस्योपन्यास सादुपरि मध्यम द्रथवत्वात्प्रथमतया निर्वग्भोक्तस्य तदुपरिटादुल्लट द्रथवत्वाद्ब्र लोक्तस्योपन्यास इति पूर्वोक्तपूर्वैस्व सिद्धि पचासपूर्वैः तु अत्ययेन यतोतेव अगागुपूर्व्या पदत्वयस्य यद्मद्गा भवन्ति ते च पूर्वदशिताएव योपभाषनात्विच प्राग्भवेति अतश्च क्वचिद्वाचनान्तरे एकप्रदेशायगाढादीनामसङ्घात प्रदेशायगाढान्तानां प्रथम पूर्वोक्तपूर्व्यादिभाव उत्तो इत्यने सोपि चेत्ता

**सुपुब्बो २ रथणप्पभा सक्करप्पभा वालोच्चप्पभा पकप्पभा धूमप्पभा तमप्रभा तमतमाप्पभा सेत पुव्यानुपुब्बो सेदितं**

एक ऊपरका प्रतरयो चारभीने ऊहाभिमुख नवसय योवन परिररीने उपरोक्त किंचित् ऊनसातरण्णलांबो उरुं लोक कश्चिये उरुं कश्ता ऊपर रथो जेलोक तेजुर्हं लोक एयदायं अथवा ऊर्हं यद् शुभनो पर्याय तिष्ठां चेतना शुभ पण्याथी प्राये द्रथना परिणाम शुभन याद् तेमणी शुभ परिणामवत द्रथना योगयी ऊर्हं कश्ता शुभ जेलोक तेजुर्हं लोक उक्त च उड्डु तिस्रवरिज्जिचिच शुभवित्तसेत्तयदव्यगुणा उप्पण्ण ति सुभाया तेणतत्त उट्टलो गोत्ति । तथा तेअधोलोक ऊर्हं लोक मध्ये अट्टारसय योजन प्रमाण तिर्यक् लोक सिद्धांतनी मापाद् तिर्यग् कश्तां विचिलु लोक कश्चिये अथवा तिर्यग् एवाद् मध्यमनो पर्याय तिष्ठां चेतना प्रभाषयी प्रायेमथम परिणामवत द्रथ उद्दु तेमणी तेहाः द्योगयी तिर्यग् लोक कश्चिये आपणा ऊर्हं अधोलोगयीतिरथो भाग अति विसीर्णं पण्याथी प्रधानत्वे तेमणी तेणेनामदीधो तिर्यग् भाग प्रधान जेलोक तेतिर्यग् लोक उक्त च मन्त्राभाष्ये चेतं कृततिरिपतिवयणवज्जवध भण्डत्तिरिपविशाल अतोक्ततिरिपलो गोति । इहा जवन्य परिणामवत द्रथनायोगयी जवन्यपणे गुणहाणा मध्ये

सुपुब्बो २ रथणप्पभा सक्करप्पभा वालोच्चप्पभा पकप्पभा धूमप्पभा तमप्रभा तमतमाप्पभा सेत पुव्यानुपुब्बो सेदितं

सुपुब्बो २ रथणप्पभा सक्करप्पभा वालोच्चप्पभा पकप्पभा धूमप्पभा तमप्रभा तमतमाप्पभा सेत पुव्यानुपुब्बो सेदितं

सुपूर्वाधिकारादविरुद्ध एव सुगमत्वाच्चोक्तानुसारेण भावनीय इति साश्रुतं यस्मिन्तरविषयात्वासुपूर्व्यादिभावद्विदृशद्यपि सुघोलोकादीनां च भेदपरिज्ञाने शिष्यव्युत्पत्तिं पश्यन्नाह अहोलोय खेत्ताणपुष्पीतिविहेत्यादि अघोलोकखेतविषया आनुपूर्वीरुपनिधिकीति प्रकमामुच्यते सा तिविधा प्रज्ञप्ता तद्यथे त्यादि शेषं पूर्ववद्भावनीयं चाबद्रूपतमेत्यादि इन्द्रनीलादिबद्धविषयप्रभा नरकवर्जं प्रायो रत्नानां प्रभा यो यस्यां सा रत्नप्रभा एवं प्रकीरणासुपल

पच्छानुपुष्पी २ तमतमा सावरयणप्रभा सेतं पच्छानुपुष्वी २ एग्राएचेव एगारुञ्जाए

मिथ्यादृष्टी सुण ठाणानीपरि प्रथम अघोलोकसुं ग्रहण कस्यो तेजपरि मध्यमपणामाटे तिर्यग्लोकसुं ग्रहण कस्यो तयावली ऊपर उत्कृष्ट द्रव्यवत पणाथी ऊर्ध्वलोकसुं ग्रहण कस्यो एणीपरि पूर्वाणुपूर्वी पणोनीपजे तथा पश्चानुपूर्वी तो विपरीत पणे ग्रहतां प्रसिद्ध जाणवी अने अनानुपूर्वीने विषे त्रिणि पदना, कृभांगाथाद्द तेतोपूर्वे देवाद्याजहे शेष भावना पूर्ववत् इहां किसी एक वाचनाने विषे एक प्रदेशायगाढादिक असंख्यात प्रदेशायगाढ पर्यन्त प्रथम पूर्वाणुपूर्व्यादिक भाव कस्यो दीसेहे तेपणि खेत्ताणुपूर्वीना अधिकारथी अविबद्ध जाणयो हिये वखंतर विषयपणा ऊंती पूर्वाणु पूर्वादि भाव देखाडिवा वाळतो अने अघोलोकादिकना भेदने खांणये शिष्यनेडाहा पणो देपतो कहेहे अहोलोखखेत्ताणुपुष्पी अघोलोक खेत विषे आनुपूर्वीउपनिधिकी प्रसावथी जांणीये शेषं पूर्ववत् तिहां इन्द्रनीलादिक बद्धविषय रत्ननी नरकावासावर्णी प्राये प्रभा कर्ता ज्योतिहे जेहने विषे तेरल प्रभा एवं शंकर कश्चिये पाखागना खंड तेहनी प्रभा कश्चिये प्रकाशसुं स्वरूपे रहवोहे जेहने विषे तेगर्कर प्रभा तयानालुका प्रसिद्ध तेहनी प्रभा कर्ता स्वरूपे रहवोहे जेहने विषे तेनालुका प्रभा अथ बालिकावठोरज कश्चिये तेहना अवस्थान ऊती बाळिका प्रभापणि कश्चिये तथा पंकनी प्रभाहे जेहने विषे तेपंकप्रभा पंकाम इव्य संयुक्त इत्यर्थ धूमनी प्रभाहे . जेहने विषे तेधूमप्रभा धूमाम, इव्य सचित इत्यर्थ तथा तमसनी प्रभाहे जेहने विषे

यण्डानां प्रभा प्रकाशन स्वरूपेणावस्थान यस्यां सा शर्कराप्रभा बाकुकाया बालिकाया प्रभास्यरूपपावस्थितिर्यस्यां सा बाकुका  
 प्रभा बालिकाप्रभायेति पदस्य प्रभा यस्यां सा पञ्चप्रभा प्रकार्य धूमस्यप्रभा यस्यां सा धूमप्रभा धूमामद्रभ्योपलक्षितेत्यर्थं तमस  
 प्रभा यस्यां सा तम प्रभा कृष्णद्रव्योपलक्षितेत्यर्थं क्वचित्तमेतिपाठो सत्तापि तमोरूपद्रव्ययुक्तात्तमा इति महातमस प्रभा यस्यां सा महातम प्रभा  
 अतिरुणाद्रव्योपलक्षितेत्यर्थ क्वचित्तमेतिपाठ तन्नायतिशयवत्तमसम तद्रूप द्रव्ययोगात्तमसमा इति अत प्रज्ञापकप्रत्यासन्ने रत्नप्रभाया आदायुप  
 न्यासकृत सात पर अधिकार विस्तरादित्वात् क्रमेण शर्कराप्रभादीनामिति पूर्वानुपूर्वीत्वव्यत्ययेन पद्यानुपूर्वीत्वव्यत्ययेन परस्परस्थायोपेपसस

एगुत्तरिच्चाए सप्तगत्यगयाए सेढोए अखमखभाषो सेत अणानुपूर्वीतिरिचलोअ खेतानुपूर्वी तिविहा पयत्ता  
 तजहा पुव्वाणुपुव्वो पच्छाणुपुव्वो अणानुपूर्वी सेकित पुव्वाणुपुव्वो २ जबूद्धीवेलयणे धायइकालोअपुक्करेवरणे

तेतम प्रभा कृष्ण द्रव्य सञ्चित इत्यर्थं किंवा एक तमा एहवो पाठच्छे तिकां पणितमो रूप द्रव्यना युक्त पणाथी तमा कश्चिये तथा महा तमसो प्रभाछे  
 जेहने विधे तेमभातमप्रभा अतिकृष्ण द्रव्य सयुक्त इत्यर्थं किंवा एकतममाइस्यो पाठच्छे तिहापणि अतिरिच खण्णेतमसमा कश्चिये तेहना द्रव्यनो योगयी  
 तेतमतमा कश्चिये तिकां प्रज्ञापकने दृक्कडायणाञ्जती रत्नप्रभानो प्रथमग्रहण कस्यो तिवारपच्छी दूर दूर पणा माटे शर्करप्रभादिकमुग्रहण  
 कस्यो तेभणी पूर्वानुपूर्वी पणो अने विपरीत पद्यानुपूर्वी पणो अने एसात पदमो परस्पर अभ्यास करतां पांच सइख अने व्यालीसभांगा  
 याइ तेमध्ये आदिनु अने अतिनो भागलटालीये तेतालतां येष सर्वभांगा अनानुपूर्वी गेपभायना पूर्णवत् अथ तिर्यग्गोल खेतासुपूर्वीने विधे जयूद्धीवगारा

एगुत्तरिच्चाए सप्तगत्यगयाए सेढोए अखमखभाषो सेत अणानुपूर्वीतिरिचलोअ खेतानुपूर्वी तिविहा पयत्ता

तजहा पुव्वाणुपुव्वो पच्छाणुपुव्वो अणानुपूर्वी सेकित पुव्वाणुपुव्वो २ जबूद्धीवेलयणे धायइकालोअपुक्करेवरणे

इच्छाणि चत्वारिंशद्दिकानि भद्रानां भवन्ति तानि चाद्यंतं भद्रकथन रक्षितान्यनानुपूर्व्यां द्रष्टव्यानि योगभाषनानुपूर्व्यां अंगुलीभिः  
इत्यादि गाथा व्याख्या इत्यां प्रकाराभ्यां स्थानदाल्वाहाराद्युपपन्न हेतुलक्षणस्यां प्राणिनः पांतीतिद्वीपाः धन्वापाशुभृतिरियोगजेतयिोपाः सरसुद्रया  
मर्यादया वर्तन्त इति ससुद्राः प्रचुरजलोपलब्धिताः क्षेत्रधियोगेण एतेव तिर्यग्वेग्ये प्रत्येकमसंख्येया भवन्ति ततः ससगद्दीपसमुद्राभ्यन्तरभूतत्वेनादौ  
तावज्जं बृष्टवेणोपलब्धितो द्वीपो जंबूद्वीप सतस्रं परिब्रिय स्थितो लवणरसाखादनीरपूरितः समुद्रो लवणसमुद्रः एकदेशेन समुद्राय लयमानगादेनं

खीरप्रयखोन्नदी अश्वघरे कुंडलेरुत्रगे १ आभरणवत्यगंधे लपलतिलएत्रपुट्टविनिहिरयगे वासहरद्दहनरुडं  
विजयावक्वारकपिंधा २ कुरसंदरआवासा कूडानक्वत्तचंदसूराय देवेनगेजवसे भूएअसयंभूरमणेअइ सेतंपुञ्जाणपुड्वी

तिष्ठां विडुं प्रकारे करो प्राणीनि राखे तेद्वीप कश्चिये एक ठामने देणेकरी अने वीजो आशारादि उपटंगने देवेकरी तेजीवने रागेइ एतले जीवना  
आवास भूतक्षेत्र विगेष, तथासुद्र कश्चिये मर्यादा तेषे सहितवर्त्ते तेमणीं समुद्र कश्चिये एतले प्राुर जल सज्जिद्युतना विगेष जाणया एद्वीप समुद्र  
तिर्यग्लोकने विपे प्रत्येकर असंख्याता जाणवा तिष्ठां समसखी द्वीप समुद्रनामथ पणा छुती प्रगम जंबूद्वेजे करी संयुक्त जेद्वीप तेजंबूद्वीप तिवार पक्षी  
तेहने वीटीने रक्षो, लवणरसाखादनी परे मखो जेसमुद्र तेजवणसमुद्र एक देगे करी समुद्राय जाणीथे तेभाणी लवण गन्धी लवण समुद्र  
एहवो संपूर्ण नाम जाणयो इम आगलि पणियथा संभव जाणवुं पछे तेहने वीटीने रक्षो अने धातकी दृश्यवने करी सहित धातकी चंडद्वीप पछे  
तेहने वीटीने रक्षी शुद्धोदकरसाखादकृष्ण जले करी मखो कालोदधि समुद्र पछे तेहने वली बोफेर अने पद्महजे करी संयुक्त पुष्करद्वीप पछे तेहने

पुरशादपि यथासम्प्रभं द्रष्टव्यं पादत्र कालोयन्ति ततो लवणसमुद्रं परिब्रिय स्यितो धातकीदृघचण्डोपलक्षितो द्वीपो धातकीदृघण्ड सत्व्रितोपि शुद्धोदक  
 रसाम्नाद' कालोदृघ समुद्रं स च परिब्रिय स्यित पुष्करै पद्मवरेषपलक्षितो द्वीप पुष्करवर्हीप सत्व्रितोपि शुद्धोदकरसासाद एषपुष्करोद अनयोष  
 द्वयोरप्येकेनैव पदेनात्र सप्रभो द्रष्टव्यं पुष्करोत्ति एषमुत्तरत्वापि ततो वरुणोत्ति वरुणवरोद्वीप सतो वारुणीरसासादो वारुणोद समुद्रं क्षीरन्ति क्षीर  
 वरोद्वीप क्षीररसासाद क्षीरोद समुद्रं पयन्ति हतवरो द्वीप हतरसासादो हतौद समुद्रं क्षोयन्ति इक्षुरसासादएवेक्षुरण समुद्रं इत ऊर्ध्वं सर्वेपि  
 द्वीपसमुद्रा सहस्रनामानो मन्तव्या अपर च स्यभूरमणवना सर्वापीक्षुरसासादास्तत्र द्वीपनामान्यमुनि तद्यथा नन्दी सद्यद्विसया ईश्वरो द्वीपो नन्दी

सेकित पत्याणुपुष्कोर सयभूरमणेअ जावजबूहोवे सेत पत्यायुपुष्वी सेकित अणायुपुष्वी २ एआएत्वेव एगाद्राए एगु  
 त्तरिआए असखेज्ज गच्छगयाए सेद्वीए अन्नमखम्भासो दुग्धूणो सेत अणायुपुष्वी सुदुन्नोअउत्ताणुपुष्वी तिविहापख

यनी चोफेर युद्धोदकरसासादज पुष्करोद समुद्रं एषिञ्च नो एकेज पदे सप्रभ जाणवो गायामध्ये पुष्कर एषवो एकज यद्धे इम जागति पणि  
 जाणवो पथे वारुणवरोद्वीप पथे वारुणीरसासाद वारुणोदसमुद्रं पक्षुक्षीरवरोद्वीप पथे क्षीररसासादक्षीरोद समुद्रं पथे हतवरोद्वीप पथे हतरसासाद  
 हतोदसमुद्रं पथे इक्षुरद्वीप पथे इक्षुरसासादइक्षुरसमुद्रं एतला उपरोत सर्वे ई द्वीप समुद्रं सहग नाम अपर स्यभूरमणवरोद्वीप सर्वसमुद्रं इक्षुरसा  
 साद जाणया तिष्ठा द्वीपना एनाम नदिकश्चिये इष्टा औजिन भयन रूपणी सद्यद्वि तेणे करो इक्षुर चनेरा द्वीप माहेटाकर तुल्य जेहीप तेनदी  
 सरवर द्वीप एष वरुणवरोद्वीपभास कु उल्लवर सवपर रषकवर एषो पदेछे द्वीपनामाम चूर्णिने विपे लिप्यादीसिद्धे अने सूत्रने विपे तो नदी अरण्यर

सुदुन्नोअउत्ताणुपुष्वी तिविहापख



शहरः एवं अशरगवर अरणायासः कुण्डलवरः शङ्खवरः रचकवर इत्येवं पङ्क्तीपनामानि चूर्णो लिखितानि दृश्यन्ते सूत्रे तु मन्दीवक्षणवरे कुण्डलवयगद्वयेत  
 खिन्ना गायत्र्या हयेवतान्युपलभ्यन्ते अत चूर्णलिखितानुसारेण रचक अयोदशः सूत्रलिखितानुसारस्तु सएवैकादशो भवति तत्त्वं तु केवलिनो विद  
 न्तीति गार्थः इदानीमनन्तरोक्ता द्वीपः ससुद्राणावस्थिति स्वरूपप्रतिपादनार्थं शेषाणां तु नामाभिधानार्थमाह जंबूद्वीवाच्चो खलु निरन्तरासेसया असं  
 खद्रणा भुयगवरकुसवराविय कोचवराभरण माईयत्ति व्याख्या एते पूर्वीक्ताः सर्वेपि जंबूद्वीपादारभ्य निरन्तरा नैरन्तर्येण व्यवस्थिता न पुनरसीषामन्त  
 रापरद्वीपः कश्चनापि समसीति भावः ये तु शेषा भुजगवरादय इत उर्ध्वं वक्ष्यन्ते ते प्रत्येकमसंख्याततमा द्रष्टव्या सथाश्चि सुयगवरेत्ति पूर्वीक्ता च  
 रचकवराद्वीपादसंज्ञेया न द्वीपससुद्रान् गत्वाभुजगवरो नामद्वीपः समस्ति कुशवरत्ति ततोयसंज्ञो अंशानगत्वा कुशवरानामा द्वीपः समस्तिः अपि चेति

ता तंजहा पुञ्वाणुपुञ्बी पत्याणुपुञ्बी अणाणुपुञ्बी सिकितं पुञ्वाणुपुञ्बी २ सोहम्ने ईसाणे सणकुमारि माहिंटे वंभलोए

कुण्डले रश्मि इम एगाथानादलने विषे तेष्वारिज कक्षादीषेच्छे एतला भगी चूर्णिना लिख्याने असुसारे रचक तेरमोद्वीप जाणवो अने सूत्रना लिख्याना  
 असुसारथीते इय्यारमो ऊइ तत्वनिर्णय केवलीजाणे इति गार्थार्थं इति अन्तरोक्त द्वीपानो अवस्थिति रूप कहेवने अर्थे शेष द्वीपना नाम कहेच्छे  
 जंबूद्वीवाउखलु निरन्तरासेसया असंखमइ भुजगवरकुसवराविच कुंचवरा भरणमाइभा १ एपूर्वीक सर्वं जंबूद्वीपयो अपारंभीने निरन्तर पणोरच्या जाणवा  
 एहने थांतरे कोई अनेरो नथी एभाव तथा जेवली शेष भुजगवरादिक कहिंसे तेप्रत्येकर असंख्यातमा जाणवा तेकहिंयेच्छे भुजगवरे पूर्वीक रचकवर  
 द्वीपयो असंख्याता द्वीप ससुद्र जईने भुजगवर द्वीपच्छे पछे वली असंख्याता तेउक्तंघीने कुशवरद्वीपच्छे अपिच एयन्त् ससुत्रयार्थेच्छे पछे वली  
 असंख्याता द्वीप ससुद्र उक्तंघीने कोचवरनामा द्वीपच्छे इमवली असंख्याता द्वीप ससुद्र उक्तंघीने सर्वं आभरणादिक सरीखानाम द्वीप

समुद्रये कोपवरत्ति ततोप्यरुद्धो वासानतिक्रम्य कोषवरो नाम द्वीप समक्षि आभरणमाप्यति एवमसह्योयान् द्वीप समुद्रानुगम्याभरण्यादयथाभरणा  
 दिनासमहगद्वीपा वक्तव्याः समुद्रास्तु तद्वहगनामान एव भवन्तीत्युच्यते इति गायार्थं इदं च गथा कस्यासिद्धाचनयो न इच्छत एव केवल कापि  
 वाचन्याविशेषे दृश्यते टीकासर्गोस्तु तद्याख्यानमुपलभ्यत इत्यस्माभिरपि व्याख्यातेति ताव्येवाभरण्यादीनां च आभरणवत्येत्यादि गायार्थं असह्योयनाम  
 सत्येयानां द्वीपानामन्ते आभरणवस्तुगन्धोत्पलितलक्कादिपर्याय सदृशनामा एकैकोपि द्वीपस्वावहृत्तयो यावदन्ते मयभुरमणो द्वीप शुद्धादकरस स्वयमु  
 रमणएव समुद्र इति गायार्थं वाचनार्थं ननु यद्येव तर्ह्यसंख्येयान द्वीपानतिक्रम्य ये वर्तन्ते तेपानेव द्वीपानामेतानिनामायाख्यातानि यत्नत  
 रालेपु द्वीपान्ते कि नामका इति वक्तव्यं सत्यं लोके पदार्थानां यद्यथ्यजकलग श्रीवसादीनि यावन्ति शुभनामानि ते सर्वेष्वुपलक्षिता स्ते द्वीपामाथ्यन्त

लतए महासुक्ते सहस्रारेऽत्राणए पाणए आरणे अचते गेवेज्जविमाणे अणुत्तरविमाणे ईसिमभभारा सेत सुव्जानुसुब्बो  
 मेकित पत्याणुसुब्बो २ ईसिप्यभभारा जावसेहम्मे सेतपत्याणु० सेकितअत्राणु० २ एथाएचेव एगाइआए एगुत्तरिआए

कांणवा अने समुद्रतो द्वीप सरीखे नामे कहीज नु अण्णे इति गायार्थं एगाथा किसी एक वाचनाने विषे दीसतो नथी अने टीकासूचिने विषे तेउतो  
 व्याख्यानं पणिदीसेन्ने विषे तेहिज आभरणादिक कहेछे आभरण गथाइय असख्याता द्वीप समुद्रने अने आभरण यस्तुगथ उत्पलितलक्कादिक शब्द  
 सरीखा नामानो एकेको द्वीपतालगे बोलवो जालगे अतने विषे स्वयभूरमण द्वीप अने शुद्धोदकरसाखाद स्वयभूरमणज समुद्र आये इति गायार्थं  
 भाषार्थं इहां मत्र जो इम असख्याता द्वीप समुद्र अतिक्रमिने जेद्वीप वर्तते तेहनाज एवनाम जाणना तो आंतराने विषे जे असख्याता द्वीप कथा

समुद्रानुगम्याभरण्यादयथाभरणा

समुद्रानुगम्याभरण्यादयथाभरणा

इति स्वयमेव द्रष्टव्यं यत उक्तं दीवससुहायं भंते केवदेया नामधिज्जेहिं पन्तत्तेत्ति गीयसा जावइया लोए सुभानामा सुभाकूवा सुभागंवा सुभारसा सुभा फासा एवइयाणं दीवससुहानामधिज्जेहिं पणत्ति संख्यातुसर्वेषामसंख्येय स्वरूपा उद्वारसागराणां अट्टाईज्जाणजत्तिया समयाइगुणा इगुणपवित्तरदीवोद हिरण्णु एवइया इति गाथाप्रतिपादिताद्रष्टव्या तदेवमत क्रमोपव्यासे पूर्वानुपूर्वीत्यत्येनपद्यानुपूर्वी अनानुपूर्वीत्वमीयामसंख्येयानांपदानां परस्पराम्यासेये संख्येया भंगा भवन्ति भगकइये न तत् स्वरूपा द्रष्टव्येति ऊर्ध्वलोकान्तेत्तानुपूर्वी सोऽस्मेत्यादि सकलविमानप्रधानसौधमूर्तिवत्सकाभिधानविमानविशेषो पलञ्चितत्वात्सौधमूर्त् एवं सकलै विमानप्रधानेनानावतंसक विमानविशेषोपलञ्चित ईयानः एवं तद्विमानावतंसकप्राधान्ये न तत्तनामवाच्यं यावत्सकलविमान

पथरसगच्छगयाए सेटीए अयमणभमासो डुरूबूणो सेतं अणायुपुव्वी २ अहवालवन्तिहि अखेत्ताणु० तिविहापंगुत्ता  
तंजहा पुव्व्वाणु० पत्याणु० अणायु० सेकिंतं पुव्व्वाणु० २ एगपएसोगाटे दुपएसोगाटे दसपएसोगाटे संखिज्ज

तेहना आस्या नाम गुरू बोत्था लोकने विपे पदार्थना श्रीवच्छादिक जेतला शुभनाम प्रवत्तेहे तेषे सगळे नमि तेहीप पड्ढचे यत उक्तं श्रीजीवा भिगमे दीवससुहायं भंते केवदेया णामधिज्जेहिं पणत्ता गो० जावईअलोए सुभावन्ना सुभाकूवा सुभारसा सुभागंवा सुभाफासा एवईयाणं दीवससुहायामधिज्जेहिं पणत्ता तथासंख्यास्वरूपेसर्व असंख्याताहे तेहम इहां अतुकमे अट्टांपूर्वीतुपूर्वी विपरीत पण्येपद्यानुपूर्वी अनेअसंख्यात पदने परस्परे अग्यासतां जे असंख्याता भांगाज्जइ तेमध्ये भांगादिवरजीने शेष सर्वभांगाने अनानुपूर्वी कहिये एवं ऊर्ध्वलोक जेतानुपूर्वीने विपे सकल विमान मांदि प्रधान सौधमूर्तिवत् सकलनामा विमानना विशेष सञ्चित पणथी सोधर्म देवलोक कहिये एवं सकल विमान प्रधान ईयानावतंसक विमानोपलञ्चित

प्रधानअथतावत्सकाभिधानविमानविषयोपलक्षितोऽप्युत लोकपुरुषस्य ग्रीवाविभगे भवानि विमानानि भूदेवकानि नैशमव्यासुत्तरतराणि विमानानि  
 सन्तीत्यनुसरविमानानि इपद्भारालान्तपुरुषवन्धता अन्तेष्वितीपत्नामभारति अत प्रश्नापकप्रत्यासवेरादो सौधर्मस्योपन्यास सतो व्यपदितादिरूपत्वात्  
 क्रमेणोयानादीनामिति पूर्वार्तपूर्वत्व शेषभावनानाटपूर्वोक्तानुसारत कर्मज्येति चेत्तानुपूर्वी समाप्ता उपासोत्तानुपूर्वी साभ्रत प्राणदिष्टानेव क्रममाप्ता कालानु  
 पूर्वीव्याधिष्यासुराश्च सेकित कालानुपुष्पीत्यादि अताश्चरगमनिका यथा द्रव्यानुपूर्व्या तथा कर्तव्या जायतसमयतिर्दिए आणुपुष्पीत्यादि तय समयया

परसोगाढे जाव असखिज्जमद्रसोगाढे सेत पुव्वाणु० २ असखिज्जमद्रसोगाढे सखिज्जमद्रसोगाढे  
 जावएगपएसोगाढे सेतपत्याणु० सेकित अणुणु० २ एअएवैव एगाद्रआए एगुत्तरिआए असखिज्जगच्छगयाए  
 सेटोए अणमणभसो द्रूवूणो सेतअणानुपुव्वी सेतउवनिहिस्राखित्ताणु० सेतखेत्ताणु० सेतकालाणु० दुविहा

इसान देवलोक कश्चिये इम तेणेर विमानवतश्चकने प्रधान पणे करीने ते देवलोकना नाम जाणिवा यापत् सकल विमान प्रधान अय्युतायतरुक  
 नामा विमानने विपे सेपे उवलस्यो ते अच्युत देवलोक कश्चिये तथालोक पुरुषना गलाना विभागने विपे छद्वा जेविमानने प्रैवेयक विमान कश्चिये तथा  
 एयी अनेरा उत्तर प्रधान विमान नयी तेभणी अनुसर विमान कश्चिये तथा भारालान्त पुरुषनीयरे ईपत् अन्तने विपे नमीछे तेभणी इपत्ताभारा  
 कश्चिये इत्ता प्रदापकने दूकडापणा छ ती प्रथम सोधर्म देवलोकनो पश्य कस्यो पछे दूर यथादिकथी अनुक्रमे ईगान देवलोकान्दिकनो अरण कस्यो  
 तेभणी पूर्वातुपूर्वी पणो गेप पूर्ववत् सेतनेए लपनिधिकी चेतानपूर्वी सेतनेए चेतानपूर्वी यत्ने चेतानुपूर्वी समाप्ता ए अयपूर्वोर्दिष्ट कालानुपूर्वी कश्चिये

स्थितिर्यस्य परमाणु द्युणुक त्पणुकाद्यन्तंगुस्त्वन्यपर्यन्तस्य द्रव्यविशेषस्य सत्विसमयस्थिति द्रव्यविशेष आनुपूर्वीति आत्र ननु यदि द्रव्यविशेष एवावाप्यानुपूर्वी कथं तर्हि तस्य कालानुपूर्वीव नैतदेवमभिप्राया परिज्ञानाद्यतः समयत्वयत्नक्षणकालपर्यायविशिष्टमेव द्रव्यं गृहीतं ततश्च पर्यायपर्यायिणोः कथंचिदभेदाकालपर्यायस्य चेह प्राधान्येन विवक्षितत्वादद्रव्यस्यापि विशिष्टकस्य कालानुपूर्वीत्वं न इत्यति सुख्यं 'समयत्वयत्नक्षणकालानुपूर्वीत्वं' किन्तु तद्विशिष्टद्रव्यस्यापि तदभेदोपचारात्तदुच्यत इतिभावः एवं चतुः समयस्त्रित्वादिष्वपि वाच्यं यावद्दृश्यसमयास्थिति र्यस्य परमाण्वादद्रव्यसङ्घातस्य स तथासंख्ये चाः

पण्यत्ता तंजहा लवनिहित्राय अणोवनिहित्राय तत्यणं जासाउवनिहित्रा साठप्या तत्यणंजासा अणोवनिहित्रा सादुविहा पंण्यत्ता तंजहा खणमववहाराणं संगहस्यय सेकितं नेगमववहाराणं अणोवनिहित्रा कालायु० २ पंच विहापंण्यत्ता तंजहा अट्टपयपरूवणया भंगससुक्कित्तणया भंगोवदंसणया समोअरि अणुगमे सेकितं खेगमववहाराणं अट्टपयपरूवणया २ तिसमयट्टिइएअणु० जात्रदससमयट्टिइए अणु० संखिज्जसमयट्टिइए अणु० असंखिज्जसमयट्टिइए

सेकितं अथ किसी तेकालानुपूर्वी इहा अचरार्थं सर्व द्रव्यानुपूर्वीवत् तिसमय ठिइए तिहा त्रिणि समय स्थितिके जेपरमाणादिक अनंत प्रदेशिक स्वाव्य पंचत द्रव्य विशेषणी तेति समय स्थितिक ते द्रव्यने आनुपूर्वी कहिये इहा प्रेरक कहेके भगवन् जोद्रव्य विशेषज इहा आनुपूर्वी कहिये तो कालानुपूर्वी पणो तेहने किमथाइ एरू वोल्या एइमनही जेभणी इहां समय त्रिणिरूपकाल पर्याये विशेष्यो द्रव्य मत्तोके तेणे कारणे पर्याय अने पर्यायनाकथं चित् अभेदथी अनेकाल पर्यायना इहा प्रधान पणे विचारवायी विशिष्ट द्रव्यने कालानुपूर्वी पणो द्रुपाइ नही सुख्य भावे इहा समय तिऊनेज आनुपूर्वी

समया स्थितिर्यस्य परमाण्वादे स तथा असख्येया समया स्थितिर्यस्य परमाण्वादे स तथा 'अनन्तास्तु समया द्रव्यस्य स्थितिरेव न भवति स्वभावादि  
 ल्युत्तमेवेति गणानुवचननिर्देशादि भावनापूर्वकस्यैव एकसमयस्थितिक परमाण्वाद्यनताणु कस्तथपर्यन्त द्रव्यमनापूर्वीद्विसमयस्थितिः कठ तदेवापत्तयकमे  
 वेति श्रेय पूर्वोहाजसारेण सर्व साधनेय यावद्द्रव्यप्रमाणपरि तोरुखेज्जाइ असखेज्जाइ इति अस्यभावना इव तथादिसमयस्थितिका निपरमा  
 एवादिद्रव्याणि लोके यद्यपि प्रत्येकमनन्तानि प्राप्यन्ते तथापि समयत्ववलयण्या स्थितैरेकस्वरूपात्काठस्यैवैष प्राधान्येन द्रव्यवङ्कत्वस्य गुणीभूतत्वात्कि

आणु० एगसमयद्विईए अखाणु० दुसमयठिइए अतत्तत्रए तिसमयठिइया आणुपुखौओ एगसमयद्विईआओ 'अखा  
 गु०उ दुसमयद्विइआ अतत्तत्रगाइ सेतनेगमभवहाराण अट्टपयपरुवण्या एआएण योगभववहाराण अट्टपयपरु वण्येण अट्टपयपरु  
 वणयाए किपओयण एयाएण योगभववहाराण अट्टपयपरुवण्या नेगमभवहाराण भगससुक्कित्तण्या कज्जइ  
 सेकित्त योगमवयहाराण' भगससुक्कित्तण्या २ अत्थिआणु० अत्थिअवत्तवए एवदव्वाणु० गमेण

पथो अनेतद्वियिट द्रव्येने अने अनेदोपचार नयथो आठपूर्वो कश्चियेएव अत समय स्थितिकादिगने विपे पणि कश्चो यावत् एग समय स्थितिजे जेपर  
 मायसादिक द्रव्य सग्रहणी तेदग समयस्थितिक कश्चिये सग्यातासमयस्थितिजे परमाण्वादिकनी तेसख्खासासमयस्थितिक कश्चिये असख्खाता समयस्थितिजे  
 जेपरमाण्वादिकनी तेपसख्येय समयस्थितिक कश्चिये तेद्रव्येने आणुपूर्वो कश्चिये अने अनन्ता समय तो द्रव्यनी स्थिति अयेज नथो एक समय स्थितिजे  
 जेपरमाण्वादिकनी तेएक समयस्थितिक तेद्रव्येने अनानुपूर्वो कश्चिये विसमय स्थितिजे जेपरमाण्वादिकनी तेद्विसमय स्थितिक तेद्रव्येने अथकथ

सुखीनाकरिखि सावसकपणसवनिपुवरे

१११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २००

समयस्थितिकैरन्तरैरप्येकमेवानुपूर्वीद्रव्यं एवं चतुःसमयलक्षणयाः स्थितोरेकत्वादनन्तरपि चतुःसमयस्थितिकद्रव्यैरेकमेवानुपूर्वीद्रव्य एवं समयदृष्ट्या तावन्नैयं यावदसंख्येय समयलक्षणयाः स्थितोरेकत्वादनन्तरप्यसंख्येय समयस्थितिकेद्रव्यैरेकमेवानुपूर्वी द्रव्यमित्येवमसंख्येयान्येवात्मानुपूर्वीद्रव्याणि भवन्ति एवमनानुपूर्व्यवत्तत्रद्रव्याण्यपि प्रत्येकमसंख्येयानि बाध्यानि अत्राह नन्वेकसमयस्थितिकद्रव्यस्थानानुपूर्वीत्वं द्विसमयस्थितिकस्य त्यक्तव्यकत्वसुक्तं तत्र यद्यप्येकद्विसमयस्थिती परमांखादि द्रव्याणि लोके प्रत्येकानि लभ्यन्ते तथाप्यनन्तरोक्तत्वात्तदुक्तं च समयलक्षणयाया द्विसमयलक्षणयाय स्थितोरेकेकरूपत्वाद्द्रव्यबाध्या सावगुणीभूतत्वादेकमेवानुपूर्वी द्रव्यमेकमेव चा वक्तव्यकद्रव्यवक्तुं युज्यते ननु प्रत्येकमसंख्येयत्वं अथ द्रव्यभेदेन भेदोऽङ्गीक्रियते तर्हि प्रत्येकमानस्य प्रयत्नः एकसमयस्थितानां द्विसमयस्थितानां द्रव्याणां प्रत्येकमनन्तानां लोके सद्भावादिति सत्यमेतत्कल्पित्वेकसमयस्थितिकमपि यदव्यगाहते

कालाणु० एवि ते चैव छवीसंभंगाभाणि अर्वा जावसेतं शोगमववहाराणं भंगससुक्चित्तणया एअएणं शोगमववहाराणं

कश्चिदे शेषं बहुवचनादिक विस्तार पूर्ववत् द्रव्य प्रमाण द्वारे नो संखिल्लाहं असंखिल्लाहं नो अणंताह एहनीए भावना इहां त्रिणि आदि समयनी स्थितिना परमांखादिक द्रव्यलोकने विषे यद्यपि प्रत्येकर अनन्ता पाभिधे तथापि समय त्रिणिरूपस्थितिना एक स्वरूपथी अने कालने इहां प्रधान पणे करी अने द्रव्यना घणा पणाने गुणीभूत पणे करी त्रिसमयस्थितिक अनन्त द्रव्य मिमी एकज आनुपूर्वी द्रव्य कश्चिदे इमज एकएक समय बघारतो यावत् असंख्यात समयरूपस्थितिना एक पणा माटे एक आनुपूर्वी द्रव्य कश्चिदे एणी परे इम असंख्याताज आनुपूर्वी द्रव्य ऊह एवं अनानुपूर्वी अवक्तव्य पणि प्रत्येक प्रत्येक असंख्याता बोलवा इहां प्रेरक पूछेहे एक समयस्थितिक द्रव्यने अनानुपूर्वी पणो अने द्विसमयस्थितिकने चक्कथ पणो नील्यो

न वर्धते तदिह भिन्न विवक्ष्यते एव द्विसमयस्थितिक्रमव्यवगाह भेदेन भिन्न चिन्त्यते लोके वा सख्येया अवगाहभेदासक्ति प्रत्यवगाह चैकद्विसमयस्थितिजनिकद्रव्यसम्प्रादानात्पूर्व्यक्तव्यद्रव्याण साधारणोत्तभेदान् प्रत्येकमसहोयत्व न विवक्ष्यते इत्यनयादिप्रातिगहनमिदं सूत्रमधिपया पर्यालोचनीयमिति चेन्नहारे एग द्रव्य पदसु लोकात्म्यासख्येज्जदे भागे शोभा जायदेखणोयालोके शोभन्ति द्रव्य तत्राद्वयगतसम्पत्त सख्येयादि भागवर्त्तित्व भावनीय यदा त्व्यादिसमयस्थितिक सुप्तपरिणाम सन्धोदेगो न लोकेवगाहते तदेकस्यासुपूर्वी दृश्यस्य देशो न लोकवर्त्तित्व भावनीय भागवर्त्तित्व भावनीय

भगवत्समुक्तिक्षणयाए किंप्रकञ्चण एत्राएण णेगमववहाराण भगवत्समुक्तिक्षणया नेगमववहाराण भगवत्समुक्तिक्षणयाकञ्जरे

भगवत्समुक्तिक्षणयाए किंप्रकञ्चण एत्राएण णेगमववहाराण भगवत्समुक्तिक्षणया नेगमववहाराण भगवत्समुक्तिक्षणयाकञ्जरे तिहा यद्यपि एक समयस्थितिक अने द्विसमय स्थितिक परमात्मादिक द्रव्य लोकने विषे अनन्ता प्रत्येक प्रतीये तथापि पूर्वोक्त हेतुथी एक समय रूपस्थितिनी अने द्विसमय रूपस्थितिना एक पणायी अने द्रव्यना वड्डल पणाना भेद अगीकार करीजे तो प्रत्येक प्रत्येक अनन्ता द्रव्य पणो पन्नि जेभणी एका समयस्थितिना अने द्विसमयस्थितिना अवगाह जेद्रव्य तेप्रत्येक प्रत्येक लोकने विषे अनन्तात्वे तेभणी अनन्ता द्रव्य ऊइ गुरु बोध्या एतत्त्व पर एका समयस्थिति पणि जे अवगाहने भेदे वत्ते तेद्रव्य ज्यो विवक्षिये द्रव्य इम द्विसमयस्थितिक पणि अवगाहने भेदे ज्यो विवक्षिये अनेलोकने विषे अवगाहना भेदतो असत्त्वातात्वे अवगाह एकर प्राचीजोतां एक समय स्थितिक अने द्विसमयस्थितिना अमताद्रव्यन ऊइ एतने अनानुपूर्वी अने अवकथयना आधार जेतना भेदथी प्रत्येकनो असत्त्वाता पणो उणाइ नही ए अधिकाट अतिगहनत्वे तेभणी अति नूत्नानुपूर्वी करी विचारवो ।२। अथ जेतवहारने विषे एगद्वयपदुत्त सख्येज्जो भागेवाशोभा जायदेखणेवा लोकोशोभा त्विणिषादि समयस्थितिक द्रव्यने तेअवगाहना सम्भवथी सख्येयादिक भागवर्त्तित्व पणो भावयो अने निवारि तिसमयस्थितिकादिक अन्तःशून्य परिणामतो देयोनलोक अवगाहे तिवारे



अन्ये तदेच्छणो वा । लोके होज्जन्ति पाठः मन्दन्ते तत्वाप्यमेवार्थः प्रदेयत्वापि विवक्ष्यथादेगत्वादिति संपूर्णैःपि लोकेकग्रहादिदं न प्राप्यत इति चेत्प्रयते सर्वे लोकव्यापी अचित्तमशास्त्रं एव प्राप्यते सच तथापितथा एकमेव समयमवतिष्ठते तत ऊर्ध्वमुपसंहरस्योक्तत्वाच्चैकसमयस्थितिगमाशुपूर्वीं द्रव्यं भवतु मर्चेति त्यादिसमयस्थितिकत्वे न तस्योक्तत्वात्तस्मात् त्यादिसमयस्थितिकमन्यदुर्द्रव्यं भियमादेकेनापि प्रदेशेनोभएव लोकेऽवगाह्यत इति प्रतिपत्तव्यं अत्राह नन्वचित्तमशास्त्रोपेकसमयस्थितिको न भवति दण्डाद्यवस्था समयगणनेनस्याप्यट समयस्थितिकत्वादेवं च सति तस्याप्याशुपूर्वीत्वात् संपूर्णलोकव्यापित्वं युज्यते त्वक्तु मिति नैतद्देश सबस्याभेदेन वस्तुभेदाद्य षड्विधवित्वाद्भिन्नाय परस्परं दण्डकपाठाद्यास्थास्त्रव्यङ्ग्येन वस्तुनोपि भेदान्यदेवदण्डकपाठाद्य

**संक्रितं योगमवबहाराणं भंगोवदंसगयात् तिसमयद्विर्ईए अशाणू० एगसमयद्विर्ईए अशाणू० दुसमयद्विर्ईए अत्रत्तव्यए**

एक आशुपूर्वीं द्रव्यने देयोनलोकवर्ती, पणो भावको अनेरा दृष्टां देखणोयालोएज्जोजा इसो पाठमानेहे तिरां पणि एहिज अर्थ जाणयो जेभणी प्रदेशने पणि विविचानावगथी देय कथिये अथ संपूर्ण लोकने विषे एक्कोनपांसीये इति प्रश्न दृष्टा उत्तर सर्वलोक व्यापी अचित्त मशास्त्रज पामोये तेतोलोक व्यापीपणो एक समयमात्रज तिष्ठे तेउपरान्त अवश्य आपण पोसंभरे तेभणी एक समयस्थितिक द्रव्यने आशुपूर्वीं न कहिये विसमयस्थितिकादिक द्रव्यज आशुपूर्वीं कत्थाहे तेभणी त्विणियादि समयनीस्थितिनो अनेरो द्रव्यनियम नियये प्रदेश जणाज लोकने विषे अवगाहे यलो गिद्य भोल्यो भगपन् अचित्त मशास्त्रन्ध पणि एक समयस्थितिक न छद्द दण्डादिक अवस्थानां समय गिणता तेपणि अठ समयनीस्थितिनोहे तेभणी तेपणि आशुपूर्वीं द्रव्यपादु तेणे कारणे आशुपूर्वीं संपूर्ण लोकव्यापी पणो योलयुं युक्त परं प्रदेशोन लोकव्यापी पणो योलया युक्तनी सुखोत्या ए इम नही जेभणी अवस्थाना भेदथी दृष्टा वस्तुना भेदनी विवक्षाथी युक्तिइमिल तो जांगवो अने दण्डक पाठादिक अवस्थानो भिन्नज्जे तेआस्थाना भेदथी दण्डकपाठादिक

तय वपत विव भाषादिना योगम वपत २२२

स्याद्रथैव सकललोक्याय पित्तमहास्तत्रय तच्चैकसमयस्थितिकमिति नतस्यानुपूर्वीत्वमेतानसरेमेव पुनर्वस्यत इत्यल प्रसङ्गेन अथवा यथा खेता  
 नुपूर्व्या तथाप्यापि सर्वलोक्यापिनोयवित्त महास्तत्रय एकस्मिन्मम प्रदेयेत्य प्राधायद्देशो न लोकवर्तित्व बाध्य एकसमय  
 स्थितिकस्यानानुपूर्वी द्रव्यस्य द्विसमयस्थितिका वक्तव्यकस्य च तत्र प्रदेये प्राधान्याद्यथादिति भाव एवमन्यदपि, आगमाविरोधतो वक्तव्यमिति नाणा  
 दब्बाई पडश्च नियमासवलोए शोभति त्वादि समयस्थितिक द्रव्याणां सर्वलोकेपि भावादिति भावनीय अनानुपूर्वी द्रव्यचिन्तायां यथा खेतानुपूर्व्या

तिसमयद्विद्वा आर्णुंश्च अर्णुंश्च एवतहाचेवद्व्याणुं गमेण छव्वीसभगा एगसमयद्विद्वा अर्णुंश्च दुसमय  
 द्विद्वा अथत्तवगाद् अहनातिसमयद्विद्वा एत्र अर्णुंश्च एवतहाचेवद्व्याणुं गमेण छव्वीसभगा एगसमयद्विद्वा अर्णुंश्च दुसमय  
 सभगा भाणिअव्वा जायसेतनेगमववहाराण भगोवदसणया सेकित समोतारेद् ऐगमववहाराण आणुंदब्बाद् कट्टि

अस्याना द्रव्ययो सकल लोकव्यापी अचित्त भगस्तत्र द्रव्य अनेरो जाणवो तेभणी, तेद्रव्य तो एक समयस्थितिक छद्दे तेभणी तेहने आनुपूर्वी  
 प्रणो नगाय शलपियरेण अथवा निम खेतानुपूर्वीने विपे तिम दृष्टां पणि सर्वलोक व्यापी अचित्त महास्तत्रयने विवद्यामात्र आची जोता एक आकाय  
 प्रदेयने विपे अप्रधान पणायी सर्वलोकवर्ती पणो बोलवो एक समयस्थितिकने अने द्विसमयस्थितिकने एतले अनानुपूर्वी अथकथ द्रव्यने तिसां प्रदेयनो  
 प्रधान पणो अगीकार करता एभाय जाणयो तथानाणादब्बाद् पडुच्च त्रिषिषादि समवनीस्थितिना द्रव्यसर्वलोकने विपे सदाछद्दे तेभणी निचेसर्वलोकने  
 विपे छद्दे अथ अनानुपूर्वी द्रव्ययो चित्ताने विपे तिम दृष्टां पणि एक द्रव्यलोकने असत्यातसे भागेवत्तं तो किम लेकालयी एम

अग टी०

२२२

पु०

भा०



सङ्घो यभाग एव पत्तं ते क्वयमित्युच्यते यत्कालतो द्विसमयस्थितिक तत्कालतो द्विप्रदेयावगाढमेवेष्टा पतत्यजातेन गृह्यते तद्यु लोकासख्येयभाग एवस्या इववा द्विसमयस्थितिकं द्रव्य स्वभावादेव लोकस्यासख्येयभाग एवावगाढ तेन परत आदेयातरिण वा मद्रस्कन्धवज्जमन्द्रगोडु आयाह चतुष्टयासुषो ज्ञानि अय्य षडय मतान्तरेण किल द्विसमयस्थितिकमपि द्रव्य किञ्चिद्विभक्तस्य सख्येयभागेऽवगाढते किञ्चिद्विभक्तस्य अन्त्यत्तु सख्येयेषु तद्भागेष्ववगाढते पर तसख्येयेष्विति मद्रस्कन्ध यज्जं यित्वागोपद्रव्याण्यत्रिय ययोक्तस्वरूपास्वाद्यासु वतस्युष्टुष्टुका खेफमवक्तय्यक्त द्रव्य वाच्यते मद्रास्कन्धस्य त्वष्टसमय

लोगस्रक्सिखिज्जद् भागेहोञ्जा असंखिज्जद् भागेहोञ्जा संखेज्जं सुभागेसुवाहोञ्जा असखेज्जं सु भागेसुवाहोञ्जा देसुणेवा लोएहोञ्जा नाणाद्व्याद् पडुच्च निअमासव्वलोएहोञ्जा एवअखायुव्वीद्व्य आएसंतरेणया सव्वपुवासुहो

टीका पृथिते विषे गो इम षयाणबीदीषेष्टे अने नानाद्रव्य तो सर्वलोकने विषे छद्द जेभणी एष समयनी स्थितिना सर्वद्रव्य सर्वदाच्छद्द तेभणी तेभनो व्यषष्टेद कदाचिन उद्द अय अवक्तव्यज द्रव्यनी विचारणने विषे जिन ज्येतासुषोर्धने विषे कस्यो तिम इहा मणि कहवो एक अवक्तव्य द्रव्यलोकने असख्यातमेज भागेवर्त्तं तेकिन जेकाशयी द्विसमय स्थितिक तेचेतयी द्विप्रदेयावगाढज इहा अवक्तव्य पणे ग्रणीद्द तेतो लोकने असख्यातमेज । भागेवर्त्तं अथवा द्विसमयस्थितिक द्रव्य स्वभावे लोकने असख्यातमे भागे अवगाहे तथा आएसतरेषवा मद्रयवज्जमन्द्रद्वे आद्दहवठ सुपुच्छा सुषोञ्जा एयाठनो एमाव मतांतरे द्विसमयस्थितिक किस्यो एक द्रव्यलोकने सख्याता भागने विगे अवगाहे तथा अनेरोवणी लोकना असख्यातमा भागने विषे अवगाहे मद्रास्कन्धवर्त्तने गोप इव्य आशी ययोक्त स्वरूप आदिही प्यारि पृच्छने विषे अवक्तव्यक द्रव्यवाभद्द मद्रास्कन्ध एतका भणी वर्त्तनी जेभणी

स्थितित्वे नोक्तत्वान्न द्वि समयस्थितिकत्वसम्भव इतितद्वर्जनं अतएव सर्वलोकव्याप्ति लक्षणयायां पञ्चमसृच्छया अलासम्भवो महास्तन्यस्यैव सर्वलोकाव्यापकत्वात् तस्यैवावक्तव्यत्वायोगादिति एतदपि सूत्रं वाचनान्तरे क्वचिदेव दृश्यते नानाद्रव्याणि तु सर्वलोकके भवन्ति द्विसमय स्थितौना सर्वतभावादिति गतं चेत् द्वारं स्पर्शनाहारमप्येवमेव भावनीयं कालद्वारे एग दवं पडुच्चैजहणेणं तिणि समयत्ति जघन्यतोपि त्रिसमयस्थितिकस्यैवानुपूर्वोत्वेनोक्तत्वादिति भाः। उक्तोसेणं असंख्येयं कालंति असंख्येया कालात्परत एकेनपरिणामेन द्रव्यावस्थानस्यैवाभावादिति हृदयं नानाद्रव्याणि तु सर्वकालं भवन्ति प्रतिदेगान्ते रपि सर्वदा लोकस्थाः शून्यत्वादिति अनानुपूर्व्यवक्तव्यक चिन्तायां अजहन्नमणुक्तोसेणंति अवन्योत्कृष्टचिन्तामुत्सृज्येत्यर्थः नत्वेकसमयस्थितिकास्यैवा

ज्जा एवंअवत्तव्यगदव्याणिविभाणिअव्याणि जहा खेत्ताणुपूर्वोए फुसणाकालाणुपूर्वोएवि तहाचेवभाणिअव्या गोगमवव हारणं आणुपूर्वो दव्वाइ कालओकेवच्चिरं होइ एगंदवं पडुच्च जहणेणंतिणिसमयाओ उक्तोसेणं असंखेज्जकालंनणा

तेषाठ समयनी स्थितिनो बोल्योहे तेभणी तेहनेद्विसमयस्थितिक पणो संभवे नहो एतलाभणीज सर्वलोकव्याप्तिरूपपांचमीष्टच्छानोद्यसंभव नोल्यो जेभणी मशस्कावज सर्वलोक व्यापी इइ तेहने तो अवक्तव्यरूपणो न इइ तेभणी एपाठ वपाण्यउ तेपणि किमी एक वावनाने विपे संभवे जेभणी द्वि समय स्थितिक द्रव्यसर्वलोकाने विपे पणिलाभेगतंचेतद्वारंअयस्पर्शनाहार पणि इमजभावोः अथकालद्वारे एगदवंपडुच्च जहनेणं त्रिणिसमयाजघन्यथी पणि त्रिणि समयस्थितिकज आनुपूर्वी पणो बोल्योहे तेभणी एभाव उक्तोसेणं असंखेज्ज कालं जेभणी असंख्यातो काल उपरात द्रव्य एक परिणामेनरहे तेभणी उत्पटाट असंख्यातो कालस्थिति जाणवी एभाव तथा नानाद्रव्यतो सर्वकालने विपे इइ जेभणी तेणे करो लोक कदापिभूत्यनयाइ तथा अनानुपूर्वी

नानुपूर्वात्वे द्विसमयस्थिति कस्यैव वा वक्तव्यकत्वेभ्युपगम्यमाने जपय्योत्कृष्टचित्ता सम्भवतीति भाव नानाद्रव्याणि त्वभयत्नापि सर्वकाल भवन्ति प्रतिप्रदेशे तैरपि सर्वदालोकभ्याभ्यूयत्वादिति अन्तरहारे एगद्व्य पडुच्च जश्च्ये ष एव समयति अत भावना इह त्वादिसमयस्थितिक विपश्चित किञ्चिदेकमानुपूर्वी द्रव्य त परिणामं परित्यज्य यदा परिणामान्तरेण समयमेक स्थित्या पुनसोनेव परिणामेन त्वादिसमयस्थितिक जायते तदा जषयतया समयोत्तरे लभ्यते सञ्चोयेण् लोसमयसि तदेव यदा परिणामान्तरेण द्वौ समयोस्विय वा पुनसामेव त्वादिसमयस्थितियुक्त प्राक्त परिणाममासादयति तदा द्वौ समयानुत्कृष्ट

द्व्याद् पडच्च सानिश्चमासयद्वा योगमववहाराण त्रयाणुपुब्बिद्व्याद् कालउक्तेविधिरहोद् एगद्व्य पडुच्च अजहनमणू

अने अकथ्यक द्रव्यनो चित्ताने विधे अजशण मशुकासेण दोसमया एतने जषन्य उत्कृष्टचित्तवर्जोने द्रव्यं एतले एक समयस्थितिकने अनानुपूर्वी पणो अने द्विसमयस्थितिकने अकथ्यक पणो इम एकाति रूपे मातता जषन्य उत्कृष्ट पणो सभये नशी अने नानाद्रव्यतो सर्वकाल उद्द तेणे द्रव्ये करी प्रतिप्रदेशे लोकना अत्रुय पथायी एतले काळहार समाप्त ५ अथान्तरहारे एगद्व्यपडुच्च (जहन्ने ष एगसमय इषां इषो भावना त्रिणि आदिसमयनी स्थितिनो कोद् एक द्रव्यआनुपूर्वी पणो छाडीने विवारे अनेदे परिणामांतरे समय एकरहीने वली तेणेज परिणामे तिसमयस्थितिकादिक उद्द तिपारे जपय्य पणे एक समयनो अन्तराले सञ्चोयेण दोसमया तेजज विवारे परिणामांतरे विसमय रशीने वली तेजज त्रिणि आदि समयस्थितियुक्त पाण लोपरिणाम पामे तिचारे विसमय उत्कृष्ट आंतराने विधे आभद् जोषली परिणाम अन्तरे जेत्वादिक भेदधी विसमयधी उपरांत पणि तिटे तो तिचं आनुपूर्वी पणो आनुभये तिचारे आंतरोज न उद्द एभाय तथा नानाद्रव्यनो तो आन्तरो नशी सर्वदा लोकेने तेचना अयुय्य पथायी एभाय अय अनानु पूर्वानी चित्ताने ।वरे एगद्व्य पडुच्च जश्च्ये ष दोसमया एक समयस्थितिक द्रव्य विवारे परिणाम अन्तरे समययेनेअनुभये नेवली तेजज एवा समय

तोऽन्तरे भवतः यदिपुनः परिणामान्तरेण चोत्पत्तिभेदतः समयद्वयात्परतोपि तिष्ठेत्तदा तत्राद्युत्पत्तौ पूर्वोत्पत्तौ भवेत्ततोऽन्तरमेव न स्यादिति भावः नानाद्रव्याणां तु नास्त्यन्तरसर्वदा लोकस्य तदभूत्यत्वादिति अनानुपूर्वीं चिन्तायां एगदब्धं पदुच्च अक्षरेण दोऽसमयत्ति एकसमयस्थितिकं द्रव्ययदापरिणामातरेणायुक्तमेव समयं तिष्ठेत्तदा अन्तरमेव न स्यात्तत्राद्यनानुपूर्वीत्वादय समयद्वयात्परतस्तिष्ठेत्तदा जघन्यत्वं न स्यादिति भावः उक्तोत्पत्तिः असंख्येज्जं कालंति तदेव यदा परिणामान्तरेण असंख्येयकालमनुभूय पुनरेकसमयस्थितिकं परिणाममनुभवति तदोत्पत्तौऽसंख्येयोत्तरकालः प्राप्यते आह ननु अन्यान्यद्रव्यजैलसम्बन्धे तस्यानन्तोपिकालोत्तरे लभ्यते किमित्यसंख्येय एवोक्तः सत्यं किन्तुकालानुपूर्वीं प्रक्रमालाकालस्यैवेह प्रधान्यं कर्त्तव्यं यदि त्वन्यान्यद्रव्या जैलसम्बन्धे ततोन्तरकालाद्भ्रज्यं कियते तदा तद्वारेणोत्तरकालस्य ब्रह्मकरणीत्तयोर्द्वयोरेव प्राधान्यमाश्रित्य स्यान्न कालस्य तस्मादेकस्मिन्नेव परिणामान्तरे यावत्कश्चिदुत्पत्तौ लभ्यते स एवान्तरे चिन्त्यते सचासंख्येय एव ततः परमेकेन परिणामेन वस्तुनोऽवस्थानस्यैव निषिद्धत्वादित्येवं भगवतः सूत्रस्य विषयः

**त्रोत्पत्तिः असंख्येयं नाणादब्धं पदुच्च निश्चिन्तासम्बन्धा रेण समवहाराणं अवत्तव्यगदब्धां कालोत्पत्तिवच्चिन्तं होति एगदब्धं पदुच्च**

स्थितिक द्रव्य जिवारे परिणाम अपासे तिवारे समय वेजघन्य अन्तरकाल इह अने जिवारे परिणामान्तरे परिण एकज समय तिष्ठे तो चांतरोज पुन इह तिहां परिण अनानुपूर्वीज बोलिये तेभणी एभाव अय समय वेजपरांतरहे तो जघन्य पणो न इह एभाव उक्तोत्पत्ति असंख्येज्ज कालं तेहज द्रव्य जिवार अनरे परिणामान्तरे असंख्यातो काल अनुभवे तिवारे उत्पत्तौ असंख्यातो अन्तरकाल पांमिये इहां शिष्य पूछेहे भगवन् अन्यान्य द्रव्य जैलने संबंधे ते तेहने अनंतोकाल परिणामान्तरे होय तो असंख्यातो ज काल चांतरेकां कक्षी एह बोल्या एसत्य परं कालानुपूर्वीना अधिकारणी कालनोज इहां प्रधानपणो करिवो अनेको अनेरार द्रव्यजैलना संबंधणी चांतरकालनो ब्रह्मल पणो

चायै विप्रसारं पूर्वमुत्तरवशागमविरोधेन भावनीयमिति नानाद्रव्याणां च नाख्यन्तर प्रतिदेय लोके सर्वदा तथाभावादिति अवक्तव्यक द्रव्यचिन्तायां जह  
 मेण एगसमयति द्विसमयस्मितिक्र किञ्चिद्व्यक्त्यथ द्रव्य परिणामांतरेण समयमेकस्थित्वा यदा पूर्वानुभूतमेव द्विसमयस्थितिक परिणाममासादयति तदा  
 समयो जपन्यान्तरकाश्च उक्तोसेण असखेज्ज कालति तदेव यदा परिणामान्तरेणासखेय काल स्थित्वा पुनस्तमेव पूर्वानुभूत परिणाममासादयति तथा  
 साध्यात उत्कृष्टान्तरकालो भवति आनेपपरिशारायतायनानुपूर्वीवत् द्रव्यमिति नाना द्रव्यांतरण नास्ति सर्वदा लोके तथावादिति उक्तमन्तरद्वार भाग  
 हारे च यथा द्रव्ययेतागुपूर्व्यां सायैवानुपूर्व्याणि शेषद्रव्याणि शेषद्रव्याणि त्वानुपूर्वी द्रव्याणामसखेयभाग एव  
 वर्तन्त इति भायनान्वित्य कर्त्तव्या इहानानुपूर्व्यामिकसमयस्थिति सखेयमेकमेव स्थान कथ्यते अवक्तव्यकेष्वपि द्विसमयस्थिति सखेयमेव सप्रते आग

अत्रहृद्यमणकोसिण दोसमया नाणाद्व्वाइ पडुच्च निश्चमासवहा योगमववहाराण आणुपुब्बिद्व्वाणमतर् कालउकेवच्चि

रहोइ एगद्व्व पडुच्च जहखेण एगसमयउकोसिण दोसमया नाणाद्व्वाइ पडुच्चनत्थिअतरणेगमववहाराणं अणुणुपुब्बि  
 करीये तो तेण तयहारे करो कालने घणापणो करिवायो तेद्रव्य चित्तनेज प्रधान पणा आत्री छइ परकालनो प्रधान पणो न छइ तेभणी  
 एक्क परिणामांतरेने विपे जेतलो काइ एक उत्कृष्ट काललाभे तेइज आंतरति विपे चित्तवीये तेतो अस ख्यातो ज छइ तेउपरात वखु [एके परिणामे  
 नरहे तेभणी इम भगवत सूत्रनी विवक्षाना विवित्त पणायी सर्वपाखलो आगलो आगम सवते विरोध न याइ तिम भायवो अनेनानाद्रव्यने तो आंतरो  
 नथी लोकना एक एक प्रदेशने विपे सर्वदा तेभणी पाभिदे अथ अवक्तव्यक द्रव्यनी चित्ताने विपे एगद्व्व पडुच्च जहखेण एगसमय द्विसमयस्थितिक

अनुवर्णनारक्षेण वावखेकपदस्यवर्णनपरव



पूर्व्यां' त्वि समयचतुःसमय पञ्चसमयस्थित्यादीन्वेकीत्तरट्ट्याऽसंख्येयसमयस्थित्यन्तान्यसंख्येयानि स्थानानि लभ्यन्त इत्यानुपूर्वीं द्रव्याणामसंख्येयगुणत्वमितरयोस्तु तदासथ्ये यभागवर्त्ति त्वमिति भावद्वारे सादिपारिणामिक् भाववर्त्ति त्वं प्रयाणामपि पूर्ववद्भावनीयं अल्पवज्जत्व हारे सर्वसौकान्यवक्तव्यकट्ट व्याणि द्विसमयस्थितिकद्रव्याणा स्वभावत एव श्लोकत्वादानुपूर्वीं द्रव्याणि तु तेभ्यो विशेषाधिकानि एकसमयस्थितिक द्रव्याणा निसर्गतं एव पूर्वैभ्याविशेषाधिकत्वादानुपूर्वीं द्रव्याणा तु पूर्वैभ्यो असंखातगुणत्वं भागद्वारे भावितसेव शेषं तु चेत्तानुपूर्व्याद्युक्तानुसारतः सर्ववाच्यमित्यत एवकेषु चिद्भावनान्तरेषु भागादिद्वार

द्व्याणमंतरं कालउक्तेवच्चिरं होद्र एगंद्वं पडुच्च लहस्ये गंदोसमयाउक्तेसेणं असंखेज्जं कालं गाणादव्वाइं पडुच्च णत्थिअं तरं नेगमववहारणं अवत्तव्वगट्टव्वाणयुच्छा एगंद्वंपडुच्च जहस्येणं एगंसमअं उक्तेसेणं असंखेज्जं कालं गाणादव्वाइं

कोइ एक द्रव्य अनेरे परिणामांतरे समय एक रहीने जिवारे पूर्वलो अनुभव्योज द्विसमयस्थितिक परिणामे पामे तिवारे एक समय जषव्य अन्तरकाले लाभे उक्तेसेणं असंखेज्ज कालं तेहज द्रव्य जिवारे असंख्यप्रतो कालरहीने वली तेहज पूर्वानुभूत परिणामे तिवारे उत्कृष्टो असंख्यप्रतो अंतरकाले पामीये प्रअ अने उत्तर इहा परिण अनानुपूर्वीनी परे जाणवा नानाद्रव्यनी तो अंतर नथी लोकने विषे तेसर्वदा ऊइ तेभणी एतले अंतरद्वार बोल्यो इ अथ भागद्वारने विषे निम द्रव्यचेत्त आनुपूर्वीने विषे तिमज इहा आनुपूर्वीं द्रव्यशेष द्रव्यथी असंख्यप्रते भागे अधिकज वयाणवा अनेशेष द्रव्य आनुपूर्वीं द्रव्यने असंख्यप्रतेसे भागेवर्त्ते इहा भावना इम करवी इहां अनानुपूर्वीं द्रव्यने विषे एक समयस्थिति रूप एकज स्थान लाभे अने अवक्तव्यकने विषे परिण द्विसमयस्थिति रूप एकज स्थानलाभे अने आनुपूर्वीने विषे तिवत्त पंच समयस्थित्यादिक एकोत्तरट्टि करता असंख्य समयस्थिति अंतलगे असंख्यप्रता

स्य क्षेत्रानुपूर्व्यातिदेयेनैव निर्दिष्टं हृद्यते ननु विशेषतो विधिप्रतिमिति सेतमित्यादिनिगमन उक्तानैगमव्यवहारमयमतेनानौपनिधिकी कालानुपूर्वी  
 अथ सयइत्यमतेनतासेव व्याचिन्त्यासुराश्च सेकितमित्यादि यथा क्षेत्रानुपूर्व्यामिद्य सयइमतेन प्राग्निर्दिष्टा तथाऽत्रापि याथा नवर तिसमयतिष्ठत्या  
 भागपूर्वी जाय असयेअसमयतिष्ठत्या भागुपूर्वीत्यादि अभिलापकार्यं यपन्तु तथैवेति उक्तानुसंगमतेनाथनोपनिधिकी कालानुपूर्वी इदानीं प्रागु

पडुच्य नत्यत्रत्तर भागभाव अप्पानइचेय जहाखेत्ताणुपूर्वीय तहाभाणिअब्बाइ जावसेतअणुगमेसेत नेगमववहाराण  
 अणोवनिहिअकालाणुपूर्वी सेकित सगहस्रअणोवनिहिअ कालाणुपूर्वीइ पचविहापयत्ता तजहा अट्टपयपरूवणया  
 भगससुकित्तणया भगोवटसणया समोतारे अणुगमे सेकित सगहस्र अट्टपयपरूवणयाएअट्टपचविदाराइ जहाखेत्ता  
 णुपूर्वी सगहस्र तहाकालाणु०एवि माणियअब्बाइ खवर ठिइ अभिलावो जावसेतं अणुगमे सेतसगहस्र अणोवनिहि

अज्ञानलाभे तेभणी भागपूर्वीं द्रव्यनो असखयात गुण पणो अने अनेरा विद्धनो असंख्यातमा भागवर्त्ती पणो जाणवो एतले भागहार याल्यो ७ अथ  
 भावहारो सादि पारिणामिक भाववर्त्ती पणो विद्धने पूर्व्वी परे काणवो ८ अथ अल्पपङ्कलहारो सर्वशोस अवश्यक जेभणी अवकाव्यक द्रव्य स्वभावयो  
 जेथोडाखे तेयी अज्ञानपूर्वीं द्रव्य विशेषाधिकखे स्वभावयीज हिसमयस्थितिक द्रव्ययो एक समयस्थितिक द्रव्ययो विशेषाधिक जाणवा बीजोहेतुदीसतो  
 तथी अने भागपूर्वींनो विद्धयी असखयात गुण पणो भागदारने विषे भाव्योखळे शेष संवत्तेतानुपूर्वींषत् एतवाभणी केतला एक याचनाने विषे भागादि  
 तिच्छिहार क्षेत्रानुपूर्वींनेजभोलायादींसेखे विशेषयी विद्या नथी ९ सेत निगमन एतले नेगम व्यवहार मयनेमते अनौपनिधिकी कालानुपूर्वीं यपाणी

उपरिमाणं स्यरिखलुङ्गंति कोडिलखाउ छप्यणं च सहस्रा बोधवासाकोडीणं स्थापना ७५६०००००००० इदमपि चतुरशीत्यालक्षैर्गुणितं लुटि  
 तांगं भवति २१ एतदपि चतुरशीत्यालक्षैर्गुणितं लुटितं भवति २२ तदपिचतुरशीत्यालक्षैर्गुणितमटांगं २३ एतदपितेनैवगुणकारेण गुणितमटा २४  
 एवं सर्वतपूर्वः पूर्वोराशिचतुरशीति खचस्वरूपेणगुणकारेण गुणित उत्तरोत्तरराशिरूपतां प्रतिपद्यत इति प्रतिपत्तय्यं ततश्च अक्वांगं २५ अक्व २६ ह्रस्व  
 कांगं२७ ऊङ्कं२८ उत्पलांगं२९ उत्पलं३० पद्मांगं३१ पद्मं३२ नलिनांगं३३ नलिनं३४ अर्थनिपूरांगं ३५ अर्थनिपूरं३६ अयुतांगं३७ अयुतं ३८ नयुतांगं३९  
 नयुतं ४० प्रयुतांगं ४१ प्रयुतं ४२ चूलिकांगं ४३ चूलिका ४४ शीर्षप्रहेलिकांगं ४५ एवमेतेराशयश्चतुरशीतिलक्ष स्वरूपेण गुणकारेण यथोत्तरं वृद्धाच्च

चूलिआ सौसपहेलिअंगे सौसपहेलिआ पलिउवमे सागरोवमे अवसप्पिणो उवसप्पिणो पोगलपरिअट्टि अतीतद्वा  
 अणागतद्वा सबद्वा सेतंपुक्काणु० सेकिंतं पच्छाणु०२ सबद्वा अणागतद्वा जावसमए सेतंपत्थाणु० सेकिंतं अणाणु०२ एआ

माणं स्यरिखलुङ्गंति कोडिलखाउ छप्यणं चसहस्रा बोधवासा कोडीणं ११९ एवली चउरासी लक्ष गुणा करीये तो तटिताग २० तेवली चौरासी  
 लक्ष गुणो करीये तो लुटित २१ एवं सर्वत पूर्वलो राशि चौरासी २ लापने गुणाकारे गुण्युक्तो भागलि २ राशिरूप पणो पामे इम अडडांग २२  
 अडडर३ अवाग २४ अक्व २५ ऊङ्कांग २६ ऊङ्क २७ उत्पलाग २८ उत्पल ३० पद्म ३१ नलिनाग ३२ नलिन ३३ अर्थ निपूरांग ३४  
 अर्थ निपूर ३५ अयुताग ३७ अयुत ३८ प्रयुताग ४० प्रयुत ४१ चूलिकांग ४२ चूलिका ४३ शीर्ष प्रहेलिकांग ४४ एवं एराशि सर्व चौरासी लापने  
 गुणाकारे अनुक्रमे वाध्या जाणवा तांलगे शीर्ष प्रहेलिकांग चौरासी लाख गुणो करीये तिवारे शीर्ष प्रहेलिका ऊइ ४५ एहनौस्वरूप आकथी पणि

द्रुत्या सापद्यायति-मेवगीर्षप्रहेलिकाग चर्तु रयीत्यावद्यैर्गु णित गीर्षप्रहेलिका भवति ४६ अथा स्वरूपमकतोपिदृश्यं ते ०५८२६२२२५३००३ १०२५११  
 ५०८०३५६८८०५६८१८०६२१८८६६८४८०८०१८२२२६ अग्रे सत्वारिग न्यून्यत १४० तदेव गीर्षप्रहेलिकायां सर्वाण्यव्यनि चतुर्ण्यवत्यधिक्यतसख्याव्य फ  
 व्यागानि भवति अनेनैवैतावताकालमानेन केयांचिद्रन्तप्रभानारकाणां भवनपतित्य तरसुराणां सुपमदुपमारकसभविनानरतिरश्चां च यथासमयमायू  
 मीयते एताभ्यासुपरताविसाण्ये य कालोऽसि किलनतियथिना अस्यव्यवहार्यत्याखर्पपाद्युपमयात्रै च यस्यमाणत्वाच्चनेकोक्त कि तदुपमामालप्रतिपादितानिप

एचेव एगाद्राए एगुत्तन्त्रिआए अणतगच्छगयाए सेदौए अणमसुभ्भासो दुरूवणौ सेत अणानुपुब्बो अहवा उवनि  
 हिआ कालानुपुब्बो तिरिहा पणत्ता तजहा पुब्बानुपुब्बो पच्छानुपुब्बो अणानुपुब्बो सेकित पुब्बानुपुब्बो २ एग ससय  
 ठिइए दुमसयठिईए तिसमयठिइए जावदससमयठिइए सखिज्जसमयठिइए असखिज्जसमयठिइए सेत पुब्बानुपुब्बो  
 सेकित पत्यानुपुब्बो २ असखिज्जसमयठिइए जावएगसमयठिइए सेत पच्छानुपुब्बो सेकित अणानुपुब्बो २ एआए

देणाडीये से ०५८२६२२२५३००३ १०२४ १५०८०३५८८०५६ ६४४ ६८१८२६६८४८०८०१८३२८६ एकोएण भाक० तेभागल एकसो चालीस १४०  
 गुन्य मीडा जाणथा तेदुग गीर्षि प्रहेलिकाने विपे सर्वे एक सौषौराणो १८४ आंकस्थानक याद एणे एतले कालमाने करी केतला एकरत्नप्रभानार  
 कीना अने भवनपति य तरना अनेसुखम दु घमाराना जपना मनुव्य तिर्यचना यथा समय शाउवागणिये एतला उपरात पणि सख्यातो कालजे परते  
 अणतिगयीने व्ययचारे प्रपत्ते नचो तेभणी तथा सरिसवादिक्की योपमा इहा जवोलीसे तेभणी इहां नथो बोल्या तो किस्सो कस्यो योपमामाले मोल

अनुशासितस्य सापद्यायति

०५८२६२२२५३००३ १०२५११ ०५८२६२२२५३००३ १०२४ १५०८०३५८८०५६ ६४४ ६८१८२६६८४८०८०१८३२८६ एकोएण भाक० तेभागल एकसो चालीस १४०

ल्योपमादीन्ये च तत्र पत्योपमसागरोपमेऽत्रैववक्ष्यमाणस्वरूपदेशसागरोपमकोटा कोटिमानात्ववसर्पिणी शी तावन्मानैवोत्सर्पिणी शी अनंतात्सर्पिण्यः पुत्रल परावर्तः अणंताशो अतीताहा तावन्मानैवानागताहा अतीतानागतवर्तमानकालस्वरूपा सर्वद्वैत्येपापूर्वानुपूर्वी शेषभावनातुपूर्वोक्तागुसारतः सकरेव यावत्कालानुपूर्वी समाप्ताः साप्रतं प्रागुद्दिष्टासैवोक्तीर्त्तानानुपूर्वी विभक्तिपुराह सेकितमित्यादि उक्तीर्त्तनं संशब्दसभिधानोच्चारनं तस्यानुपूर्वी अनुपरिपाटिः सापूर्वानुपूर्वार्थादिभेदेन विविधा तत्र ऋषयः प्रथमसुत्वन्त्वात्पूर्वसुक्तीर्त्तने अनंतरक्रमेण अजितादय इति पूर्वानुपूर्वी शेषभावनापूर्ववदत्वाह नमुत्पनिधि

चेव एगाद्वाए एगुत्तरिच्चाए असंखिज्जगच्छगयाए सेढीए अणभस्मभासो दुरुवूणो सेतं अणानुपूर्वो सेतं उव निहिच्चा कालानुपूर्वो सेतं कालानुपूर्वो सेकितं उक्त्तिगणानुपूर्वो २ तिविहा पसत्ता तंजहा पुञ्जानुपूर्वो पच्छानु

बाथेय्य पत्योपमादिकज कश्चिये तिहा पत्योपम अनेसागरोपमनो स्वरूप दृष्टांज योक्तीस्ये तथादससागरोपम कोटाकोटि मान अवसर्पिणी कश्चिये अने तेतलाज माननी उत्सर्पणीकश्चिये अनंती अवसर्पिणी उत्सर्पिणीये करी एकपुत्रल परावर्तकाल कश्चिये अनेतेणे अनंते पुत्रल परावर्तकरी अतीताहा अतीतकाल कश्चिये अनेतेतलाज माननी अनागताहा अनागतकाल कश्चिये अतीतअनागतवर्तमान स्वरूपसर्वाद्वा सर्वकालकश्चिये शेषपूर्ववत् सेतंतेए उप निधिकीकालानुपूर्वी सेतंतेएकालानुपूर्वी एतलेकालानुपूर्वीसमाप्ता शिये पूर्वोद्दिष्ट उतकीर्त्तनानुपूर्वीकश्चि सेकितं अथकिमीते उतकीर्त्तनानुपूर्वीउत्तर तिहा उतकीर्त्तन कहतां नामनो जचरवो तेहनी आनुपूर्वी तिळ' प्रकारे प्ररूपी शेषं सुगम तिहा श्री रुधभदेव प्रथम उपनायी पूर्वं उक्तीर्त्तयि पछेअनुक्रमे श्रीअजितादिक उक्तीर्त्ति इ इति पूर्वानुपूर्वी शेषं पूर्ववत् इहा शिष्य पूछेहे भगवन् उपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वीनो अने एहनो किमो भेद एव बोल्या तिहा

स्याद्रथ्यानुपूर्व्यां अस्याषकोभेद उच्यते तत्र द्रव्यानां विन्यासमात्रमेव पूर्व्यादिभाषेन स्थितितमत्र त तेषामेष तथेवोक्तोक्तं न क्षियत इत्येतावन्भाषेण भेद इति भवत्येव किं वाध्यशस्य प्रसृतत्वावुक्तोक्तं नमपिसामायिकाद्युच्ययनानामेवमुक्त किमित्यप्रकाशानारिपभादीनां तद्विहितमिति सत्य किं त सर्वव्यापक प्रसूनगाम्त्रमिथाशिवेवोक्त तद्दुर्गनाद्येवपभादि सूत्रान्तरापादान भगवतांच तीर्थप्रणीतत्वात्तत्करणस्य समस्येय फलकन्यपादपत्नाद्युक्त तानामोक्तो

पृथ्वी अथानुपूर्व्यो सेकित पृथ्वानुपूर्व्यो २ असमेअत्रिए सभवे अभिणदणे सुभती पलमप्यहे सुपासे चदप्यहे सुवि  
हो सो तले सेज्जसे वासुयुज्जेविमले अणते धम्मे सति कुपु अर मल्लि सुणिसुवते नमी अरिठणेमि पासे वद्धमाणे

द्रव्यानुपूर्वान विषे रचनानामात्रज द्रव्यने पृथ्वानुपूर्व्यादिक भाषविषयास्यो अने इहां तो तेवज द्रव्येनो उत्तकीर्त्तन करोये एतलो भेद जाणवो एतजे तिहां द्रव्यनी स्थापनामात्रनी प्रधान पणो विषय्यो परनामाञ्चारनो प्रधान पणो नही अने इहां तो नि केवलनामोञ्चारनो प्रधान पणो जाणवो बलो यिय्य बाल्यो एइमज इइ पर इहां आशय्यकनाप्रारभयो उत्कीर्त्तन पणि सामायिकादिक आध्ययननो युक्तयो इहां अधिनार विना श्रीशुपभादिकनो उत्तकीर्त्तने प्रयापनको कस्यो गुर वोल्यो एसत्य पर एगाल प्रारस्योहे तेसर्व व्यापकले इम प्रारभता कस्यो जच्छतो तेसर्व व्यापकपणो देव्याडिवा भणो ऋपभादिक सुवातरनो ग्रहण कस्यो अने भगवतने तीयना प्ररूपक पणायी तथा तेहना खेएने समस्त बाळित प्रकना कल्प उच्यपणायी तेहनो उत्तकीर्त्तन करयो युक्त इहां उपलक्षण पणायी अनेरे ठामे पणि इम जाणवो सेत ते उत्तकीर्त्तनानुपूर्वी एतले उत्तकीर्त्तनानुपूर्वी कडिये षिवे पूर्वोद्दिष्टगणना अनुपूर्वी कहेहे सेकित अय किसी तेगणानुपूर्वी उत्तर तिहां एणवो कहतां सल्यानो करवो एक वेवियणि प्यारि प्राप इत्यादि तेहनी

नानं तद्विषयत्वेनोक्तसुपक्षणात्तादव्यतापि द्रष्टव्यमितियेषं भावितार्थं यावत्स्येतमित्यादि निगमनं 'इदानीं पूर्वोद्दिष्टाभेवगणानानुपूर्वीमाह सेकितमित्यादि गणानं परिसंस्थानं एकद्विवीणि चत्वारि इत्यादि तस्य आनुपूर्वी परिपाटिगणानानुपूर्वी अलोपलक्षणमातसुदाहृतं माह एगेत्यादि सुगमं उपलक्षणमात्रं चेदमतोऽप्येपि संभविनः संख्या प्रकारा अत्र द्रष्टव्याः उत्कीर्तनानुपूर्वी नाममातोत्कीर्तनमेव कृतं अतत्वे कादि संख्याभिधानमितिभेदः सेतमित्यादि

**सेतं पुञ्जानुपूर्वी सेकितं पञ्चानुपूर्वी २ वद्वमाणे जावउसभे सेतं पञ्चानुपूर्वी २ एत्राएचैव**

आनुपूर्वी तेगणानुपूर्वी शेषं सुगम इहा उपलक्षणमात्र उदाहरणरूप कहेके एगे इत्यादि सुगम ए उपलक्षणमात्र जाणवु तेभणी अनेरा परिण संभवता संस्थाना प्रकार इहां जांणवा तथा उत्कीर्तनानुपूर्वीनिषेधे नाममातोत्कीर्तनज कखो अने इहा एकादिकनी संस्थानो वोलवो कखो एतलो विशेष सेतं तेए गणानुपूर्वी अ । पूर्वोद्दिष्ट संस्थानानुपूर्वी कहेके सेकितं अथ किसी तेसंस्थानानुपूर्वी उत्तर तिहां संस्थानानुपूर्वी कहिये आकारना विशेष तेसंस्थान जीवाजीव संबंधी पणाथी बिडुं भेदे ऊइ तिहां एजीव संबंधीया जाणवा तिहां वली पंचेन्द्रिय संबंधीया जाणवा अनेराना नही शेष सुगमं तिहा समी शास्त्रोक्त रूप चिडु दिशिनी अत्रि कहिये अवयव रूपहासिछे जेहने विषे तेसम चतुरत्र कहिये इहां समासत अत्यत्यययाणतां शब्द निष्पत्ति ऊइ तेसम चतुरस्य संस्थान तुल्यारोह परिणाह संपूर्णलक्षणोपेत अंगोपांग अवयव जेपुरूपना ऊइ अने आपणे आगुले एक सो चाठ आगुलनाउंच पणा संयुक्त जेऊइ एतले सर्व संस्थान पंचेन्द्रिय जीवन शरीरनो आकार विशेष इत्यर्थं तथानाभि ऊपरिनिशोधनी परे मंडल कहिये प्रथम संस्थानना लक्षणने युक्त पणे करी विशिष्ट आकार जेहनो तेनिगोध मंडल कहिये वडवट्ट जिम तेऊपरिवाटला आकारादिक अनेक गुण सहित पणे करी विशिष्टाकार ऊइ तिमज एसंस्थान परिण जाणवो एभाव तथा आदि कहतां नाभिथी अधसनकय रूप तेहित जेवत्तं तेसादि कहिये इहा

जिगमन अथप्रागुद्दिष्टोमेवसस्थानानुपूर्वोमात्रं सेवितमित्यादि आह्वानादि विशेषेण सस्थानानि तानि च जीवाजीय सवधित्वेन द्विधा भवति तत्रैव जीयसव धिनी तथापि पपद्रिय सवधिनी वक्तुमिदन्नेतदाश्च समचउरसेत्यादि तत्र समशाश्लोक लक्षणविसयादिन्यत्रादिग्वर्तिन्य सवधवक्रपाचतन्वोऽस्तुयो

एगाद्ग्राए एगुत्तरिआए चउवोसगच्छगयाए सेढोए अणमण म्भासो दुखूयणो सेत अणानुपुब्बो सेत उक्खित्तणा गुपुब्बो सेकित गणणानुपुब्बो १ तिविहा पखत्ता तजहा पुब्बानुपुब्बो पत्याणुपुब्बो अणानुपुब्बो १ एगो दस सत सहस्स दससहस्साद् सतसहस्स दस सतसहस्साद् कोडो दसकोडिओ कोडिसय दसकोडिसयाद् सेत पुब्बानुपुब्बो सेकित पत्याणुपुब्बो १ दसकोडि सहस्साद् जावएको सेत पत्याणुपुब्बो सेकित अणानुपुब्बो २ एआएचैय एगाद्ग्राए एगुत्तरिआए दस कोडिसतगत्यगयाए सेढोए अन्नमन्नभासो दुखूयणो सेत अणानुपुब्बो अणानुपुब्बो गणनानुपुब्बो सेकित सठानानुपुब्बो १ तिविहा पखत्ता तजहा पुब्बानुपुब्बो पत्याणुपुब्बो अणानुपुब्बो

प्रेरणा सस्थानतो सर्वभादि सचित्तवत्ते तेभणीसादि पणानो विशेषण निरर्थकदीचेहे उत्तर यद्यपि एसत्य तथापि जेभणी विशेषणत्त विपुल पणी याद् तेभणी भाद्य सस्थानने लक्षणे करो युक्तज भादिक ग्रहीये अनेरो नही तेभणी तथा भू आदि सचित्त जेवत्ते तेसादि कश्चिये एतले नाभि उपरलोदेशे आद्य रस्थानना लक्षण रचित जाणवो एभाष तथा जिहा दोनु पग गिरगलो सपूर्ण लक्षण परिपूर्ण छद् अनेगेवदय उदर पूठि च रकोठो लक्षणणीत्त छद् तेरने कुभ कश्चिये अने जिहा अदय उदर पूठ एसर्व लक्षणो पेत ङद् अनेगेप सर्वलक्षणहीन छद् तेयाम्ना कश्चिये कुभ विपरीत

सुविशेषात्तस्य सवधित्वेन द्विधा भवति तत्रैव जीयसव धिनी तथापि पपद्रिय सवधिनी वक्तुमिदन्नेतदाश्च समचउरसेत्यादि तत्र समशाश्लोक लक्षणविसयादिन्यत्रादिग्वर्तिन्य सवधवक्रपाचतन्वोऽस्तुयो



यत्र तत्प्रमासातात्प्रत्यये समचतुरस्रं संस्थानं तुल्यारोहेपरिष्कारः संपूर्णलक्षणोपितागोपागावयवाः स्वांगुलाष्टाधिक शतोल्ययः सर्वसंस्थान प्रधानः पंचे  
द्वित्रय जीवशरीरकोरविशेष इत्यर्थः १ नाभेरूपरित्यश्रोत्रवन्मंडलं आद्य संस्थानलक्षणयुक्तत्वे न विशिष्टकारंन्यश्रोत्रमंडलं न्यश्रोत्रोषोषवटद्वयः यथाषाद्यसुपरिदृष्टा  
कारतादिगुणोपेतत्वे न विशिष्टाकारो भवत्यवस्तुनतथा एवमेतदपीति भावः २ सह आदिमानाभेरधस्त्रानकाय लक्षणेन वर्त्तते इति सादिनस्तु सर्वमपि सं  
स्थानं आदिना सहैव वर्त्तते ततो निरर्थकं सादित्व विशेषणं सत्यं किंततएवविशेषणवैकल्य प्रसंगादाद्यसंस्थानलक्षण युक्त आदिरिहगृह्यते ततस्तथा  
भूतेन आदिना सह यद्वर्त्तते नाभेरूपरितनकाये आद्यसंस्थानलक्षणविकलं तत्सादौति तात्पर्यं ३ यत्र पाणिपादशिशोश्रोत्रं समग्रलक्षणपरिपूर्णं शेषं तु  
हृदयोदरदृष्टलक्षणं कोष्ठलक्षणं हीनं तत् कुम्भं ४ यत्र तु हृदयोदरदृष्टं सर्वलक्षणोपेतं शेषं तु हीनलक्षणं तद्भ्रामनं कुम्भविपरीतमित्यर्थः यत्र सर्ववयववाः

सेकिंतं पुष्पाणुपुष्बी १ समचतुरस्रे निश्रोत्रमंडले सादौ खुञ्जे वामणे ऊँडे सेतं पुष्पाणुपुष्बी सेकिंतं प्रत्याणुपुष्बी  
१ ऊँडे जावसमचवरंसे सेतं प्रत्याणुपुष्बी सेकिंतं अणुपुष्बी १ एत्राएचेव एगाइआए एगुत्तरिआए क्कगच्छ  
गयाए सेढीए अन्नमन्नभासो दुखूवणो सेतं अणुपुष्बी सेतं संठाणुपुष्बी सेकिंतं सामाथारो आणुपुष्बी १

इत्यर्थं तथा तिहा सर्वं अवयव लक्षण रहित छद्म तेऊँड कहिये इहा सर्वमाँहे प्रधान पयाथी समचतुरस्रनो प्रथम ग्रहण कस्यो अनेशेष संस्थानने  
यथानुक्रमे हीनपयाथी द्वितीयादिकपणो जाणवो इम पूर्वानुपूर्वी पणो याइ शेषं पूर्ववत् इहां शिष्यमेरेछे भगवन् जोइमसंस्थानानुपूर्वी कहीये तो  
संइननवर्णगंधरसस्पर्शादिकनी आनुपूर्वी पणि वोलवीयुक्त ऊइ अने तेहने पणि आनुपूर्वी बोलता आनुपूर्वीज एतलो एहवी संख्याविघटे तेभणो पूर्वोक्त

प्रायो लक्षणविसर्वादिन एव भवति तत्त्वस्यान ऊडमिति ६ अत्र च सर्वप्रधान्येत्वात्प्रसवचतुरस्रस्य च प्रथमतः शेषाणां तु यथा क्रम हीनत्वादुद्धृतीयादित्त्वमिति पूर्वानुपूर्व्यात् शेषभावनानुपूर्ववदिति आह यदीत्य सस्यानानुपूर्वो मोच्यते तर्हि सप्तनवर्णरसस्यर्गानुपूर्वोपि यक्तव्या स्यु स्यापच सस्यानुपूर्वीणामते य विगीर्यने ततो निष्कलएव प्रागुपन्यसो दग्गवित्त सख्यानियम इति सत्य किन्तु सवांसामपि तासां यक्तमशक्यत्वादुपलक्षणमात्रमेवाय सख्यानियम एतदनुसारेणान्या अप्येता अतुसर्गव्या इति तावद्वचयाम सुधियेत्वात्तयार्थपि याप्य गम्भीरत्वात् परममुनिप्रणीतसूत्रविषयाया एवमुक्तत्वापि याप्यमित्यस्य विशारस्य सामासार्थानुपूर्व विषयानुराग सेकितमित्यादि तत्र समाचरण समाचार शिष्टजनानाचरित क्रियाकलापसस्य भाग इति यएप्रत्ययेस्त्रियामी

तिविहा पणत्ता तजहा पुव्याणुपुव्वी पत्याणुपुव्वी अणानुपुव्वी १ इच्छामित्यातहकारो  
 चावस्त्रिअय निसोहिआ आपुच्छणाय पडिपुच्छा छेदणायनि मतणा उवसपयाय कालेसामायारोभवे दसविहा सेत

द्वयप्रकारसख्यानो नियमनिष्कलजाणवो गुरुबोल्या वद्यपि एसत्य तथापि सगली तेषानुपूर्वी बोलीन जाइ तेभणी उपलक्षणमातज एसख्यानियम जाणवो एतले एवने अमुसारे अनेरी पणि आनुपूर्वी जाणवी सेत ते एसख्यानानुपूर्वी कहेहे सेकित अय किधी तेसमाचारी आनुपूर्वां उत्तर तिशां समाचरतु तेसमाचार कशीये एतले प्रधानजनाचरित क्रियाकलाप तेसमाचारनु जेभाव इम भावे यणप्रत्यय आणीने पळे स्त्रीलिंगे इप्रप्रत्ययदेइने समाचारी एषु गन्दनीपजे तेसमाचारी त्रिविध तिशां ओघनिर्मुक्तकथितार्थरूप ओघसमाचारी । तथा इच्छामिच्छादिक अर्धने विपे दग्गधा समाचारी २ तथा निर्गीय अने हकल्यादिकने विपे बोली जेप्रायद्विज्जपदविभाग विपे तेपदविभाग समाचारी कशीये उत्त च

सिद्धयन्तान्तेषां स्यात्कालेनानुपूर्ववत्

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

कारेच सामाचारी साच तिविधा उ'धनियुक्तभिहितार्थरूपा उ'धसमाचारी । इच्छामित्याद्यर्थविषयादयथा समाचारी २ निगीयकत्वान्नाद्यभिहितप्रायश्चित्त  
पदविभागविषया पदविभागसामाचारी ३ उक्तंच सामायारीतिविहा ओहे दसहापयविभागेति तत्रे च दशधासामाचारीमात्रित्योक्तं इत्याभिलातच  
कारो इत्यादि अत्र कारशब्दप्रत्येकमभिसम्बन्धते ततश्चेषणमित्याविवक्षित क्रियाप्रवृत्त्यभ्युपगमस्यया कारणमित्याकारः साध्यावलाभियोगरहितो व्यापार  
इत्यर्थः । मिथ्या असदेतदमया अरितमित्येवं कारणं मिथ्याकार अकृत्येकस्मिंश्चित्कृते मिथ्यावितथमिदं मपुनर्थथाभगवद्भिरुक्तं तत्तथैवेतन्मञ्चेष्टितमतो  
दुःकृतं इराचाणं इत्येवमसत्क्रियानिष्ठस्यभ्युपगमो मिथ्याकार इति तात्पर्यं २ सूत्रव्याख्यानादौ प्रस्तुते गुरुभिः कस्मिंश्चित्तपस्युदीरिते सति यथा भवन्तः  
प्रतिपादयन्ति तथैवेतदित्येवं कारणं तथाकारः अविकल्पप्रगुर्वाज्ञाभ्युपगमइत्यर्थः ३ अवश्यकर्तव्यमावश्यकं तत्र भवा आवश्यकी ज्ञानाद्यालंबनेनोपाश्रयात्

पुष्पाणुपुष्बी सेकितं पत्याणुपुष्बी १ उवसंपया जाव इच्छागारो सेतं पत्याणुपुष्बी १ एआएचव

समाचारी तिविहा उ'हेदसहापदविभागोति तिहां एदसधा समाचारी आश्री कस्यो इच्छामिच्छातत्कारो इहां कारए गृह्प्रत्येक २ पदने सेलीये  
तिहां ईश्वरं तेइच्छाविवक्षितक्रियाबी प्रवृत्ति नोमानवुं तेषे करी जेकरवुं तेइच्छाकारकहीये एतले आज्ञा वलाभियोग रहित व्यापार इत्यर्थः १  
तथा मिथ्याकहता भूडो एजेमइ समाचर्यो इमजे करवुं तेमिथ्याकारकहीये एतले किये एके अकार्ये कस्यइइइ'तेमिथ्या अयुक्त एसे समाचार्यं, अर  
त्यसमाचर्यो परं जिम पूज्ये कस्यो ऊंतो तिम समाचर्यं, मही तेमणी एदुःकृतदुराचीर्णं इम जेभूडो कियानी वृत्तितो आदरउं तेमिथ्याकारकहीये  
एभाव २ तथा सूत्र व्याख्यानादिककरते गुरुइ' जे काई वचनोले ऊं'ते जिम पूज्यकहेऊं एतिमज इमज करवुं तेतथाकार कहीये मननोपोडो विक  
ल्पटाली गुरुनी आज्ञानो मानवो इत्यर्थः ३ तथा अवश्यकरवो तेपावश्यक कहीये ते अवश्यकर्तव्यने विषे जेक्रिया ऊइ ते पावश्यक कहीये एतले

वहिरस्य गमने समुपस्थिते अपश्य कर्त्तव्यमिदमतो गच्छाम्यहमित्येव गुर प्रति नियेदना आशय्यतीति इदं ४ नियेषे भवानेपेधिकी उपाययाहृदि कर्त्तव्यापारेष्ववसितेषु पुनस्तैव प्रविशत साधो शेषसाधूना सुत्रासादिदोषपरि जिघृष्यावद्विषयापर नियेषे नोपायय मयेशसचनेपेधिकीति पर मार्ग ५ भदत करोमी तदमित्येव गुरो प्रच्छन्नमाप्रच्छना ६ एकदा इष्टेन गुरणानिद कर्त्तव्यमेव निपिदस्य विनियस्य किञ्चिद्विलय्य ततयेद चेदकारणम मयतो यदि पूज्या आदियन्ति तदा करोमीति एव गुरो पुन प्रच्छन्न प्रतिप्रच्छन्ना अथवा ग्रामादौ मेपितस्य गमनकाले पुन प्रच्छन्न प्रतिप्रच्छन्ना ७ अष्टषट्सवरण इत्यस्थानिकार्यत्वात् कुर समानुग्रह परिभुष्ये इमित्येव पूर्वानीताशनादि परिभोगविषये साधूनामुत्पाहनाच्छन्दना ८ इद वस्तु कथा ततो इतस्य दास्यामोत्येवमद्याप्यदधीते नाग्रनादिना साधूनामामन्त्रण निमन्त्रणा उत्तम पुञ्जगृहण च्छदण निमतणाशोर्दं अगृहणति ९ त्वदीयोहमि

एगाइत्राए एगुत्तरिआए दसगच्छगयाए सेतीए अन्नमन्नभासो दुग्बूणो सेत अणाणुपुञ्जी सेत सामायारी

ज्ञानादिक आलवने करी उपायययी वाहिर अवयुगमन ऊपने छते एमे अवयु करयो एतला भखी जाठ छु इम गुरप्रते निवेदनु ते आशय्यकी कषीये एभाव ४ तथा नियेषने विषे जेक्रिया छद् तेनियेधिकी कश्चिये उपायययी वाहिरजे कार्य्छ तो तेचने नियेषवे करी उपाययने विषे प्रयेग नो जेजणावु ते नियेषकी कश्चिये ए परमार्थ ५ तथा हेभदत ए इम करू छु इम जेगुरने पूखयो ते आशछना कश्चिये ६ एकवार गुरने पूख्ये छ ते जेएइम न करु इम नियेष्ये छ ते शिय्यकिश्चिक्काकिलिनीने वली गुरने इम कहे पूज्य इष्ठा एशु कारण्छे तेभणी जो पूज्य आन्नादीये तो एकार्यक इम गुरने वली पूख्यु तेप्रतिरछना कषीये अथवा ग्रामादिकने बिये मोकल्यो छ तो गमनवेनाद् वली गुरने पूखयो तेप्रतिरच्छना कश्चिये तथा अदषट् सवरणे इसाथाटने अनेकार्य पणायी इम अर्थ करवो सुक ऊपर अनुग्रह कस्यो ए अयनादिक भोगवो इम पूर्वला आश्या अयनादिकना

१२३४५६७८९१०१११२१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०३१३२३३३४३५३६३७३८३९४०४१४२४३४४४५४६४७४८४९५०५१५२५३५४५५५६५७५८५९६०६१६२६३६४६५६६६७६८६९७०७१७२७३७४७५७६७७७८७९८०८१८२८३८४८५८६८७८८८९९०९१९२९३९४९५९६९७९८९९

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९

त्येवं श्रुताद्यर्थमन्यदीय सत्ताभ्यु उपगम उपसम्पदिति १० एवं दशप्रकाराः कालो यथा स्वं प्रस्ताये विधीयमाना दयविधा समाचारीति गार्थार्थः इह धम्म  
 स्थापरे प्रतापसूत्रादिच्छाकारस्याज्ञा वलाभियोगे लक्षणपरोपताप वर्त्तकत्वात्प्राधान्यात्प्रथममुपन्यासः अपरोपतापकेनापि कथंचित् सूत्रलेने मिय्या  
 दुःकृतं दातव्यमिति तदनन्तरं मिथ्याकारस्य एतौ च गुरुवचनप्रतिपत्तावेव ज्ञातुं यत्क्यो गुरुवचनं तथाकारकरणेनैव सम्यक् प्रतिपन्नं भवतीति तदनन्तरं  
 तथाकारस्य प्रतिपन्नगुरुवचनेन चोपाश्रयाहृदि निर्गच्छता गुरुपृच्छा पूर्वकं निर्गतव्यमिति तथाकारानन्तरं तरपृच्छारूपा आवशकवह्निर्निर्गतेन च नैपे  
 धिकी पूर्वकं पुनः प्रविष्टव्यमिति तदनन्तरं नैपेधिय्या उपश्रय प्रविष्टेन च गुरुमापृच्छा सकलमनुष्ठेयमिति तदनन्तरमाप्रच्छन्नायाः आपृष्टे च निपेष्टेन  
 पुनः पृष्टव्यमिति तदनन्तरं प्रति प्रच्छन्नायाः प्रतिप्रश्ने चाशुश्रूतेनाश्रनाद्यानीय तत्परिभोगय साधव उक्ताहनीया इति तदनन्तरं च्छन्दनायाः एपा च

### आणुपुब्बो सेकिंतं भावाणुपुब्बो २ तिविहा पणत्ता तंजहा पुब्बाणुपुब्बो पच्छाणुपुब्बो अणुणुपुब्बो सेकिंतं पुब्बाणुपुब्बो २

पर भोगने विपे साधुने आमंतवुं ते छन्दना कहीये ८ तथा ए वल्लपणीने तुल्ल निन्दसे इम अणलाधे अयना द्विके करी साधुने आमंतवुं ते निम  
 न्तणा कहीये उक्तञ्च पुब्बागहीयेणच्छन्दण निमन्तणाहोइअग्रही एणं ९ तथाउं तुल्लारुक्खुं इम श्रुतादिकने अर्थे आपणने पर संबधीनुं  
 कारिणुं ते उपसंपदा कहीये १० एवं ए दश प्रकारनी समाचारी काले ऋहता आपा पणा प्रस्तावने विपे करतां ऊती दयविधि सामाचारी ऊइ इति  
 गार्थार्थः इहां धर्मभो ए मूल जे कोई जीवने पर तापनान थाइ ते भणी आत्ता अने वलाभियोग रूप पर तापनावर्जवा थी प्रधान पणायी इच्छाजारतु,  
 प्रथमग्रहणकस्यो १ तथा परने अणपीडवणहारे पणि कदाधिदूषण लागे ऊंते मिय्या दुःकृतदेवुं तेभणी ते उपरांत तेमिय्या कारनो ग्रहण कस्यो  
 तथा एविऊं गुरु वचन मान्ये ऊते जाणी ,सकीइं अने ते गुरुवचन ते तथा कारने करवे ज आदस्यो ऊइ ते भणी तदनन्तर तथा कारतुं ग्रहण ३

दृश्यते एवायनादौ स्याददृश्यते तु निमन्त्रणैवेति तदभतर निमन्त्रणाया इय च सर्वोपि निमन्त्रणापर्यता सामाचारी गुरुपसपदमन्त्रेण न श्रायत इति तदन्तरसुपसपद उपन्यास इति पूर्वोक्तपूर्वोक्तसिद्धि रितियेव पूर्ववदिति अथ भाषागुरुर्वीनाञ्च सेकितमित्यादि इह तेन रूपेण भवनानि भावा वस्तुपरिणामविशेषा औदयिकादय अयवा, तेनर रूपेण भवन्तीति भावा एएष यद्वा भवन्ति ते तेभ्यशेषु या सरुष्ट प्राणिनकोन २ रूपेणेति भाषा वयोक्ता एष तेयमातृपूर्वपरिपाटिर्भाषागुरुर्वी औदयिकादीनां तु स्वरूप पुरस्तात्त्वेषु वक्ष्यते अत्र च नारकादिगतिरोदयिका भाव इति वक्ष्यते तस्यां च सत्यां येष

उदईए उवसमिए खुइए खउवसमिए पारिणामिए सनिवाइए सेत पुव्वाणुपुव्वी सेकित पत्याणुपुव्वी २ सनिवाइए जावउदईए सेत पच्छाणुपुव्वी सेकित अण्णाणुपुव्वी २ एआए चैव एगाइआए एगुत्तरिआए छगच्छगयाए सेटीए अन्न

तथा गुरुवसने मानणशरे उपात्रय यी बाहिर नौकलते गुरुने पूरने नौकलतु ते भणी तदनन्तर तेरुने, एच्छारूप आवच्छकीनो ग्रहण ४ तथा बाहिर नौकल्या पक्षी नैपेधकी पूर्वक बलीपेसतु तेभणी तेपक्षी नैपेधकी यही ५ तथा उपात्रये पेठां पक्षी गुरुने पूरणीनेर सर्व अगुष्ठान करवा जेभणी पळे आ प्रच्छना यही ६ तथा पृथ्यां पक्षी निपेथ्ये इ ने बलीपूखतु ते भणी पळे एच्छनाग्रही ७ तथा प्रति मत्र कस्या पक्षी गुरे आत्रा दीधी इती अयनादिक आणीने तेरुना परभोगभणी साधुने आमन्त्रणदेतु ते भणी पळे छदना ग्रही ८ तथा पळे छदनातो पूर्वला ग्रहा अयनादिकने विपे इइ एने अणग्रह्यो तो निमन्त्रणा जे इइ ते भणी साधुने आमन्त्रणाजइइ ते भणी पळे निमन्त्रणा ग्रही ९ तथा एतला संयनिमन्त्रणा पयन्त गुरुप्रसादविना न जाणीये ते भणी पळे उपसपदा ग्रही १० एणी परे पूवागुरुपूर्वी पणे नीपनो ग्रेप पूर्ववत् सेत ते एसमाचारी आगुरुपूर्वी एतले सामाचार्यागुरुपूर्वी कशी

अनुवाचारीसु

अनुवाचारीसु

भाषाः सर्वेपि यथासम्भवं प्रादुर्भवन्तीति श्रेयभाषाधारत्वेन प्रधानत्वाद्दौ दधिकस्य प्रथकमुपन्यास सातत्र श्रेयभावपक्षकस्य मध्ये श्रेयोपगमिकः श्लोकविषयत्वात् श्लोकतया प्रतिपादयिष्यत इति तदनन्तरमीपगमिकस्य ततो बहुविषयत्वात् चाधिकस्य ततो बहुतरविषयत्वात् चायोपगमिकस्य ततो बहुतरविषयत्वात्प्रा र्थिणामिकस्य ततोप्ये पाभेय भाषानां द्विकादिसंयोगसमुत्पत्त्यात्प्रतिपातिकस्योपन्यास इति पूर्वानुपूर्विकसिद्धिरिति श्रेयं पूर्वोक्तानुसारेण भावनीयं तदेष सुक्ता प्रागुद्दिष्टा दद्याथातुपूर्वी भेदा साङ्गणनेचोपक्रम प्रथमभेदलक्षणा आनुपूर्वी समाप्ताः साभ्रतसुपक्रमस्यैव प्रागुद्दिष्टद्वितीयभेदं व्याचिख्यास्यराह सेकितं

मन्त्रभभासो दुरूवुणो सेतं अणानुपूर्वी सेतं भावानुपूर्वी सेतं आणुपूर्वी आणुपूर्व्विप्ति पदं समसं सेकितं णामे णामे दसविहे पणत्ते तंजहा एगनासे दुनासे तिनामे चउणामे पंचणामे छनामे सत्तणामे अट्टणामे नवणामे दसणामे सेकिं

त्रिये भावानुपूर्वी कहे हे सेकितं अथ किस्ती ते भावानुपूर्वी उत्तर भावानुपूर्वी इहां तेषे २ रसरूपे शोवा ते भाव कहीये एतले यस्तुना परिणामविशेष ते उदयिकादिक अथवा तेषे २ रूपे इह ते भाव कहीये परमार्थ तेहज अथवा तेहजी धयया तेषे छते आणी तेषे २ रूपे इह ते भाव कहीये ते पूर्वोक्त जजाणया ते भावनीजे आनुपूर्वी परपाटी ते भावानुपूर्वी श्रेयं सुगमं इहा उदयिकादिक भावनो स्वरूप आगलप्रत्यक्षकची स्ये तथा इहा नारकादिकगति ते उदयिक भाव कहीये इम कहीये ते नारकादिक छती ये श्रेय सर्थ भाव यया सम्भगप्रगटइह ते भणी श्रेय भाषना आङ्कारपणा छंती प्रधान पणामाटे उदयिक भाव प्रथमग्रहो तथा श्रेयभाषपक्षकमध्ये उपयमिकभाषनो विषय योडो हे ते भणी ते भाव योडो कहीये ते भणी पहे उपयमिकग्रहो तेगीचायिकत्तं घणुं विषयके तेभणी पहे चायिकग्रहो तेथी चायोपगमिकत्तं अतिघणु विषयके ते भणी पहे ते गहो तेथी परणामिकनो

नामे इत्यादि इह जीवगत आनादि पर्याय अजीवगत रूपादि पर्यायानुसारेण प्रतिवस्तुभेद नमति तदभिधायकाल्पन प्रवर्त्तत इति नामवस्त्वभिधानमित्यर्थं  
 वक्तव्य इत्यादि इह जीवगत आनादि पर्याय अजीवगत रूपादि पर्यायानुसारेण प्रतिवस्तुभेद नमति तदभिधायकाल्पन प्रवर्त्तत इति नामवस्त्वभिधानमित्यर्थं  
 वक्तव्य इत्यादि इह जीवगत आनादि पर्याय अजीवगत रूपादि पर्यायानुसारेण प्रतिवस्तुभेद नमति तदभिधायकाल्पन प्रवर्त्तत इति नामवस्त्वभिधानमित्यर्थं

त एग नामे २ नामाणि जाणि काणिश्च द्रव्याण गुणाण पञ्जवाणच तेषिं आगम निहसे नामति प्ररूवे आसिणा १  
 सेत एग नामे सेकित दुनामे २ दुविहे पखत्ते तजहा एग खरिएश्च अण्येगकारिएश्च सेकित एगखरिएश्च ही श्री. स्त्री

अत्यन्तपणो विषय छे तेभणी पखे ते ग्रहो तेथी सन्निपातकनो विषय अत्यन्त घणु छे जे भणी ते मायपूर्वोक्तभाषना द्विकादिकयोग यी ऊपजे ते भणी पखे  
 ते ग्रहो इम पूर्वानुपूर्वी नीपनी गेप पूर्ववत् सेत ते एभावावुपूर्वी ते इम पूर्वोदित दग आनुपूर्वीना भेद कल्या तेभणता उपपन्नसु आनुपूर्वीरूप प्रथमभेदयथा  
 स्यो इत्यानुपूर्वी समाप्ता । अयं उपपन्नमनोज पूर्वोदित नाना रूपद्वितीयभेदकहेछे सेकित अय कियो तेनाम उत्तरनामे इहा जीवगतज्ञानादिक पर्याय अने  
 अजीवो गतरूपादिक पर्यायने अनुसारे जूज्जा वस्तुना भेदनेनामे कशता तेइनायोलक्षणशरपणि प्रवर्त्तते तेभणीनाम कशीये एतले वस्तु वाचक शब्दइत्य  
 र्थ उपपन्न ल रत्नणाभिधान पञ्जवभे आणुसारि अनाम पभेयजन इपइभे अजाइय भणि अज । एनाम दग भेदप्ररूप्यो तद्यथा अत लण्येकेणे एकनामे  
 कुरी सर्वविवक्षित पदार्थ बोली सकीये ते एक नाम कश्चिये अने लण्ये केणे विच्छ नामे करी सर्वविवक्षित वस्तुनो समूहबोलवानी द्वारे करी कशीये अने जे



दिशानेयं यावत्। यैदेशभिर्नामभिः सर्वं विवक्षितवस्तु प्रतिपद्यते तद्व्यनानामेति तत्र यथोद्देशं निर्देशं निर्देश्य इत्येकनामोदाहरणार्थाह सेविंतमित्यादि नामाणि गाथा व्याख्या द्रव्याणां जीवा जीवभेदानां ज्ञानादीनां रूपादीनां च तथा पर्यायाणां नारकत्वादीनामेकगुणकृष्णत्वादीनां च नामान्यभिधानानि यानि कानिचिह्नोके रूढानि तद्यथा जीवो जन्तुरात्मा प्राणीत्यादि आकाशं नभस्सारा पथोव्योमांबरमित्यादि तथा ज्ञानांबुद्धिर्वोध इत्यादि तथारूपं रसोगन्ध इत्यादि तथा नारकतिर्यग् सव्युद्भृत्यादि एकं गुणकृष्णौ द्विगुणकृष्ण इत्यादि तेषां सर्वेषामयभिधाना नामागमएव निकषो हेमरजतकल्प जीवादिपदार्थ

सेतं एगखरिए सेकितं अणेगखरिए कन्तवीणा लतामाला सेतं अणेगखरिए अहवा दुनामे दुविहे पखत्ते तं जहजौव नामेअ अजीवणामेअ सेकितं जौवणामे २ देवदत्तो जखदत्तो विगहदत्तो सेतं लीवनामे सेकितं अजीवनामे

णैकेणे विद्धं नामे करी सगला विवक्षितपदार्थबोली सकीये ते त्विनाम कहीये एणी दिसाये यावत् जेणेकेणे दशनामे करी विवक्षित सर्ववस्तु बोलीये तेदशनमकहीये तिहा जिम उद्देश एणे कारणे प्रथम एक नाम उदाहरि छे सेकितं अथ किछुंते एक नाम उत्तर एक नाम तेजे यामाणि गाहाद्रव्यना कहता जीवा जीवना गुणकहतां ज्ञानादिक अने रूपादिकना पर्यायना] कहतां नारकपणादिकना अने एक गुणकृष्णपणादिकना नाम जेतला लोकने विषे रूढ़ होइ जिम जीवनाए नाम छे जीवजन्तु आत्माप्राणी इत्यादि तथा आकाशना नाम आकाश नभः तारापतिः व्योम अंबर मित्यादि तथा गुणनानाम ज्ञानं बुद्धिः बोधः इत्यादि तैतत्त्वा सर्वनामना आगम तेजज्जे निकष कहतां स्वर्णरूपासरीषा जीवाजीवपदार्थ स्वरूपनापरि ज्ञानहेतुथीकषपठक तेहने विषे नाम इति एवं रूपसंज्ञा कहता आत्मा प्ररूपी एतले जीवो जंढरित्यादि सर्वशब्दानामपणाना सामान्यपणा थी एकं नाम

स्वरूपपरिचयान्तेषु कथयद्गुणकथाभिन्नेषु कथासु आख्या प्रकृतितादावस्यापिता सर्वाण्यपि जीबोजरित्याद्यभिधानानि नामत्वसामान्याव्यभिचारदेकेन नामग्रन्थेनोच्यन्ते इति भावः सदेवमिदंकेनायनेन नामग्रन्थेन सर्वाण्यपि लोककृताभिधानवस्तूनि प्रतिपाद्यन्त इत्येते तदेकनामोच्यते एकं सन्नामैकनामेति क्त्वा इति गार्थार्थं सप्त एक नामेति निगमनं सेकितं दुनामे इत्यादि यत एयेद द्विप्रकारं तद्यथा एक च तदन्तरं

२ षडो षडो कडो रहो सेत अजीवनामे अहवा दुनामे दुविहे प्रयत्ते तजहा विसेसिए जौपद्वे अविसेसिए जीवद्वे अविसेसिए शेरद्रए तिरिखजोणिए मणुस्रदेवे अविसेसिए शेरद्रए विसेसिए रथण्यभाए सक्करप्पभाए यानुअप्यभाए पकप्पभाए धूमय्यभाए तमाए तमतमाए रथण्यभाए पठविणेद्रए विसेसिए पञ्जत्तए अअपञ्जत्तए अअविसेसिए तिरिक्खजोणिए विसेसिए एगिटिए वेइद्रिए तैद्र दिये च्चरिटिएपचिद्रिए अविसेसिए

ग्रन्थे बोलीये ए भावते इम इहा एकनाम एष्ये शब्दे सर्वलोककृतनाम यस्तु बोलीइकाइ वस्तु अणबोलीयो न रहे ते भणी एक नाम कभीये इहा एक जे खतो नामते एक नाम इम समास करु इति गार्थार्थं सेत ते ए एक नाम सेकित अथ कियु ते द्विनाम उत्तर दुनामे जे भणी एहिनाम ते भणी विभेद प्रक्यु तद्यथा तिहा जे अचरते एकाचरतेणे नीपनो जे नाम ते अनेकाचरिक अकारपिससुअयार्थिके तिहा एकाचरकते एउ कथा अथवा देवीए वियेय श्री ते पण्य देवता वियेय धी बुद्धि स्त्री नारी अने अनेकाचरिक ते ए कथा इत्यादि एवालका पताकादिक विणि आदि अचरनानीपना नामनो अणखळण्युआणवु ते इम जे कार्त्त पसुछे तेसर्व एकाचरनाम करी बोलीये एतले इणेविउ

च तेन निहृत्स्वमेकाच्चरिक्तं अगेकानि च ताव्यञ्चराणि च तेनिहृत्स्वमेनेकाच्चरिक्तं चकारौ समुच्चयार्थौ तत्रैकाच्चरिक्ते क्लीर्लज्जा देवताविशेषो वा श्री देवता विशेषः षीर्बुद्धिः स्त्रीयोपिदिति अनेकाच्चरिक्ताभ्येत्यादि उपलक्षणं चेदं वलाकापताकादीनां आद्यञ्चरनिष्पन्नान्नामिति तदेवं यदस्ति वस्तु तत्सर्वमेकाच्चरेण वा नाम्नाभिधीयते नेकच्चरेण बालोत्पेन नामहयेन विवक्षितस्य सर्वस्यापि वस्तुजातस्याभिधानाद्द्विनाम्नोच्यते हिरूपं तत्सर्वस्य नामद्विनाम द्वयो

पुठविकाइए आउकाइए तेउकाइए वाउकाइए वणस्सइकाइए अविसेसिए पुठविकाइए विसेसिए एणिंदिए विसेसिए  
पुठविकाइए सुळमकाइएअ वाटरपुठविकाइएअ अविसेसिए सुळम पुठविकाइए विसेसिए पञ्जत्तयसुळमपुठविकाइए  
एअ अविसेसिएअ वाटर पुठविकाइए विसेसिए पञ्जत्तय वाटरपुठविकाइएअ अपञ्जत्तय वाटरपुठविकाइए एवं आ  
उकाइए तेउकाइए वाउकाइए वणस्सइकाइए अविसेसिएअ भेदेहिं भाणिअव्वा अविसेसिए बइंदिए विसेसिए पञ्ज

नासे करी विवक्षितसर्ववस्तुना बोलवाथी द्विनाम कहीये इहा हिरूप जे छतो नाम ते द्विनाम अथवा पिळ्ळनामनो समुदायते द्विनाम इम विषमा जाणवा अथ एहज प्रकारातरे कहे के अहवा अथवा हिरूपविभेदे प्ररूप्यो तद्यथा तिहां जीवनो जेनाम ते जीवनाम अने अजीवनो जे नाम ते अजीव नाम इहां पणि लोकमध्ये जे कांइ के ते सब तेणे जीवनासे तथा अजीवनासे छइ इम जीवा जीव विळ्ळनासे करी विवक्षितसर्ववस्तुं संग्रहण जाणवो अथवली एहज अनेरे प्रकारे कहे के अथवा द्विनाम द्विविष प्ररूप्यो तद्यथा अविसेसिएअ एक अविशेष नाम विसेसिएअ अने बीजो विशेषनाम अविसेसिए दब्बे तिहां द्रव्यए अविशेष नाम कहीये जे भणी जीवाजीव विळ्ळने विषे प्रवत्ते विसेसिए जीवदब्बे अने जीवद्रव्यविशेषनाम कहीये जे भणी



पेक्षाया जीवद्रव्यमित्यादि विशेषनाम नारकस्त्रियगित्यादि तु विशेषनाम पुनरप्युत्तरापेक्षया नारकादिकमविशेषनाम रत्नप्रभायां भवो रत्नप्रभइत्यादि तु विशेषनाम एवं पूर्वमविशेषनाम उत्तरोत्तरन्तु विशेषनाम सर्वत्र भावनीयं शेषं सुगमं नवरं सन्धुर्च्छन्ति तथाविषकर्मोदयागर्भमन्तरैषैवोत्पद्यंत इति सन्धुर्च्छिमा गर्भव्युत्क्रान्तिरुत्पत्तिशेषां ते गर्भव्युत्क्रान्तिकाः उरसा भुजाभ्याच परिसर्पन्ति गच्छन्तीति विषधरगोषानकुलादयः सामान्येन परिसर्पाः विशेषतस्वरसा परिसर्पन्तीत्युरः परिसर्पाः सर्पादय एव भुजाभ्या परिसर्पन्तीति भुजपरिसर्पा गोषा नकुलादय एव शेषं सुखोन्नेयं तदेवसुक्ताः सामान्य

क्वन्तिअ जलयर पंचिंदिअ तिरिक्खजोगिणएअ अविसेसिए ससुच्छिम जलयर पंचेदिय तिरिक्खजोगिणए विसेसिएअ पज्जत्तय ससुच्छिम जलयर पंचिंदिअ तिरिक्खजोगिणएअ अपज्जत्त ससुच्छिम जलयर पंचिंदिअ तिरिक्खजोगिणएअ अविसेसिए गभभवक्वन्तिअ जलयर पंचिंदिअ तिरिक्खजोगिणए विसेसिए पज्जत्तय गभवक्वन्तिअ जलयर पंचिंदिअ ति

पणि सप्तभेद तिकज उदाहरे द्वे अविसेसिए भजीवदखे इत्यादि सुगमं ते इमज कोई वस्तुहे ते सर्वने सामान्य नामे तथा विशेषनामइहोवु छइ सेत ते एदिनाम सेकितं अथ कियु ते तिनाम उत्तर तिनाम जे भणी ए तिनाम ते भणी जे विष प्ररूयो तदथा द्रव्यनाम गुणनाम पर्यायनाम तिहां द्रव्य कहतां पर्यायने पुंहे ते भणी द्रव्य कहीये ते द्रव्यनो जे नाम धर्मास्त्रिकाय इत्यादि ते द्रव्यनाम कहीये तेघर्मास्त्रिकायादिकने पूर्वे वषाख्याज्जे तथा गुणी कहता संखारूप कहीये ते गुणनो जे नाम ते गुणनामते पञ्चविध प्ररूयो तदथा तिहा वणीइ कहतां पलङ्करोइं वस्तुएणे करी तेहनो जे नाम तेवर्णनाम तेकणादिक पांच भेद प्रसिद्ध तथा कपिलादिक वर्णतो एहने संयोगज ऊपजे परं सर्वथा एथी भिन्न स्वरूप नथी तेभणी न कथा तथा

वियोगनामाभ्यां लोबद्रव्यस्य सम्भविनो भेदा साम्प्रत प्रागुद्दिष्टमजीव द्रव्यस्य भेदतत्सद्येवोदाहृतं माह अविसेसिए अजीवद्वये इत्यादि गतांथ तदेव यदक्षि यस्तु तत्त्वं सामान्यनाम्ना वियोगनाम्ना वा अभिधीयते न्यत्रापि द्विनामत्व भावनीय सेत्त इनामेति निगमन सेकित त्रिनाम एत्यादि यत एषेद त्रिनाम तत एव त्रिविध विकार द्रव्यनामादि भेदात्तत्र द्रव्यति गच्छति तासानुपर्यायान् मात्रोतीति द्रव्य तस्य नामधर्मास्त्रिकाय इत्यादिधर्मास्त्रिकाया दयश्च प्राक् व्याख्याता एव गुण्यन्ते संख्यायन्ते इति गुणा खोपो नाम वणं नामे इत्यादितत्त्ववर्णने अस्त्विति यत्तु अस्त्विति वणं अस्त्विति वणं अस्त्विति वणं

रिक्खजोणिएअ अण्णत्तय गमवक्कांतिअ जलयरपच्चिदिअ तिरिक्खजोणिएअ अविसेसिएषलयर पच्चिदिअ तिरिक्ख जोणिए वियेसिए चउप्पयथलयर पच्चिदिअ तिरिक्खजोणिएअ परिअप्पयथलयर पच्चिदिअ तिरिक्खजोणिएअ अविसे सिएचउप्पयथलयर वियेसिए समुच्छिम चउप्पयथलयर पच्चिदियतिरिक्खजोणिएअ गमभवक्कांतिअ चउप्पयथलयर पच्चिदिअतिरिक्खजोणिएअ अविसेसिए समुच्छिम चउप्पयथलयर वियेसिएपज्जत्तय समुत्थिम चउप्पयथलयर पच्चि

गधीइ कर्त्ता सु गीये तेगध तेणनो जेनाम तेगध नाम तेद्विविध तिष्ठां सुसुष्ण पणानो करणणार तेसरभि अने विसुष्ण पणानो करणणार तेसुरभि तथा उभय सयोगयी जणनो गधजुषो न कखो एणना ससर्गयी जणनो तेभणी भेदनी विवच्चानकरी तणारसीइ कर्त्ता आसादीये तेरस तेणनो जेनाम तेरस नाम तेपधविध प्ररूपो तदयथा तिष्ठां खेयादिक दोपनोणणणार अने श्रोत्रादिकने विपेरुद्धो तेतिक्कण्डिये तेणनो स्वरूप येदकथास्त्रनेयिये इम कखोखे खे फ्राणमरुच्चिपित्त लपफुटविपल्लवर वन्यात्तिकोरसो बुद्धि कर्त्तामात्रोपसेवित १ तथागत रोगादिकनो उपशमावणणार अने मरिचयु म्यादि

प्रतीतएव कपिलादयस्वेतत् संगेनैवोत्वद्यन्ते न पुनः सर्वथा एताद्विलक्षणा इति नोदाहृताः गन्धते आप्रायत इतिगन्ध सास्य नाम गन्ध नाम सच द्विविधः  
 सुरभिर्दुरभिश्च तत्र सौमुख्यद्वत्सुरभिर्वैमुख्यद्वद्दुरभिः अत्राप्युभयसंयोगज एथग्नोक्त एतत्संगतत्वादेव भेदाऽविचक्षणात् रस्यात आखाद्यत इतिरस  
 सास्य नाम २ सच तिक्त कटु कषयास्त्र मधुराभेदात्यश्चविध सत्तत्र ज्ञेयादि दोषहन्तानि स्वाद्यात्रितसिक्तौ रससाथाच भिषक् शास्त्रं ज्ञेयाणामरुचि पित्तं  
 त्वपं कुष्ठं विषं क्वरं हन्याचित्तोरसो बुद्धेः कर्त्तार्यामात्रोपसेवितः । गलामयादि प्रथमनो मरिचनागराद्याः अत्रितः कटुः उक्तश्च कटुर्गलामयं शोफं हन्तिशुक्तौ

दिअतिरिक्खजोणिएअ अपज्जत्तयससुत्थिम चउप्पयथलयर पंचिंदियतिरिक्खजोणिएअ अविसेसिए गम्भवक्कंतिअच  
 उप्पयथलयर पंचिंदिअ० विसेसए पज्जत्तयगम्भवक्कंतिअ चउप्पयथलयर पंचिंदिअतिरिक्खजोणिएअ अपज्जत्तयगम्भ  
 वक्कंतिअ चउप्पयथलयर पंचिंदिअ तिरिक्खजोणिएअ अविसेसिए परिस्सप्पयथलयर विसेसिए उरपरिस्सप्पयथलयरपंचिं  
 दिअतिरिक्खजोणिएअ भुअपरिस्सप्पयथलयरपंचिंदिअतिरिक्खजोणिएअएतेविससुत्थिमा पज्जत्तगाअपज्जत्तगायगम्भ

कने विषे आअथुं तेकटुक कहीये जत्तंच कटुर्गलामयं शोफंहंति शुक्तोपिसेविन दीपनपात्रकोरूच्यो वृहणोति कफापहः । तथारक्त दोषादिक अपहर्त्तावहेडा  
 आवलादिकने विषे आअथु तेकपाय कहिंये आहच रक्त दोषं कफं पित्तं कषयोहंति सेवित रूच्ययीतो गुणग्राही रोचकश्च स्वरूपत । तथा अग्नि  
 दीपनादिकनो करणहार आविक्की आदिकने विषे रथ्यो आस्त्रकहिंये पद्यते चअग्नीग्निदीप्त कृतस्त्रिग्ध शोफपित्त कफापह क्लेदन पाचनो रूच्यो मूलबाता  
 सुलोमक । तथापित्तादिकनो उपयमावगहार खांड्यर्क रादिकने विषे आअथुं तेमधुरा कहिंये तथाचोक्तं पित्तवातं विषं इति घातवृत्तिकरो गुरु जीवन

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ॥

परोक्षित दोषन पावको रथो हृष्टोति कपापठ १ रक्तदोषाद्यपठतां विभोतामलककपित्याद्याश्रित कपाय आरुच रक्तदोष तप्त पित्त कषायो हृन्ति  
सेवित रूच शीतो गुरुशोषी रोचकश्च स्य रूपत २ आग्निदीपनादिष्टकृत्वाद्याश्रितोक्त पठ्यते च आत्तोग्निदीपित्वात्स्विग्ध गोफपित्तकफावठ लोरा

वक्त ति आ वि पञ्जत्तगा अपञ्जत्तगाय भाणि अल्वा अविसेसिए खहयरपचि० विसेसिए समुच्छिमखहयर पचिदिअतिरि  
कखनोगिएअ गभमन्न तिअ खहयर पचिदिअ तिरिकखनोगिएअ अविसेसिए समुच्छिमखहयर पचि० विसेसिए प  
ज्जत्तय समुच्छिम खहयर पचिदिअ तिरिकखनोगिएअ अपञ्जत्तय समुच्छिमखहयर पचिदिअ तिरिखनोगिएअ  
ज्जत्तय समुच्छिम खहयर पचिदिअ तिरिकखनोगिएअ अविसेसिए गभमन्न तिअ खहयरपचि० विसेसिएपञ्जत्तयग  
भमन्न तिअ खहयरपचिदिअ तिरिखनोगिएअ अविसेसिएमणुस्से/विसेसिएसमुच्छिममणुस्सेअ गभमन्न तिअ मणु  
स्सेअ अविसेसिएसमुच्छिममणुस्से विसेसिएपञ्जत्तगसमुच्छिममणुस्सेअ अपञ्जत्तगसमुच्छिममणुस्सेअ अविसेसिएगभव  
क्त तिअ मणुस्से विसेसिए पञ्जत्तयगभमन्न तिअ मणुस्सेअ अपञ्जत्तगभयक्त तिअ मणुस्सेअ अविसेसिएदेवे विसेसिएभव  
णवासोनाणव्रतरैजोद्रुसिएवेमाणिअ अविसेसिएभवणवासौ विसेसिएअसुरकुमारैनागकु० सुवणकु० अग्निकु० दीवकु० ल

केयकहाल दृष्टि क्षीणोण सांक्षित । तथा स्यानातरने विपे रक्षा आशरानो विष्णोडणहार, सौधाजवणादिकने विपे आश्रुं कवणरुसिण रस मोलीये  
ते इहा एतला मणी नक्ततो जेमणी तेमधुरादिक रसना सयोगथी नीपनोखे तेमणी भेदरूपे विवचानथीकीधी अने तिहां मधुरादिक रानो रुधो गदीये



पाचनोरथौ स्रुद्धवातानुलोमकः४ पिप्तादिप्रथमकः ऋण्ड्यर्क्यराद्याथितो मधुरः तथाचोक्तं पिप्पं वातं विपं रुन्ति धातुष्टहिकरो गुरुः जीवनः केयकहाल  
हृद्गीणौजसाहित १ इत्यादिस्थानातरेसाम्भिताहारवन्धविष्वं साट्टि कर्त्ता सिन्धु लज्जणाद्याथितो लवणोपि रसः पथते सचेह्नोदाहृतो मधुरादिसंसर्गतत्वा

दधिकु०दिसकु०वाउकु०थिणिअकुमारे सञ्जेसिंसिपिअत्रिसेसियअपञ्जत्तगपञ्जत्तगमेदाभाणिअब्बा अविसेसिएवा  
णमंतरेविसेसिएपिसाएभूतेजक्खेएक्खते किणरेकिंयुरिसे महोरगेगंधञ्जे एतेसिंसिपिअत्रिसेसिअ त्रिसेसिपञ्जत्तय अपञ्जत्त  
गमेदाभाणिअब्बा अत्रिसेसिएजोईसिए विसेसिए वंदेसुरेगहगणनक्खत्ते ताराखुवे एतेसिंसिपिअत्रिसेसिएअपजत्तयपञ्ज  
त्तयमेआभाणिअब्बा अत्रिसेसिएवेसाणिए विसेसिएकप्पोवगोअ कप्पातीतगेअ अत्रिसेसिएकप्पोवगो विसेसिएसोहम्मए  
इसाणएसनत्कुमारएमाहिंदए वंभलोअए लंतयए सुक्कए सहस्सारए आणयए आरणए अञ्जुयए एतेसिंसिअविसे  
सिअ विसेसिअ अपञ्जत्तअ पञ्जत्तग मेदाभाणिअब्बा अत्रिसेसिए कप्पातीतए विसेसिएगेवेज्जएअ अणुत्तरोत्रवाइएअ  
अत्रिसेसिएगेवेज्जएअ विसेसिए हेट्टिमहेट्टिमगेवेज्जए हेट्टिम मज्झिमगेवेज्जए अत्रिसेसिएसिअ अत्रिसेसिएसिअ  
विष्कमगेवेज्जए विसेसिएहिट्टिममज्झिमगेवेज्जए मज्झिमउवरिमगेवेज्जएअ अत्रिसेसिएउवरिमगेवे

पणिच्छे जेमणी सर्वरसने विषे लवणा रस प्रक्षेप्यइ छते सुखाद पणानी उत्पत्ति छइच्छे अलं धिन्नरेण तथा फरसोये तेफरस तेहनो जेनाम तेस्पर्य  
नाम तेअट्टविध प्ररूपो तज्जथा तिहां कठिन पणादिकनो कारण अने पापाणादिकने विषे रत्तो तेकर्कग तथा नसन पणानी कारण गने मापणा



रकल्लादिनिःसृतो लघुः देहसम्प्रादिहेतुः प्रालियाद्याश्रितः शीतः आहारपाकादिकारणं वङ्गप्राद्यनुगत लघुण पुनलद्रव्याणां मिथः संयुज्यमानानां अन्य  
निबन्धनं तैलादिस्थितः स्निग्धः तेषामेवावन्धनिबन्धनं भस्माद्याधारोरुच्चः एतत्सर्वं सर्गजास्तुनोक्ता एष्वेवान्तर्भावोक्तिरिति संख्यानस्वरूपं तु प्रतीतमेव परिसमन्नाद

लवणनामि सेतवणनामि सेकिंतं गंधनामेऽद्रुविहे पयस्ते तंजहा सुरभिगंधनामेऽत्र दुरभिगंधनाजेऽत्र सेतंगंधनामे सेकिंतं  
रसनामेऽपंचविहे पयस्ते तंजहा तित्तरसणामि कडुअरसनामि कसायरसनामि अं विलरसनामि मङ्गररसनामि असेतंरस  
नामे सेकिंतं फासणामेऽद्रुविहे पंयस्ते तंजहा कक्कलफासनामि मउअफा० लङ्गअ० सीतफासनामे लसिणफा  
सणामेऽणिइफा० लुक्कफासणामि सेतं फासणामि सेकिंतं संठ्ठाणनामेऽपंचविहे पयस्ते तंजहा परिमंडल संठ्ठाणणामि वट्टसं

आश्रयुं तेऽत्र तथा पुनल द्रव्येने माहोर्मादि मिलताने एकठाबंधवानो कारण अने तैलादिकने विषे आश्रयुं तेस्निग्ध तथा तेषु पुनल द्रव्येने एकठा  
अणबंधवानो कारणं तेरुच्च भस्मादिकने विषे आश्रयुं तथा एतना संयोग्यी जेस्यं जपजेतेनगी कक्षी तेऽएहजभादि संभवे तेऽपणी संख्यानं रुगसं तथा  
परि क्वता सर्वथा प्रकारे अवद्द क्वतां विणसीजाइ परं द्रव्यनी परे सर्वदा स्थिररहे नही तेपयं कश्चिये एतस्मि द्रव्यनो अवस्थांतर प्राप्ति  
रूपने पर्यं कश्चिये एक गुणकालपणादिक जाणवा तेहनो जेनाम तेपयं नाम जिहा पर्याय नामेस्युं पाठ्ठे तिहां परि क्वतां सर्वथा प्रकारे अवयद्द  
क्वता विलये जाइ परं द्रव्यनी परे सर्वदान रहे तेपर्याय कश्चिये अथवा परि क्वता सर्व प्रकारे एति क्वता पुहये एतले वस्तु पणाने व्यापे तेपर्याय  
कश्चिये पूर्वलो अर्थ अने ए अर्थ धातुना विशेष्यथी भिन्नार्थ परंपरमार्थथी एकार्थजहे अने पर्यायना जेविअर्थ क्वता तेप्रथम पर्यायार्थक नवनामतनो

वक्ष्यपगच्छन्ति ननु द्रव्यवत्सर्वदेवायतिष्ठ इति पर्यया अथवा परि समन्तावयनानिगमनानि द्रव्यम्यावस्थान्तरप्राप्तिरूपाणि पर्यया एकगुणकालत्वादेय  
 क्षोर्वा नाम पर्यवनाम यत्र तु पर्यायनामेति पाठः स्यात् परि समन्तादेय तेऽपगच्छन्ति न पुनर्द्रव्यवत्सर्वदेव तिष्ठन्तीति पर्याया अथवा परि समन्तरे १ एत्य  
 भिगच्छति व्याप्नोति वस्तुतामिति पर्याया एकगुणकालत्वादेय एव तेषां नाम पर्यायनामेति तत्रैव गुणयद्वोऽयपर्याय सान्द्र सर्वस्यापि त्रैलोक्यगगतकालात्  
 स्यात्सत्त्वान्यनयापिशुद्धतस्य य एक सर्वव्यवस्यो गुणोऽयसो न कालक परमाख्यादिकगुणकालक सर्वव्यवय द्वाया इति द्वाभ्यां गुणाभ्यां तदगार्या

तसस० चत्तरसस आयतसठागणामे सेत सठागणामे सेत गुणणामे सेत पञ्जवनामेदएगगुणका १ ए दुगुपतालेए  
 तिगुगजालए जालदसगुणकाए सखिक्खगुणकालए अथतगुणकालए एव नोतलोदिच इति  
 दसुक्तिज्ञानिभायिअव्वा एगगुणसुरभिगंधे दुगुणसु०काव अणतगुण सुरभिगंधेएव दुरभिगंधोविभा

अनेवीजो नेद्रव्यार्थिक नयना मतनो र्गनाधीयेत्ते ते एक गुण काल पणादिक तेहनो नाम तेपर्याय नाम एक गुणकाल एइहां गुण यद्वद पर्याय कहिये  
 तेभणी सव त्रैलोक्यरसोये जेकालपणो तेभने असत्कल्पनाइ एकठो करतां जेपिंड डइ तेहनो जे जयन्य गुण कथता अग तेणे करी जे  
 कान परमाग्यात्तिक तेएक गुणकालक कहिये सर्व जवन्य द्वायाए भाव तथाविड गुणे करी जेकाला परमाख्यादिकज तेहिगुण कालक कहिये यावत्  
 अनत गुणे अये जेकाल ते अनत गुणनालक कहिये इम एक गुणनोलादिक आख्या इहां गिय दूखेले भगवन् गुण अने पर्यायनो किमु भेद एइ  
 पोल्या सदेव गहवर्ती पणायी यण गधादिक तेसामान्य रूपे गुण बोलीये जेभणी रूपी वस्तुने विदे वर्णादिक मात्र कदाचित् पणिय व्ययदेदोये नचो

अथ टी० २६२ ४२ भाषा

वक्ष्यपगच्छन्ति ननु द्रव्यवत्सर्वदेवायतिष्ठ इति पर्यया अथवा परि समन्तावयनानिगमनानि द्रव्यम्यावस्थान्तरप्राप्तिरूपाणि पर्यया एकगुणकालत्वादेय

कालकः परमाख्यादिरेव द्विगुणकालक एवं नेयं यावदन्तैर्गुणैरुदंशैः कालकोनन्तगुणकालकः स एवेति एवमुक्ताशुसारेशेकगुणानीलकादीनामेकगुण  
सुरभिगन्धादीना च सर्वत्र भावना कार्येति आह गुणपर्याययो कः प्रतिविशेष उच्यते सदेव सहवर्त्तिताद्वर्गगन्धरसादयः सामान्येन गुणा उच्यन्ते नहि  
सूक्तैवस्तुनि वर्णादिकमात्रं कादाचिदपिब्यवच्छिद्यते एकगुणकालत्वादयस्तु द्विगुणकालत्वाद्यवस्थायां निवर्त्तते एवेत्यतः कमवर्त्तित्वात्पर्यायाः उक्तं च सह  
वर्त्तितो गुणा यथा जीवस्य चैतन्या सूक्तत्वादयः कमवर्त्तिनः पर्याया यथा तस्यैव नारकत्व तिर्यकादय इति ननु यद्येवं तर्हि वर्णादिसामान्यस्य भवतु गुण  
त्वं तद्विशेषाणां तु कृष्णादीना तस्यादनियतत्वात्तेषां सत्यं वर्णादिसामान्यभेदानामपि कृष्णनीलादीनां प्रायःप्रभूतकालं सहवर्त्तित्वात् गुणत्वं विवक्षि

णित्रव्वा एगगुणतित्ते जाव अणंतगुणतित्ते एवंकडुअकसाय अंवलमह्रारविभाणित्रव्वा एगगुणककखडे जाव अणंतगु  
णककखडे एवं मलअ गरअ लडुअ सौत असिण णिइ लुकवाविभाणित्रव्वा सेतं पञ्जवनामे तंपुणणांमंतिविहं इत्यौ

अने एक गुणकाल पणादिक तेद्विगुण कालपणादिकनी अवस्थायै निवर्त्तौ जाइजै तेभणी कमवर्त्तिपणाथी पर्याय कश्चिये उक्तं च सहवर्त्तितो गुणा यथा  
जीवस्य चैतन्य समुक्तत्वादय कमवर्त्तिन पर्याया तस्यैवनारक तिर्यककादय वली शिष्य प्रेरेछे भगवन् जोइम तो वर्णादिक सामान्येन गुणपणो ऊइ परं  
तेहना विशेष कृष्णादिकने तो गुण पणो न ऊइ गुरु वोल्या एसत्य परं वर्णादिक सामान्यना भेद कृष्णनीलादिकने पणि प्राये प्रभूतकाल सहवर्त्तौ  
पणाथी गुण पणो विवक्षे तेभणी दोष नही वली शिष्य वोल्यु एइमज ऊइ परं पुंजलास्त्रिकायनाज गुण पर्यायना नाम नाम पणो कादिषाद्या धर्मास्त्रि  
कायादिकना गुण पर्याय न देषाद्या तेकाइ इमतो नथी जेधर्मास्त्रिकायादिकने गुण पर्याय नथी जेभणी धर्मास्त्रिकायादिकने पणि अनुक्रमे गतिस्थिति

तमित्यस्य विसारेण सिद्धत्वात् सत्य किञ्चिद्रियप्रत्यक्षगम्यत्वात्सु प्रतिपद्यतया पुद्गलद्रव्यस्यैव गुणपर्याया उदाहृता नगोपाणामित्यल विसारेण तस्माद्यत्कि मपि नाम तेन सर्वेषांपि द्रव्यनाम्ना गुणनाम्ना पर्यायनाम्ना वा भवितव्य नात पर किमपि नामासि तत सर्वस्यैवनेन सप्रशस्त्रिनामैतदुच्यत इति त पुणगाशा ख्याप्त्या तत्पुननामद्रव्यादीनां सम्बन्धिसामान्येन सर्वमपि स्त्रीषु नपु सक खिङ्गेषु वर्तमानत्वात्त्रिविध विप्रकार तत स्त्रीखिङ्गे नदीमहीत्यादि पु ष्टि ङ्गे षट षट इत्यादि नपु सके दधिमध्वित्यादि एषां स्त्रीखिङ्गत्वादीनां तयाणामपि नाम्ना प्राकृतयैल्या उच्चार्यमाणानामतेयान्याकारादीन्वचरा णिभवति तत्प्ररूपणाद्वारेण लक्षण निर्दिशरत्तरासंभाष ए एसिमित्यादि गतार्थमेवेति गार्थार्थ तत्पु रिसगाशा तव तस्मिन् त्रिविधेनास्ति पुरूपस्य

पुरिसणपु सगचेन एसि तिग्रहपिञ्च अ'तमिपरुवणयोत्य १ तत्पु रिससस्रता आईजउहवतिचत्तारि तेचेव इत्यिञ्चाउ हवति उकारपरिहोणा २ अ तिञ्चइ तिञ्चउ'तिञ्च अताउ णपु सगसबोद्धवा एतेसि तिग्रहपिञ्च वौल्यामि

अवगाउ उपयोग वर्त्त'गादिक गुण अने प्रत्येक २ ने अनन्ता अगुरुल्लु पर्याय प्रसिद्ध तेभणी गुरु बोल्या एपिण सत्य पर इन्द्रियने प्रत्यक्षपणाथी सुये कस्या जाइ तेभणी पुद्गलास्तिकायने ण गुणपर्याय उदाहरण रूप देयाद्या अनेराना नही देयाद्या तेइन्द्रियादित्त पगोचरपणाथी चल विसारेण तेभणी जेकाई नामखे तेणे द्रव्यनाम रूपे तथा गुणनाम रूपेतथा पर्यायनामरूपे होउ छइ एतलाउपरात काइ नथी तेभणी एणे विच्छनामइ करी सर्व वस्तुना सप्रपणाथी विनाम पणो कश्चिये सेत तेएपर्यवनाम अथ वक्तोतिविनामपण प्रकारातर कहेछे तपुणगाशा तेवली नाम द्रव्यादिक सगन्धियो सा मान्यरूपे जोतां सर्ववस्तुने स्त्रीषु नपु सकलिगने विपे वर्त्तवापणाथी तिछ भेदेछइ तेवस्तु तिषा स्त्रीखिगने विपे नदी मही इत्यादि तथापुच्छि गनेविपे षट

अनु टी० २०१ सप्त भाषा







त्वादिति प्रकृतिः स्वभावो वर्णलोपाद्यभाषा खया निष्यन्नामयथा अग्नीएतावित्यादि द्विवचनसनावित्यनेनात् प्रकृतिः भावस्य विधानान्निदर्शनमात्रं चेदं सरसिजकंठे काल इत्यादीनामपि प्रकृतिनिष्यन्त्वादिति वर्णस्यान्यथा भावापादनं विकारस्येन निष्यन्त्वं इंडस्याग्रं इंडाग्रमित्यादि समानः सर्वर्णे दीर्घो भवतीत्यादिना दीर्घत्वक्षणस्य वर्णविकारस्यै च कृतत्वादुदाहरणमात्रं चैतत्तस्मात्तः षोडशोऽपि वर्णविकारसिद्धत्वादिति तदिह यदस्ति तेन सर्वेषामपि नाम्ना आगमनिष्यन्त्वेनवा लोपनिष्यन्त्वेनवा प्रकृतिनिर्हतेनवा [विकारनिष्यन्त्वेनवा मधितथ्यं डिष्णादिनाम्नामपि सनिष्कत्वात्नामवर्धातुजमा

पटोल षटोञ्चल षटोल सेतंलोविणं सेकितं पगइए अग्नीएतौ पटुइमौ शलेएते मालेइमे सेतं पग इए सेकितं विगारेणं२ दंडस्य अग्रं दंडाग्रं सात्रागता सागता दधिइदं दधीदं मदिइ मधु उदकं मधु उदकं वधु उदह

तौतिन्, इत्यादिकं पणिसकार सकारादिकना लोपथी नीपनापणामाटे लोप निष्यन्त्वं नाम कश्चिये इहां केणेर रूपेनमवाङ्गती नाम कश्चिये एशब्दार्थथी नामपणोऽर्थादेये इम अन्वत्त पणिस जाणवो तथा प्रकृतिं कश्चिये स्वभाव एतले वर्णलोपादिकनो अभाव तेणेनीपनोनाम यथा अग्नीएतौ इत्यादि इहां द्विवचनपणो एणे सूत्रे प्रकृति भावकरवाथी निष्यन्त्वं पणोऽज जाणवो एषदाहरणमात्रे इम सरसिजकंठेकाल इत्यादिकं पणिस प्रकृति निष्यन्त्वे तथा वर्णने अन्यथा भावतो करवुं तेविकार तेणेनीपनो नाम यथा इंडस्य अग्रं इंडाग्रं इत्यादि इहां समानः सर्वर्णेदीर्घो भवति एणे सूत्रे कृत्स्ने दीर्घे रूपविकार करवाथी विकार निष्यन्त्वं नाम एषदाहरणमात्रे इम तस्मात् षोडशादिकं शब्द विकार निष्यन्त्वं लेवा तेइम इहां जेकांइके तेसर्व नाम आगमने निष्यन्त्वं किंबलोप निष्यन्त्वं तथा प्रकृति निष्यन्त्वं अथवा विकार निष्यन्त्वं डिष्णादिकं नाम पणिस निष्यन्त्वं संयुक्तं नाम

राव पत्रपत्र विंश बर्नादिका संवत् संवत् ४८ सं



भावाः प्रकथयन्ते तथा च सूत्रं उदए इत्यादि अताह ननु नास्मि प्रकान्ते तदभिधेयानामर्थानां भावलक्षणानां प्ररूपणमयुक्तमिति नेतदेवं नाम नामवतो रभेदोपचारात्तत्प्ररूपणस्याप्यदुष्टत्वादेवमन्यत्वापि यथा सम्भवं वाच्यं तत्र ज्ञानावरणादीनामथानां प्रकृतीनामालीय स्वरूपेण विपाकतोऽनुभवनसुदयः स एवोदयिकः अथवा यथोक्तं नैवोदयेन निष्पन्न उदयिको भाव इति सामर्थ्यात्तस्यते उपग्रहमन सुपग्रहः कर्मणाऽऽदुदया जीणावस्था भस्मपटलावच्छन्नामिव सएव उपग्रहमिक सो न वानिर्हत्त उपग्रहमिकः क्षयः कर्मणोपग्रहः स एव तेन वा निर्हत्तः च्छायाः कर्मणो यथोक्तो च्योपग्रहो यथोक्तो वा निर्हत्तेः क्षायोपग्रहमिकः दरवि ध्मात भस्मच्छन्न वद्विधत् परिणमनन्तेनरूपेण यस्त्वनां भवन परिणामः स एव तेन वानिर्हत्तः परिणामिकः अनन्तरोक्तानाद्यादि

इए सेकिंतं उदइए २ दुविहे पंशत्ते तंजहा उदए अ उदयनिष्पन्ने अ सेकिंतं उदए २ अदुग्रहं कस्मपयडोशं उदएण सेतं उदए सेकिंतं उदयनिष्पन्ने अ उदइए २ दुविहे पंशत्ते तंजहा जीवोदयनिष्पन्ने अ अजोवोदयनिष्पन्ने अ सेकिंतं

नजणाइ अथवा तर्क विना विहर्द्धे स्वरूप जाण्या न जाइ एतले तर्क अने व्याकरण विना असिद्धान्तना साचा अर्थ जांणीन सकीये तेभणी तर्क अने व्याकरण तेसर्वशास्त्रना सारखे जेन तर्क अने व्याकरण एहज सूत्रने विषे प्रकटहीसेखे तेभणी तर्क व्याकरण अवस्यसेव भगवा अने तर्क व्याकरणना उल्यापणहार अवस्यसेव निश्चइ मिथ्यात्वी जांणवा एहज श्रीअनुयोगहार सूत्रना प्रमाण पणाथी यलंविखरिण सेकिंतं अय किंसुं तेखनाम शेषं सुगम इहा शिष्य पूनेखे भगवन् नामना अधिकारने विषे तेषेकरी बोलीये जेभाव रूप अर्थं तेहनो प्ररूपवुं अशुक्त गुरुवोल्या नाम अनेनामयंतना अमेदोपचारथी तेभायनो प्ररूपवो युक्त जाणवुं तिहां आनावरणीयादिक आठप्रकृतिनो आपणे स्वरूपे विपाकथी भोगवुं तेउदय कश्चिये तेहने स्वार्थे इकण् प्रत्ययना आणवाथी उदयिक कश्चिये अथवा यथोक्त उदये करी नीपनो जेभाव तेउदयिक कश्चिये अय उपग्रहमवुं तेउपग्रहम कर्मनी अदुदय

भाषानां मेलक स एव तेन वा निर्हृत सा निपातिक सत्तामीयां प्रत्ये कश्चरूपनिरूपणार्थमर्थमाह चेति कि उदए इत्यादि षोडशदि षोडशिको भाषो द्विविधा षटानां कर्म्यं प्रकृतीनां सुदयसत्त्व निपन्त्रय अथ चार्थप्रकारद्वयेन व्युत्पत्तिकारणादादायेव दर्शित उदयनिपन्त्र पुनरपि द्विविधो जीवे उदयनिपन्त्रो जीवोदय निपन्त्र अजीवे उदयनिपन्त्रो अजीवोदयनिपन्त्रो जीवोदयनिपन्त्रस्योदाहरणानि नेरदए इत्यादि इदसक्त भवति कर्मण्यासुदयेनैव सर्वेषु ये ते पर्याया जीवे निपन्त्रा सद्यथा नारकस्त्रियश्चरुण इत्यादि अत्राच ननु यद्येवमपारेपि निद्रापक्षक वेदनीय शास्त्रादयो बहव कर्मोदयजन्या जीवे पर्याया सन्ति किमिति नारकत्वादय कियतो पुपन्त्रसा सात्यसुपन्त्रकृत्वाद्भीपासम्येपि सम्भविनो द्रष्टव्या अपरत्वाच्च ननु कर्मोदयजनितानां नारकत्वादीमां

जीवोदय निपन्त्रे अणोगविहे पश्यते तजहा गेरदए तिरिकवजोणिण मणुस्से देवे पुढविकाइए जावतसकाइएकोह कसाई लोहकसाइ इत्योवेदए पुरिसवेदए णपु सगवेदए काणहलेसे जावसुक्कलेसे मिच्छादिद्वी अविरेण अणायणीआ

अक्षीणावसा भस्मच्छादित अग्नीनी परे तेएउथो जेउपयस तेइज उपयमिक कश्चिये अथवा तेजेकरी नीपनो जेभाय तेउपयमिक कश्चिये अथअयकउता कर्मनो सर्वया अभाव तेइज अथवा तेणे करीनोपना जेभाव तेच्छायिक सर्वथीवृष्ठी अग्नि सरीयो अथअय अने उपयम पूर्वोक्त गज्जार्थ तेइज अथवा तेणे करीनीपनो जेभाव तेचायोपयमिक अह्वैवक्तो भस्मच्छादित अग्नि सरीपु अथ परिणामसु कृशतां तेणेर रूपे वस्तुनो होवु तेपरिणाम तेइज अथवा तेणे करीनीपनो जेभाव तेपारिणामिक अथ अनन्तरात्त उदयिकादिक विभादि भावनो मेवापक ते सनिपात कश्चिये तेइज अथवा तेयो करीनी पनो जेभाय तेसनिपातिक कश्चिये अथ इथि ए सर्व भावनो प्रत्येकर स्वरूप देखाडवा भणी कहेछे चेकित अथ किस ते उदयिक विभेदे प्रकृत्यो तद्यथा

अथ टी० २७७ ४१ भाषा

भवत्विहोपन्यासो लेखास्तु कस्यचित्कर्मण उदये भवन्तीत्येतन्न प्रसिद्धं तत्किमितिह तदुपन्यासः सत्यं किंतु योगपरिणामोल्लेखाः योगस्तु त्रिविधोपि कर्मोदयजन्य एव ततो लेखानामपि तदुभयजन्यत्वं न विहन्यते अन्ये तु मन्यन्ते कर्माटकोदयात् संसारस्वत्वासिद्धत्ववस्तुं श्या वत्वमपि भावनीयमित्यर्थं विशरेण तदर्थात्ना तु गन्धकश्चि वृत्तिरनुसर्त्तव्येति सेतं जीवोदयनिष्पन्नस्ति निगमनं अथाजीवोदयं निष्पन्नं निरूपयितुमाह सेकितमित्यादि उं राखियं बासरोरंति विशिष्टाकारपरिणत तिर्यङ्गुत्पुट्ठरूपमोहारिकं शरीरं उं राखियशरीरप्यउमे इत्यादि भौदारिक शरीरप्रयोगपरिणमितं द्रव्यं भौदारिक

**हाए२ छउमत्ये सजोगी संसारत्ये असिद्धे सेतं जीवोदय निष्पन्ने सेकितं अजीवोदय निष्पन्ने २ अणोगविहे पणसं**

एक अष्टकर्म प्रकृतिनो उदय अने वीजो उदय निष्पन्न एयीछं प्रकारे अर्थं शब्दार्थने करवे करी प्रथमज देखाडोके तिहां उदय निष्पन्न वक्तो द्विविध जाणनु जीवने विषे जे उदयनिष्पन्न ते जीवोदय निष्पन्न अने अजीवने विषे जे उदय निष्पन्न ते अजीवोदय निष्पन्न तिहां जीवोदय निष्पन्नना उदाहरण कहैछे नारक तिर्यच इत्यादि इहां इम कस्यो कर्मने उदयेज एसर्व पर्याय जीवने विषेनीपनाछे इहा शिष्य बोल्यो भगवन् जो इम तो अनैरा पणिकर्मयी उपना निद्रापंचक तथा वेदनौय तथाहास्यादिक घणा जीवने विषे पर्यायछे तो नारकादिक केतला एक कस्या तैकां गुरु बोल्या एसत्य परं एपूर्वोक्त पर्यायना उपमा उपलक्षण पगाथी अनैरा पणि जेसंभवे तेसर्व इहां जाणवा तथा कोइ एक इम कहे कर्मोदयनिष्पन्न नारकपणादिकनो इहां ग्रहण छभो परंलेखाकिसा कर्मने उदये छर तेजणा तो नथी तो तेहनुं ग्रहण कियामणीकीधुं उत्तर एसत्य परं इम तो कस्योके जेयोग परिणामो लेखायोगतो त्रिनिध पणि कर्मोदय निष्पन्नजके तेभणी लेखाने पणि कर्मोदय निष्पन्न पणो जाणवो अनैरा वली विद्वान् इममानेके कर्मभाटना उदयथी संसारस्थपणामाटे सिद्धपणानीपरिलेखावंतपसो पणि भावबुं अलंविशरेण अने विशारनो जेअर्थी छइ तेणेंगंधकश्चिहसिहसि अवलोवबो

शरीरस्य प्रयोगो व्यापारखेन परिणमिति स्वप्रयोगित्वात् नृचीत तन्मया तच्च वर्षगन्तरसस्यार्थानापानादिरूपं स्वत एवोपरिटाह्यंयिष्यति वा शब्दोपरस  
शरीरस्य प्रयोगो व्यापारखेन परिणमिति स्वप्रयोगित्वात् नृचीत तन्मया तच्च वर्षगन्तरसस्यार्थानापानादिरूपं स्वत एवोपरिटाह्यंयिष्यति वा शब्दोपरस  
सुचये एतद्विषयमप्यजीवे पुत्रलक्ष्म्यलक्षणे षोडशकशरीरनामकर्मादेयेन निष्पन्नत्वाद्जीवोदयनिष्पन्न षोडशकशरीरनामकर्मादेयेन निष्पन्नत्वाद्जीवोदयनिष्पन्न  
भावना कार्या नष्टं वैकृत्यशरीरनाम कर्माद्युदयजन्यत्वात् यथा स्वप्नाभ्यमिति च दारिकादि शरीरप्रयोगेण यत्परिणमिति द्रव्य तत्स्वतएव शब्दयितुमात्र  
पञ्च गपरिणामिए वणे इत्यादि पश्चानामपि शरीराणां प्रयोगेण व्यापारेण परिणमिति नृचीत वर्षादिप्रसादक द्रव्यमिदं द्रव्यं चपलक्षणे  
त्वाच्च वर्षादीनामपरमपि यच्छरीरे सभक्त्यानापानादितत्स्वत एव द्रव्यमिति अत्राह ननु यथा नारकत्वादय पर्यायाजीवे भवन्ती जीवोदयनिष्पन्ने

तजहा उरालिअवा शरीर उरालिअ शरीरयोगपरिणामिअवा दव्य वेउळिअ वा शरीरं वेउळिअ अं शरीर पउ ग

परिणामिअ वा दव्य एव आहारग शरीरं तेश्रगशरीर कसगशरीरचभाणिअम्बं पउ गपरिणामिए वखे गधेरसेफासे  
परिणामिअ वा दव्य एव आहारग शरीरं तेश्रगशरीर कसगशरीरचभाणिअम्बं पउ गपरिणामिए वखे गधेरसेफासे  
तेमध्ये अतिपण विषारहे सेत समाप्त एव अजीवोदय निष्पन्न कहेहे सेकित सुगम उरालिअवाशरीर विधिटाकारि परिणस्यो तिर्यच मनुष्य देव  
रूप उदारिक शरीर कश्चिये तथा उदारिक शरीरनो जे प्रयोग कश्चतां व्यापार तेणे परिणमास्यो कश्चतां व्यापारे जेद्रव्य तेजदारिक  
शरीर प्रयोग परिणामित द्रव्य कश्चिये तेवर्णगधरसस्यार्थं प्राणपाणादिक रूप भागल देखाण्ठे वागब्द परस्पर ससुस्यार्थिहे एपूर्वीत दोनु ईने  
उदारिक शरीर नाम कर्मने उदेकरी अजीव मुन्नक द्रव्यने विषे नीपनापणायी अजीवोदय निष्पन्न उदयिक भाव बोक्तिये एव वैकृत्य शरीरादिकने विषे  
पणिभावना करवी नपर वैकृत्य शरीरादिकना कर्मादेय जषन्य पणो दोलको एव उदारिक शरीर प्रयोगे करी परिणमे जेद्रव्य तेदेखाण्ठे पउगपरिणा

ओदधिके पद्यंते एवं शरीराण्यपि जीव एव भवन्त्यतस्मान्यपि तत्रैव पठनीयानिस्यु किमित्यजीवोदयनिष्पन्नः धीयन्ते सेतल्लिंत्वोदारिकादि शरीरनाम कर्मादियस्य सुख्यतया शरीरपुङ्गलेखेव विपाकदर्शनात्तन्निष्पन्न उदधिकोभावः शरीरलक्षणे जीवएव प्राधान्याद्दृशित इत्यदोषः सेत्तमित्यादि निगमनतयं उक्तो द्विविधोदधिकोद्योगभिकं निर्दिदिचुराह सेकिंतं उवसमि ए इत्यादि अयमपि द्विविध उपगमसन्निष्पन्नस तल उपसमेणंति णमिति वाक्यालंकारि उपगमः पूर्वोक्त स्वरूपो मोहन्ती यस्यैव कर्मणोष्टोविंशति भेदभिन्नस्योपगमश्रेण्यां द्रष्टव्यो न शेषकर्मणा मोहस्येवोवसमो इति वचनात् उपगमएवोपय भिकः उपगमनिष्पन्ने त उवसंताकोहे इत्यादि इहोपगान्तकोधादयो व्यपदेशोक्तापि जाचना वियोगाः कियंतोपि दृश्यन्ते ततमोहनीयस्योपयमेन दर्शन मोहनीयचारितमोहनीयंचोपयान्तं भवति तद्रूपगान्ततायांच खेच्छयादेशाः संभवन्ति तसर्वेष्वतारुष्टा न दोषा इति भावनीयं सेसमित्यादि निगमनतयं

सेतंत्रजीवोदय निष्पन्ने सेतं उदयनिष्पन्ने सेतंतुदइए सेकिंतं उवसमि ए २ दुविहे पंखत्ते तंजहा उवसमेअ उवसमनिष्प  
ण्ये अ सेकिंतं उवसमे २ मोहणिज्जस्य कण्णसुउवसमेणं सेतंतुवसमे सेकिंतं उवसमनिष्पण्ये २ अणेगविहे पंखत्तेतं जहाउव

मि ए पांच शरीरने प्रयोगे करी परणमाध्युं ; कशतां ग्रहो वर्णीदिक शरीरने विसे वर्णीदिकतुं निप जावणहारो दय्य जाणवो इहां वर्णीदिकना उप कत्तण पणाथी अनेरुं पणि जेशरीरने विसे संभये आनपानादिक तेपणि देखाडवो इहांकोई एक इमकहे जिम नारक पणादिक पर्याय जीवोदय निष्पन्न उदधिक भावने विसे भणीये एवं शरीर पणि जीवने विसे अइ तो तेपणि तिहांज भण्णालोइये अय एजीवोदयतो एसीवोदय निष्पन्नने विसे स्याभणी भणीये गुरु बोल्या यद्यपि इमज्जहे तथापि उं दारिअ शरीर कमेईदवना सुखपणाथी अने शरीर पुत्रतने विपेज विपाकना देयवाथी अजीवो

निर्दिष्टो द्विविधोपशमिको अथ स्वाधिकमार सेकितमित्यादि एयोपि द्विधा अथकाश्चिदप्यत्र तत्र अरण्यं अत्रणमिति पूर्ववत् त्रयोऽद्याना आनावरणादि कर्म प्रकृतौनां सोत्तरभेदानां सर्वथापगमलक्षणस्य च स्वार्थिककठक प्रत्यये स्वाधिक अथमिष्यन्वस्यतत्फलरूप सत्व च सर्वेष्वपि अर्थस्य सर्वथा जीयेषु विषये पर्याया सभयन्ति तत्कर्मण दिदर्यायित्तानावरणश्चये तावद्वेषः भवन्ति तानाह उच्यन्नाथदसणेत्यादि एतन्मये श्यामतापगमेनादर्थमण्डलप्रभायसकल तदावरणापगमादभिव्यक्ते ज्ञानदर्शनधरति य स तथा अरणा अविद्यमानरहस्यो नामस्य गोप्य किञ्चिदस्तीति भाव आवरणग्रतुजेतानाजिन केवल संपूर्ण ज्ञानमस्यास्तीति केवली शोषमाभिनिकोधिक आनावरणयस्य स तथा एषनेय यावत्क्षीणकेवलज्ञानावरण

सतकोहे जावउवसतलोभे उवसतपेज्जे उवसतदोसे उवसतदसणमोहसिज्जे उवसतमोहसिज्जे उवसमिआसन्धतलद्वी उवसमिआचरित्तलद्वी उवसतकसाया छउमत्यवीतरागो सेतउवसमनिपथे सेतउवसुदएदुविहेपथत्ते

इय निष्पन्न उदयज भाव शरीर रूप अजीयजना प्रधान पणायी देवाद्यौछे तेभणी दोपाही सेत निगमनतय एतले द्विविध उदयिक भाव देवाद्यो अथ उपशमिक भायकहेछे सेकित सुगम एपण्णिद्विविध एक उपशम अने, बीजो उपशमिक निष्पन्न तिहा उपशमेण यमिति वास्त्रालकारे उपशम पूर्वोक्त स्वरूप ते अठावीस विधमोहनीय कर्मनोज उपशम अण्णिने विदे [इदं मोहच्छे] बोप समोदति वचनात् तथा उपशम निष्पन्न, उच्यतकोहे इत्यादि इहा उपशान्त कोषादिक शोल किसी एक पाचनाने विदे केतला एकदोसेछे अने प्रत्यन्तारने विदे घोडावणा पण्णिदीसेछे तिहा मोहनीय फर्मने उपशमेकरी दर्शन मोहनीय अने पारित्त मोहनीय उपशम्यो [इदं ते उपशम्ये] । छ ते जेवोल सभये तेसर्व इहा अदुष्ट जाणया अनेरा नची सेत निगमनतय एतले



अविद्यमानमावरणं यस्य स विशुद्धान्तरक्षेत्रोच्चिरिवानावरणः तथा निर्गत आगन्तुकादप्यावरणाद्द्राक्षरहितरोहिणीशब्देवं निरावरणः तथा  
 क्षीणप्रकाशेनापुन भौवतया आवरणमस्येत्यपाकृतसणावरणजात्यमणिवत् क्षीणावरणः निगमयन्नाह ज्ञानावरणीयेन कर्मणा विविध मनैकैः प्रकारैः  
 प्रकर्मण सुक्तो ज्ञानावरणीयकर्म विप्रसुक्तः एकार्थैकानिवा एताम्यनावरणाद्विपदानि अन्यथा वा नयमतभेदेन सुधिया भेदावाच्या स्रदेवसेतानि  
 ज्ञानावरणीयापेक्षाणि नामान्युक्तान्यथदर्शनावरणीय क्षयापेक्षाणि तान्यथाह केवलेन क्षीणावरणेन दर्शनेन पश्यतीति केवलदर्शी क्षीणदयनावरण  
 स्वादेव सर्वं पश्यतीति सर्वदर्शीत्येवंनिद्रापक्षकदर्शनावरणचतुष्कक्षयसंभवन्यपराख्यपिनामान्यत पूर्वोक्तानुसारेणव्युत्पादनीयानि नवरंनिद्रापक्षकरूपमिदं

तंजहा खड्ग ए अ खयनिष्पद्ये अ सेकितं खड्ग ए सेतं खड्ग ए सेकितं खयनिष्पद्ये २ अणेगविहे पंख  
 त्ते तंजहा उष्पथनाणदंसणधरे अरहाजिणेकेवली खीणअभिणिवोहि अणाणावरणे खीणसुअणाणावरणे खीणउं हि  
 णाणावरणे खीणमणपञ्जवणाणावरणे खीणकेवलणाखावरणे अणावरणे निरावरणे खीणावरणे णाणावरणे णिज्जकम्भ

उपयामिक भावद्विप्रकार वपाण्यो अथ जायिक भाव कहेछे सेकितं सुगम एपणि द्विप्रकार एकक्षय अने एकक्षय निष्पन्न तिहां एणं गं पूर्ववत् अय  
 कहतां ज्ञानावरणीयादि सर्वशूलोत्तरप्रकृतिनो विनायरूप अमरुक्षय निष्पद्य तेहनो फल रूप तिहां सर्वं कर्मक्षयगये इ ते जेपर्याय संभवद् तदेखाडवा  
 भणी प्रथम ज्ञानावरणीयने अये जेपर्याय संभवद् तेकहेछे तिहां ज्ञानावरण अने दर्शनावरण नाम सर्वथा क्षयवी पारसीना मंडलनी परे प्रकट ज्ञान  
 दर्शनधरद् तेउत्तन्न ज्ञान दर्शनधर तथा अरहा कहता अविद्यमान रहस्य एतले एहने कांदि गोप्यनयो तथा आवरण रूप शतु ना जीपवाथी जिननाम

सुखपडिबोडो निहा सुखपडिबोडोयनिहनिहाय पयसाहोदृष्टियसा पयसापयसायर्चकमत १ अइसकालिदृक्कभाणु वेयणेहोदृथीणगिहोषो मरनिहादिण्यवि  
 तियका बारपसाठणीपाय २ अपर ग्यानावरणार्थादिशब्दा पूर्व ज्ञानावरणाभावापेक्षा प्रहत्ता अत ए दर्गनाथरणपरमोपेक्षा दृति विगोप वेदनीय विद्या  
 प्रीत्युत्पादक सातमप्रोत्युत्पादक त्वसात तत्तुषयपेक्षास्तु श्रीणसातावेदनीयादयशब्दा सुखोन्नेया नवरमयेदनो वेदनारहित सच थ्यवहारतो अल्प  
 वेदनीयुष्यते तत प्राञ्च निवेदनीयगत सर्ववेदन सचपुन काबान्तरभाविवेदनीपि सादित्याञ्च श्रीणवेदनो अपुनभौविवेदन िगमयन्नाञ्च सुभासुभये

विष्णुसुक्ते केवलदसो खौणनिह् खौणनिह् खौणप्रयले खौणप्रयलापयले खौणथीणगिह् खौणचक्रकुदं  
 सणावरणे खौणअचक्रुदसणाधरणे खौणल'हिदंसणावरणे खौणकेवलदसणावरणे निरावरणे खौणावरणे दरिसणावर  
 णिञ्जकसविष्णुसुक्ते खौणसायावेअणिञ्जे खौण असायावेअणिञ्जे अवेअणे निञ्जेअणे खौणवेअणे सुभासुभवेअणिञ्जे

तथा केवल सपूर्ण ज्ञानछे एहनै तेमणी केवकी तथा श्रीण आभिनियोधित ज्ञानावरण जेहनो तेतथा एवयावत् श्रीणकेवल ज्ञानावरण तथा अविद्यमान  
 आवरण जेहनै विशुद्ध सूर्यनी परे अनावरण कश्चिये तथानीकल्योके आगतुक आवरणथी जेतैराऊ रहित घट्टनी परे निरावरण कश्चिये तथाचय  
 गवौ एकान्त वकी अनहोवा रूप आवरण एहनौ तेमख रहित जातिमणियवत् श्रीणावरण कश्चिये किये समाप्ति कहेछे ज्ञानावरणीय कर्म करोविविधि  
 अनेक प्रकारेकरी प्रकर्षत काणौ तेज्ञानावरणीय कर्म विमसुक्त कश्चिये अथवा एअनावरणादिक पद एकार्थ जाणवा अन्यथा नयमतने भेदे बुद्धियत  
 तेभेदबोळवुं तेइस एज्ञानावरणताक्षयनी अपेक्षायै नाम बोल्या अथदर्शना वरणनाक्षयनी अपेक्षायै नाम कहेछे तिहो श्रीणकेवलादर्शना वरणीये

अणिद्यकम्प्रविष्यसुक्तेति मोहनीयं द्विधा दर्शनमोहनीयं चारित्रमोहनीयं च तत्र दर्शनमोहनीयं त्रिधा सम्यक्तमिन्द्रमिध्यात्वभेदात् चारित्रमोहनीयं च द्विधा क्रोधादिकषाय हास्यादिनोकषायभेदा ततएतत्तुचवसंभवीनि सूत्रलिखितानि क्षीणक्रोधादीनि नामानि सुवीधान्येव नवरं मायालोभो प्रेम क्रोध मानो तु हेय साथा मोहोपगतमोहनीयकर्मा सच व्यवहारिकेरत्यमोहोदयोपि निर्दिश्यते अतआह निर्गतो मोहान्निर्गोहः सचयुनः कालांतरभाविमोहो ह्योपि स्यादुपशांतमोहवत्तद्यवच्छेदार्थमाह क्षीणमोहो अपुनर्भाविसोहोदय इत्यर्थः निगमयति मोहनीयकर्म विप्रसुक्त इतिनारकाद्यायुष्कभेदेनायुच्यतुर्द्धा तत्तथ्यससुझवानि च नामानि सुगमानि नवरमविद्यमानायुष्को नायुष्कसाङ्गविकायुं क्षममात्रेपिस्यादत उक्तं निरायुष्कः सच शैलेयीं गतः किञ्चिदव

त्रिप्रसुक्ते क्षीणकोहे जावक्षीणलोहे क्षीणपेले क्षीणदेसे क्षीणदंसण मोहश्चिञ्जे क्षीणचरित्तमोहश्चिञ्जे असोहे नि  
सोहे क्षीणमोहे मोहश्चिञ्जे क्षीणणेरइश्चाए क्षीणतिरिक्त्वजोश्चिञ्जाए क्षीणमणुस्त्राए क्षीणदेवाए

करी देखते केवलदर्शी तथा क्षीणदर्शनवरणीय मणायी सर्वदृष्टे तेसर्वदर्शी एवंगेष पणिनाम जाणवा नगरं निद्रा पंचकनो एखरूप उक्तं च सुहृपडि बोहोनिहा दुहृपडिबोहायनिहनिहाय पयभाहोइठिअसु पयत्तपयत्तायचंकमठ अइसंकिलिट्टकशाणु दयशेरोइशीणगिद्वीठ मइनिहादिणचिंचित्तिय वी चारपसाहणीपावंर अपरंच अनावरणादिक जेयब्द तपूर्वलोक्षानाररणीयना अभावना अपेक्षी जाणवा अने इहां दर्शनावरणीयना अभावना अपेक्षी वपाणवा एतलोविशेष अथ वेदनीय कर्मद्विविध जाणवो एक प्रीतिनो उपजावणहारो सुखरूप अने बीजो प्रप्रीतिनो उपजावणहारो दुःखरूप तेहना चयना अपेक्षी अपेक्षणे वेदना रहित सध्यवहारयी अल्पवेदन पणि बोलीये तेभणी कहेछे निक्खेदणे गइ सर्वथा वेदना जेहनी तेवली कालन्तरे वेदन

राय सनपतिशिव प्रयागेश्वर शिव शिव शिव ८८ म

तिष्ठमानासु गेयोप्युपचारत स्याद्वत्तु क्वीयाहुरिति आसु कर्म विप्रसुक्तइति निगमन नामकर्म सामान्येन शुभाशुभभेदतो द्विविध विनियतस्तु गति  
 काति शरीरगोवाङ्मादिभेदाद्विचल्यारियभेदा स्थानान्तरावसेय तत्र तत्तुच्य भावोनि कियतिश्वामानि अभिधत्ते गृहणाद् शरीरेत्यादि इत्  
 प्रकसाश्यामगने मथा क भव द्रष्टव्य सातश्च नारकादिति षट्पदयेठभूत गतिनाम एकैन्द्रियजाति पञ्चकारण्यं जातिनाम बौदादिकादियरीरपञ्चकनिव  
 त्वन शरीरनाम बौदादिकैकैकियाकारकशरीरत्वयोगिभेदं निकारणमज्ञोपगनामाकाटादीनां छायादिद्रव्यनिध शरीरपञ्चकपुद्गलानां परस्पर बन्ध  
 हेतुबन्धनाम तेषामेव पुद्गलानां परस्परबन्धनार्थमन्योन्य सानिध्य कल्पणसघातकारणं काष्ठसन्धिकर्षकत्तथाविधकर्मकारण्य सघातनामकपाटादीनां  
 लोचपट्टादिरिलोदारिकगरीराणि परस्पररन्ध्रकिरणनिवृत्त्यन सञ्जननाम एतच्च बधनादिपदत्रय क्विद्वचनानां गरेण दृश्यत इति नोदिससु शरीरमिति

अथात्त ए निरात्त ए शोणात्त ए आत्तकर्मविप्रसुक्ते गृहणाद् शरीरगोवग वधेण सघायणसंघयग सठाण अयेगवोदिविदि

सहितं पण छद् तेषणी कहेछे ज्ञीणयेचये, वली आगमिये काले वेदनानो उपजनो नथी केछने चिचे समाति कहेछे शुभाशुभयेअग्निष्ण कर्मविप्रसुक्ते  
 अयमोहनो कर्मना विभेद एतद्गंन मोहनोय अनेवी जोषारित्त्व मोहनोय तिसां द्यंन मोहनोतिवियिकठी सगक्तमोहनोय मिथ्यात्वमोहनोय मिथ्यमोह  
 नीय अनेषारित्त मोहनोदिविप्रसुक्ती लोषादिकतेकपायमोहनोय अनेबास्यादिकतेनोकपायमोहनोयनेभण्णी एठगाजययकी जे गामसभयेतेधीयकोषादिक  
 सुगम नवरं शीणयिजे मायाकोभने प्रेम कबीये शीणदेसे अने लोषमान तेहपे कणिये अमोहे अपगत मोहनोय फर्म तेव्यवचारी क्रीय अत्यमोहो  
 दयनद् पण शोणिये तेभणी कहेछे निग्योहे गवतमोह जेयो तेवकी कदापि ल्काकातरे मोहोदय पण पुयालचद् उपगांत मोहनोपर तेभणी कहेछे  
 नीणसोहे वली आगमिये काने मोहनो वदय नकी छद् इत्यर्थं चिचे समाति कहेछे मोहणिल्लकर्मविप्रसुक्ते अयनारकादिक भेदे आत्तवोचतविध

अथ टी० २८५ पृ० भाषा

पर्यायाः अनेकाश्च नाना भवेत्तु तासां भावात्तस्मिन्नेव वा भवेज्जन्वत्यतोद्योदारिक तेजसकार्मणलक्षणानां तिरुष्ट्यां भावानेकबोद्यस्तासां वृन्दं पटलं तदेव पुञ्जलसंख्यातरूपत्वात् संघातोऽनेकबोदिवृन्दसंघातः गत्यादीनां च वृन्दे गति जातिशरीराङ्गोपाङ्ग बन्धनसंघनगानेकबोदिवृन्दसंघाता खोर्धिसुक्तो यः सतथा प्राक्तनेन शरीरयन्देन शरीराणां निबन्धनं नामकर्मसंघीतं बोदिवृन्दग्रहणेन तु तत्कार्यभूतशरीराणामेव ग्रहणमिति विशेषः क्षीण समगतं तीर्थकरशुभसुभगसुखारादेय ययः कीर्त्यादिकं शुभं नाम यस्य स तथा क्षीणमपगतं नरकगत्यशुभदुर्भगदुःखरानादेयायशाकीर्त्यादिकमशुभं नाम यस्य स तथा अनाम निर्नाम क्षीणनामादि शब्दास्तु पूर्वोक्तासुसारेण भावनीयाः शुभाशुभनामविप्रसुक्तः इति निगमनं गोलं द्विधा चञ्च गौलं

### संघायविष्यसुके क्षीणसुभनामे क्षीणशुभनामे अणामेनिणामे क्षीणनामे शुभाशुभणामकस्य विष्यसुके क्षीणचञ्चगोए

तेहनाञ्चयथकी जपनानाम सुगम नवरं अविद्यमानआउषो जेहने तेअनासुक्क कश्चिये तेआगमिआकालना आऊपानाञ्चय मातइ पणियाइ तेभणी कहेछे निरासुक्क तेवली श्लेशीविलाये कांई एक छतइ पणि उपचार नयथकी बोखिये तेटालवाने कहेछे क्षीणासुक्क हिवे समाप्ति कहेछे आसुक्क कर्मविप्रसुक्त अथ नामकर्म ससुञ्चयरूपइ सुभासुभ भेदेद्विविध अनेविशेषरूपे तो गतिजाति शरीरंगोपागादिकना भेदथकीवयालीस भेदजाणिवाए अघि कारनेविधे तेहनाञ्चयथकी जपना केतसा एकनांस कहेछे गति जातिसरीर भित्यादि इहां अघिकारथौ नाम शब्द प्रत्येक प्रत्येक जोडवो तेभणीनार कादिक आरिगतिनोहेतुभूत तेगतिनाम कश्चिये तथाएकेन्द्रियादिक पांचजाति नामकश्चिये तथाकाथादिकने लाषादिक द्रव्यनीपरे शरीरपांचनां पुञ्जलने परस्पर बंधावानो हेतुबंधन नाम कश्चिये अने तेहज पुञ्जलने परस्पर बंधनने अर्थपरस्पर समीपेरूप संघातनो कारण काष्ठ संयोगनामेलणहार सूत्रधर सरीषो संघात नाम तथा कपाटादिकने लोहपट्टादिकनी परेउं दारिक शरीरना आडनो परस्पर संबंध विशेषनो कारण तेसंघनननाम एवंघनादिक



प्रकारैः निवृत्तः सकलसमीहितार्थलाभप्रकर्षप्राप्तत्वात् शीतीभूतः परिनिवृत्तः समससंसारान्तकृत्वाद्दन्तकृदिति एकांतेनैव शरीरमानसदुःखप्रहाणात् सर्वदुःखप्रक्षीण इति सत्तामित्यादि निगमनद्वयं उक्ताद्विविधोपि चार्थिकोद्योग्यायोपशमिकमात्रं सेकितमित्यादि आसावपि हिरूपचयोपशमस्तन्निष्पन्नश्च तत्रविविच्य तज्ज्ञानादिगुणविधातकस्य कर्मण्य उदयप्राप्तस्य चयः सर्वथापगमः अतुदीर्णस्य तु तस्यैवोपशमोऽपिपाकत उदयाभाव इत्यर्थस्तत्र च योपलक्षितउपशमचयोपशमः नतुचौपशमिकेपि यदुदयप्राप्तं तत्सर्वथा चोषं शेषंतुनक्षीर्णनाप्युदयप्राप्ततस्योपशम उच्यत इत्यनयोः कः प्रतिविशेषः उच्यते चयोपशमावस्ये कर्मणि

शिल्बुएअंतगडेसव्वदुखप्पहीणे सेतंखयनिप्पये सेतं खडए सेकितं खलवसमिएदुविहे पंणसे तंजहा खलवसमियखलं वसमनिप्पयेय सेकितं खलवसमेरुचउणहंघाद्रकम्मणं खलवसमेणं तंजहा णाणावरणिज्जस्स दंसणावरणिज्जस्स मोहणि

दानांतरायादिकनाम सुगमं, तेदम एकेक प्रकृतिना चययकीनीपनाऽप्रत्येकनाम देखाडीने हिचे वली एकठी आठप्रकृतिनाऽचययकीनीपना सामान्यरूपे जेनाम देखाडेके समस प्रयोजनना सीक्वाथी सिद्ध तथा बोधरूप पयाथी बुद्ध तथा वाच्यभंतिर ग्रन्थरूप वंशनथी सूक्तावण छुती युक्त तथा परि कथता सर्वथाऽप्रकारे निर्हत कथता उतत्रष्ट वांछितार्थलाभना पामवापयाथी शीतीभूत तेषपरिनिवृत्त तथा समस संसारना अंतजरयाथी अंतकृत तथा एकांतिशरीर मानसी दुःखना प्रकर्षे चयजावाथी सर्वदुःख प्रक्षीण कश्चिये सेतंखय निप्पयेऽसेतं खडए एतले विप्रलारनो चाधिकभाष वपांण्यो अथचयोपशमिकभावदेखाडेके सेकितं खलवसमिए चयोपशमिकभावपणिद्विष एक चयोपशम अने ऽधीजोचयोपशम निप्पच्च तिष्ठां विवक्षित ज्ञानादिक गुणनो जेत्थाघातक कर्म तेकर्म जेउदये पाथ्यो तेरुनो चय कथतां सर्वथा अपगमऽपिनाय अने, तेरुज कर्म जेउदयं नथी पाथ्यो तेरुनो उपयम

विपाकत एषोदयो नाशि प्रदेयतल्येव उपयांतावस्थावा तु प्रदेयतोपि नास्त्यु इत्येतावताविशेष इति चतुर्थी घातिकर्माणां केवलज्ञानप्रतिबन्ध  
 ज्ञानां ज्ञानावरणदर्शनवरणमोहनीयांतरायां य ज्योपयम स ज्योपयमरूप ज्योपयमिबो भाव णमिति पूर्ववत् तद्येत्यादिना स्वतएवधाति  
 कर्माणि विट्णोति शेषकर्माणां तु ज्योपयमो नास्त्येव निषिद्धत्वात् सेतमित्यादि निगमन तेन च ज्योपयमेनोक्त स्वरूपेण नियन्त्र ज्योपयमिबो  
 भावोऽनेकधाभवति तमात्र ज्योपयसमिया आभिनिवोदियनाणवहीत्यादि आभिनिवोदिक ज्ञानमतिज्ञान तस्य लब्धियोग्यता स्वस्यावरणकर्म ज्योप  
 शमसाध्यत्वात् ज्योपयमिबो एव वक्तव्यं यावत्ज्ञान पर्यायज्ञानत्वञ्चि केवलज्ञानस्वस्यावरणकर्म ण ज्य एवोक्तद्यत इति नेहोक्ता कुलित ज्ञानमत्रा

ज्जस अतरायस सेत खलवसमे सेकित खलवसम नियमखे २ अणेगविहे पखत्ते तजहा खलवसमिआ आभिणिबो  
 खलवसमिआ सुअत्रअथाण

हिअथाणलदो जावखलवसमिआ मणपज्जवणाणलदो खलवसमिआमतिअथाणलदो खलवसमिआ सुअत्रअथाण  
 कइता विपाकयी उदयनो अभाव पळे एअर्थं ज्ये करी सजित जेउपसम तेज्योपयम इशां कोइ इसी मेरणा करे जेउपसमिक भावने विपे पणि जेउदये  
 आथो तेसंभया ज्यगयो अने जेयेप तेजय पणि नथी गयो अने उदये पणि नथी आथो तेभणी तेहने उपयम कइये तोविज्ज नो मांरोमाणि  
 किसो भेद इहा उतर ज्योपयमावस्य कर्मने विपे विपाक थी उदय नथी परप्रदेय थीतो अवस्य उदयछे अने उपयातवस्थाने विपे तो प्रदेययी  
 मिणि उदय नथी एतलो विब्रेप तिशां ध्यारिवातीकर्म केवल ज्ञान प्रतिवचज्जानावरण दर्शनावरण मोहनिय अतरायनो जेज्योपयम कइये  
 तेज्योपयम रूपज ज्योपयमिक भाव कइये अयवा स्वयमेव घाती कर्म विचारता छतांजयेपकर्मने ज्योपयमनथी जेइम जाणवु तेणेज्योपयमेकरीनी



नंसतिरेव अज्ञानं मत्यज्ञानं कुत्सितत्वं चेश्मिथ्यादर्शनोदयदूरपतलादुद्वृत्तं इहा च कुत्सार्थेनजो वृत्तिर्वया कुत्सितं शीलमयीलभिमिति मत्यज्ञानस्य लब्धिर्योयता सापि स्वावरणक्षयोपयमेनेव निस्पद्यते एवं श्रुताज्ञानलब्धिरपि वाच्या भङ्गःप्रकारो भेद इत्यर्थः सचेष्ट प्रक्रमादवधिरिव गृह्यते विरूपः कुत्सितो भङ्गो विभङ्गः सएवार्थे परिज्ञानाज्जलात् ज्ञानं विभङ्गज्ञानं मिय्यादृष्टि देवादेरवधिविभङ्गज्ञानमुच्यते इत्यर्थः इह च विगच्छे नैव कुत्सितायंप्रतीते न न

लक्षौ खलुवसमिआ विभंगणालक्षौ खलुवसमिआचक्वुदंसणलक्षौ अचक्वुदंसणलक्षौ उह्दिंसणलक्षौ एवंसम्भदंस  
खलक्षौ मिच्छादंसणलक्षौ सम्भमिच्छादंसणलक्षौ खलुवसमिआसामाहअचरित्त लक्षौ एवंछेदोवठावणलक्षौ परिहार  
विमुद्धिअलक्षौ सुद्धमसंपराय चरित्तलक्षौ एवंचरित्तलक्षौ खलुवसमिआदाणलक्षौ एवंसाम भोग एवभोगलक्षौ

पनो जेभाव तेज्योपयसिक्क भाव कश्चिये तेचनेक भेदे संभवे तेकषेछे खलुवसमिआया आभिणिवोडिअणालक्षौ आभिनिवोडिक ज्ञान तेमति ग्यानकश्चिये तेहनीलब्धि कश्चिये योग्यता आवरणना क्षयोपयसकीनीपजइ तेभणी क्षयोपयसिकी कश्चिये एवं यावत् मन पर्यवज्ञानलब्धि तेआवरणनाक्षययकीज छइ केवल ग्यान लब्धि तो अपनार आवरण क्षय कारणेसेइ उत्यस होय तेभणी इहा न कश्चि कुत्सित पोडो जेयांन ते अग्यांन पच्छिमति तेहज जेअज्ञान तेमति अग्यांन कुत्सित पणो इहां मियात्वना उदयना दोप थी जाणुं इहां कुत्सितार्थने धिये पणि नकारदीसे छे जिम कुत्सित जे गील तेअगीश कश्चिये तेमति अज्ञाननी जेअब्धि कश्चिये दोष्यता तेपणि आपणा आवरणने क्षयोपयमेज नीपजे एवं श्रुत अज्ञानलब्धि पणि जाणवी तथा भंग करुता प्रकारभेदइत्यर्थः तेइहां अविआरयो अवधियेअपहीये पछे विरूप करुता कुत्सित जेभंग तेमिभंगकहीये तेहज अर्थना

ओ निर्देश सस्य लब्धियोग्यता सोपि स्यात्परण्यस्योपयोगेनेव प्रादुरसि एव मियात्वात्वादिकर्म्मण्य चयोपशमसाध्या योपाचपि सस्यदर्शनादिलम्बयो यथा सम्प्र भावनीया नवर वासाचविरता मण्डिता साधव बालपण्डितास्तु देवविरता तेषां यथा स्व धीर्यलम्बि धीर्यन्तरायकर्म्यं चयोपशमसाध्यावनीया इन्द्रियाणि चेष लब्धुपयोगरूपाणि भावेन्द्रियाणि मृक्षान्ते तेषां च लब्धियोग्यतामतिशुतज्ञानचक्षुरचक्षुदर्शनावरणवयोपशम त्वान् छायोपशमिषीति भावनीय आचारधरत्वादिसर्वायाणां च श्रुतज्ञानमभवत्वा तस्य च तदावरणकर्म्यं चयोपशमसाध्यादाचारधरत्वादियद्वा इह पठ्यते इति प्रतिपत्तव्यं सेत्तमि

खल्वसमिथा वोरिअलहो एव पडिअवीरिअलहो बलवोरिअलहो वोरिअलहो खल्वसमिथा सोइदि अलहो जावखल्वसमिथा फासिदिअलहो खल्वसमिथा आयारगधरे एव सूअगडागधरे ठाणंगधरे समवायगधरेचैव विवाहमण्ति नायाघअकहा ल्वासगदसा अ तगडदसा अणुसरोववाइअदसा मएहावागरणधरे विवागसुअधरे खल्वसमिए दिहवायधरे खल्वसमिए णवपुवो खल्वसमिए जावचलइसपुवो खल्वसमिए गणी वाए खल्वसमिए

आणपणारूपयो ज्ञानते विभगज्ञान कशीये एतले मिया दृष्टी देवतादिकनौजे अवधि तेविभगज्ञान कशीये एत पिग्दइज कुखितार्थजणाय्, तेकनीजे लब्धियोग्यता ते पण्य आमणा आवरणे चयोपशमेज कपजे श्रेपं सुगम एव मियात्वादिककर्मना चयोपशमयीनोपनी येव सस्यग्दर्शनादिकलब्धियमपि आणवी नवर बालकशीये अविरती अने पण्डित कशीये साधु अने बालपण्डितने देसविरती तेकनी आणपणा धीर्यन्तराया चयोपशमयीतेतेलधि लपनी आणवी तथा इन्द्रियते लब्धि लपयोगरूपभायेन्द्रिय तेइअं प्रणीइ तेपनी जे लब्धिकरतां योग्यतते मतिज्ञान श्रुतज्ञान चसु अचसु

अथ टी० १२१ सूत्र भाषा खल्वसमिथा सोइदि अलहो जावखल्वसमिथा फासिदिअलहो खल्वसमिथा आयारगधरे एव सूअगडागधरे ठाणंगधरे समवायगधरेचैव विवाहमण्ति नायाघअकहा ल्वासगदसा अ तगडदसा अणुसरोववाइअदसा मएहावागरणधरे विवागसुअधरे खल्वसमिए दिहवायधरे खल्वसमिए णवपुवो खल्वसमिए गणी वाए खल्वसमिए

पुत्रलपरिणतिरूपाः सुप्रतीता एव प्रतिचन्द्रवत्पातादिस्त्वने द्वितीयचन्द्रः एवं प्रतिचुर्योपि चन्द्रधनुः प्रसिद्धस्य उदकमत्स्यास्त्रिन्द्रधनुः खण्डान्येव कपि  
 हसितान्यकस्मान्नभसि ज्वलद्भीमयद्भरुपाणि असोषाः सूर्यं पिबन्नादधः कदाचिदुपलभ्यमानयकटो हिंसंस्थितयामादिरियाः वर्षाणि भरतादीनि वर्षधरास्त  
 द्विसवदादयः पातालाः पातालजलायाः शेषास्तु ग्रामादयः प्रसिद्धा एव अत्राह ननु वर्षधरादयः यास्ततलान्न कदाचित्तद्भावं युञ्जन्ति तत्कवं सादिगारिणा  
 भिकभाषवर्त्तित्वं' तेषां नैतदेवं तदाकारमात्र तथैव तिष्ठमानाः यास्तता उच्यन्ते पुत्रलास्वसंख्येयकालाद्वर्त्तन्तेषु न एवायतिष्ठन्ति किंत्वपरापरै तद्भा  
 वेन परिणमन्ति तावत्कालादूर्ध्वं पुत्रलां नामैकपरिणामेनाऽत्रस्थितेः प्रागेव निपिबुत्वादिति सादिगारिणाभिकता नः यिरुच्यते' अनादिगारिणाभिके तुधर्मा

वराहो चंद्रपरिवेसा सूरपरिवेसा पडिचंद्रा पडिसूरा इंद्रधनु उदगमत्या कविहसिआ असोहा वासावासधरागामा  
 णगरा घरा पक्वता पाताला भवणा निरया रयणप्पहा सक्करप्पहा वालुअप्पहा पंकप्पहाधूमप्पहातमप्पहा तमतम

समूह मालुमशोय तेपिण प्रसिद्ध अनेगाजणो बीजलीकानिर्घाति पिण प्रसिद्ध अने यपत्त ते सप्तान्ने आधरणो ज्जसो सुक्केदिग्घ तिपि इति  
 गार्थं कथित स्वरूप आवश्यक निर्युक्ति यी जाणवुं तथा अस्सादिता आकाशनेविपे अग्निपियाएटीसे' तेयचाटीप्रकठीये एतल्ले सूर्येअंबरे  
 बीजली भवकती दीसे तथा भूमिका ते रूपी अने प्रविरल धूमसरिपी जाणवी अने मणिकातुअग्घ अने धनस्वरूप जे अग्घ पण्यायीभूमिने विपे पडी  
 ऊंती लणाने बीजवेकरी लडिये तथा रज उद्योत ते रजस्सलादिक एतले रवे करोदिशडांकीसुकी ऊइ तथा चन्द्रसूर्यना उपराग ते चन्द्रसूर्यना यइण  
 जाणवा इडां वड्डयचन एतला भणी छे जेभणी अटी वीपने विपे जेचन्द्र सूर्यत्ते तेसर्वनो प्रइअसमकाले होय तेभणी तथा चन्द्रसूर्यना परिवेपतेचन्द्रसूर्यने

राय धनपत्तिं सुखं प्रकृतिकं शान्तं सुखं शान्तं ४४ वा

शिक्षायादय तेषां तद्रूपतया अनादिकालात्परिणते वाचनांतराख्यपि सर्वाण्युक्तानुसारतो भावनीयानि सेतमित्यादि निगमनद्वय उक्त पारिणामिकोच  
 सान्निपातिकनिर्दिशयति सेकितमित्यादि सन्धिपात एषामेवौदयिकादिभागानां व्यादिभेदापक स एतेनवा निर्दिक्त सान्निपातिकशयाचाच एएसिचवे  
 त्यादि एषामोदवीकादीनां पद्यानां भाषानां द्विकतिजचठक पञ्चकसयोगेरेपडविश्रुति भेगा भवन्ति ते सर्वेपि सान्निपातिको भाष इत्युच्यन्ते एतेषु सभ्ये  
 लीयेण नारकान्णियु पडेव भग्ना सम्भवन्ति येषास्तु विश्रुतिभंगकरवनातकेषु भवन्ति न पुन क्वचित्कम्पस्यत प्ररूपणामात्र तेषु ते अयगन्तव्या एतत्

जीयेण नारकान्णियु पडेव भग्ना सम्भवन्ति येषास्तु विश्रुतिभंगकरवनातकेषु भवन्ति न पुन क्वचित्कम्पस्यत प्ररूपणामात्र तेषु ते अयगन्तव्या एतत्  
 जीयेण नारकान्णियु पडेव भग्ना सम्भवन्ति येषास्तु विश्रुतिभंगकरवनातकेषु भवन्ति न पुन क्वचित्कम्पस्यत प्ररूपणामात्र तेषु ते अयगन्तव्या एतत्

पुनः सोहमे जाव अच्युते गेवेज्जे अणुत्तरे इसिप्पम्भारा परमाणुपोगले दुपएसिए जाव अएतपएसिए सेत साइ  
 पारिणामिए सेकित अणाइ पारिणामिए १ धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए आगासत्थिकाए जीवत्थिकाए पुगलत्थि  
 चठ फेरिखलयने आकारे पुत्रलपरिणामरूपते प्रसिद्ध तथा प्रति चन्द्रते उत्थातादिकनोजणावरहार बीजो चन्द्र दीसे ते एव प्रतिस्वर्यजाणया तथा इन्द्र  
 धनुप्रसिद्ध तथा उदकमत्स्य ते इन्द्रधनुपना एण्डजाणया तथा कपि उचित ते आकायने विपे जाखल्यमानवीर्यामणा यद्दरूप जाणया तथा अमोघ ते  
 स्वर्यविपदेठलिगाडापी जम्भने आकारे एकजालीरेखा आकासदीसे ते तथा वर्पते भरतजेतादिकरूप अने वर्पधर तेचिमवतादिक तथा पाताला  
 तेपातालकलय समुद्र माडिखा इर्षा कोइ एक इसी मेरणाकरे एवर्पादिक तो यास्यता भाषयी फदाचित्पणि तेभावन जाले तो तेसादि पारिणामिक  
 भावमाडिक्खु आख्या इर्षा उत्तर तेखेअ आकार मात्र पणे तिटताउता यास्यता कश्चिये पर पुत्रल तेअसख्याता काल उपरांत तेइने विपे तेइज नउइ  
 किंतु अनेरा तेइने भाये परिणमे एतले असख्याता काल उपरांत पुत्रलने एक परिणामे रहयो निपेधोअडे तेअणी तेइने सादिपारिणामिक पणु न

अणुत्तरे गेवेज्जे अणुत्तरे इसिप्पम्भारा परमाणुपोगले दुपएसिए जाव अएतपएसिए सेत साइ पारिणामिए सेकित अणाइ पारिणामिए १ धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए आगासत्थिकाए जीवत्थिकाए पुगलत्थि

सर्वं पुरसायकौ करिष्यते कियन्तः पुनश्चेत्वाहिसंयोगः प्रत्येकं सम्भवति इत्याह तत्पर्यं दसदुगसंजोगा इत्यादि पदानां दशद्विकसंयोगः दशैवद्विकसंयोगः पञ्चचतुःसंयोगः एकस्तु पञ्चकसंयोगः सम्पद्यत इति सर्वेपि यद्विंशति तत्र के पुनसो दशद्विकसंयोग इति जिज्ञासायां प्राहः तत्पर्यं जेतेदसदुगसंजोगातेणं इमे इत्यादि नामाधिकारादित्यमाह अग्नि तावत्यागिपातिकभावान्तर्वर्तिनामः विभक्तिलोपादोदयिकोपयमिकलक्षणभाव इत्यनियन्त्रमित्ये कोभद्रः एवमन्ये नाणुपरितनभावतयेण सह संयोगादोदयिकेन चत्वारो द्विकयोगा त्वा सातसात्यरित्यागे श्रीपयमिकस्योपरितनभाव तयेण सहचारणायां त्वासात्यसत्यरिशरेच्चाधिकस्योपरितनभावतयमीकनायां त्वाथी ततसंविस्तथ चायोपयमिकस्य पारिणामिकमीलने तत्रएत इति

काए अद्वासमए लोकत्रलोक भवसिद्धिआ अभवसिद्धिआ सेतं अणादि पारिणासिए सेतं पारिणामिए सेकिंतं सखिवाद्ए १ एएसिंचेव उद्दइअ खलवसमिअ खद्दअ खलवसमिअ पारिणामिअत्राणं सावाणं दुगसंयोगेणं

विरोधाद् अथ अनादि पारिणामिक भावने विषे धर्माशिकायादिक कक्षाते तेषेरूपे अनादिकालथी परिणस्यात्ते तेमणी अनादिपरिणामक भाव माहि कस्याळे इषां वाचनान्तर सर्वं कक्षानि अनुसारे भाववा सेतं अणादि पारिणामिए एतले पारिणामिक भाव कक्षो द्विये सांगिपातिक भाव देखाडेजे सेकिंतं संनिवाद्ए उत्तर संनिवाद्ए एउदयकादिक भावना विळ' प्पादिकने मिलापक तेसंनिपात कक्षिये तेइज अथवा तेणे करीनीपनी भाव तेसंखि पातिक कक्षिये तेइज कहेले एएसिए उदयिकना द्विक विकचौक पंचकना संयोग थी जे छळोसभांगा छद्द तेसर्व संगिपातिक भावमांदि जाणवा तेछळी सभांगमध्ये जीवनारकादिकने विषे छभांगज संभवे अनेशेव जेथीसभांगा तेरचनामात्रज जाणवा परं किडाई संभवे नकी तेअथी तेप्रकपणमात्र पणेज

1899. 1215 0232 0231 0230 0229 0228 0227 0226 0225 0224 0223 0222 0221 0220 0219 0218 0217 0216 0215 0214 0213 0212 0211 0210 0209 0208 0207 0206 0205 0204 0203 0202 0201 0200 0199 0198 0197 0196 0195 0194 0193 0192 0191 0190 0189 0188 0187 0186 0185 0184 0183 0182 0181 0180 0179 0178 0177 0176 0175 0174 0173 0172 0171 0170 0169 0168 0167 0166 0165 0164 0163 0162 0161 0160 0159 0158 0157 0156 0155 0154 0153 0152 0151 0150 0149 0148 0147 0146 0145 0144 0143 0142 0141 0140 0139 0138 0137 0136 0135 0134 0133 0132 0131 0130 0129 0128 0127 0126 0125 0124 0123 0122 0121 0120 0119 0118 0117 0116 0115 0114 0113 0112 0111 0110 0109 0108 0107 0106 0105 0104 0103 0102 0101 0100 0099 0098 0097 0096 0095 0094 0093 0092 0091 0090 0089 0088 0087 0086 0085 0084 0083 0082 0081 0080 0079 0078 0077 0076 0075 0074 0073 0072 0071 0070 0069 0068 0067 0066 0065 0064 0063 0062 0061 0060 0059 0058 0057 0056 0055 0054 0053 0052 0051 0050 0049 0048 0047 0046 0045 0044 0043 0042 0041 0040 0039 0038 0037 0036 0035 0034 0033 0032 0031 0030 0029 0028 0027 0026 0025 0024 0023 0022 0021 0020 0019 0018 0017 0016 0015 0014 0013 0012 0011 0010 0009 0008 0007 0006 0005 0004 0003 0002 0001

सर्वेषु एष साक्षात्पतो द्विकसयोगभङ्गकेषु दर्शितेषु विषेषतस्तत्सु रूपमज्ञातविनेय दृच्छति कतरेसेनामे उदद्दए इत्यादि शतौत्तर उदर्थत्तमशुक्ले इत्यादि षोडशिके भाषे मशुष्यत् मशुष्यगतिरिति तात्पर्यं उपलक्षणमात्रं चेद तिर्यगादिगतिजातिगरीरनामादिकर्माणामप्यत्र सम्प्रवापुष्यान्तास्तु कपाया षोडशमिषो भाष इति गम्यते अत्राप्युदाहरणमात्रमेतद्दर्शनमोहनीवनो कपायमोहनीयोरप्योपशमिकत्वसम्प्रवादेतिङ्गमयति एषण सेनामे उदद्दएउय सन्निप्ययेति शमितिवाक्यालकारे एतत्तनाम यदुद्दिष्टं प्रागेददिकोपशमिकभावहयनिप्यन्त्रमिति प्रथमद्विकयोगे भगवत्कव्यात्मन षयच द्विकयोगविवक्षा

चत्तक सजोएणपचग सजोएण जेण निप्यल्लइसुखेसे सन्निवाद्दए नामे तत्पण दसदुअ सजोगा दसतिअ सजोगा पच चत्तक सजोगा एगेपचक सयोगे एत्थण जेते दस दुग सयोगा तेणद्दमे अत्थिनामे उदद्दए उवसस निप्यन्ते १ अत्थि नामे उदद्दए खद्दकनिप्यन्ते २ अत्थिणामे उदद्दएखुउवससनिप्यन्ते ३ अत्थिणामे उदद्दए पारिणामिअ निप्यण्णे ४ अत्थि नामे उवससिण खुयनिप्यण्णे ५ अत्थिनामे उवससिण खुउवससनिप्यण्णे ६ अत्थिनामे उवससिण पारिणामिअनिप्यण्णे ७

जाएवा एसर्वं पागल मकटकरीजस्यो विषे फेतलाहिकादि सयोग प्रत्येक सभयेऽतिकहेले तत्पणदसु दुगसजोगा तिहां पांप जेउदधिकारिका भावना पद तेउना दयाद्विक सयोग उद्द एने दगज त्विक सयोग उद्द पांपचतस्तु सयोग उद्द एकपचकसयोग उद्द इम सर्वद्वितीयसभागानीपणे विचे कित्था तेदगदिक सयोग इम, जहेले तत्पण जेतेदय दुगसयोग तेनाम अधिकारयी एण्णे प्रकारे कहेले प्रथम सखिपातिक भावांतरवर्त्तनामले पूछा विभक्तिना खोपथी उद दिक उपशमिकरूप भावइय निप्यण्ण इति एकभागो एष अनेराजपरलातिउ भावनासयोगथी उददिकभाव सघाते स्यारिद्विक सयोगलाघा पछे तेउददिक

उदद्दएउय सन्निप्ययेति शमितिवाक्यालकारे एतत्तनाम यदुद्दिष्टं प्रागेददिकोपशमिकभावहयनिप्यन्त्रमिति प्रथमद्विकयोगे भगवत्कव्यात्मन षयच द्विकयोगविवक्षा

मानत एव सम्पद्यते न पुनरीदृशो भङ्गः क्विञ्जीवे सम्भवति तथा हि यस्योदयिकी मनुष्यगति रुपशमिकाः कषाया भवन्ति तस्या श्वायोपशमिकानीन्द्रियाणि पारिणामिकं जीवत् कस्यचित् श्वायिकसम्यक्त्वमित्ये तदपि सम्भवति तत्कथमस्य केवलस्य सम्भवः एवमेतदश्वानुसारेण श्रेषा अपि व्याख्येयाः केवलं श्वायिकपारिणामिक भावइयनिष्पन्नं नवसभंगं विहाय परिसम्भविनो द्रष्टव्या नवसस्तु सिद्धस्य सम्भवति तथाहि श्वायिके सम्यक्त्वज्ञाने पारिणामिकं

अत्यिनामे खड्ग ए खडवसम निष्पत्ते अत्यिनामे खड्ग ए पारिणामियनिष्पत्ते ६ अत्यिनामे खडवसमिए पारिणामिअ निष्पत्ते १० कथरेसेनामे उदद्रे ए उवसमनिष्पत्ते उदद्रेएत्ति मणुस्से उवसंताकषाया एसणंसेणामे उदद्रे ए उवसम निष्पत्ते १ कतरेसेनामे उद० खयनिष्पत्ते उदएत्ति मणुस्से खड्गं सम्भत्तं एसणं सेनामे उदद्रे ए खयनिष्पत्ते २ कथरेसेनामे उदद्रे ए खडवसम निष्पत्ते उदद्रेएत्ति मणुस्से खडवसमिअद्रे इं दिअद्रे एसणं सेनामे उदद्रे ए खडवसम निष्पत्ते ३ कथ

भाव छाडिये षने उपशमिक भावते ऊपरलात्तिणभाव संघाते मेलनां त्तिण्हिक संयोगलाघा पछे वली तेकाडिये षनेचायक भाव संघाते ऊपरलात्ति भावमेलता विलाधा पछे तेकाडिये चायोपशमिक षने पारिणामिक मेलतां ऊतां एक भांगोलाघो एवं सर्वदशहिक संयोग ऊद्रे इम सामान्यथी दशहिक संयोग देखाये ऊते विशेषथी तेहनेा स्वरूप जाणवाने शिष्य पूछेके कथरेसेनामे उदद्रे ए उवसम निष्पत्ते उत्तर उदएत्ति मणुस्से उदयिक भावने विषे मनुष्यनीगति ए उपलक्षणमाल वचनछे तेभणी तियंचादिक गतिजाति शरीर नामादिक कर्मपणि संभवे षय उपशांत कषाय तेउपशमिक भावने विषे ऊद्रे इहां मणि उदाहरणमातछे तेभणी दर्यन मोहनीयनो पणि उपशम संभवे षिवे एहनी समाप्ति कहेछे एसणंसे नामे तेए नाम जे प्रथम

तु जीवन्मृत्यो तदेव भावयति तस्मात्तु आपरकाप्यायमेतत् विद्वन्मनुष्यवन्ति, गोपाला नृपद्विक्रयोगा 'प्रकृपणामात्मिति स्थित चत्येषां चि ससारी जीवा नामोदयिषी गति नागोपगमिकानोन्द्रियाणो पारिषामिक्तं जीवत्यमित्येताद्वाक्यय जपयन्तीति लभ्यते इति कथं तेषु द्विक्रयोगसम्प्रव इतिभाव विक्रयोगा रेमेनामे उद्ग्रए पारिणामिच निष्पन्ने उद्ग्रएचि मगस्ये पारिणामिए जीवे एसण सेनामे उद्ग्रए पारिणामिच निष्पन्ने ४ क्यरेसेनामे उग्रसमिए एयनिष्पन्ने उग्रसताकसाया खुद्ग्रं समत्त एसण सेनामे उग्रसमिए लयगिष्पन्ने ५ क्यरेसेनामे उग्रसमिए एयनिष्पन्ने उग्रसता कसाया खुद्ग्रसमिच्यद् इदियाद् एसणसेनामे उग्रसमिए खलव सम निष्पन्ने ६ क्यरेसे नामे उग्रसमिए पारिणामिच निष्पन्ने उग्रसताकपाया पारिणामिए जीवे एसण सेनामे उग्रसमिए पारिणामिच निष्पन्ने ७ क्यरेसेनामे खुद्ग्रए एउग्रसम निष्पन्ने उद्ग्रसमिच्यद् इदियाद् एसण सेनामे एद्ग्रए एउग्रसमनिष्पन्ने ८ क्यरेसेनामे खुद्ग्रए पारिणामिच निष्पन्ने खुद्ग्रए समत्त पारिणामिए जीवे

सेनामे एद्ग्रए एउग्रसमनिष्पन्ने ८ क्यरेसेनामे खुद्ग्रए पारिणामिच निष्पन्ने खुद्ग्रए समत्त पारिणामिए जीवे  
 रेपायो इतो उदयक उपगमित रूप मानइय निष्पन्ने इति प्रथमद्विक्र सव्योग विषयामावयी सभगे० पर एउयो भांगो कीद् जीग्ने विये सभये ७णी  
 त्रेभवो जेइने नृपद्विषी मनुजगति इद्ग्रए चो उपगमि कपाय इद्ग्र तेषुने छायोपयमित इन्द्रिय पणि इउ चो पारिणामित जीव पणो पणि एद्ग्र  
 तथा खोद् एइो छाविहपुम्बल् पणि इद्ग्र तो केवलएद्विक्र सव्योग तिस सभये एतने न संभये एभाव एख्यायां चनुसारे ग्रेप भांगापणिय वयोपणया  
 केवल छाविक पारिणामिक रूप भावइय निष्पन्ने नृपसोभांगो टाळीने बीजो नृपभांगनो पसभय जाणवो चने नयसोभांगो तो चित्र भगवतो सभये



निर्दिष्टिद्विराह तत्परं जेते दसतिकसंयोगे तेणं इम इत्यादि एतेष्वोदधिकोपशमिकञ्चायिकञ्चाथोपसमिकपारिणासिक्तभावप्रज्ञकं भूत्या दावालिखित  
आद्यभावत्वयेण सहचरेणायां क्वथास्त्रयः इत्यादि क्रमेण दशापि भावनीयाः एतानेवखरूपतो विचरीषुपाह कथरेवेनासे उदद्दएउवसमिए पूत्यादि व्याख्या  
पूर्वागुसारतोऽत्रापि कर्त्तव्या नवरमतोदधिकञ्चायिकपारिणासिक भावत्वयनिष्पन्नः पञ्चमो भंगः केवलिनः सञ्चवति तयाद्योदधिकीमनुष्यगतिः चादि

एससंसेणामे खइए पारिणासिअ निष्पण्णे ८ कथरेसे नामे खउवसमिए पारिणासिअनिष्पण्णे खउवससिअइ  
इ'दिअइ' पारिणासिए जौवे एसणं सेनामे खउवसमिए पारिणासिअ निष्पण्णे १० तत्परंजेतेदसतिग संयोगा  
तेणं इमे अत्यिनामे उदद्दए उवसमिए खयनिष्पण्णे १ अत्यिनासे उदद्दए उवससिए खउवसस निष्पण्णे २  
अत्यिनामे उदद्दए उवसमिए पारिणासिअनिष्पण्णे ३ अत्यिनासे उदद्दए खइए खउवसस निष्पण्णे ४ अत्यिनासे  
उदद्दए खइए पारिणासिअ निष्पण्णे ५ अत्यिनासे उदद्दए खउवसमिए पारिणासिअ निष्पण्णे ६ अत्यिनासे उवससिए

तेकिम चायिक भावने विपे तो सम्यक्त चने ज्ञान ऊइ धने पारिणासिक भावे जोवपणो ऊइ एवं एरज निभाव तेहनेछे खनेरो भाव तेचने नयी  
तेभणी एनवमोआंगो एक श्री सिद्धने संभवे चने शेव नमभागा प्ररूपणामात्र जाणना जेभणी खनेरा संसारी जीवने उदयकीगति खने चायोप  
शमिक इन्द्रिय पारिणासिक जोव पणो पतिणि भाव जस्यथी पणियांसिये ता तेहने विपे द्विद संयोगज किम संभवे एभाव एतले दयद्विक  
भागादेपाद्या द्विडे दशतिक संयोगिक भागा देखाडेछे तत्परं जेतेदसतिग संयोग तेणंइमे एउदयिक उपशमिन चायिक चयोपशमिक पारि

कारिण्यं चानुसंगं चारित्याणि पारिणामिकं तु जीवत्वमित्येते तयो भाषा सास्य भवत्वोपयमिकश्चिन्नं नास्ति मोरनीयाद्यथैव न तस्योक्तत्वात्कोचनीयस्य च केवचित्पय सभ्रशासथा द्यायोपयमिन्नोप्यतापास्य एव द्यायोपयमिकानामिन्द्रियादिपदार्थानामस्या सभ्रपारुतोन्द्रिया केवचिन इत्यादि वचनात्तस्यात्पारि

खडूए खउवसमि निष्पण्णे ७ अत्थिनामे उवसमिए खडूए पारिणामिअ निष्पण्णे ८ अत्थिनामे उवसमिए खउवसमिए पारिणामिअ निष्पण्णे ९ अत्थिनामे खडूए खउवसमिए पारिणामिअ निष्पण्णे १० कयरेसेनामे उदइए उवसमिए खय निष्पण्णे उदइएत्ति मणुस्से उवसताकसाथा खडूअ सभ्रत्त एसणसेणामे उदइए उवसमिए खयनिष्पण्णे १ कयरेसेनामे उदइए उवसमिए खउवसमिय निष्पण्णे उदएत्ति मणुस्से उवसताकपाथा खउवसमिअडू इ दिअडू एसणसेणामे उदइए उवसमिए खउवसम निष्पण्णे २ कयरेसेनामे उदइए उवसमिए पारिणामिअ निष्पण्णे उदएत्ति मणुस्से उवसता कसाथा पारिणामिणोवे एसणसेनामे उदइए उवसमिए पारिणामिअ निष्पण्णे ३ कयरेसेनामे उदइए खडूए खउवसम

णामिक रूप भाष पांच भूमिज्ञादिकने विषे खिखीने पीळे षादि भाव विद्धने उपरसाभाव त्विणि सधत्ते मेळता जाधाभांगा त्विणि इत्यादि षतुकने दगे भांगामाववा णिये एउज भागा स्वरूपथी विवहरी देषाडेळे कयरेसेनामे उदइए उवसमिए खडूएनिष्पण्णे इत्यादि व्याख्या पूर्ववत् नवर इशो उद विरुद्धादिक पारिणामिक भावत्रय निष्पण्णे पापमोमंगो केवळीने सभये तेकिस उदयथी मनुष्यगति द्याधिक, वैज्ञानदर्शन चारित्र अने पारिणामिक तेजीव पणो एव एत्विणि भावने सभये उदर्पामिक दृन्द्रियादिक पदार्थ एवने न सभये षण्णदिषाकेवळिणो इत्यादि वचनात् तेभणी

श्रेय्याद्यथोक्तभावतयनिष्पन्नः पञ्चमो भंगः केवलीनः सम्भवति यत्स्वोदधिकञ्चायोपशमिकपाणिणामिकभावनिष्पन्नो नारकादिगतिः चतुष्टयेपि सम्भवति तथा सौदधिकी अन्यतरागतिः चायोपशामिकानीन्द्रियाणि पारिणामिकं जीवत्वमित्येवमेतद्भाष्यं सर्वास्वपि गतिपुत्रीवानां प्राप्यत इतियेयास्वथौ तिकयोगाः

निष्पण्ये उदएत्ति मणुस्से खड्ग्रं सप्तं खडवसमिआइं इदिआइं एसणंसेनामे उदइए खइए खडवसमनिष्पण्ये ४  
 कयरेसेनामे उदइए खइए पारिणामिअ निष्पण्ये उदएत्तिमणुस्से खड्ग्रं सप्तं पारिणामिए जीवे एसणंसेनामे उद  
 इए खइए पारिणामिअ निष्पण्ये पूं कयरेसे नामे उदइए खडवसमिए पारिणामिअ निष्पण्ये उदिएत्ति मणुस्से खडवस  
 मिआइं इदिआइं पारिणामिए जीवे एसणंसेनामे उदइए खडवसमिए पारिणामिअ निष्पण्ये इ कयरेसे नामे उवस  
 मिए खइए खडवसम निष्पण्ये उवसंता कषाया खड्ग्रं सप्तं खडवसमिआइं इदिआइं एसणं सेनामे उवसमिए  
 खइए खडवसम निष्पण्ये ७ कयरेसेनामे उवसमिए खइए पारिणामिअ निष्पण्ये उवसंता कषाया खड्ग्रं सप्तं पारि  
 णामिए जीवे एसणंसेनामे उवसमिए खइए पारिणामिअ निष्पण्ये ८ कयरेसेनामे उवसमिए खडवसमिए पारिणामिअ

यथोक्त भावतय निष्पन्न पांचमो भंगो केवलीने संभवे अथ बहो भांगो उदयक चायोपशमिक पाणिणामिकतय निष्पन्नो नारकादिक गतिः पारिमध्ये संभवे तेकिस उदयकी चनेरी गति चायोपशमिक तेइन्द्रिय पारिणामिक तेजीवपणो एवं त्रिणिभाप सधंगतिने विदे संभवे शेष आठ भागातिक संयोगिया प्ररूपणामत्त आणवा जेभणी किडाइ संभवे नही एतले तिकसंयोगिया दशभांगा देणाया अथ चतुस्क संयोगना पांच भांगा देखाछे

राव धनपतसिंह वासुदेवकी भाषा संशोधन भाग १३४५

प्ररूपयामात् प्राप्यसम्प्रादाति भावनीय चतुस्तस्ययोगाब्धिं यन्नाथ तत्पणनेतेषु चतुस्तस्ययोगाद्दत्त्वादि भद्रकारचनान् लक्षावधेयव इदानीतान्येव पञ्च  
भद्रानव्याविष्यागुराह कथरेसेनामे उदइए इत्यादि भावनापूर्णाभिहितारुण्येन कर्त्तव्या नवरममोदयिकोपशमिककायोपशमिक पारिणामिक भावनिष्प  
न्नतीवमहो गति चतुष्टयेषु सम्भवति तथासौदयिकीच्यतराङ्गिगति नारकतिर्यन्देवगतिषु प्रथमसम्यक्त आभाशाले एवउपग्रमभावयति मसुध्यगतौतततो  
पगमयेण्या चोपशमिकसम्यक्त चायोपशमिकानोन्द्रियाणि पारिणामिक जीवत्वमित्येवमयभङ्गक सर्वांसु गतिपुलस्यते यत् विपशक्तेप्रोक्त उदयेतिमण्युके

निष्पण्णे उवसता कपाया खउवसमिआइ इ दिआइ पारिणामिए जीवे एसग सेनामे उवसमिए खउवसमिए पारिणा  
मिअ निष्पण्णे ८ कथरेसे नामे खइए खउवसमिए पारिणामिअ निष्पण्णे खइअ ससत्तं खउवसमिआइ इ दिआइ  
पारिणामिए जीवे एसग सेनामे खइए खउवसमिए पारिणामिअ निष्पण्णे १० तत्थणजेते पंचचउक्क सयोगे तेणइमे  
अत्थिनामे उदइए उवसमिए खइए खउवसम निष्पण्णे १ अत्थिनामे उदइए उवसमिए खइए पारिणामिअ निष्पण्णे २

तथण जेते पथ पाक सयोगे तेणइमे इत्यादि भांगा पाषनी परे रचना, सुगम विषये तेइज, पाषभांगाने कहेछे कथरेसेनामे उदइए उवसमिए खइएखउ  
वसम निष्पण्णे इत्यादि पूर्ववत् नवरइणा उदयिक उपग्रमचायोपशमिक, पारिणामिक, भावप्यारि गियन्वतीजोभांगो गतिप्यारने विषे सभवेतेकिम उदयिकी  
अनेरीगति अनेनारक तिर्यक देवगतिने विषे प्रथमसम्यक्त पामवानी वेळायेउपशमिक भाय उइए अनेमयुगतिने विषे तोउपग्रमअण्णिने विषे उपशमिक  
सम्यक्त उइए तथा चायोपशमिक भाये इन्द्रिय उइए अने पारिणामिक भाये जीव पणो एव एभांगो सर्वगतिने विषे खामे परं जेइणी खलने विषे इमत्ते

उपसन्ताकसायेति ततः समुख्यगत्यपेक्षैव द्रष्टव्यं समुख्यत्वोदयस्योपयमन्त्रेण्यं कपायोपशमन्त्रेण्यं सापत्तस्यामेवभावादस्य चोपलक्षणमलात्वादिति, एवमौदयिकक्षाधिकक्षायोपशमनिकपाणिणामिकभावनियन्त्र चतुर्थभंगोपियचतुष्टयपि गतिपुसम्भवतिभावनात्वनन्तरात् तृतीयभङ्गकवदेवकर्तव्या नवरसुपशमनिकसस्य क्वस्थानेक्षाधिकसस्यक्त्ववाच्यं शिचक्षादियच्च सम्यक्त्वस्वर्वास्वपिगतपु नारकातिर्यग्देवगतपु पूर्वप्रतिपन्नस्यैव मनुष्यगतौतु पूर्वप्रतिपन्नस्यप्रतिपद्यमानकस्य च तस्यन्यत्रप्रतिपादितत्वादिति तस्मादलाप्ये तोहोभङ्गकौ सम्भविनोशेषास्तुतयः संवृत्तिमालं तद्रूपेणैवस्वस्वस्वभावादितिस्वाभ्रतं, पञ्चकसंयोगमेकं प्ररूपयन्नाः

अत्यिनामे उदइए उवसमिए खउवसमिए पारिणामिअ निष्पण्णे ३ अत्यिनामे उदइए खइए खउवसमिए पारिणामिअ निष्पण्णे ४ अत्यिनामे उवसमिए खइए खउवसमिए पारिणामिअ निष्पण्णे ५ कयरेसेणामे उदइए उवसमिए खइए खउवसमिए समनिष्पण्णे उदएत्ति मणुस्से उवसंता कपाया खइअं समत्तं खउवसमिअइइं दिअइं एसणं सेनामे उदइए उवसमिए खइए खउवसमनिष्पण्णे १ कयरेसे नामे उदइए उवसमिए खइए पारिणामिअ निष्पण्णे उदएत्ति मणुस्से उवसंता कपा

उदइएत्तिमणुस्से उवसताकपाया इत्यादि ते समुख्यगतिनी अपेक्षायै जाणवुं जेभणी समुख्यभावनो उदय एने उपशम अण्णिने विपे कपायनो उदय उपशम ते समुख्यगतिने विपेज संभवे एस्सुवनो वप्पन उपलक्षणमात् जाणवो एवं उदयिक क्षायोपशमिक पारिणामिक भाव निष्पन्न चोयोभागो पणि चिउडं गतिने विपे संभवे। एइनी भावना, अनन्तरोत्ततीजामागानी परे करयी नवर उपशमिक सम्यक्त्वनिष्ठातेजाधिक सम्यक्त्वं वोलुं जेभणी जायिक सम्यक्त्वं पणि सर्वगतिने विपे लाभे तिष्ठां नारक तिर्थे च देवगतिने विपे पाच्छिलाभवमोण उइए एने समुख्यगतिने विपे पूर्णप्रतिपन्न एने प्रतिपद्यमान

तत्राप्येवं से एकं पञ्चकसजोगेत्वादि चर्तं च च/ विवरणं सुगमएव निवृत्तं चादिषु चत्वार्यङ्गैः सन्व कथमयमेवैषी प्रतिपद्यते तस्याव भंगश्च सम्भवति नान्यस्य समुदितभावपक्षश्चास्त्वत्तत्रैव भाषावदिति परस्परार्थकदेवमेवादिषुसजोगमङ्गुका द्वौ द्वौ निवृत्तयोगपक्षयोगमङ्गुका द्वौ द्वौ तत्रैव ते पञ्चकस जाल्प्यत सम्भविन प्रतिपादिता येषासु विद्यति सयोगोत्वानमात्र तयैवप्रकल्पिता इति स्थित एतेषु पट्टु भगकेषु मध्ये एकैकिकसवोगो द्वौषतुष्कसयोगो

या खड्गसम्पत्त पारिणामिए जौवे एसणसेनामे उददिए उवसमिए खड्ग पारिणामिअनिप्यथे २ कथरेसेनामे उददिए उवसमिए खड्गसमिए पारिणामिअनिप्यणे उदएति मणुस उवसता कपाया खड्गसमिआइ इंदिआइ पारिणामि एजौवे एसणसे उददिए उवसमिए खड्ग पारिणामिअनिप्यणे उदए ति मणुसो खड्गसम्पत्त खड्गसमिआइ इंदिआइ पारिणामिए जौवे एसण सेनामे उददिए खड्ग खड्गसमिए पा रिणामिअ निप्यन्ते ४ कथरेसेनामे उवसमिए खड्ग खड्गसमिए पारिणामिअ निप्यन्ते उवसताकपाया खड्गस सम्प

पिण खड्ग चनेरे स्थानके कञ्ची मुञ्जुके तेवन्वी इरांपिषि वेर्नामा सभरे श्रेव निविषि विव शामान् कान्चारा जेवन्वी तेणे स्वरूपे खोद्रे जीवन्सम्भवे एतलेपाष षोक् सयोगना भांगा कक्षा िवे एक पञ्चक सयोगनो भांगो कचेके तन्वच्च जेवेएणे पञ्चकसयोग शेण इले पत्तादि एइमो विवरण सुबम केवळ चाधिक सस्यक दृष्टीयको जेठपथम अचि पिडिबले तेवने एकांगो सभरे अनेराने न सभरे जेवन्वी एकठाए माय पांन एइने तिवाज सभरे परमाणं तेइम एकदिक सयोग भांगो वैत्रिक (सयोग भांगा वैत्रिक सयोग भांगा अने एक पञ्चक सयोग भांगो एवएव भांगा अथ सम्भवा कक्षा अने श्रेव वोस भांगा सवोगो



विद्वान् मन्त्रनामि इत्यादि स्वयम्भोपतापयोदिति स्वरेणानि स्वराध्वनि वियोगा योच सप्त तद्यथा सञ्जे नि होको व्याख्या षड्भ्यो जात पञ्च उक्त य गा  
 ग्राहकपुराण लिङ्गा दन्ताश्च सन्निता षड्भि सजायते यस्मान्नाकात् पङ्क इति श्रुत । तद्यथा ऋषभो इयम साहत् यो बर्त्तते स ऋषभ आश्व च बाहु  
 ससुत्वितो नामे कण्ठगीर्षसमाहृत नर् इयमभयद्या ससाहयम उच्यते । तथागधोविद्यते यस्य स गन्धार स एव गान्धारो गन्धवाश्च वियोग इत्यर्थ्य अभाषिच  
 बाहु ससुत्वितो नामे इदिकण्ठसमाहित नामान्गन्धाश्च पुण्या गन्धारकोन हेतुना । तथा मध्ये कायस्व भवो मध्यम यद्वापि बाहु ससुत्वितो नामे इतो

सुवसमिच्छाद् इदिच्छाद् पारिणामिणौ वैरं सेतं सन्निवाद् ए सेतं ह्यस्यमि सेकिंतं सप्तनामैर् सप्तसरा पश्यन्ता तजहा

सञ्जे रिसह गधारे मक्किमं पचमं सरे रेवण्चैवनेषाए सप्तसरा सखविच्छादिना १ एणसिण सत्तएहं सगराणं सप्त  
 पातिस भाववषाणो तेवयाणतो अनावययाका तवतेअभाइ तेवना बोधणवारा नाम विनाप्रकपीन सक्किये तेवी तेवना बोधणवारा उदयिकादिक ह  
 नाम बोन्ना एणे हजामे करो वमोसिकायादिक सुमस वसुना सप्रवो ह प्रकारना एवं वसुनो जेनाम ते ह नाम कक्किये सेत ते ए ह नाम कथा  
 किये कप्त नाम कहेणे वेकित स्वयम्भोपतापयो एवाठनो गोपनो खरणन्द तेखरध्वनि वियोग आश्ववा यज्जे इहां बोध ह ठामवी उपनो तेभणी पडज  
 कक्किये उक्त य नासाकठ कुरकाहु निजादताश्च सन्निता षड्भि सजायते यस्मान्नाकात् पङ्क इति श्रुत । तथा गधहे विद्यमान जेइने ते गधार कक्किये  
 अरव कक्किये आश्व बाहुससुत्वितो नामे कठगीर्षसमाहृत नर् त्वृषभरज्जया नकाहयम उच्यते । तथा गधहे विद्यमान जेइने ते गधार कक्किये  
 तेम्वारनेज नंवार बोधीये गधवाश्च वियोग इत्यर्थ अभाषिच बाहु ससुत्वितो नामे इदिकण्ठसमाहित नामान्गन्धाश्च पुण्या गधार सेन हेतुना । तथा

सुवसमिच्छाद् इदिच्छाद् पारिणामिणौ वैरं सेतं सन्निवाद् ए सेतं ह्यस्यमि सेकिंतं सप्तनामैर् सप्तसरा पश्यन्ता तजहा



इति समाहृतः नाभिप्राप्तौ कर्तव्यान् मध्यमत्वं समन्वृतेः तथा पद्यानां च्छादिस्रराणां निर्देशकमात्मनि त्व पूरणः पञ्चमः अथवापञ्चसु नाभ्यादिस्यान्नेपु संभवतीति पञ्चमः खरो यदभ्यघायि वासु' समुच्चितोनाभे खरोऽत्कल्लठशिरोऽतः पञ्चमोऽस्त्वित्सास्त्र पञ्चमत्वं विधीयतेऽनुसंधयति श्रेय खरानिति निश्चल्लिपया धैवत' यदुक्तं अतिसंधयते यस्याऽदितान् पूर्वोदितस्वरान् तस्मादस्य स्वरस्यापि धैवतत्वं विधीयतेऽ पाठान्तरेण रैवतश्चैवेति तयानिधी दन्ति खरा वस्त्रिन् च निपादः यतोभिहितं निधीदन्ति खरावस्त्रि निपादसोऽनङ्गितुना सर्वाद्याभिभवत्येव यदादित्त्वस्यैवत मिति० तदेव खराजीवा जीव निश्चितधनियेषाः सप्तविवाहिति विवधप्रकारैराख्याता स्त्रीयङ्करणपरैरिति शोकार्यः आह ननु कारणभेदेनकार्यस्य भेदा खरायाघ जिह्वादि कारण

सरद्वयाणा पण्यत्ता तंजहा सज्जं च अस्मान्जीहाए उरेणरिसहंसरं कंठग्रण्य गंधारं मञ्जिभनोहाए मञ्जिभमं २ नासाए पचमं वूआ इंतोङ्केण अरेवतं भसुहस्केवेण येसाहं सरद्वयाणाविश्राहिआ ३ सप्तसरा जीवणिशिआ प्रसस्ता तंजहा

मध्यकायते' इषो तेभ्यो मध्यम कश्चियेऽयदद्याच्चि वाहसुसञ्चितो नाभे खरोऽदि समाहृत नाभि प्राप्तोऽस्मान्नादो मध्यमत्वं समन्वृते । तथा पाच पड जादिक खरना बोलवाना अनुक्रम आत्रीपूरणखरोऽपंचम कश्चियेऽथवा पांचनाभ्यादिकऽस्वानकने विषे याद् तेभ्यो पणिपंचम कश्चिये यदभ्यघायि वासु समुच्चितो नाभे खरोऽत्कल्लंठ शिरोऽत पंचस्यानोच्चितस्वास्य पंचमत्वं विधीयते । तर्वाऽपतिसंधयते अनुसंधवतीति श्रेय खरने प्रहणकरे इम निश्कतनाविधीयो धैवतकश्चिये यतोभिहितं अतिसंधयते यस्या देतान्पूर्वोदितान् खरान् तस्मादस्यऽस्वरस्यापि धैवतत्वं विधीयते । पाठान्तरे रैवितश्चैवेति तथा निपीदे खर पुञ्जने विषे तेनिपाद कश्चिये यतोभिहितं निवीदन्ति खराऽवस्त्रिन् निपादसोऽनङ्गितुना सर्वाद्याभिभवत्येव यदादित्वास्त्र दैवतं । सरासप्तविवाहिया ते इम खर जीवाजीव निश्चितधनियेषसात विविधप्रकारे आख्याताऽत्रीयङ्करणघरे इति शोकार्यः । इषां शिष्यकृच्छे भगवन् जेभ्यो कारणना भेदयो कार्यनोभेद

राय धनपत्तिसिद्धे मन्त्रिरेका शान्ता शिष्ये मना ३४ म

अथवा सहाता च हीन्द्रियादि त्रकषीकानामकच्छेदवत्कालीनिवृत्तताप्यपि नावत्सरा अवच्छाता प्राप्नुयन्ति किमुता औबनिवृत्ता इति कथं समसत्वा नियमो न विवक्ष्यत इत्यतोप्यन्ते असञ्ज्ञातानामपि स्वरविशेषाच्चासेतेष्वेव समसत्वात्सात्त्वस्यरेष्वन्तर्भावाद्वादाया केयांचिदेवोपकथ्यमानविशिशिष्टव्यक्तौनांप्रकथ्याप्रीतो प्रकारिणां विशिष्टस्वराणां क्लृप्तित्वाद्देश इति स्वराणामतो निवृत्त्यकारणं एतस्मिन्मत्यादि तत्रानाभे रत्यतो अकारिकारी स्वरा आभोगतोनाभोगतो वा यदत्र जिह्वादिस्थान प्राप्यविशेषमासादवति तत्स्वरस्योपकारसत् स्वरस्थानमुच्यते तत्रसञ्ज्ञामित्यादि श्लोकद्वय सुगम नवरचकारो ऽवधारणे षडजमेव प्रथमस्वररक्षणं द्रव्यात्कयेत्याह अप्रभूताजिह्वा अप्रभूताजिह्वा जिह्वाप्रमित्यर्थस्या इह तद्यपि षडजमप्यने स्थानांतरात्कपि कठार्दीनि च्वा प्रियते अप्रजिह्वाच स्वरांतरेषु व्याप्रियते तथापि सा तत्र षडव्यापारवतीति ज्ञाना तथा तमेव नवादिषु षडस्वरोपे जिह्वा प्राप्यविशिय

सञ्ज रवदमथूरो कुक्कुडो रिसभसर हसोरवद् गधार मन्निम ४ अह कुसुम सभवे काले कोइलापचम सर छट्ट च सारसाकु चा नेसाय सप्तम गंधो ५ सप्तसरा चलोव निस्सिमा पस्थता तजहा सञ्जरवद् सुअगो गोसुही

अवस्थयाह तेभ्यो स्वरानु जिह्वादिकसमुत्तावेद्द्रियादिक नसनीव असत्वात्ताच्छेदे तेभ्यो प्रथम औबनिवृत्तस्वर असत्वात्ताच्छेदतो अजीवनिवृत्ततु कित्यु कश्चु तोसातनौ सञ्ज्ञानियमकान विरोधाद् एतले विरोधाद् एतत् असत्वाता पण्यस्वरनाविशेष एसातजहाभाव्यस्वरमाह आये तेभ्यो कोइ एकवाद्दर यदजेहनी विगति जापीये तेचजना प्रकषी गीतता उपकारीविशिशिष्टरवोक्तवानो इच्छायौ दोषजनी अयस्वरनामयो देषाडीने अयतेकारणयो देषा डेहे एएसिचित्तानाभयो लयो अकारिकी स्वरआभोगनी अथवा अनाभोगनी जेइहा जिह्वादिक स्थानकपांमोने विगेष पण्योपामिये तेष्वानकस्वरने अप

अथवा सहाता च हीन्द्रियादि त्रकषीकानामकच्छेदवत्कालीनिवृत्तताप्यपि नावत्सरा अवच्छाता प्राप्नुयन्ति किमुता औबनिवृत्ता इति कथं समसत्वा नियमो न विवक्ष्यत इत्यतोप्यन्ते असञ्ज्ञातानामपि स्वरविशेषाच्चासेतेष्वेव समसत्वात्सात्त्वस्यरेष्वन्तर्भावाद्वादाया केयांचिदेवोपकथ्यमानविशिशिष्टव्यक्तौनांप्रकथ्याप्रीतो प्रकारिणां विशिष्टस्वराणां क्लृप्तित्वाद्देश इति स्वराणामतो निवृत्त्यकारणं एतस्मिन्मत्यादि तत्रानाभे रत्यतो अकारिकारी स्वरा आभोगतोनाभोगतो वा यदत्र जिह्वादिस्थान प्राप्यविशेषमासादवति तत्स्वरस्योपकारसत् स्वरस्थानमुच्यते तत्रसञ्ज्ञामित्यादि श्लोकद्वय सुगम नवरचकारो ऽवधारणे षडजमेव प्रथमस्वररक्षणं द्रव्यात्कयेत्याह अप्रभूताजिह्वा अप्रभूताजिह्वा जिह्वाप्रमित्यर्थस्या इह तद्यपि षडजमप्यने स्थानांतरात्कपि कठार्दीनि च्वा प्रियते अप्रजिह्वाच स्वरांतरेषु व्याप्रियते तथापि सा तत्र षडव्यापारवतीति ज्ञाना तथा तमेव नवादिषु षडस्वरोपे जिह्वा प्राप्यविशिय

अथवा सहाता च हीन्द्रियादि त्रकषीकानामकच्छेदवत्कालीनिवृत्तताप्यपि नावत्सरा अवच्छाता प्राप्नुयन्ति किमुता औबनिवृत्ता इति कथं समसत्वा नियमो न विवक्ष्यत इत्यतोप्यन्ते असञ्ज्ञातानामपि स्वरविशेषाच्चासेतेष्वेव समसत्वात्सात्त्वस्यरेष्वन्तर्भावाद्वादाया केयांचिदेवोपकथ्यमानविशिशिष्टव्यक्तौनांप्रकथ्याप्रीतो प्रकारिणां विशिष्टस्वराणां क्लृप्तित्वाद्देश इति स्वराणामतो निवृत्त्यकारणं एतस्मिन्मत्यादि तत्रानाभे रत्यतो अकारिकारी स्वरा आभोगतोनाभोगतो वा यदत्र जिह्वादिस्थान प्राप्यविशेषमासादवति तत्स्वरस्योपकारसत् स्वरस्थानमुच्यते तत्रसञ्ज्ञामित्यादि श्लोकद्वय सुगम नवरचकारो ऽवधारणे षडजमेव प्रथमस्वररक्षणं द्रव्यात्कयेत्याह अप्रभूताजिह्वा अप्रभूताजिह्वा जिह्वाप्रमित्यर्थस्या इह तद्यपि षडजमप्यने स्थानांतरात्कपि कठार्दीनि च्वा प्रियते अप्रजिह्वाच स्वरांतरेषु व्याप्रियते तथापि सा तत्र षडव्यापारवतीति ज्ञाना तथा तमेव नवादिषु षडस्वरोपे जिह्वा प्राप्यविशिय

अनु टी०

३१०

सुल

भाषा

टीर्थ्यक्तिमासादयत्यत साटपेक्षया सा स्वरस्थानं मृच्यते एवमन्यतापि भावना कावी उदोपवसो न स्यमं स्वरं त्रूयादिति स्रूय संशब्धते कं नृपएयंति  
 कंठादुहमनमुन्नति स्वरनिष्पत्ति हेतुभूता क्रिया तेन कंठोन्नतेन गंधारं लिङ्गत्वा मध्योपागो मन्वलिङ्गा तयामध्यमं तथा इत्ताद्योडोषांतोडं तेन वैशतं  
 रैवतं चेति भुञ्जेपावटंभेन त्रियाटमिति इत ऊर्ध्वं मूर्धं निगटसिद्धमेव नवरंजीवनिश्चिद्यति जीवापिताः जीवाभ्ये व निश्चिद्यतानिगंतोः स्रज्जं रंरंरंत्वादि  
 श्लोक रवतिनदति गवेक्षति नावय एलकाय उरश्चकागवेक्षताः पय गवेक्षता उरश्चका एव चर फलमभिव्यादि अवेतिप्रियोग्रन्थार्या विगिराणार्यातापैव  
 वया गवेलका अभियेयण मध्यमस्वरं नर्दति न तथा पंचमं कोटिका अपिठुवत्यतिष्ठ बाह्यस्तेन कुसुमाना महिषा पाटलादीना संभवो उक्तिन् कनि

**रिसभंसरं संखोरवद् गंधारं मणिभमं पुगभङ्गरीई चउचरख परद्राया गोत्रिप्रापंचमं सरं प्रांडररो रैवरयं मया**

कारकङ्कड तेभणी तेस्वर स्थानक वीक्तिये तेसात प्रकृष्या तथा स्रजं वीकृत चकार चरगारणार्यं वीगुं वृहजंतज प्रदमरुपते वीजे केणे कृतेके अग्रपूत  
 जेजिङ्गा तेअग्रजिङ्गा जिङ्गानो अग्रप्रत्ययं तेषे इहा दद्यपि वृहजभयतेऊं ते स्यातातर कंठादिन पण्डित्यापरीदेहे अने अद जिङ्गा ते अनेरा स्ररांतरने  
 विपे पणि स्यापरीये हे तथापि तेजिङ्गा तिहा वणुं स्यापदे तेभणी तेषे तेभज म्भर वीकीये एतने एपरभार्यं वृहज म्भर तेअपजिङ्गापामीने विगिटमन्त्रि  
 भाव पामि तेभणी तेइनी अपेक्षायै तेजिङ्गा स्वर खान वीकीये एमकदेरे ठाम पणि भावना करणी तथा उर कपता इदम तेषे अटपभ अर वीजे  
 एजियापट अणत जोडिये तथा कंठजा तेषे कंठयी उपजिङ्गावो गन्धार वीजे तथा जेसच्च भाग तेसच्च जिङ्गा तेषे मध्यम स्वर वीजे तथा  
 नासिकाये पाचमी स्वर वीजे तथा दांत अने षोडतेदतोड तेषे पैवत अथवा रैवतस्वर वीजे तथा अग्रम स्रज्जं मयी जिवाटमर वीजे इत  
 श्लोकद्वयार्थं४ एउपरांतस्रजमं नवरं जीवनिश्चिद्यया जीवापित अयवाजीवनी निःस्रताकडिये वीकट्वास्रजं वीकट्वा एरर कडिये वीजे तथा गोपदे एजक

स तथा तस्मिन् मधुमास इत्यर्थः अजीवनिस्त्रियानि तथैव नवरमञ्जीवेष्वपि षड्गादिषु जीवव्यापारोत्पादिता एवामीमंतव्या अपर पञ्चादोना षड्गादिषु यद्यपि नायाकठाद्यु, त्वत्कलकषणोद्युत्पत्तार्यो न घटते तथापि साहस्यान्नाभोवगतस्य सञ्जमित्यादि श्लोकद्वय गोसुथौकोहला यस्यासुखे गोशृङ्गादि वस्तु दीयत इति चतुर्भिश्चरणे प्रतिष्ठानसवस्यान भुविद्यस्या सा गोषा अन्नीवनद्वागोधिका वाद्यन्वियोर्दरिरेकेत्यपरनाम्ना प्रसिद्धा ष्याडवर पटञ्च सप्तमिति निपादमित्यर्थ एएसिणमित्यादि एतेषां सप्तानां स्वराणां प्रत्येक कश्चणस्य विभिन्नतासप्तस्वर कश्चणानि यथा स्य प्रथमप्रत्यभिचारीणि स्वरतत्त्वानि

भेरी अस्सप्तमं ७ एएसिण सप्तएइ सराण सप्तसर लक्वणा प्रथप्ता तंजहा सञ्जेण लहइ वित्ति कयंचन विणसइइ गावोपुत्तायमित्ताय नारीण होइ वल्लहो ट रिसरेण सुएसञ्ज सेणावच्च घणाणिअ वत्थगधमलकारं इत्थिओसयणा

करता करणञ्च तेगवेलक अथवागवेलक करणकाञ्च जाणवा तथा अइ कुसुमरुभवे काले इहां अथ शब्द विभेयणार्थं जाणवु तेए विभेयण विमगवेलक विभेय रचित मध्यमस्वर भोल्ले तिम पांचमे स्वर, कोइलनभोल्ले किरु कुसुम करता मद्धिका तथा पाडलका तेइनो सुभव ऊइ जेकालने विभे तेकुसुम सुभव काल कश्चिये तेइने विभेवसतमासे इत्थ्यर्थं येष सुगमइति श्लोकद्वयार्थं तथा अजीव निस्त्रियार्थवत् नवर अजीव षड्गादि कने विभे यणि जीवना व्यापार बी एजपना जाणवा अपर पडकादिकने षड्गादिकने विभे यद्यपि नासाकठादि उत्पन्नपणा रूप शब्दार्थं न घटे तथा सट्टग पण्याथी भाव जाणवो सञ्ज श्लोकद्वय सुगम नवर गोसुथीतकाञ्चजा प्रसिद्ध तथा अ्यार चरणे करी प्रतिष्ठान करता ररुभो भुइने विभे जेइनेछे तेगोषाचमं मञ्जो गोधिका नामा बाजित विभेय दृढवडी जेइने नाम प्रसिद्ध तथा ष्याडवरने पडवो तथा मशभेरीते सोदुदमामो सप्तमिति निपाद मित्यर्थं इति श्लोकद्वयार्थं एए

भवन्ति तान्येव फलत आह सञ्ज्ञेष्येत्यादि सप्तश्लोकाः पण्डनेन लभतेऽदृष्टिं अथमर्थः खलस्येदं लक्षणं स्वरूपमस्ति येन तस्मिन् सति दृष्टिं जीवन् लभते प्राणी एतच्चमनुष्या पशुया लक्ष्यते दृष्टिताभादीनां तत्रैव घटनात्कृतं न विगम्यति तस्येति येषः निःफलारंभेन भवतित्यर्थः गावः पुत्राद्यमित्याणि च भवन्तीति येषः गांधारेगीतयुक्तिश्चा वर्जिततयः प्रधान जीवकाः कलाभ्यरविकाः कवयः काव्यकर्तारः मात्राः सद्बोधाः यवोक्तेभ्यो गीतयुक्तिश्चादित्योऽन्ये सास्त्र पारगा श्रुतवैदादि सास्त्र पारिगाभिन सोभवन्तीति यत्कनेन सीवाणकेन लक्षणैर्नूत्परंति पापद्वि कुर्वन्ति यजुन्मात्वाङ्गं तौति याकुनिका वागुराद्यग्बंधनंतया

श्लोक ६ गंधारे गीतयुक्तिया वञ्जवित्तौ कलाहिन्ना इवन्ति काङ्क्षोपस्था जे अख्येष्टत्यपारगा १० मञ्जिमसरमं ताड

सिग्णं एसात खरना प्रत्येक लक्षणना लज्जया पचायी सात खर लक्षण आपणार फलनी प्राप्तिं करी अणविषयता खर मत्व ऊहू तेवज फलयी कहे हे सञ्ज्ञे ण श्लोक सप्तकं पण्डनेनलक्षू दृष्टि एतले एभाव पण्डन खरसुं ए लक्षण खे जेतेकते जीवदृष्टिं कचतां आजीवन पमि ए मनुष्यनी अपेक्षा इ जाणवु जेभणीदृष्टि लाभादिकांतिहाज 'घटे नात्यल' तथाकृतं अनविनस्यति'तस्येतिथेयः कार्यं प्रारंथ्यो न विण्यसे तेचनो एगे प वचन कचयो निज्जला रंभ न ऊहू इत्यर्थः! तथा गाइं पुत्र अने मित घणाऊहू एयेय वाक्यजाणवुं तथा गांधारे गीतयुक्तिश्चा गीतयुक्तिना जाण अने वयदृष्टिकच तां प्रधान आजीविकाना धणी तथा'कलाइं करी अधिका कइयो'कचतां काथनाकरणहार तथापणा कचतां श्ली बुद्धिना धणी ऊहू तथा जे अने सत्यपारगा जे पूर्वकस्या गीतयुक्तिना जाणादिक ते'वी वकी अनेरा'यास्त्रपारगामी ते ऊहू' तथा यजुन कचतां सीचाणो तेणे करी चरे पापद्विं करे अथवा यजुनपची तेचने ते याकुनिक कचीये तथा वागरा कचतां खगबंधन तेचो करी चरे विचरे ते वागुरिक कचीये तथा सूकर साथे लेइने सूक



पूर्वगतस्वरप्राग्भते भणितता इदानीं तु तद्विनिर्गतेभ्यो भरतविशाखिलादि शास्त्रेभ्यो विभ्रे वा इति सप्तसराकउगशा इष चत्वारः प्रश्नोद्धृत उतः इति कसावस्थानात् सप्तस्वरा उत्पद्यते कायोनिरिति काजातिसया कतिसमयायेषु तेकतिसमयउच्छ्वासाः किंपरिमाणकाल इत्यर्थः तथा आकारा पाङ्कतयः स्वरूपाणी इत्यर्थः उत्तरमाह, सत्तसरानाभीउ इत्यादि गाथाएषा नवरं रुदितं योनिः समान रूपतया जातिर्वस्य तदानदितयोनिकं पायसमाउयासा यावद्भिः समयैर्दत्तस्य पादः समाप्यते तावत्समया उच्छ्वासागीते भवंतीत्यर्थः आकारोनाह आर्दगशा तयोगीतस्याकाराः स्वरूपविगेपलक्षणा भवन्ति

या रयणौत्तरमाह सत्तमापु मन्त्रिसगामस्वरुणं सत्तसुच्छ्वाणाप्रो पणत्ताओ तंजहा उत्तरखंदारयणी उत्तरा उत्तरासमा समोकंतायसोवीरा अभिरूवाहोइ सत्तमा १६ गंधारगामस्वरुणं सत्तसुच्छ्वाणाउ पणत्ताओ तंजहा नंदोअखड्डिआ पूरिमाय चउत्थीअ सुद्धगंधारा उत्तरगंधारविअ सापंचमिआहवइसुच्छ्वा १७ सुठु त्तरमायासां साछ्ठ्ठासव्वत्रोयगायव्वा अहउत्तरायया कोडिमाय सासत्तमाहवइसुच्छ्वा १८ सत्तसरकाओ हवन्ति

चिबडां तेहजमांदिथी मीउल्ल्या जेभरत विगाखिलादिक शास्त्रतैथी जाणबा इहां पद्यानुपूर्वीइं संयंपळे तेशची गाथा आगलपाखल वत्वायेहे सत्तसराक उगाहा इणं व्यादि प्रअकस्याहे तिआ कउकृतां जेहास्यानकथी सातस्वर उपजे तयांकाजोणी कइता फिसीते गीतनी जाति तयकितया समयहे जेइने विजे तेकतिरुमय उच्छ्वासा कहीये एगले उच्छ्वासनो केतलाकालनो परमाय तथा केतला गीतना आकारस्वरूप इषा उत्तरसत्तसरानाभीउ गाराउगम नवरं रुइयजोणीअ रुदितयोनि समानरूपपणे जातिहे जेइनी तेनदितयोनिक करीये तथापात्रसमाउयासा जेतले समये करी नायनो पडपूषं याइ ते

श्रुति पयने सवध किं कुर्वाणा इत्याह आरभन्ति आरभमाणगीतमिति गम्यते कथ भतमित्यादि आरभन्ति आदी प्रथमतो बहुकोमल आदिषु तथा समुहदतव कुर्वन्तस्य महता गीतध्वनेरिति गम्यते मध्यकारे मध्यभागे तथा अवसानेष उपयतो गीतध्वनि मद्गीकुर्वन्त इत्यप आदौ बहुमथ्ये तारा पयन्तेमद् गीत कर्तव्यमत एते बहुतादयस्त्वयो गीतस्याकारा भवतीति तात्पर्यं कितु दोसदारगणा पद्दोपावर्जानीयासानाञ्च गीतसुत्रसामानस यणीयने इत्यतो दोष १ द्रुत त्वरित २ लघ्वित्यस्वासयुक्त त्वरितं च पाठातरेण रश्श्रुति झस्रस्वर लघुग्रन्धमित्यर्थं \* उच्यते लघुतावल्यार्थे, अतितालसमयस्थानतालत्रे त्यर्थं शालाप्रपुनं भिकाङ्गिगद्विविगेप ४ काकस्वर दृष्ट्यात्रायस्वर ५ वतुनासनाशालतस्वर ६ एतेपडदोषगीतस्य भवति अष्टौगुणानां च पुण्य गणा स्वर

गीयस्य काहवद् जोशी कठ समयान्नो सासा कडवा गीयस्यथागारा १६ सत्तसरा नामौत्रो त्वयतिगीयंचश्रुय

जोशी पाउसमाजसासा तिरियगीयस्य आगारा २० आरुमलथारभवा समुच्चहनायमक्कावारमि अवसागे लवभात्ता

तथासमयना उवाचगीतने विषे उद् इत्यर्थं शिवे आकार कहेछे आदिमिषो गणा गीतना त्रिणि आकार कशीये स्वरूपविगेप रूपद् इम पर्यन्त नेविषे सवधछे शिवे किस्थो करता ते कहेछे आरभतां आरभीतो गीत एषयो स्वय जाणीये तेषेषु तेषहेछे आरुमथो आदिप्रथमथी बहुफहतां कोमल तथा समुहस्त कडतां तेगीतध्वनि अतिमोटी करता छुतां किशा मध्यकारे कडतां मध्यभागे तथा अवसानेच उपयतो अतने विषे गीतध्वनि मन्दीभूत करतां छु ता एतले आदि बहु तथा मध्यने विषे तारामणध्वनि अने अन्तने विषे मन्द एहयो गीत कर्यु एरुदुपणादिक तिरिणि गीतना चावा रड्ड ए परमार्य तथा छदोसेवारगणा एगाथा अने आगली गाथाना समन्थ एकठा छे ते भणी एकठा यथाणे छे छदोपगीतना वर्ज्जथा ते कहे छे भीत



कलाभिः सर्वाभिरपि युक्तं कुर्वतः पूर्णं । गेयरागेणरक्तस्य भावितस्वरक्तं २ अन्याव्यस्कृष्टमुभस्वरविशेषाणां कारणादलं कृतं ३ अक्षरस्वरश्रुतकारणा इत्यन्तं ४  
 विक्रोगनमिव यद्विस्वरं न भवति तदविच्छेदं ४ मधुमत्तकोक्किलाकतवस्मधुरस्वरं ६ तालबंशस्वरादि सप्तत्यगंतं सप्त ७ स्वरोलनाप्रकारेण सञ्जातिशयेन ल  
 लतीकयत् सङ्गमालं तत्सुलभितं एते षट्शौण्णगीतस्य भवत्ये त द्विरचितंतु विडम्बना मातृमेव तदिति किंचोपयस्यत्वादन्येपि गीतरुणा भवति तानाक  
 चरगाहा चकारो गेय गुणातर ससुश्रवार्थं उत्तरः कंठशिरो विद्युत्तुं च अयसर्थां यद्यु रसि खरो विशालखलुं रो विद्युच्छं कण्ठे यद्विखरो वर्त्तिती  
 इतिष्कुटस्य तदा कंठविद्युत्तं शिरसि प्राप्तो यद्विनानुनासिक सतः शिरोविद्युत्तं अथवा चरः कंठशिरस्तु पुष्पणा व्याकुलेषु विशुद्धेषु प्रयशेषु

तिन्निविगीयस्य आगारा २१ छद्मेसे अष्टगुणे तिन्नि अविच्छादं दोद्भ्र अणिद्भ्रो जोगाहिसो गाहिद्भ्र सुसिक्वित्तरंगमज्जं  
 सि २२ भौ अं दु अं सु प्पित्यं उत्तालं च कमसो सुये अस्ववं कागस्वरसयुग्यासं छद्मेसाहेतिगी अस्व २३ पुस्वरत्तं च अलंकि

गाहा तिहां भीतं कर्हतां वीचतद्भ्र मनगावे १ तथा द्रुत कर्हता उं तावलोगाद्भ्र २ तथा उं फिल्यं कर्हतां स्वासयुक्त अने उतावलोगाद्भ्र पाठान्तरे रक्ष  
 लसु शब्दे गाद्भ्र इत्यर्थं तथा उत्तालं उत्ककहीये अतिताल एतले समताले सजतालरचित कर्हीये कासकादिकशब्दविशेषकमसो अनुकलेजांशुवुं ४ तथा  
 काकस्वरते पातलो स्वरजे गीतने विषे छद्भ्र ५ तथा अनुनाथते नासिकानो कर्हतां स्वर ६ ए छद्भोप गीतना छद्भूं पथ आठगुण कहेच्छे पुण्याहा तिहां  
 स्वरकला जेतली के तेतलीये करी युक्त ते पूर्ण कर्हीये १ तथा गेयरागसुं रक्त कर्हतां अत्यन्त भावित ते रक्त कर्हीये २ तथा अन्योन्यप्रकट अने शुभस्वरना  
 करवा थी अलंशत कर्हीये ३ तथा अक्षर स्वरना प्रगट करवा कुंती अक्त कर्हीये ४ तथा विक्रोगनी परे विस्वरन ऊद्भ्र ते अविच्छुट कर्हीये ५ तथा

राव धनपतिशिव बाबादेरकी बाबादे ४४५

यज्ञीयते तदुर कठगिरो विशुभ गीयते गेवमिति सव्यते कि विशिटमियाः सद्रुक सद्रुगानिदरेणस्यरेप यज्ञीयते तस्य द्रुका यथाचरेप यो लनया  
सचरनसरो भवतोतेयो लना षड्ल रिभित गेवपदेवैव विशिट बिरचनया रचित पद च इ ही ततच पदतयस्य कर्म धारय समतालपञ्चुक्खेवति  
ताकागदेन इलतालासुल्य उपधाराः षड्दौ विवक्षित सुरजकोशिकादिगीतोपचारकतोद्याः ध्वनि प्रत्य त्नेप गर्त्त कोपद प्रलेपलक्षणेवा प्रत्युत  
चेप समौगीतस्यरेण ताकप्रत्युत्तौ यत्र तत्रमत्ताक प्रत्युत्तौप सत्तसरसीभरति षचरादिमि समा यत्र तत्प्रसरसीभरगीतमिति ते घामीसप्तस्वरा  
बन्धरसमगाथा यत्र दीर्घो अचरे दीर्घो गीतस्वर क्तिवते ऋसे ऋस्य नृतेसुत सागुनामिके तु सागुनामिका तत्त्वरसम यज्ञीतपद गासिकादिक यत्र

अ च वत्तच तरेय मविशुं मडर समं सुललिच अद्रुगुणाहेति गेअसा २४ सम अद्रुसम चैव सव्यत्यविसम च  
ज तिणि वित्तपथाहाइ चउल्य नो वलभाइ २५ सव्यापाययाचैव भगिर्ओ हेति दोशिया सरम उलमि गिल्ल ते

वसन्त गृहनी मन्मकोकिलाना गृहनी परे जे स्वर करीये ते मधुर कर्षीये ५ तथा ताळययादिकना स्वर मिलतो सम कर्षीये ७ तथा अतिशि स्वरघोष  
नानेप्रकारे ललितनीपरि जे सुकुमाल ते सुलक्षित कर्षीये ८ जे पाठगुणरहित गीत बिडवना मात्र जाणु तथा उपलक्षण  
पणा छती अनैरा पणि गीतना गुण छे ते कहे छे उरजठगाडा वकारगीतना गुणान्तरगा सुसुचयने अर्थे जाणयो उर कण्ठगिरोविशुभ कर्षीये  
कण्ठने विपे स्वरवारो प्रकटरूपकड तो कण्ठविशुभ कर्षीये अने गिरने विपे विळ्ळणशब्द जो अगुनासिका छद्द तो गिरोविशुभ कर्षीये एक्को गेय  
गाइ इम सम्यन्थ मेलिये चिये किडु ते गेय तेकळे मलय कोमलस्यरे जे गाई ये तेचडु कण्ठये तथा जिहवा अचरने विपे घोषनाये करी सपरतो स्वर



निर्दोष विशिष्टार्थवृत्त सारमत र गीतनिवहार्थ गमकहेतु युक्ततया दृष्ट हेतुयुक्त ३ औपमाद्युक्तकारुण्यमलकत ४ उपसहरोपनयशुक्तनुनीत ५ अनिष्ट, रा  
 विशिष्टा लज्जनीयार्थवाचक सातुप्रास वा सोपघार ६ अतिवचनविचाररहित सद्यप्रासरमित ७ गधुर अय्ययर्थायुक्त गेय भवतीतिशेष तिथियवित्तादृति  
 यदुक्त तत्ता ८ समयमित्यादि यत्र एते चतुर्विंशति पादेषु सख्यया सामान्यधाराणि भवति तत्सम यत्र प्रथमतोययो द्वितीयचतुर्थयोच पादयोरन्तरसख्या  
 समत्व तदर्थं सम यत्त सर्वत सर्वपादद्वयधरसख्या वैषम्योपेत तद्विषयमन्वति यस्माद्दृत्त भवतीतिशेष सखातत्वयएव दत्तमकारा भवति, चतुर्थस्तुमकारोनीप

च कीसीगायतिचउर कीसी अविलम्बित द्रुत कीसी २६ विस्मयारं पुण्केरिसीगाथा धिकमिद गोरोगायति मडर सा

नासिकादिक जे खरने विणे अनुनार्वे ऊरू ते तिहाज जेगीतने विणे गादये ते पदसमकश्चिये तयाजि परस्पररुष्णित रुक्षताया स्वरौ अनुसारे गादये  
 तेतातसमकशीरू तथा गदद्रकाठादिक अनेरा वस्तुमय आणुलीने कोशिके करी कण्ठ, जेततीस्वरनो प्रकारते लय कहीये ते स्वरना अनुसार यी गीतने  
 स्वर करी जे गादये ते बयसमकशीये तथा प्रथमथी बय तत्यादिके करी जे खर प्रथो खरने समे स्वर गावतो छतो गदच सम कहीये तथा  
 नि श्यासो श्यासनो मान अणतिकमता गीत गादये ते नि खसितोष्णसितसम कहीये तथा बय तत्यादिकने विणे आणुलीनो सधारव सम जिहां  
 एरुवो जे गीत गादये ते सधार समकशीये एव एसात खरऊरू एतले दृश इम कश्यो कोद्रेणकगीतस्वरअचरपदादिग सातखान के करी सच्चितसम  
 पणो पामतो सात प्रकार पणो अनुभवे इम एसात खर अचरादिके करी समा देखाया अथ गीतने विणे जे सुत्र वध १५५ ते अटयुक्त करव इम कहे  
 छे निहोस शोक तिहां अलिअसुवयाय जाणय इत्यादिग वतीस सुत्र दोपरहितनिर्दोष कश्चिये १ तथा विशिष्ट अर्थते युक्त तेसारमत कहीये २ तथा गी

अनु टी ३१८ सुत भाषा

अनु टी ३१८ सुत भाषा

कथ्यते सत्तादित्यर्थः एवमन्यथाप्यविरोधनो व्याख्येयमिदमिति दुस्त्रियन्यिष्योति यदुक्तं तत्राह सकएत्यादि भणित्तिर्भाषा स्वरमंडले पञ्चादि स्वरसमूहे श्रेयं कंठंगीत विचार प्रसावादिदमपि दृच्छति केसीगाय इत्यादि प्रश्रगाथासुगमं नवरं केसति कीदृशीस्यो इत्यर्थः पारंति वरस्थानं रुजं प्रतीतं चतुर दक्षविलिखितं परिसंथरं द्रुतं शीघ्रमिति विस्वरं पुण्केरिसिति गाथाधिकमिदं अतक्रमेणोत्तरमाह गोरीगायइमहुरमित्यादि अतापि विसरं पुण्पिंग कति गाथाधिकमेव व्याख्यासुकरैव नवरं पिंगलाकपिल इत्यर्थः समसस्वरमंडलसंज्ञोपाधिधने नोपसंहरत्याह सत्तसरत्यादि ततातंतीताव्यो भस्यते

मागायतिक्वरंचरक्वंच कालौगायति चउरं काणायविलंबिञ्चं द्रुतं श्रंधा २६ विस्वरंपुण्पिंगला गाधाधिकमिदमपि

तने विषे बाधो जे अर्थ तेहना जणवणशरा जेहेतु तेणे युक्त छद्द तेहेतु युक्त कचीये ३ तथा औपमादिक अलंकाररक्त अलंकारत बोलीये ४ तथा उपनयननिगमन युक्त उपनीत बोलीये ५ तथा अनिदुर अविश्व अलज्जनीय अर्थनुं बोलणहार अथवा अनुप्रास यमक सञ्चित ते सोपचार कचीये ६ तथा अति वचनविस्वर रक्षित संचिप्ताक्षरमित कचीये ७ तथा मीठुं सांभलवा योग्य शब्दायंमधुर कचीये ८ एहवो गेय छद्द इति शेषवचन तथा तिण्णिअबिन्नाइं इमजे कस्यो छतो ते कहेछे समं श्लोका जे छंदने विषे संख्याइं च्चारं पदने विषे समा अक्षर छद्द ते छंद सम कचीये अने जिहां प्रथम तृतीयपद अने द्वितीय चतुर्थपद अक्षर संख्याये समा छद्द ते अर्थ समछंद कचीये अने जे छत्तिने विषे सर्ग पद अक्षर संख्याइं विषम छद्द एतले ज्जुअ प्रमाणे छद्द ते छंदविषम कचीये जं कहां जेभणी एहवुं एत छद्द ते भणी त्रिणीज एतना प्रकार छद्द परं चोयो प्रकार लाभे नही जे भणी ते प्रकारनी नाशि छे इति श्लोकार्थ अथ दुस्त्रिभणित्तीस्यो इमकस्यो छंतो ते देणजे हे सकया श्लोक एकसंस्कृत अने वीणा प्राकृत एभणति कण्ठां

रय वनपतिसिख मधिरकी वनय सश्रम मी ३६ मी

तत्र पद्मादय स्यराः प्रत्येकसप्तभिसानेगीयत। इत्येवमेको न पञ्चाक्षसाना सप्ततत्तिकाया वीणाया भवतीति एवं तदनुसारेणैकतवीकायां त्रि तत्रिकायां कठेनापि वा गीयमाना एकोनपञ्चायदेवताना भवतीति तदेवमेतै पद्मादिभि सप्तभिर्नामाभि सर्वस्यापिस्वरमण्डलाभ्याभिधानात्सप्तनामिदसुष्यते चेत् सप्तनामेति निगमन षयाष्टनाम प्रतिपादयन्नाह सेकित षट्ठनामेत्यादि उच्यते इति वचनानि वस्तुवाचिनि विभज्यते प्रकटीक्रियते अर्थो नयेति विभक्तिं वचनाना विभक्तिर्वर्षा विभक्तिर्नीत्यात् विभक्तिरपितुनाम विभक्ति प्रथमादिकेति भाव साचाष्टविधा तोयं करणधरे प्रज्ञप्ता का पुनरियमित्याण्य यन्मन्त्रेया विधीयते तत्पश्चिन्तामद्विषात्मपियिमक्ति दर्शयतुमाह तद्यथेत्यादि निदेशे इत्यादि श्लोकद्वय निगदसिद्ध नवर किगायंमात्र प्रतिपादन निदेश

ततिसम वणसम पदसम तालसमच गेहसम नौससिञ्चो ससिञ्चसम सचारद्वम सरासप्त ३१ सप्तसरातलुगामा सुच्छणा इक्त्वोसप्ति । ताणाएगूणप्रयास सप्तसप्त सरमण्डल ३२ सेप्त सत्तनामे सेकित अट्टनामे २ अठ्ठविहावययणवि

भाषा श्री तीर्थतरणधरे कणो स्वरमण्डल कर्तता पडजादिक स्वरसमूहे गाई तानने विषे पडत्या भली श्री महाश्वपनी भापी इति श्लोकार्थं शिषे गीतना विचारना प्रत्याव भणी एह्यु वली पूछेके केषी गये गाशा सुगम केषी इति कियो स्त्री इत्यर्थं तथा खर खरस्थान कस्यमसिद्ध तथा चतर करीये दण तथा विलिखित ते परिमथरविलवी र्एभाव बने द्रुत, ते योष इति गाथार्यं विखर पुण केरिस्वीवली विखर किशोर्गाइ एपदगाथा थी अचिक छे शिषे अतुकमे, उत्तर करेके सामागाइय गाशा सुगम इहां पणि विखरं पुणपिगला एगाथाधिक पदके तिशां पिङ्गला ते कपिला पूत्वर्यं शिषे समस्त स्वरमण्डला संक्षेपने, कश्चिपने करी स्वरमण्डलनी समाप्ति कश्चि छे सप्तसराद्योक्त सुगम तिशा लांभी तांतने तान कर्षीये तिशां पडजादिक स्वर प्रत्येकसातस्वर

खलु सि औ जसिति प्रथमा विभक्तिर्भवति अन्यतर क्रियायां प्रवर्त्तनेच्छेत्यादनसुपदेश्य सखिन् चस् औ यस् इति द्वितीया विभक्तिर्भवत्वुपलक्षणमालं चेदं  
 कटं करोतीत्यादि सुपदेश्य संतरेणापि द्वितीया विधानादेव मन्यत्वापि यथासंभवं वाच्यं विवक्षित क्रियासाधकतमं कारणं तस्मिं श्रुतीयाकृता विहितता संप्रदी  
 यते यस्मै तद्गवादिदान विषयभूतं संप्रदानं तस्मिं श्रुतयोर्विहितता अपादीयते विषयव्यते तस्मात्तद्विषयव्यमाना वधिभूतमपादानं तल पंचमी विहितता स्वमा  
 लीयं स चित्तादि स्वामीराजातयो वचनेतत्संबंध प्रतिपादने पठौ विहितेत्यर्थः संभिधीयते भाषीयते यस्मिं सत्संनिधानमाधारसदेवार्थसखिन् सप्तमी  
 विहितता षष्ठमी सबुद्धिरामं त्विषीभवेदामंतणार्थे विधीयत इत्यर्थः एवमेवार्थं सोदाहरणमात्रं तत्पदमेत्यादि गायत्र्यतसो गतार्था एव नवरं प्रथमा

भत्तौ प्रणत्ता तंजहा निहे से पठमाहोइ वितिआउवएसणे तईआकरणं मिकया चउत्थी संपयवणे १ पंचमीअ  
 अवायाणे छट्ठीसस्सामिवायणे सत्तमी सखिहाणत्ये अट्टमामंतणोभवे २ तत्पपठमाविभत्तौ निहेसे सोइसो अहं

गाइये इम ए गुणपंचास तान सात तातनी वीणाने विपे छइ एवं एणे अनुसारे एकतांतनी वीणाने विपे तथा त्विण्य तांतितनी वीणाने विपे तथा  
 कंठे करी पण्णिगावतां एगुणपंचासजतान छइ समत्तं स्वरमंडलं इम समाप्तौ स्वरसमूह इति लोकार्थः इहां स्वरमंडकने विपे वाचना नाभेदस्वय  
 मेव जांयना ते इम पडजादिक सातनामे करी सर्वस्वरमंडलना बोलवा थो एसातनाम कहीये सेतं समाप्त इये षटनाम कहेछे सेकितं तिशा बोखिये  
 तेवचन कहीये वस्तुना बोलणहारा एभाव छने विभजीइं ककतां अर्थ एणं करी प्रगट करिये ते मणी विभक्ति कहीये पछे वचननी जे विभक्तिने वचन  
 विभक्ति एतले आख्यातनी विभक्ति मही अपितु नामनी विभक्ति प्रथमा द्वितीयादिक एभाव विभक्तिने षाठप्रकारनी श्रीतीर्थंकर गणधरे प्ररूपी ते विभक्ति

विभक्ति निदेशकयेत्याह सोऽमोति अथ अह इति अथ वायब्दछदाहणोत्तररूपक उपदेशोद्वितीयाकथयेत्याह भण्णकृष्णकितदित्याह इदं प्रत्य  
 छतहापरोक्षमिति तृतीया करणेकं ययेत्याह भणित वा छतं वाकेनेत्याह तेनवा मयाचिति अत यद्यपि कर्त्तं रि तृतीया प्रतीयते तथापि विवक्षाधीनत्वा  
 त्कारक इदं नो न मया वा छत्वा भणित छत वा देवदत्ते न गम्यत इति एव कारणविषयापिनयुवतीति लक्षणयाम सात्त्वत बहुश्रुता विदतीति इति नमो  
 साहाय्यादि हृदीत्युपदेशने नमोदेयेथ साहाय्ये इत्यादियु सम्प्रदाने षट्थी भवतीत्येके अन्येत्पाध्यायागां ददातीत्यादिष्वेय सम्प्रदाने षट्थी  
 भिच्छति अपनय गृहणाय एतच्छादितो येत्येवमपदाने षष्ठी तस्यास्य गतस्य कस्य भत्यादेरिति गम्यते इत्येव स्वस्वामि सवधे ष्ठी तदस्तु इदरादिकं

वत्ति विद्रापुण उवएसे भण्णकुण सुइमवतंवत्ति ३ तद्द्राकरणमिकया भण्यिअ च कथयतेणेव मएवा इदियमो  
 साहाए हवइ चउत्थी पयाणमि ४ अथणयगिएहयएत्तो इउत्तिवा पचमी अपायाणे छट्ठी तस्स इमस्स वगयस्सवा

किसी छद् एवथी आयाङ्गाद् जे अर्थने चिये जे विभक्ति करिये ते देपाडवा भणी कहेछे तद्यथा निहसे ङोकहय तिसां किगर्थ मातरु वोत्तु ते निर्देश  
 कक्षीये तिसां प्रयसा विभक्ति छद् तथा अनरी कोर्इएक क्रियाने चिये इच्छानो उपजावतु ते उपदेश कक्षीये तिसां द्वितीया विभक्ति छद् ए उपलक्षण  
 मात्र जे जेभणी कटकरोति इत्यादिकने चिये उपदेश विभा पण्यि द्वितीया छये छे इम अनरे ठामि पण्यि यथा सम्भय कश्चो तथा विवक्षित क्रियातु अति  
 साधणकारी करण बोलीये ते करणने चिये तृतीया विभक्ति क्रिया कीधी तथा जेछने दीजे ते गवादिक् दाननालेणचारने सम्प्रदान कक्षीये ते सम्प्रदानने  
 चिये षट्थी विभक्ति छद् तथा अपादीय ते कक्षता जे छती वस्तुसकगीयाद् ते वस्तुने अल्लोयोतां जे अवधिभूत वस्तु एतले जे छती जे कार्इएकजषो



अस्मिन् जुं डादौ तिष्ठतीति गस्यते इत्येव साधारे सप्तमी भवति तथाकाल भावति काच भावयोष्यं द्रष्टव्याः तत्र काले यथा लघोरसते भावेतु चारि  
 वतिष्ठते आसंत्वणे भावेऽटमी यथाच्युवन्ति दृष्ट्वैयाकरणद्वयमेन घेयसटमी गस्यते इदं युगानांत्वसौ प्रथमावतिमंतयन्मिति इह व नामविचार  
 प्रसावात् प्रथमाद्विभक्तं तंनामैव गृह्यते तथाट विभक्तिभेदादटविधं भवति अचप्रथमादि विभक्त्यां तनामाटकमंतरेषापरं नामास्यतोतिनामाटकेन सर्वस्य  
 वस्तुनोभिवानहारेण संग्रहादटनामे दसुच्यते इति भाषार्यः ३०० चेत्तं अटुनामेतिनिगमनं अयनवनाम निर्दिगगाहः सेकितं नानामेत्यादि नयना  
 मेनवकाव्यरसाः प्रशस्ता सत्कवेरभिप्रायः काव्यं रस्यं ते अंतराकनासु भूयंत इतिरसा साकटकारि कारणसंख्यिधानोद्गाथेतो गिनार वियेषाइत्यनेः

सामिसंबंधे ५ हवद्रपुण सप्तमी तं इस्मि आहारकाल भावेअ आसंतणौ भवे अठमीउक्कहाहेवुवाण्ति ६ सेतं  
 अट्टणामे सेकितं शवनामे २ णवकव्यरसा पश्यसा तंजहा वीरो सिंगारो अग्नुअ रोद्दोअग्गोइ वोह्वो वेलाणजो

थाइ तेरुने अपादान कथोये तिरां पक्षमी विभक्ति करी छे अय स्वकृतां आपणी द्यसपिसादिक पने सामी कृतां तेरुनो घणी एभिडं ना सस्यत्र  
 नावचनेने विपे पछी विभक्ति/कीवीछे अय संखिधीयते अहतांरगाइ जेउने विपे तेसन्निधानकमटिने इच्छाघार तेअज जेअयंते/संखिधानार्थं तेसंखिधाना  
 र्थनेविपे सप्तमी विभक्ति छइ अयाटमी आसन्तणौ विभक्ति सामन्तरूप प्रदनेविपे छइ इतित्रोकार्यः छिडे एअज आठविभक्तियो अर्थं अगहरणभुडित  
 कहेछे तल्पपहमा गाथा अार तिका प्रथमा विभक्ति निर्द्वयेने विपे बोलीविकिस सो कृतां सः एतले परोक्षवचने तेइम जे बोलीये तना इस्मो कृतां अयं  
 एतले ए अमकुएम जेवोलीये तथा अरुं वति तथा यदुं पनेरा उदाहरणनो जणाअणभार उं असुको इम जेवोलीये ते प्रथमा विभक्ति कहीये तथा द्वितीया

राय प्रवर्तन सिधु अणिरुका अणिस अयव अणन अण अण

उक्तं च वाह्यायी लवनो वस्तु। विकारो मानसो भावेत् सभाव काथ्यते सद्भि शस्योक्तयो रस स्यात् । काथ्येपनिवृत्तारसा कात्परसा बीरश्च गारादयसा  
नेवाच बीरो सिगरो इत्यादि गायस्त्रगमा नवर भूर्बीरविकांताविति बीर्यति विकामयति तेरागतमोवैरिनिग्रहेप मेरयति प्राणिनमित्युत्तमप्रकृतिपुरुष  
परित्यज्यपणादिरेतु सङ्गुभूतोदानाद्युक्ताश्च मकर्यामकीबीरोरस इति सर्वत इतिगम्यते च गसर्वरसेस्य परमप्रकृत्यकोटिलक्षणाभियद्गुं गच्छतीति कमनीय  
कामिनी दर्शनादि रुभवो रतिमकर्यामक नृ गार सर्वरसप्रधान इत्यर्थं अतएव च गारचास्यकषणा रौद्रवीरभयानका वीभत्याङ्गु, तयांताय नवा

नोभच्छो हासो कलुषो प्रसतोत्र १ तत्परिच्छायमिन्द्र दान्तवचरण सत्तुजण विद्यासेत्र अणुणुसयधिति परक्रम

उपदेशो विषे छद्म ते किम भण्य कुणसुणसुद्रमवतवन्ति भण्य करि कित्यु ते कहेछे इद एमत्यचवस्तु अथवा त ते परोष वस्तु इम जे। बोलीये तेद्वितीया  
कशीये । तथा तृतीया करणने विषे कीधी ते किम भणित वास्तत वा भण्यो तथा कीधो केणे ते कहेछे तेनवा मया वा तेणे तथा मद् इम जे बोले ते  
तृतीया इशां दद्यापि यत्ताने अर्थे तृतीया जणाय छे तथापि कारकनी प्रकृति विषयने वसे, छे ते, भण्यो । तेन मया वा कत्वा भणित इत वा, देवदत्तेन  
इम अर्थजणाय छे तेणे करी अथवा मद् करीमण्यो अथवा कीधु केणे देवदत्त एतले तेरने साणज्जे करी अथवा माचरे साणज्जे करी देवदत्ते भण्यो  
तथा कीधु इम अर्थं करणार्थे मिते । अन्यथा न मिले इम कथीये छे तत्पठवञ्ज्युतजाणे तथाचदिनमोसाशाए इशां चदिए यद् उपदर्शनने अर्थदृच्छे  
नमो देवेश्य स्वाशा अगने इत्यादिकने विषे पयाणमि सम्प्रदानार्थे पठार्थे छद्म इशां, अर्थनमस्कार छद्मो देवताने तथा स्वाशाञ्ज्य अग्निदेवने इम वीलि  
ये ते पठार्थे कशीये एएकवञ्ज्युतनी कशी अनेरा वलीवञ्ज्युत नुत इम कहे छे उपाध्यायावगां ददाति इत्यादिकने विषेज सम्प्रदाने पठार्थे। बोलीये र तथा

नोभच्छो हासो कलुषो प्रसतोत्र १ तत्परिच्छायमिन्द्र दान्तवचरण सत्तुजण विद्यासेत्र अणुणुसयधिति परक्रम

उक्तं च वाह्यायी लवनो वस्तु। विकारो मानसो भावेत् सभाव काथ्यते सद्भि शस्योक्तयो रस स्यात् । काथ्येपनिवृत्तारसा कात्परसा बीरश्च गारादयसा

धोरसाः सूता । इत्यादिष्वयं सर्वरसानामादेवैवपद्यते अतत्प्रागतपोगुणो वीररसे वर्ततेत्यागतपसीच त्यागो गुणोऽगुणगतादधिकोमतोमे परंकोकाति  
 गंधामतपः श्रुतमितिहयमित्यादि वचनात्मकस्त गुणप्रधान इत्यनया विवक्षया वीररसस्यादायुपन्यास इति श्रुतं २ गल्पत्यागतपः श्रुतिकर्मादि वा सकल  
 भुवनाति याधिकमिष्यपूर्वैवस्वप्नतसुषुते तद्दर्शन अथवादिभ्यो जातोरसोप्युपचारादिसयस्वरूपोद्भूतः रोदयत्प्रतिदारुणतया अश्रुपिमोचयतीति रोद्रं रिरुज्जन  
 महादारुण्यकारादितर्हर्शनाद्युद्भवो विकृताध्यवसायरूपोरसोऽपिरोद्रः ४ त्रीडयति लज्जामुत्पादयती क्लान्तीय वस्तुदर्शनादि प्रभवो मनोव्यथीकृतादि

लिंगो वीररसोद्भोद् २ वीररसोजहासेनाम महावीरो ओरळं पयहिउणपवइउ कामकोहमहासत्तू पक्ख

अपनय कचतां परहो करि तथा गृह्णाण्यकचतां ल्यै एतौ कचतां एऊंती अथवा इउति एहनो पणि अर्थ एउव इम जे वोलिये इम अवायाणे अपादान  
 ने अर्थे पक्खमी उइ तथा तस्य अस्य गतस्य तेउहुं गया नो एवस्त इम अस्वामी समन्वने अर्थे पठी उइ ३ तथा तं इमंमि ते वदरादिक वस्तु एउगडादि  
 कने विपे तिष्ठेके एउवा आधारेने अर्थे सप्तमी उइ तथा काक अने भावने विपे पणि इम देवाउबी तिळां काकने विपे जिम मधी रमते अने भावने  
 विपे जिम चारित्त्वे अवतिष्ठते वसन्तने विपे रमे के अने चारित्त्वे विपे तिष्ठे ते इम जे वीलीये ते सप्तमी कहीये अथ आमन्त्रणने विपे अटमी विभक्ति  
 उइ जह हेजुवाणति जिम हे जुवान ए विभक्ति उइ वैयाकरणने मते अटमी गणीयेके अने एउगना वैवाचरणने मतेती ए प्रथमाज विभक्तिहे ४ इति  
 गाथा चउटयार्थः इहां नामना विचारना प्रसाव थी प्रथमादि विभक्त्यन्तज नाम ग्रहीये तेहना आउभेद थी अटविधि नाम ऊइ एतले पथमादिक वि  
 भक्ति विना कोई नाम नथी ते भणी एगे आठे नामे करी सर्व वस्तुना बोलना थी सर्ववस्तुनो संग्रह याइ ते भणी अट नाम कहीये ए सूत्रनायचन थी

स्वरूपो त्रीडनक अस्यस्थाने भवजनक सग्रामादि वस्तुदर्शनादि प्रभवो भयानको रस पद्यते अन्तत सचेहरोद्ररसातभाप विचक्षणानुपयत्कोक ५ शुक्र गोष्ठितोच्चार प्रत्यवषाद्यनिष्ट उद्वेजनीय वस्तुभीमत्वमुच्यते तद्दृग्गन अवगणादि प्रभवोजुशुधा प्रकपंसंरूपोरसोपि बीभत्स ६ विहता समुद्रपर बचनवैपालका रादिशास्यार्थि पदार्थं प्रभवो मन प्रकपादि चेष्टालकोपि रसोऽस्य ७ कुवतरोत्यानेनेति निरुक्तवशात्करण करुणास्यदत्वात्करण प्रियविप्रयोगादि बु खेपेष्टसमुत्स योक प्रकपस्वरूप करुणो रस इत्यर्थं ८ प्रगाम्यतिक्रोधादि जनितो त्व, क्यरश्चितो भवत्यनेनेति प्रयात परमगुरुवच अवगणादिपेठ समुत्स सित उपसमप्रकर्णात्मा प्रयांतो रस इत्यल विसरिण्ट एतानेवकषणादि हारेण विमणियु वीररसतावस्तुक्षणतो निरुपयञ्चाठ तच्छपरिञ्चाय मियमाहा

सित उपसमप्रकर्णात्मा प्रयांतो रस इत्यल विसरिण्ट एतानेवकषणादि हारेण विमणियु वीररसतावस्तुक्षणतो निरुपयञ्चाठ तच्छपरिञ्चाय मियमाहा

सित उपसमप्रकर्णात्मा प्रयांतो रस इत्यल विसरिण्ट एतानेवकषणादि हारेण विमणियु वीररसतावस्तुक्षणतो निरुपयञ्चाठ तच्छपरिञ्चाय मियमाहा

निगघायण कुण्ड ३ सिगारोनामरसो रतिसजोगाभिलास सजणणो मण्डणविलास विव्वोश्च हासलीला रभणलिंगो ४ व्याकरणना उद्यापणहार मित्यात्वीजाणवा सेत समाप्ति अथ नव नाम कहेछे सेकित नयनामे उत्तर नयनामने विपे नव काथ्यरथ प्रकथा तिचां काय किण्ड कश्चिये कविनो जे अभिप्राय तथा रसोये अतरालाड अनुभवीये तेरस तेनेसचकारी कारणना समीपयी अपनाचित्तना विकारवियेपचकच वाच्या या लभनो वस्तु विकारो मानसो भयेत् सुभाष कथ्यते सद्भि सास्योत्कर्षो रस खत । काव्यने विपे वाच्या जेरस ते कांथ्यरस कधीये अर्थधी श्दद्वारादिका तद्यथा वीरो गाथा शूरवीर विक्रान्तो एव वा धातुयी वीरइदानतपवैरी निग्रहने प्रेरे तेप्राणीने वीर कधीये एतले उत्तमप्रकृतिना धणी जे पुरुष तेचना अरिक्ता सांभलवादिक्ता हेतु थी लपनो जे ज्ञान तपसप्राप्ते विपे उतावलपणो ते रूप वीररस कधीये । तथा श्द ग कचता सर्वरस थी परमोत्कृष्टरूप अथ तेरने इत्यन्ति कचता पुरुचे ते भणी श्द गार कधीये एतते स्त्रीना दर्शन तथा सवास थी लपनो अत्यन्त रतिकरूप श्द गार रसवोलीये

१७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

तत तेषु नवस्वरसेषु मध्ये परित्यागे दाने तपश्चरणे तपो विधाने शत्रु जनविनाशेषु यथासंख्यमननुशयवृत्ति पराक्रमविश्वीवीरो रसो सन्नति इन्द्रसुहृत् भवति दाने दत्ते यदाशुशययो गर्वः पश्चात्तापंर्भातं न करोति तपसिच हते धृतिं करोति नार्त्तध्यानं यत्, विनाशेषु पराक्रमते नतु वैकल्पमवलंबते तदाएतै लिंगे ज्ञायतेऽयं प्राणी वीररसे वर्त्तत इत्येवमन्यत्रापि भावना कार्यति उदाहरणनिदर्शनार्थमाह वीरोरसो यथाय्युपदर्शनार्थमेतत् सोमामगशा पाठसिद्ध्या नवरं वीर रसवत्पुरुष चेष्टित प्रतिपादनादेवं प्रकारेषु काव्येषु वीररसः प्रतिपत्तव्य इति भावार्थ अपरंचेहोत्तमपुरुषेतव्य कामजोषादि भावशत्रुजयनेव वीररसोदाहरणं मोक्षाधिकारिणि प्रस्तुतयाक्ते इतर जन साध्यसंसारक्षारण द्रव्यशत्रु निग्रहस्या प्रस्तुतत्वाद्दिति मंतव्यमित्येव मन्यत्रापि भाषावर्षोषव

### सिंगारोरसो महामहोरविलास सललिञ्चं ह्निच्युत्तुश्चादणकरं जुवाणारणं समासदुद्दामं दाएतौ मेहलादासं ५ विरुहय

सर्वरस प्रधान इत्यर्थः एतला भणीज ए अनेरा ग्रंथने विषेः सर्वरसने अादे भणीये यदुक्तं शृंगारहास्यकरुणा रोद्र वीरभयानकाः वीभस्वाद्ग तयांताय नवनाथे रसाः स्मृताः १ अत्र दानगुण अने तपगुणबीररसने विषे वर्त्ते अने ते दान गुण अने तप गुण मध्ये लो गुणी गुणशतादधिको मतो सत पर लोकानां मते नियन्वानां मति तु तपः श्रुतिमिति ह्यमित्यादि वचनधी ते विष्ट गुण सर्वगुणप्रधान एषी विश्वाये वीररसनो प्रथम ग्रहण कथो २ तथा श्रुतशिल्पत्याग तपःशौर्यकर्मादिक सकलभयनमध्ये अतिशायी क्लियुं एक अपूर्वं वस्तु अद्भुत शोकीये तेवस्तुने देवदे संभलये करी अपनो जेरष ते पणि उपचार नय थी विश्वाय रूपाद्भुतरसुःकवीये ३ तथा रोभाडे अतिदारुणपणे करी आम्सुं काये ते भणी रोद्र कवीये रिपुजन महाटवी अंधकारा दिकनादेखवादिक छंती अपनो अतिरोद्राथवसायरपरस पणि रोद्र कवीये ४ तथा त्रीडे लज्जा उपाये ते लज्जनीय वस्तुना देखवादिकथी अपनो

मनने विष अत्यन्त लज्जारूप मीढनरसकधीचे एवने ठाम अनेरे प्रत्ये भवजनक सप्रामादिक वक्षना देखवादिक वी उपनो भवानक इवेनामे रसभषीचे छे तेदुषां दौद्र रस मध्ये आवे एववी विवक्षाए एजूषो न कक्षो ५ तथा शुक्रबोबित उद्याप्रखवणादिक अनिट उद्गे गनीदवस्त वीभक्तकधीचे ते वस्त ना देखवा सांभक्तवादिक वी उपनी दुए छा प्रकव रूपरसपि वीभक्त कधीचे ६ तथा विरूप असलक्षपरवचन वेगअलकारादिक शास्त्रयोम्य परार्थं यो उपनो मन प्रकपोदिक चेटाकपरस पणि शास्त्र कधीले ७ तथा कुत्सित रोवावे इषी निवक्तिना वसवी करणा कधीचे अथवा करणा ठाम भषीकरणा कधीचे प्रियविदोगादिक दुषहेठ वी उपनो सोकप्रकर्ष रूप करणरस कधीचे इत्यर्थः ८ तथा प्रथमे कोषादिक छत उतापका भावयी रचित छद्म एण्ये कटी ते भषी प्रसांतरस कधीये एतले परम एवना वचन सांभक्तवादिकयी उपनो अत्यन्त उपयमरूप यांतरस कधीचे ९ इथे एरसलक्षणादिकद्वारे भणवा इच्छत प्रथमतो वीररसलक्षण छ ती कहेहे तल परिचायमियगाशा ते नवरस मध्ये परित्याग दामने विवे अने तपवरण करतां तप करवने विवे अथ शत्रुजनना विनासने विवे यथा सत्याए अननुभव इति परात्मरूप वीररस वीक्षिये एतले दान दीधे छते अननुभवकरतां गर्वं अथवा पथा- तापनकरे अने तप कधी छते इति कर्ता मनस्विर राधे पर आसंथान न करे अने यज्ञना विनासने विवे परात्म करे पर वैलक्ष्णकातर पणो अथ सधे नशीं तिबारे एण्णबबणे कटी जाणिये जे प्राणी वीर रसने विवे वने छे इम, अनेरे ठामे पणि विचारणा करवी २ अथ एवनी उदाहरण कहे छे वीरोरसो यथा एयम्भदेयाडिवाने अर्थे कक्षो इम आगलिपणि जाणवो सोनाम गाशा ते सचाबीर नाम कश्चिये जेराज्य छाडी नीकल्यो तथा कामकोष मचायानूनो जे पथ करतां गर्वं तेहने छरूपणे कटी अथकरवा लागो इम वीररसवंत पुरुषयना कर्तव्यना कर्हवा यो काव्ये विवे वीररस जाणवो इति भाषायं अपर वशी इषां सतमपुरुषपने, जीतवा योग कामकोषादिक भावयतुने जीपवेज वीररसनो उदाहरण दीधो जे एतला भषी जेएयासमर्थे

गंतव्य इति शृंगारसं लक्षणमाह शृंगारगाथा शृंगारोनामरसः किं विशिष्ट इत्याह रतीत्यादि रतिशब्देनेह रति कारणानि चरतव्यापारांगानि ललनादीनि गृह्यन्ते तैः साष्टं संयोगाभिलाष संजनक सास्य तत्कार्यत्वादेव तथा मंडनविभाष विव्दोक्तास्यबीबारमस्यानि लिंगं यस्य स तथा तत्र मंडन कंकणादिभिविभाषः कामगुणारस्योनयनादि विभ्रमो विव्दोक्तिदेशीपदं अङ्गजविकारायं सास्यं प्रतीतं लीलासकामगमन भाषितादि रमणीयषेठार मयं क्रीडनमिति उदाहरणमाह शृंगाराइत्यादि मञ्जरगाथा श्यामास्त्रीमेवकादासमरचनायुक्तं दर्शयति प्रकटयतीत्यर्थः अयंभूतमित्याह रणमणि स्वरमाधुर्यान्धुरं तथाविकासैः सकामैशेष्टाविशेषयेलंबितं मनोहारि तथा शब्दोदासं किंकिणी स्वरं किमिति तत्प्रकटयतीत्याह यतो हृदयोन्नाद

करो अपुवो अनुभूत्र पुवोय जोरसोहोइ हरिसविसायुष्पत्ति लखणो अरुमुत्रो नाम इ अरुभुओरसोजहा अरुभु

मोक्षनो च अधिकार प्रारंभोहे अनेइतरजनसाध्य संसारनो वारण जे द्रयशत्रुं जीपुंते प्रारंभो नथी ते भणी इम वाणुं इम अनेरा अधिकार मध्येपणि भावार्थ जाणुं ३१. अथ शृंगारसलक्षण वी कहे छे सिंगारो गाथा अंगारनामा रस केरुंछे इहां रतियन्दे कामना वारण ललनादि कयहीये ते संघते संयोगना अभिलाषनो उपजावणहार ते शृंगाररस कहीये एतथा पूर्वोक्तस्यादिक कारणना कार्यछे तेभणी तथा मंडनविभाषासवि लोक्तास्यबीलारमण लिंगछे जेहना ते तिहां मखन कहतां कंकणादिके करी शरीरयोभायमान कस्यो तथा विभाष ते कामगुण युक्त नयना दिकरुं विभ्रम तथा विव्दोक्तेयो पदं ते अंगयो उपनो जे विकार तेहना अर्थने विपे प्रवर्त्ते सास्यप्रसिद्ध तथा लीला ते सकामगमन वोलवादिक् रम णीयषेष्टा तथा रमणते स्त्रीपुरुषयुं परस्पर कीडुं एतले शृंगाररसरूप कस्यो ४ चिपे एहनो उदाहरण कहे छे मञ्जरगाथाः श्यामास्त्री मेखलाइम

नकर प्रबलकारदीपम सुभानानामिति, इन्द्रारप्रधानचेडा प्रतिपादनादय इन्द्रारसदृति अद्भूत स्वरूपतो कथयतथाच विश्वियगाथा कस्मिंश्चिदभूतबस्तु  
 निवृत्ते विस्मय करोति विस्मयोत्कर्षणोयोरसो भवति सोऽतनामेति सटफ कथभूतो अपूर्वोऽननुभूतपूर्वोवा अननुभूतपूर्व किलक्षणप्रत्याच षड्विधादेत्यभि  
 कथय सुभे वस्तुव्यदभूते दृष्टे षड्विधजनलक्षणो सुभेऽविपादजनलक्षण इत्यर्थं उदाहरणमात्रं दूहजीवकोकेदूततर इतोऽजिनवचनानि  
 मन्वदशिनानीत्यर्थं कृत इत्याच यद्यस्मान्मिन्न वचनेनानीवादीय वृत्त्याथवहिततिरोचितोतिद्रिवान्मूर्त्तादि स्वरूपा अतीतानागतवर्तमानरूपविकाल  
 युक्ता अपिप्रायत इति अथ रीद्रे हेतुतो कथयतथाच भयगाथा रूपं यत्पु पिशाचादीनां यद्दसौ पाभेव अघकारं वस्तुतमो निरूपणरूप उपलक्षणात्वा

अतरमिहएत्तो अन्नं किञ्चित्पि जीवलोगमि जणिणवयणे अथ्या तिकालनुत्ता सुखिज्जति ७ भयजयणरूपव सद् धया  
 रचितकहा ससुम्पखो समोह सखमविसाय मरणलिगो रसोरोहो ट रोहोरसो जरा भिउडीविउविअसुहा स

रचना सूत्र दंगयति देखाडिते प्रगटके किंसु छे ते मेखणा दाममधुर कश्ता रणत्कारकती मणिने खरे करी मधुर छे तथा विवास ते खानमपेडा तेपे  
 करी बलित मनोरर के तथा यद्योऽस कश्तां घुघरीना यद्द सयुक्तछे चिये किसी भण्यो ते देषाडेछे जे भण्योतिरेणिष उन्मादण कर प्रवण कदंपरु दीपा  
 यणचारी छे केइने लुवाणाण जीवनवत पुरपने एतले इ गार रस बोलीये ५ । २ अथ अद्भुतरखलरूप धी तथा  
 कथय यी कहे छे विन्धिव गाथा कोरिएक अद्भुत वस्तु दीठे छते विस्मयकरे एतजे उतुत्कर्ष विस्मयरूप जे रस ते अद्भुत रस कशीये इम सखन्व  
 जाणइ अथ किउ ते अपूर्ववत् कश्तां पूर्वे जे अतुभय्यो नयी तथा अयुभूषण पुज्योवा अथवा पूर्वे जे अतुभय्यो चिये किसु खरूप तेइरु षड्विधा

उदाहरणार्थं विदुषोऽपि ननु ननु ननु



हरसादयश्च पदार्थो इह गृह्यते तेषां भयजनकानां रूपादि पदार्थानां ज्ञेयं चिन्ता तत्स्वरूपपर्वलोचनरूपाकया तत्स्वरूपसंज्ञान लक्षणात्तथोपलक्षण  
 तादर्थ्यनादिवगृह्यते तेभ्यः बहुल्येनो जातो रौद्ररश् इतियोगः किं लक्षणेत्याह संभोचः किं कर्तव्यमव्यक्तता संभमोव्याहुजन्तं विपादः किमश्नतप्रदेशे स  
 मायातइत्यादि सेदस्वरूपः मरणं ज्योद्भांत गजउकमाकंठसोमिकद्विजस्यैव प्राबलागतानि लिंगकथं यस्य स तथा आश ननु भयजनकरूपादिभ्य  
 संसुत्यम्बः संभोचादि लिंगश्च भयानक ऐवभवति कथमस्यारौद्रलं सत्यं किंठ पिशाचादि रौद्रवस्तुभ्यो जातलाद्गौद्रलं अस्य विवचितमित्यदोप साथा श्लु

दशोष्ठ अद्भिरहिरमाकिस्या हृणसिपसुअसुरणिभा भीमरसिअ अद्भरोद् रोद्दोसि ६ विणउववारं गुज्जगुरु दार

दोत्पत्ति लक्षण शुभवस्तु अद्भुत दीठे ऊते हर्षजनन रूप अने अशुभ वस्तु अद्भुत दीठे ऊते विपाद जननरूप एतले स्वरूप कथ्यो ऽ चिदे उदाहरण  
 कथेच्छे अशुभ गाहा इहकथता एजीवलोकने विषे अद्भुततर पत्यन्त आश्चर्यकारक वस्तु एतौ कथता एजीजनवचनथी किमन्यदसि किंसुं अनेरो छे  
 एतले नासीत्यर्थः कित्या भणी जं कथतां जेभणी जीजिनवचनेने विषे अर्थ कथतां कीवादिर्कापुदार्थ्यं सुस्सदूरतरित अतीन्द्रियादिकरूप तथा अतीताना  
 गतवर्तमानरूप विकालक्षणापि सुणिज्जंति जाणिये ०३ अय रौद्रसहेठ थो अने कक्षण थो कथे छे भयगहा तिहां रूपते पिशाचादिभना अने  
 गड्ढपणि तेरुण सम्यधिया तथा अन्धकार अत्यन्त तमोरूप लक्षणपथाथी अरण्यादिक पदार्थपणि प्रथीये ते भयजनन कथतां भयना उपजावणकारा जे  
 रूपादिक पदार्थ तेरुनी जे चिन्ता कथतां तेरुना स्वरूपं अलोचनुं अने कथा कथतां तेरुना स्वरूपं बोलनुं उपलक्षणथी तेरुना दर्शनादिजहं  
 प्ररुण जाणनुं तेथी जपनो रौद्ररश् एसन्न्य चिदे किंसुं तेरुनो स्वरूप तिहां असम्भोच कथतां किंठं कारवो एवभो कर्तव्यपणानो अद्भुतं तथा संभ

रिच वगना विच गवदिका सागन संयस राग ८८६५

जनादिदयानाच्छिर कर्तं नादि महत्तानां च योरोद्राध्यवसायात्मको भङ्गुटीभगादिरीद्रीरस सोप्युपलक्षणव्याख्यादले व  
 द्रष्टव्यो ज्ञयथा स निरास्यद एवसादत एव रौद्र परिणामवत् सुखवचेटा प्रतिपादकमेवोदाहरण दर्शयिष्यति भीतचेटा प्रतिपादकत्वात् एवान्युस  
 मित्यल प्रपदेन उदाहरणमाह भिषङ्गीगणा निषङ्गीतरंगित शब्दादकमया भुक्त्याविडवित विद्वन्नीलत सुख यस्य तत्सुखोचन हेष्नु कुटीविडवितसुख  
 सङ्गुटीष्ट पश्यत इति दक्षिणमाकिलानि विद्विप्तवदिविरेय्येयां षण्णसिन्ध्यापादयसि यद्यु असुरो दानवसन्निभ तत्सद्वय भीम रक्षित यश्चित यस्य तस्य नो

मेरावद्रवसुभष्यो वेलणउ नामरसो लिज्जा संकाकरणलिंगो १० वेलणउरसोजहा किलोद्रश्चकिरिश्चाउ लज्जणी

मतेष्माकुलपयो तथा विषाद ते द्रुहाळ क्लिप्ता मणी आथो द्रव्यादि खेदस्वरूप तथाभरण ते भवोद्भूत गजसुज्ज्वालना मारणशरा सोमिज्जाद्याणनी  
 परे जे प्राणत खोडवुं एतथा बिंग कर्ता कण्ण जे जे षणा ते तथा उ द्रुर्शा भेरक कचे जे भंगवन् मयजनक कपादिक यो जपनो बने सुसोषादिक  
 जेने लिंग ते तो भवानक ज रसुळइ ती एने रौद्रपयो किम याइ सुकरोत्वा एस्तय पर पिशाचादिक रौद्रवस्तु यो सज्जवापणा ज ती रौद्रपयो एने  
 विषय्यो जे ते मणी दोष गही तथा यत्तुजनादिकने दीठे छते तेचना थिरखेदपकारानो तथा यद्युंखरुकरभगादिकना मारणशराउ जे रौद्राध्यवसाय  
 रूप सुकुटीभङ्गादिक रौद्ररस ते पण्डि सयलक्षणमणा बी एहजरस मध्ये जाणवुं आत्मया ते बलगो रची जाइ इदिवे एतका मणीज रौद्रपणा  
 जी चेटाउ करणशरो उदाहरण देयाडे जे बने भीषतानी चेटाउ जणावण शरो जे उदाहरण ते स्वमेव जाणवुं अल प्रपदेन भिषङ्गी विडविष  
 गाणा अङ्गुटी ते बलाटने विदे निद्वि दक्षिकय तिथि करो विडव्यो कर्ता विकरास कीषो सुख जे बने तेनेने ए वासनाथ हेभङ्गुटी इविडवित

सुप्तपुरीयादिवस्तु कुणपंशवः अपरमपि यदुद्देश्यं गणकालादिकरालं शरीरादि तेषां संयोगस्यासादभीष्टं तद्दर्शनादिकपात्तन्वाच्चनिष्यन्त्रो वीभक्तोरसो भवतीति संबन्ध किं कक्षण इत्याह निर्वेदश्च अकारस्य लुप्तस्य दर्शनादविहिंसाच तच्छब्दं तस्य स तथा तत्र निर्वेदश्चे गो विहिंसा अंतुघातादि निवृत्तिरिह शरीरादेरसारतासुपलभ्यहिंसादियापेभ्यः कश्चिन्निवर्तत इहविहिंसापि तच्छब्दणत्वेनोक्तेति अस्तुइत्याद्युदाहरणगाथा इह कश्चिदुपलब्ध शरीराद्य सारतास्वरूपः प्राह कलिर्लघ्वन्यः कालविशेषः ककशोबा तत्र सर्वांनिवृत्ते तु त्वात्सर्वकलहसूत्रलाहाशरीरमेवकलिः शरीर कलि सप्त स्वच्छीत्यागेन सुक्तिगमन काले सर्वथा त्यागेन वा घन्याः केषिद्विसुचंतीति संतकः कथं भूतं अशुचिमखभृतानि निर्भर्याणि ओत्तादिविवराणि यस्य

पि घस्याञ्चो सरौरकलिं बद्धमलकिलिसंविमुचंति १३ खववयवेस भासा विवरिञ्च विलंबण समुप्यसो हासो मणप्यहा

कहतां, विवाहने विषे गुह्यजन खसुरादिक बहूपोतं कहतां बहूनां योनि फलभानो कोशेये खरखे वस्तुपरिवदे कहतां बद्धमानसहित वादे एतले एभाव जे कुशीलनो नाम लेतां लाणीये तो प्रयमज जिभारे भर्तारि संघाते मैसुन सेवतां भर्तारि जोनि फाळतां जे नीकल्यो कोशेतेकोशेने घर व्याणा जे बसूते बसूते लोकसमस्य खसुरादिक धादे तो इस ठघाळो योनि ठहूमेहन लोक आगणि देखाळतां लाज किमन जपने ते भर्षी हे सखि ए वात आत्रीळं अतिलज्जमानया सहुं ११।५ अम वीभक्त्य रस हेठ वी अने लक्षण थी कहे के असुर गाहा तिसां अशुचि सूनविष्ठादिक तवा कुण पते कलेबर मासरूप तथा अनेरो जे बली दुर्दर्शनगलादिक कराल शरीरादिक तेहना संयोगना अथाह वी कहतां शरंवारं तेहना देववादिब रूप वी तथा तेहना गंध थी नीपनो वीभक्त्य रस ऊर ए संबन्ध किस्यु ते वीभक्त्य रस निर्वेद लुप्त आकारना देखाडिवाथी अने अविहिंसा ए विच्छलक्षण जे जे

तत्र । एवं कालमपि स्वभावतो दुर्गंध तथा बह्वसकालयमित्येव च चरनांतरा अपि भावनीयानि । अथ हास्वरस चेटुलक्षणाभ्यामाह स्वगाहा रूपवयो  
 येव मायायां चास्योत्थादनाय वैपरीत्यै न या विद्वन्मनां निवर्तनात् तत्त्वसुखबोधास्यो रसो भवतीति सयोग सान पुरुषादेर्वोपिदादिरूपकरणरूप वैपरीत्य  
 तदप्यादेवं वादि भावोपादनवयो वैपरीत्य राजपुत्रादेर्विष्णवादि, वेपधारण येव वैपरीत्य गूर्जरादेशु मज्जदेश्यादि भायाभिवान भाया वैपरीत्य स च कथ

सो पगासलिंगो रसो होइ १४ हासोरसो जहा पासुत्तमसौमहित्र पछिनुइं देवर मत्तोअंतौ हीजह थणमरकपण पण  
 मिश्र मरुभाहसइ सामा १५ पिअविष्णुयोग बंधवह वाहिविष्णुवाय धंभमुष्णस्यो सोइअ विलवित्र परहाय वनलि

नातिर्था निर्वेदे त उद्देग, अने अविदिता ते जीवघात तिष्ठति इत्थां शरीरादिजनो असारपण्यो कधीने कोइएक मशाइययं? प्रसाथी निवर्तते तेजयो  
 अविदिसापण तेजना लक्षण कवीये । २ अमोदाहरण, जेजेछे असुइगाथा, कोइएक मशापुरुषयरीरादिक वसारस जाएणजार करेछे तिथा कलि  
 कर्ता ककह सर्वथा अनिदरेतुपणा थी अथवा सर्वकालक सूक्ष्मपणा थी शरीर जे कलि ते शरीर, कलि तेजने छांजये करी अथवा सुकगमनकाले बंधवा  
 छांजये करी वन्य जीवकेइएक जे असारपुत्रल सु अे[एसस्यन्ध चिमे किउ ते शरीर, दुपइइ मजेत्यादि अशुचि मले रस्यो निर्भरती परे निर्भर शोतादिक  
 विवरछे जेजना ते तथा, सर्वकालजगे स्वभाव, थी वर्गन्ध पण्यो[बरी मळ मल मसुय करता अतिमेलो जेछे इम पापनांतर पण्यि भावयो । ३६ अथ हास्वरस  
 [रेटुलक्षण थी कचे चे करणाहा रूपवय येवभाषासे हास्य उपाधाभष्यो, विपरीत पण्यो जेविउवना कर्ता निष्पत्ति तेथो जपनो हास्वरस छइ एसमथ  
 तिर्था पुरुषादिपना रूप्यो स्यादिकना रूप्यु[करतु तेरुप विपरीत कधीये तथा राजपुत्रादिकना येवथी वाण्यो आदिकना येवसु करतु ते येव

पपु टी०

२१०

सुत

भाया

भूतः स्यादित्याह मण्यहासोक्ति ममः प्रहर्षकारी प्रकाशनेन वक्रादि विकाशस्वरूपोलिंगं यस्य स तथा अथवा प्रकाशानि प्रकटान्युदरप्रकंपगाटदृहास्या दीनि बिंगानि यस्येति सतथेति १४ पासुत्तमसीत्यादि निदर्शनगाथा इहकया चिह्नधा प्रसुप्तो निजदेवरश्च सूर्यासखीमंडनेनमंडितः तं प्रबुद्धं प सा हसति तांचसंतीसुपलभ्यकश्चित्पार्ष्ववर्त्तिनं कंविदामन्त्यप्राह शीतिकंदर्यातियद्यद्योतकवचः पश्यत भोश्चानास्त्री यथा हसतीति संबंधः किंकुर्वती देवरं प्रलो

गोरसो करणो १६ करणोरसो जहा पभमायकिला मिश्रयं वाहागयपफुअत्यिअं वजसो तस्यविश्रोगे सुसया दुव्यलयंते सुहंभायं १७ निहोस मण्यसमाहाणं संभवो जोपसंतभायेण अविक्कारलकवणेसो रसोपसंतोत्तिषायायव्यो

विपरीत कशीचे तथा गुर्जरादिकनी भाषा बी मध्यदेशादिकनी भाषातुं फेरुं तेभाषा विपरीत कशीचे शिवे क्रिसुं ते शस्यरस मण्यहासो मनने प्रकर्षतुं करणहार तथा प्रकाश करतां नेलसुखादिक विकाशस्वरूप लिंगस्वरूपछे जेहनो ते तथा अथवा प्रकाश कहतां प्रकट उदरप्रकंपन अटदृहास्या दिक लिंग छे जेहना ते तथा १४ हिचे उदाहरण कहे छे पासुत्त गाथा इहां केपी मच्छइं आपणो देवरसूतो जाणीने मसि संघात मांछो यं गाखो जब जाग्यो तिवारहसवा लागी तिवारे तेहने हसती देखी कोई एक अनेरपो आपणापाखाना कोई एकने आमन्तीने कहेछे हीएवचन अतिकंदर्यं तुं जणावणहार देखि हो श्यामा स्त्री निम हसे छे ए संबंध कियो करती देवरने प्रलोकती देखती किय्या देवरने पासुत्तेत्यादि इहां छिन्नप्रकटादिकनी परे कर्मभारय समास छइ तेभणी पूर्व जे ए सूतउ पछे जे एमसि से मांछो पछे बली जे एजाग्यो ते प्रसुप्तमधी संडितमतिबुद्ध कशीचे तेहने देखती अथ किसी ए श्यामा कलियसरिखा जे शन तेचज जे भर कशीचे भार तेहने कस्यावैकारी प्रकर्ष मस्यु छे मध्यभाग जेहनो १५ ७ पच करणारस चेटुलक्षण

कथंती कथं भूत पाठुञ्चेत्यादि द्विव्ययकृदादिवद्वकर्मधारय पूर्व प्रकृतस्य असौ ततो मयीम डितथासौ ततोपि प्रबुद्धस्य स तथा त कथमता सानभर क  
 पनेन प्रथत मध्य यस्या सा तयेति अयेहेतुलो कक्षणतश्च कश्चरसस्यरूपमात्रम् १५ पियविययोगवधयथाव्याधि विनिपात सध्वमेस्य  
 ससुत्यन्व कश्चोरस इति योग सत्वविनिपात सुतादि मरण्य सध्वम परचकादिभयं शेष प्रतीत कि सध्वण इत्याश्च गोपित विकल्पित प्रञ्चान इदि

१८ प्रसन्नो रसी जहा सम्भावनिधिगार लवधतपसत सोमदिद्वोश्च हीणहमुण्णियोसोहृद् सुरकमल पोवरसिरीशं १६

यी कहेछे विषगाहा प्रिवविप्रयोग वषयथाव्याधि विनिपात सम्प्रसथी सपमो कश्चरस्य छद्म एषयध तिर्षा प्रिवविप्रयोग वल्लभतु वियोग तथावधनव्यया  
 पीडन व्याधि रोग विनिपात कश्चतां पुतादिक मरण्य तथा सम्प्रसम ते परचकादिक भव ते थी जयनो कश्चरारसशोय ए सयध क्विस्या लक्षण तेषना तिर्षा  
 सोचतु तेमनगु विकार तथा बिलाम तेकवननो आकृदा तथा पण्णव प्रञ्चान खेद तथा इवसहितप्रसिद्ध एतला किगकृतां लक्षणछे लेखना ते तथा १६  
 पभाय सदाहरणगात्रा इर्षा प्रियने वियोगे दु खिणो स्त्रीप्रते कोइएक इहा स्त्री कहे छे तस्य वियोग ते कोइएव अतिप्रियतम बालाने वियोगे सेपुसिन्ने  
 दुर्बलक तेसुख जात असो पुत्री दुबलो ताहरो सुख ययु केहनु ते सुखयसावकिखानि अय तिजा प्रध्मात कशीये प्रियजनने विपे अतिचित्तानु करु ते  
 बेकरी जांत कश्चतां अतिजांसना पास्यो छे तथा याचा गयपप्क अलिख तिर्षां भाष्य कश्चतां पांशु तेहनो जे आगत कश्चतां आवु तेणेकरी प्रभु,  
 कश्चतां व्याप्त अन्धि कश्चतां आंदि छे विर्षां ते बाप्यागत प्रभु वाचक कशीये वल्लभ वारयार १७ । ८ शिथे प्रशात रसहेतु लक्षणहारे लहाहरेछे जिहोस  
 गाचा शिखादि दोषरहित जे मन तेहनो जे समाधान कशीये पिययादि फुलखलनिर्दिष्टि रूपपरमसुभाष ते थी सम्भव छे जे रनो ते तथा एषयो ते

सुखदुःखानां विनिर्णयः ॥ १८ ॥

सुखदुःखानां विनिर्णयः ॥ १८ ॥

तानि लिंगानि लक्षणानि यस्य स तथा तत्र योगितं मानसो विकारः येषं निदितमिति । ३ पभायेत्याद्युदाहरणगाथा अत्र प्रियविप्रयोजनश्रमितां वाक्तां प्रतिदृष्ट्वाभाषिदाश्च तस्य कस्यचित्प्रियतमस्य वियोगे पुत्रिके दुर्निकर्कं ते कृत्यं ज्ञातं कथं भूतं पश्याय किञ्चानितयंति प्रध्यातं प्रियजननिपयवमति चिंतितं तेन ज्ञातं वाशययपपुत्रुषाभिव्ययति बाष्पसागतमागमनं तेनोपसृतेत्याप्ते अक्षिणौ यत्र तत्तया वक्ष्यो अमीक्ष्यमिति । ७ अथ हेतुलक्षण्यद्वारेण प्रयांतरसदृश इरति निशेषनाश्च निदीप हिंसाहिंसोपरहितं यन्मनसस्य यस्यमावानं विषयाद्यौलुप्य निदृशितवचणं स्यास्थं तस्मान्भयो यस्य स तथा प्रयात मायेन क्रोधादि परित्यागेन यो भवतीति गम्यते सप्रयातो रसो ज्ञातव्य इति घटना सनिर्विकारतापिह उल्लेखः । ८ सभावित्वाद्युदाहरणगाथा प्रयातइदं कंचिन्त्याषु मबलोस्य कश्चित्त्वमीपस्थितं कंचिदाश्रित्यप्राश्च इति प्रयातभाषातियद्योतकः पश्यभो यथा सुनेर्दुपक्तनलं योभते कथं भूतं स ज्ञापतो न माह

एएनवकवरसा बतौसादोशविचि ससुप्यया गाहाहिंसुणेअब्बा इयंति सुधापमोसावा३० सेतं नवनसे सेकिंतं दसनसे

प्रयांत रसनायव्यो ए संवंध षाणवो केरवो ते अविनाशकखण्डो निर्विकारपणो चिक्र हे दोहनो तेतवा पचंतभाषेय अतिगांतभाषे करी । ८ सभावच्छदाहरणगाथा इहा प्रयांत वदन कोरेएक साधुने देवीने कोरेएक्यापया पाताना कोरेएकने आमनीने करेहे डीगन् इहां अतिप्रयातभाव देखाबवाने अर्थ हे देविहो निम सुनिनो सुल कलक योने हे केरवुं हे ते सुल कमलसद्वाप यो निर्विकार हे परं भायाना जारणयो निर्विकार नयी निर्विकार कहीने विभूषा तथा घृक्षेपादिक विकार रचित तथा उपयात ते रूप देयबादिक कुलरलना परित्याग यी तथा प्रयात ते कोधादिकदोषना परिहार यी एतला भसीज सौम्या कहतां सौम्यकारिणी इदि हे जे सुखने विषे ते तथा एखज हेत यी पीबर श्रीकरकेउपचित उपयमकक्षीबक १८।८

स्थानतो निर्विकार विभूषाभूजेपादि विकाररहितः। अपर्माताकपाखोक्तनाद्योत्पत्त्यागतः प्रमाता कोवादिदोष परिहारतो गतएवसौम्यदृष्टिर्वत् तथा  
अध्यादेवचपीधरयौक उपपत्तितोयमसङ्कोकमिति। ८ सोप्रत नवानामपि रसानां सत्तेपत स्वरूपकथयन्नुपशहरन्नाच एएनवनामगाका एते नवकाव्यरसा  
अनतरोक्तगायामिर्योक्त प्रकारेणैव सुणितव्याजातव्या अय भूता अविद्यसुषुषावज्जय निरत्ययसुबज्यचलदुष्कामित्याद्यैर्नैवव्यमाणा यद्वालि शतसूत्र  
दोपासोपी विविधिरचन तस्मात्सुसुत्पन्ना इदसुक्तं भवत्यलौकिका कश्चो यसावत् सूत्रदोष उक्त खे न कश्चिद्दोषो िपद्यते यथा तेपाकतटन्वटं गंगाना  
मद्विदुभि प्रावर्तं तनदीयोरा उदयखरयवादिनी। इत्येवप्रकार उक्त मलीकता दोष बुट रसधायमद्गत ततोनेनालीकतालक्षणं सूत्रदोषिणाद्बुधुतोरसो

## २ दसविधे पश्यन्ते तजशा गोणे नोगोणे आयाच्यपण पडिवक्त्वपण पहायथाए अथाइयसिधे नामेण अवयवेण

विधे एतन्वे रसनो स्वरूपसंज्ञेय यी कञ्चतो कृतो समाप्ति करेद्धे एनवगाशा एपूर्वोक्त नवकाव्यरस अतरोक्त पाद् करी ययोक्तप्रकारेण सुष्णिभया जायवा  
विधे कित्था छे ते रस अविद्यसुषुषावज्जयमित्यादिक इक्षण जे बोलीखे बनीस सूत्रना दोष तेइमो जे विधिककता विरयना ते यी सपा एतले इम  
कक्षी अलीकता रूपजे प्रथम सूत्रनो दोष कस्यो तेखे करी कोइएक रसनीपजे यथा तेबाकतटन्वटं गंगानां मद्विदुभि प्रावर्तं त नदीयोरा उदयख  
रयवादिनी। एइतु जेसूत्रते अलीकता रूपदोष इटजाणतु ए अद्बुभुतरसजाणवो ते भवो एषलीकतारूप सूत्रदोषे करी अद्बुभुतरसनीपनो तथा  
कोइएकइरस उपपातरूप दोषे करी नीपजे यथा सएव प्रणिपतिन प्रीतेन कुपितेनच विसौ विपचरत्तैद्य प्रीणित्ता येन मार्गणा। इत्यादिकप्रकारनो सूत्र  
परोपयातरूपशेष इटकाइ ए शौररस जाणवो तेमणी एखे उपपातरूपसूत्रदोषे करी शौररस इनां नीपनो इम अनेटे ठामे पणि यथा सएव सूत्रदोष



निष्यञ्च सायाकचिद्द्रस उपघात कण्ठेण सूत्रदोषेष्वा निवर्त्तते यथा सएव प्राणिति प्राणी प्रीते न कुपिति नवचित्तैर्विषञ्चरक्तैश्च प्रीणिता येन मार्गण्या इत्यादि प्रकारं सूत्रं परोपघात लक्षणदोष दुष्टं वीररससायं ततोनेनोपघात कण्ठेण सूत्रादोषेण वीररसोऽल निर्दंन इत्येवमस्यतापि यथासंभवं सूत्र दोष विधानाद्द्रस निष्यत्ति वक्तव्या प्रायोदृष्टिं चाश्रित्यैव सूक्तं तपो इति विषयश्च वीररसश्च प्रयातादिरसानां च कचिद्वृत्तादि सूत्रदोषानंतरेषापि निष्यत्ते रिति पुनः किं विशिष्टा समी भवंतीत्याह ऋवति सूत्रागामीसावाप्ति सर्वपि शुद्धागामिनावा सर्वति कचिन्नाव्ये प्रुष्ट एक एव रसो निष्यद्यते कचि

संयोगेणं पमाणेणं सेकितं गोणे २ खमदैतिखमणो तपदैतितपणो जलइत्तिजखणो प्रवइत्तिपखणो सेतं गोणे सेकिं

धी रसनिष्यत्ति बोलवी दूहां प्राये दृष्टि आम्नी इम कच्छो जे यतीस सूत्रदोष थी रसनीपजे ते भणी तपने विपे तथा दाननेविपे जे वीररस तेकिहंई एक अदृतादिक सूत्रदोष विनापणि नीपजे बलीकिस्या तेरस सूत्रागामीसावा सर्वं शुद्धपणि ऊह अथवा मित्र पणिऊह एतले केरैएव काव्यने विपे प्रुष्ट कहतां एकज रस वांधीये अने कोईएक काव्यने विपे मित्रकहतां विष्वादि रसनो संयोग वांधीये एभावः २० ते दूम एणे वीररुंगारादिक नवनासे करी जे रस बोलवुं वांछीये ते सर्वरसनाकहवाथी एनवनाम इम बोलीये सेतं समाप्तिवचनं एतले नव नास कच्छो षिवे दृशनास कहेके सेकितं सुगमं तिहां गोण नामनो स्वरूप निर्णये हे सेकितं गुणे करी नीपनो जेनामते गोण कठीये यथार्थ इत्यर्थः पमइते भणी अथवा कठीये दूम एनाम जमारूपगुणे करी नीपनीतथा तपे तेभणी तपन कठीये इम एनाम तपना कण्ठगुणे करी नीपनो तथा ज्वलेते भणी ज्वलन कठीये ए नाम ज्वलनगुणे करी नीप नो अनेरो नाम पणि आणवो सेतं गोणे १ षिवे नो गोण नाम कहे हे सेकितं नोगुणनियम जेनाम नही ते नोगोण कठीये अथयार्थ इत्यर्थः एते ए

राव वनपत सिंख वनपतगो वनपत वनपत ७७ ७८ ७९

गुणादिरस्य संयोग इति भाव इति मायार्थं का देवतेति रौरुद्वगारादिभिर्नैवभिर्नामिभिरस्य वक्तुमिदस्य रसस्य सर्वस्याप्यभिधानात्प्रव नामेदसुष्पत्ते चेत्  
 नयनासेत्ति निगमन अथ द्यगनाभाभियानार्थमात्रं चेकित इत्येव इत्यादि गोणादिनाम्नामिभिरस्य स्वरूपनिर्णयार्थमात्रं चेकित गुणे इत्यादि गुणैर्नि  
 व्यञ्ज गोण यथार्थमित्यर्थं सायानेकप्रकारं तत्र समत इति ज्ञानस्य इत्येतत्समालक्षणैर्गुणेन निपयञ्ज तथा तपतीति तपस्य इत्येतत्तपनस्यैव गुणेन  
 निर्दिष्ट एव ज्वलतीति ज्वलन इतीदं ज्वलनगुणेन सम्भूतमित्येव अन्यदपि सावकीत्रं चेकित नोर्गुणे इत्यादि गुणनिपयञ्ज यत्नो भवति तन्मोर्गुण अययार्थं  
 मित्यर्थं अत्र ते सकृ ते इत्यादि अविद्यमानकृ तात्प्रमत्तराविवेश एव सकृ तन्निपथीमोष्यत इत्यययार्थता एवमविद्यमानसुहोपि कर्तुराद्याधारविशेष

तनोर्गुणे २ अत्रु तो सकृ तो असुप्रो असुहो अकुलिषा सकृलिषा असुहो नापल असदति

अकुन्ते सकृन्ते जेहने कुन्तनामाश्रीपार नथी तेअकुन्त सकृन्त एणेइयद्विपत्ती कशीये इम एहने अययार्थं पणो जाणपु एव अविद्यमानसुहोउपडोतेने  
 असुह कशीये कर्तुरादिकनो डावडो तेससुह कशीये तथा सुद्रा बांगुलीनो आभरण तेरहित असुह तयासागरपिष असुह कशीये तथा अकाल पबालं  
 इहा प्रकर्षे लाजाहे जिहां तेमकाल कशीये तेहने मालत भापाइ पबाल कशीये जिहां लाजानकीते लण्यविषरूपने पबालाकीकमकशीये इहां मालतयोकी  
 अप्रीकरो तेअययार्थपणु जाणपु अने सकृत्तने विये लबविशेय रूपने पबाल व्यति विनापणिय बोलीने तेमपणी तिहां ययार्थचितता सकृये नकी तथा अउ  
 लिषा असलिषा कुलिका रचित जे वत्ते मालतनेविने तेअवलि आबोकीये अनेकुलिका सडित जे पक्षिणी तेपणिय सकलिषा कशीये इहां पणिय प्रासत  
 यौकी अगीकरीने अययार्थं पणो अइ अने सकृत्तने विये तो पक्षणी सकृत्तिकाज बोलीये तेमपणी तिहां ए चितता समने नकी इम अन्यथापणिय अविरोध

सर्वथापणिय अविरोध इति वचनात्

लसुतः अंगुल्याभरण विशेषसुद्वारितोऽपसुद्र तथासुद्रो जखराशिं अशालपलावांति इष्टप्रकटा साक्षा यत्प्रित्वाशालं वस्तुप्राद्यतेपलाकसुष्यते. यत्तटापला  
 लाभाबस त्कथं तद्यन्विशेषरूपंपलसुष्यत इति प्राकृतयौबीसनीकृत्याना यथार्थता संस्था संस्कृतैर्तृहणविशेष रूपं पलालं निर्व्वत्यतिकमेवोच्यते इति  
 न यथार्थं यथार्थं चिंतासंभवति अउलियासउलिवन्ति अत्रापि कुलिकाभिः सुवर्णमानेव प्राकृतैः अउलिवन्ति भस्मते वातकुलिका रश्मिबर्णपक्षिणी सा  
 कं सउलियन्ति इत्येवमिहापि प्राकृत यौलो सेवांगी कृत्या यथार्थता संस्कृतते त यकुनिकैव आभिधीयत इति कुतस्तच्चिन्तासंभव इत्येवमन्यथाप्यविरो  
 धतः सुविधा साधना कार्या पलंसांसमनत्रापि पलाश इत्यादि त सुगमं नवरं मातृवाक्कादयो क्लृप्तेः त्रिव्र जीवविशेषाः सेतं नो गुर्येति निगमनं

पलासोअ माद्रवाहए अनीअवावए नीअवावए नोइंदगोवे सेतं नोगोणे सेकिंतं आयाण पदेयं २ घसो

यो पंडिते भावना करवी तथा पलककवां सांसने नहिं आस्त्रादे तेनोपलं असद्र तथा पलाश कशीये इष विशेष तथा मातृवाक्कादिक विकलेन्द्रिय जीव  
 विशेष जाणवा सेतं नोगोणे र शिवे आदान पदनामं कहेछे सेकिंतं आदीयते कवतां प्रथमपणे करी जवरुं प्रारंभीयेऽशास्त्रादिक एये करी तेमणी आ  
 दान कशीये तेचज जेपद ते आदान वद शास्त्र अध्ययन उहे शास्त्रिनो आदिपदे इत्यर्थः तेणे हेतुभूति करी कांइ एक नामं ऊइ तिहा श्री आचारगने  
 विषे प्रथमसुतस्कांधने विषे पाचसा अध्ययननेऽविषे उहे शकने घुरे आवती एषु शब्द आदिछे तेभणी आदान पदेऽए नाम जाणवु तथा श्रीउत्तराध्ययनने  
 विषे तीजा अध्ययनने, विषे घुरि चत्तारि परसंगाणि एपाठे तेभणी आदान पदे करी अठरंणीय एषुं नाम तीजा अध्ययननोछे तवातिहांज चछया अथ  
 यनने विषे आदि असंखयं एहवो शब्दछे तेभणी आदानपदेऽवोषा अध्ययनसुं नाम श्रीउत्तराध्ययननाऽजाणवा सेतं निगमनं एतया

सेकित आवाणपणमित्यादि आदीवते तत्रप्रथमतया उच्चारित्युत्तमारभ्यते आकाशुनेत्यादाया तच्चतत्पद आकाशाध्ययनोद्देश्यादिषु पदमित्यर्थं केन हेतुभूतेन किमपि नामभवति तच्च आवतीत्यादि तत्र आवतीत्याचारस्त पञ्चमाध्ययन तत्र आदावेवावतीत्यालापकोविद्यत इत्यादान पदेनैतन्नाम आउरगिज्जति एतदुत्तराध्ययनेषु तृतीयमध्ययन तत्र चत्वारि परमगाणि दुष्कृताणीकृतुणो इत्यादि विद्यते अत्र चयति इदमप्युत्तराध्ययनेषु चतुर्थमप्युत्तराध्ययनेषु तत्र च आदायेषु असाध्य्य जीवियमापमायए इत्ये तत्पदमस्ति ततश्चेनेद नाम एवमन्याम्बपि कानि चिदुत्तराध्ययनान्तर्पत्तीन्याध्ययनानि कानि पित्तुदृक्कैकालिक सुयगडाध्ययनानि स्थधिया भावनीयानि सेकित पडिबक्खपणमित्यादि विवचितवस्तुधर्मस्य विपरीतो धर्मो विपचसाहायक पट विवचपट तत्रियसु किञ्चियाम भवति यथा इदगाळी अत्रियायसांगलिक यद्दपरिचारायं श्रिया भय्यते कि संवदा भेत्याह नवेनु इत्यादि तत

मगल चूलिआ चाउरगिज्ज असखयं आवती अहातत्यिज्ज अहइज्ज जयइज्ज पुरपइज्ज एलइज्ज एलइज्ज वीरय धम्मो मग्गो समोसरण गत्थो जमहिय सेत आयाण पणण सेकित पडिबक्खपणण नवेसु गामागर यगर खेडकब्बडमडव

श्रीसुवस्ततागादिकान् एनेराद् केतसा एक अष्ययन जाणवा सेत निगमन एतले आदान पदनाम कस्यो ऽ हिचे विपचपदनाम कएछे सेकित तिहा विवचिनित वस्तु धर्मं जे विपरीत धर्म तेविपच कधीये तेइनो बोखणशरोजेपद तेविपचपद कधीये तेणे करी नीपतो आद् एकनाम यथा इदगाळी अग्रि पापि अमागन्तिक गन्द परिचरिवा भणी श्रिया बोलीये हिचे तेकिड संवदा कधीये केकदाविसे कएछे तिहांयसे बुद्धादिकने ते धाम तथा खोछादिक ने उतपत्ति स्थान ते आजर तथा कर रचितेनगर तथा पडिबमय कोटसुचित ते खेट तथा कुनगरते कर्बट तथा जे यी सर्वपासे पनेरो पासदूरि तेतत्प

मसते बुद्धादीन् गुणानिति ग्रामः प्रतीतः आर्करोलोहाद्युत्पत्तिस्थानं नगरं कररहितं खेटं धूलीमयप्राकारोपेतं कर्बटं कुनगरं मण्डवं सर्वतो दूरवर्ति सन्निवेशात् रं द्रोणसुखं जलपथ स्थलपथोपेतं पत्तनं नानादेशागतपथस्थानं तच्च द्विधा जलपत्तनं स्थलपत्तनं रजभूमिरित्युच्ये आश्रमशापसादिस्थानं संवाधोति नक्षत्रप्रकारलोकसंकीर्णस्थानविशेषः सन्निवेशोघोषादिरथवा ग्रामादीनां द्वंद्वे तेषु तेषु सन्निवेशात् तेषु ग्रामादिषु नतनेषु निवेश्य मानेष्वशिवानि सा संवाधार्थं शिवेत्युच्यते अन्यदालनियम अथवा कोपिकहाचिकेनापि कारणभयानाग्निः शीतो विषं मधुरमित्याद्याद्यष्टे तथा कल्पमान गृहेषु किलान्जगन्सुस्वारिते सुरादिगण्यति अनिष्टपरिहारार्थमक्षं स्वादृश्यते तदेवमेतानि शिवादीनि विशेषविषयाणि दर्शितानि सांप्रतं लविषयेपतोया निसंबन्दा प्रवर्तते तान्याह जोषल्लत्तये इत्यादि योरत्तोबाणारसेन प्राकृतशैलाकनप्रत्ययः स एव श्रुतेर्लक्ष्युत्या अक्षत्तक उच्यते तथा यदेवलात्यादत्तेधरति

**द्रोणसुहृ पटुणा सम संवाह संनिवेशेषु संनिविस्समाणेषु असिवा सिवा अग्नौसौ प्रलो विसंमडार कल्लाल घरेसु अंबिलं**

तथा जलपथ स्थलपथयुक्तं ते द्रोणसुखं तथा नानादेशनाकिराणां ठानं ते पत्तनं ते विच्छं भेदे जलपत्तनं अने जलपत्तनरत्न भूमिरित्यर्थः तथातापसादि कनो ठामं ते आश्रमं तथा यज्ञप्रकारं लोके करी संकीर्णं स्थानं ते संवाधं तथा घोषादिकते संनिवेशे अथवा ग्रामादिकसुं इन्द्रसमास करीने पक्षे ते सज्ज संनिवेशे इमं जोडीये ते ग्रामादिकं निगारे नवेस संनिवेशमाणेषु नवा वसता छद्मं तिवारे अशिवाने मागलिक भणी शिवा बोलीये अने अनेरी वेलाये एकात नही तथाकोई एव कदाचित् कस्ये एके कारणे अग्निशीतल विषकुं मधुर इत्यादिक बोले तथा कलालना घरने विषे आंबिलुं ए शब्द उच्चरतां चुरा विषसे तेभणी अनिष्टशब्द परिहारवा भणी आंबिलुं ते स्वादु इमं बोलीये एवं एशिवादिक विशेष विषे नाम देपात्ता शिवे विशेष विनाज नाम सदा प्रवर्तते कहेछे जेरत्तए से अजत्तए जे रातोबालने रसे करी ते प्राकृत शैलीइं कन्प्रत्यय आणतां ते सज्जअने सरशब्द उच्चरवे करी

प्रतिपत्तौ जलादिबस्तु इति निरुक्तं शाबु तदैव अलाबुठ एकमभिधीयते य एषु भक्त शु भवर्थकारी सएय कुसु भक्त आखवतेति आलपत्रत्यर्थव्यपञ्च  
 सम अस्मिति गम्यते सक्तिमित्याह विषकीयभासएति भापकादिपरीतो विपरीतभापक इति राजदत्तादि वक्ष्यमासोऽभापक इत्यर्थं सायादि सुवच्छ  
 सुवह प्रलपत कचिदृदा लोकेवक्तारो भक्त्य भापक एवाय द्रव्यो सोऽप्यनत्वादिति प्रतिपन्ननामता यथायोग सर्वत भावनीया ननुच नोगोष्णादिदन  
 भिद्यते इति चेत्तदेव तस्य कु तादि प्रष्टति भावमात्रेणैषोत्तवादस्यठ प्रतिपन्नधर्मं याचकत्व सापेक्षत्वादिति विशेष ४ सेकितं पाठयथाए

साउच जेरत्तए सेअलत्तए छेलात्तए जेसु भए सेकुसु भए आलवते विवलो अभासए सेत्त पडिवक्खएण  
 सेकित पाहणपएण२ असौगवणे सत्तिवणवणे चपगवणे च्चुअवणे नागवणे पुनागवणे सत्तवणे दक्खवणे सालवणे

अलत्त कशये तयाजे खाति कशतां प्रजेप्योजकादिक वस्तुग्रहे एतले धरए एवथी निरुक्ति ह तीखावु तेहज अलाबुठ वडो वोलिये तथा जेसुभसुरभिगध  
 तेरुअ कुसुभ कुसुवेकाफक्कहीये तथा आलपनो अत्य त बोबतो एतते असमजसबोलतो किमन्नहीये विपरीअभासए भापकयी विपरीत तेविपरीतभापक  
 अभापक इत्यर्थं द्रुशं राजदत्तादिकनी परद्रुसमास जिम अत्यत असवह्म बोलतानिलोक इम कहे एअभापक जजाण्यु असार वचनापणायीए भाय द्रुशे  
 प्रतिपन्न नामपणो यथायोग सर्वतभावषु द्रुशं कीई एक इमकहे नोगोष्ण नामयी एज्जुओनधी द्रुशा उत्तर एइमनही जेमणीते नाम कु तादिप्रष्टति मिमि  
 त्तनेअभावमाने करी वोल्युं अनेए प्रतिपन्न धर्मना बोलवा एअनोसापेक्षीं एतलोविशेष सेत समाप्ति एतले विपन्नपदनामकक्षो४ द्विवेप्रधानतानामकरे  
 त्रैसेकित प्रधाननो जेभाव ते प्रधानता तेथीये कांई एक नाम ऊइ दया छेद दया छेद ७ शोवहण ऊइ अने षोडा आरादिक वच्च ऊइ तेरुने अशोक

इत्यादि प्रधानस्य भावः प्रधानता तथा किमपि नाम भवति तथा बहुष्वयोकहेतुसोकेष्वाम्नादिपादेष्वयोकप्रधान ननमगोक्त ननमिति नाम सप्तपर्यायीः सप्त बहुधाशत्वप्रधानं ननं सप्तपर्यवहनमित्यादि सुगमं नवरसलाप्याश्च ननु गुणनियन्त्रादिदं न भिद्यते नैयं तत्रचमादिगुणानि क्षमणादि गच्छवाच्यस्यार्थस्य सामस्येन आसत्त्वाद्दत्तयोकादिभिरयोक्त वचनादि शब्द वाच्यानां वचनानां सामस्येन व्याप्तेरभावादिति भेदः५ सेकितं अणाइसिद्धं तेषामित्यादि वचनं अतो वाच्यवाचकरूपतया परिच्छेदोनादिसिद्ध्या सावंतयानादिसिद्धातसेन अनादिकाशादारभ्येदं वाचक मित्तु वाच्यमित्येयं सिद्धः प्रतिष्ठितोयोसावतः परिच्छेदसेन किमपि नाम भवतीत्यर्थः तच्चप्राग्याख्यातायं धर्मास्त्रिकायादि एतेषां च आत्मानमभिधेयं धर्मास्त्रिकायादि वस्तुनकदाचिद्व्यथालं प्रतिपद्यते गोणनामस्तु प्रदीपादेरभिधेयं दीपकस्त्रिकादि परित्यजत्यपिस्वरूपमित्येतागौचनान्तः पृथगेतद्वक्तव्यमिति अस्मितं नानेणमित्यादि नाम सेतं पहाणयाए सेकितं अणादि सिद्धं तेषां धर्ममित्याकाए अघस्यमित्याकाए आगास्यमित्याकाए औवत्यित्याकाए पुग्गलत्यित्याकाए

प्रधान वचनं ते भगी अयोक वन एरुवो नाम छद् तथा सप्तपर्यं वृत्त प्रधान जेतन जे सप्तपर्यं वन इमयेष पिंगनाम जागना इशा ग्रिध कहेछे भगवन् गुण नियन्त्र नामनो अने प्रधाननामनो विशेष हीसतो नथी जेभथी एनाम पण गुणे ज करीनीपनो गुरू योल्या एइम नथी जे भणी तिहा अमादिकगुणे करी नीपनो जे क्षमणादिना नाम तेषो नामे करी जे अर्थ बोलिये तेअर्थने विये क्षमा गुण सर्वयाप्यो छे अने इहां अगोभवनादिके जे अर्थ नीलीये ते अर्थने विये अयोक वृत्त याप्यो नथी एतलो विशेष तेभगी गोण नाम थी एप्रधानता नियन्त्र नाम जूयो जाणवो सेतं निगमनं एतलेप्रधानता नाम कस्यो ५ धिये अनादि सिद्धान्त नाम कहेछे सेकितं तिहां अंतनु वाच्यवाचक रूप पणो करी नियंत्रनो करवुं ते अंत कशीये अनादिगो सिद्धनियन्त्र जे अंत ते अनादि सिद्धान्त तेषो करी जेनाम छद् ते अनादि सिद्धान्त नियन्त्र नाम एतले अनादिकाल आरंभीये एवस्तु नाम अने एनामनु वस्तु एणी परे सिद्ध

पितृपिता महादेवोपकमभिषाग तेन हेतुभूतेन पुत्रपौत्रादिनाम भवति कि पुनश्चादित्याः पितृपियामहस्य नामिण उन्नामिय एति पिता ष पितामहश्च तयो समाहारस्य अथवा पितृ पितामह पितृपितामहस्य षाषकैर्नयधुदत्तादिनाम्नाय पुत्रादिश्चामितच्छिप्त प्रसिद्धि गत इतियावत् स एयनागत इतोरभेदोपचारात्त्वाद्वा हेतुभूतेन नामोप्यते इत्यर्थः पित्वादेर्यह धुदत्तादिनामासीत्तत्पुत्रादिरपितृदेव विधीयमानानाम्ना नामोच्यत इतितात्पर्येऽसेत नामिणे

अद्वा समए सेत अणाद्रय सिद्ध सेकितं नामिण २ पितृ पित्रामहस्य नामिण उन्नामिज्जइ सेतणामिण सेकित अवययेण २ सिगौ सिद्धा विसाणी दाढोपक्खाखुरी नहो बालौदुपय चउपय वड्डपया नगूलो केसरो कउहो १ परिअरवंधणभडजा

कृता युक्ति प्रतिष्ठित जे ष तच्छ्रुता निर्णय तेणे करी जे काई नाम छइ तेगाम इत्यर्थं तेपूर्वव्याख्यात रूप जे धर्मोशिक्षायादिक नाम ते अनादिसिद्धा तन्निष्पन्न लक्षणवा जे भणी एगामनो जे धर्माशिक्षायादिक बोधणीक वस्तु ते कदाचि पणि अन्यथापणो न पामे अने अने गोणनामनो दीर्घादिकसु बोधणीक वस्तु जे दीर्घेण आदिक ते आपणो स्वरूप छाडे पणि एतखा नियेप भणी गौण नाम धी एनाम जूचो कस्यो एमाव सेत निगमन एतरे अनादिसिद्धांत गाम कस्यो ६ चिपे नाम निष्पन्न नाम कहे जे सेकित० वापदादादिकनो बोधणहारो नाम तेणे ज हेतुभूत नामे करी जे पुत्रपौत्रादिकसु नाम छइ किस्सो ते पितृपियामहस्य पिता अने पितामह दादो अथवा पितानो जे पिता महदादौ जेवनो जेयधुदत्तादिकनाम छइ तेणे नामे करी जे पुत्रपौत्रादिकनो उन्नाम कइता प्रसिद्ध ययु छइ इशा नाम अने नामवतनो अभेदोपचार करतां कृतां इम अर्थं जाण्यु नामे हेतु भूतेकरी नाम बोलीमे इत्यर्थं एतले पितादिकसु जे वधुदत्तादिक नाम कृतो तेइज पुत्रादिकसु नाम करीये तेनाम निष्पन्नम जाण्यु सेत निगमन एतले

अनुटी २४८ सुत भाषा



सेकितं अथयवेयमित्यादि अथयवो अथविन एकदेशसो न नाम यथासिंगी सिंहीत्यादि गाथा अंगमस्यासीति षट्गीत्यादीन्यथयव प्रधानानि सर्वाण्यपिसुग मानि नमरं द्विपदं स्थादि अठ्यपदं गवादि वल्लपदं कर्णमृगाल्यादि यलापिपादलक्षणावयव प्रधानता भावनीया कश्चिदिति कजुदं स्तंघासञ्जीकृतदेशा वयव लक्षणमस्यासीति कजुदीष्टपथ इति परियरगाशा परिकरबंधेन विशिष्टनेपथरचनालक्षणेन भट्टमूरपुरंपंजानीयालक्षणेनान्या निवसनेनविशिष्टरचनारचित परित परिवानं लक्षणेन महिलासी ज्ञानीया इति सर्वत संबध्यते धान्या द्रोणस्य पाकः खिन्नतारूपसंघं च तन्नाद्यान्, सीत्वा निरीक्षितेनैकेन सिद्धेन ज्ञानीयादेकया च गायया लालित्यादि काव्य रसो पेतया अतया कविं ज्ञानीयादेयमत्वाभिप्रायो यदासनेपथ्यपुरुषाद्यावयव रूपपरि कारंध्यादिदर्शनद्वारेण भट्ट मञ्जिना पाक कविगद्दप्रयोगं करोति तदा शटादीन्वपि नामान्यवयवप्रधानं तथा प्रवृत्तत्वाद्भवयवनामान्युपंत इति इह

**शिल्पा महिलिन्नं निवसेरणं चित्येण दोद्रोगवायं कविंचद्रक्काएगाहाए २ सेतं अथववेगं २ सेकितं संजोएणं संजोणिच**

नासे करीनाम कस्यो ७ ऋये अथयव निपन्न नाम अहे छे सेकितं अथयव करतां अथयवीनो एकदेशे तेणे करी जेनाम इह ते अथयवणिपन्ननाम सिंगीगाशा षट्गजेचने छे ते षट्गी कक्षीये श्रेप अथयव प्रधान नाम सर्वसुगम नमरं द्विपद ते स्थादिक चोपद ते गवादिक वल्लपद ते कर्णजंजूरादिक इहां पगरूप अथयव प्रधान नाम ज्ञाणवा तथा कश्चीति कजुदकहतां स्तंघे दुकडो यरीरनोअवयव उंचोछे तेहने ते कजुदी कक्षीये द्वपथ इति गाथायं परियरगाशा परिकरबंधं कहता । विशिष्ट यस्त्र रचनारूपतेणे करी भट्टमूर पुरय जाणवो तथा निवसन कहतां विशिष्ट रचना रचितपरिष्काररूप तेणे करी स्त्रीजांणवी एपद सगले जोइये तथा दोष पायं द्रोण प्रमाण धान्यतुपाक कहता सीभतां सुपरसोईदार ते माण्ठी एकासीवलेइ निपन्न छंते जाणीये तथा एककलितांदिक गाथा काव्य धर्मोपेत सांभकी ऊंतीइंक विजाणीये इहां ए अभिप्राय जिबारेनेमथ्य पुरुषादिक अथयवरूपपरिस्तर वंध्या

रिख धनपत (सिख धनपत) ज्ञानम सुयव मीन ४४३

तदुपयास इति इदंशब्दवचनप्रधानतया प्रवृत्तत्वात्त्वामान्य रूपतया प्रवृत्तत्वात्त्वोभिव्यक्त इति सेवित सजोएणमित्यादि सयोग सर्वं स च  
 तर्बिष प्रथम सद्यथा द्रव्यसयोग इत्यादि सर्वं सूत्रसिद्धमेव नपर सचित्तद्रव्य सयोगेन गानोस्य सतीति गोमानित्यादि अचित्त द्रव्यसयोगेन  
 जलमस्यासीति छतीत्यादि मित्रद्रव्यसयोगेन हलेन व्यषरतीति इत्थान् इत्यादि अत्र जलादीनामचेतनत्वात् वलीवर्षाणां सचेतनत्वान्निश्च द्रव्यता  
 भावनीया जेतवसयोगाधिकारे भरतेयातो भरतेवास्य निवास इति तत्र ज्ञात सोस्य निवास इति याणप्रत्यये भारत एव जेपेख्वपि भावना

उज्विह पश्यते तजहा द्रव्यसजोगे खेतसजोगे कालसजोगे सेवित द्रव्यसजोगेर् तिविहे पणत्ते तजहा सचि  
 ते अचित्ते मौसए सेवित सचित्तेर् गोहि गोमिए महिसीहि मसिसए ऊरणोए उट्टोहिं उट्टोबाले सेत सचि  
 ते सेवित अचित्तेर् छत्तेणछत्तो दृडेणटडो पडेणपडो सेत अचित्ते सेवित मौसएर् हलेण हललिए सगडेण  
 सागडए रहेण रहिए नामाए नाविए सेतद्रव्य सयोगे सेवित खित्तसयोगेर् भारहे एरवए हेमवए ऐरखवए हरिवासए

दिकने देणवामे द्वारे करीने भटमसिद्धा पाक कवि आदि शब्द घोषीर् तिवारे भटादिक नाम पणिय यवयव प्रधान पणे प्रवक्त्या मन्वी अयवव नाम वो  
 बीये तेभणी इहां ते भटादिकतु ग्रहण कखु तथा एनाम अयवव प्रधान पणे प्रवक्त्या पणा माटे सामान्यपणे प्रवक्त्यो गौणनाम ते की अनेरो छइ इति  
 गार्थार्थ सेत सनासि एतले अयवये करी नाम कसोा ढ द्विवे सयोगे करी नाम कहे छे सेवित सयोग कइता सबध ते चतुर्बिध सचित्त द्रव्यसयोग ते  
 गाइ जेइने छे ते गौमान कहीये तथा अचित्त द्रव्यसयोगे करी छत्र जेइने छे ते छत्रो कहीये तथा मित्र द्रव्यसयोगे करी वने करी व्यषकारे तेहाली

कार्या कालसंयोगाधिकारे सुखमसुखमायां जात इति सप्तमी पंचम्यं ते जनेऽ इति उपत्ययेसुखमसुखमजः एवं सुखमजादिष्वपि भावनीयं भाव संयोगाधिकारे भावः पर्यायः सचद्विधा प्रयसोच्चानादि रप्रयसश्च क्रोधादिः येषं सुगमं इदमपि संयोग प्रधानतत्वाज्ञोपाज्ञिद्यत इति ६ सेकिंतं प्रमाणेणमित्यादि अलोत्तरं प्रमाणे चउच्यिहे इत्यादि प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तुनिधीयतेऽनेनेति प्रमाणं नाम स्थापना द्रव्यभाव स्वरूपं षटुर्विधं अथ किंतन्नामप्रमाणं नामैवस्तुपरिच्छेदहेतुलाप्रमाणं नामप्रमाणं तेनहेतु भतेन किं नाम भवतीति प्रत्याभिप्रायः एवमन्वत्तापि भावनीयं

रक्षगवासए देवकुरुए उसरकुरुए पुव्वविदेहए अवरविदेहए अहवा सागहे मालवए सोरठए मरहठए कुंकारणए कोसलए सेतं खेतसंयोगे सेकिंतं कालसंयोगे सुसमदुसमाए सुसमाए सुसमदुसमाए दुसमसुसमाए दुपमाए दुपमदु समाए अहवापावसए वासारसए सरदए हेमंतए वसंतए गिमहए सेतं कालसंयोगे सेकिंतं भावसंयोगेर् दुविहे पयत्ते

कहीये इहा इजादिकने अचेतन पणाऊंती अने नलधादिकनेसचेतनपणा ऊंती मिअ द्रव्य पणु जांणनु इहां तिच्छंठामने विधे शेषनामनी पयिभावना करवी अय क्षेत्रसंयोगने विधे सरतने विधे जनुस्यो अथवा तेरुनो निवासच्छे तेमयी अणप्रत्यय आंणतां तेरुनो नाम भारत कशीये एवं शेष नामने विधे भावना करवी अय कालसंयोगना अधिकारने विधे पडला आराने विधे जायो ते सुखमसुखसाज कशीये इहां सप्तमीपस्यंते जनेऽः एणे सूत्रे ७ प्रत्यय आण्ये ए नाम नीपजे एवं सुखमादिकने विधे अथवा भावसंयोगना अधिकारने विधे भाव कश्चता पर्याय तेरुना विभेद एक प्रसस्तभलो ज्ञानाकिक जाणवो अने बीजो अप्रयस भुंडुं क्रोधादिक जांणवो एपणि संयोग प्रधानपणि प्रवर्त्या माटे गोणनाम थी भेदाए सेतं निगमनतयं एतलेसवो

इति अनुपत्तिश्च वशिष्ठोक्तं श्रीयोगशास्त्रे अथ ३५३

अनोत्तरमुच्यते यस्य जीवस्य वा अजीवस्य वा जीवानां वा अजीवानां वा तदुभयस्य वा तदुभयानां वा यत्प्रमाणमिति नाम क्रियते तन्नामप्रमाणं न तत्स्थापना  
 द्रव्य भाव इतद्गमयितुं नाम सात्वतिरूपनमेष तत्र चेतुरिति तात्पर्यं अथ किं तत् स्थापना प्रमाणं सप्तविधमित्यादि नक्तुमगाशा  
 इत्सत इदं नक्षत्रदेशता कुलपापडगणादीनि वस्तुव्याप्तित्वयज्ञस्य क्रियते, सैव स्थापना गृह्यते न पुनर्यस्मत्तदर्थविसुक्तं तदभिप्रायेण  
 यत्र गृह्यते तेषां दिना पूर्वं परिभाषित स्वरूपसैव प्रमाणं तेन हेतुभूतेन नाम सप्तविध भवति तत्र नक्षत्राव्याप्तित्वं यन्नाम स्थाप्यते तदर्थं यति क्षत्तिका

त० पसत्ये च अपसत्ये च सेकितं पसत्ये च नाणेण नाणो दसणेण दसणो चरित्तो सेत पसत्ये सेकितं अपसत्ये च  
 कोहेण कोहो माणेण माणो सायाए सायो लोभेण लोभी सेत अपसत्ये सेत भावसयोगे सेतं सजोगेण सेकितं पसत्ये  
 गार् चउत्थिरे पणत्ते तजहा नामप्यमाणे ठवणप्यमाणे दव्वप्यमाणे सावप्यमाणे सेकितं नामप्यमाणे सेत यामप्यमाणे सेकितं  
 वा अजोवस्रवा जोवाणना अजोवाणवा पमाणोत्ति नाम कज्जद्द सेत यामप्यमाणे सेकितं

गनिप्यनाम कत्तो ८ द्विरे प्रमाणे करीनाम करे छे सेकितं प्रमवीये वस्तुनिर्णय करीये एणे करी ते भणी प्रमाण कधीये ते पटुपिंध तिष्ठां नामज  
 धेवस्तुना निर्णय हेतु थी प्रमाण ते नाम प्रमाण तेणे गामे हेतु भूते कित्तु नाम ऊद्द ए प्रयाभिप्राय इम अनेरे ठामे पणि जाणुपु उत्तर एक जीवगो  
 एक अजीवनी यथाजीवगोपणा अजीवनी एक तदुभवगो पणा तदुभवगो एवमोनाम करीये तेनाम प्रमाण कधीये पर तेस्थापना द्रव्यभाव हेतु  
 निप्यनधी तेवलनागमात्तगु करव ७ तिष्ठा हेतु जाणु इतितात्पर्यं सेत एमाप्ति सेकितदृशा गणतदेवता कुलपापडाटिक जेवस्तु तेवाची अेकोर्दएकगु

सुजातः कार्तिकः कृत्तिकाभिर्देतः कृत्तिकादत्त एवं कृत्तिका धर्मः कृत्तिकाशर्मः कृत्तिकारक्षः कृत्तिकासेनः कृत्तिकारक्षितः एवमन्यान्वपि रोहिण्यादि सप्तविंशति नक्षत्राण्याश्रित्यनामस्थापना द्रष्टव्या तत्र सर्वनक्षत्र संग्रहार्थकृत्तियारोहिणीत्यादि गायत्रयसुगमं नक्षत्रभीषिनक्षत्रेण सप्त पत्रा मानेषु नक्षत्रेषु कृत्तिकादिरेवकम इत्यश्रित्यादि कमसुरसृज्येत्यसेव पठितयानिति एषा चाटोविंशतिं नक्षत्राणामधिष्ठातारः कसेगाग्यादयोद्याविंशतिरेव

ठवणप्यमाणेर् सत्तविह्ये पणत्ते तंजहा गक्वत्त देवय कुले पासंडगणेअजोविष्ठाहिउ आभिप्याइअनासे ठवणानामंतु सत्तविहं१ सेकितं नक्वत्तनासेर्कृत्तिसिअहिं जाए कृत्तिए कृत्तिसिअदिणे कृत्तिसिअधम्मो कृत्तिसिअसम्मो कृत्तिसिअदेवे कृत्तिसिअदासे कृत्तिसिअसिणे कृत्तिसिअरक्खिए रोहिणोहिंजाए रोहिणिए रोहिणिदिन्ने रोहिणिधम्मो रोहिणिशम्मो रोहिणिदेवे रोहिणिदासे रोहिणिसेणे रोहिणिरक्खेय एवंसव्वनक्वत्तंसु नामा भाणि अब्बा एत्थं संगहणिगाहाओ

नाम स्थापिते ते स्थापना गृहीये परं वत्तु तदर्थं विगृह्यं तदभिप्रायेण यच्च तत्करणीत्यादिके करी जे स्थापनानो स्वरूपपूर्वै कृत्यो कृतो ते स्थापनात् लेवी तेचज जे प्रमाण तेणो हेतुभूते जे नाम तेस्थापना प्रमाण नाम कहीये ते 'नाम सप्तविध प्रकृत्यो तद्यथा नपउत्त गाथा सुगमं नक्षत्र आश्री जेनाम स्थापिते ते देव्याडे छे कृत्तिका विपे जायो ते कार्तिक कृत्तिये कृत्तिकाये दीधु' ते कृत्तिकाधर्म कृत्तिकायम कृत्तिकादेव कृत्तिका दास कृत्तिका सेन कृत्तिका रक्षित एवं अनेरा पणि रोहिण्यादिक सत्तावीस नक्षत्र आश्री तेनामस्थापना जाणवी समीपि नक्षत्र भणित्तां कृता कृत्तिकादिकज अशुभम जाणयो ते भणी अपिन्यादि अतुकम खांडीने कृत्तिकादिक भक्सा इजो संग्रहणी माया कहे ते तदुक्तं एकस्मिन्

देवताविशेषाभ्यस्ततः कृत्वादि नक्षत्रजातस्य कश्चिद्विष्णुशतशतदधितदेवता एवाश्विन्य नामस्यापनाविषयत एनाश्वये तद्दर्शनार्थमात्रं सेकितं देवता  
 नामे इत्यादि अग्निदेवतासुजात अग्निक एवमग्नि इत्तादीन्वपि नक्षत्रदेवतानां सप्रकारं अग्नीत्यादि गाथाहय तत्र कृत्वा नक्षत्रस्याधिष्ठाता अग्नि  
 रोहित्या प्रजापति एव यगगिरि प्रभृतीनां क्रमेण सोमो रुद्र इदिति इदस्यति सप्यं पितृ भग अयमा सविता त्वष्टा वासु इन्द्राग्नि मित्र इन्द्र  
 निर्यति अग्नं विप्रं ब्रह्मा विष्णुं, वसु वरुण अज विवर्धि अथ स्यानेऽन्यत्र अश्विर्बुध्न पठ्यते पूषा अथ यमश्चेति सेत देवतानामे सेकितकृतकृत

क्विप्तित्र रोहिणि मिगसिर अदा पुणवसू अ पुस्त्रे अ तप्तो अ अस्त्रिलेसा महाउ दोमगुणीउ अ हृत्वीचिता साती  
 विसाहा तहय होद अगुराहा जेद्रा मूला पुव्वासाढा तहउसराचेव २ अभिर्दे सवणं घण्टिद्वा सतभिसया दोषधेति  
 भद्रयथा रेवई अस्त्रिणि भरणी एसानखुत्त परिवाडी ३ सेत नखसनामे सेकित देवतानामे २ अग्निदेवताहिजाए अग्निए  
 अग्निदिणे अग्निसम्मे अग्निधम्मे अग्निदेवे अग्निदासे अग्निसेणे अग्निरक्खिए एव सव्वनखुत्तदेवता नामा भाणि

गाथाव सुगम नवर एसात नक्षत्रनी परिपाटी अनुक्रम जाणवु सेत समाप्ति तथा अद्वावीस नक्षत्रना अधिष्ठाता अग्न्यादिक अष्टा  
 बीस देवताविशेष ते तेभणी कृत्वादि नक्षत्रे अग्निने कोर्दे एक आपणी इच्छाना यय थी तेऽनु अधिष्ठायक जे देवता ते आश्रीजनामनी स्थापना  
 करे ते देवाडे ते सेकित अग्निदेवताने विषे अय्यु ते आग्निक एव अग्निदत्तादिक जाणया नक्षत्र देवताना नाम सप्रकाराभषी इत्थापणि सप्रकारणीगाथा  
 कृत्वे ते अग्निपथावद् गाथाहय तिष्ठा कृत्वाकानो अधिष्ठाता अग्नि । रोहिणीत प्रजापति २ एव यगगिरि आदिकना यथाक्रमे लेवा सोम ३ रुद्र

सुखीवोवोरखेव वपुसम वितीव रेयनाम सुदे

१५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २००

नामे इत्यादि या यस्मिन्नुग्राहिकुले जातस्तस्य तदेवोग्रादि कुलनामस्थाप्यमानं कुलस्थापनानामोच्यत इति भावार्थः सेकितं पासंडं नामे इत्यादि इह येन यत्पापण्डमाश्रितं तस्य तन्नाम स्थाप्यमानं पापण्ड स्थापना नामाभिधीयते तत्र नियन्त्यसक्ततावसेस्य षाजीवपंचहा समणा इति वचनानिर्गथादि पञ्च पापडान्याश्रित अमण उच्यते एवं नैयायकादिपापण्डमाश्रिताः पांडुरांगादयो भावनीया नवरंभिन्नुव्यु हृदयनाश्रितः सेकितं गणनामि इत्यादि इहममज्ञा दयो गणासत यस्मिन्नामे वर्तते तस्य तन्नाम गणास्थापनानामोच्यते इति मङ्गे मल्लदिशे इत्यादि सेकितं जीधिया हेतुमित्यादि इह यस्या जातमातमपत्य

अथ्वा एत्थंपि संगहणी गाहाउ अग्नि पयावइ सोमे रुदो अदिती विहस्सइ सम्पे धिति भग अज्जस सविआ तट्टा वाउ अइं दणी १ सित्तो इंदो निरती आउविस्सोअ वंभ विण्डआ वसु वरुण अय विवडि पूपा अग्गी वामे चैवइसेतं देवता नामे सेकितं कुलनामिइ उग्गे भोगे राथणे खस्सिए इखागे णाते कोरवे सेतं कुलनामि सेकितं पासंडनामिइ समणेय पंडुरंगे भिक्खु कांवालिणअ तावसए सेतं पासंडनामि सेकितं गणनामिइ मङ्गे मल्लदिन्ने मल्लधम्मं मल्लसम्मं मल्लदेवे मल्लदासे

अदिति ५ उरस्यति ६ सर्म्य ७ पिट ट भग ८ अर्थम १० सविता ११ त्वथा १२ याय १३ इन्द्राग्नि १४ मित १५ इन्द्र १६ नैच्छति १८ अंश १८ विश्व १९ वत्सा २० धिष्णु, २१ वसु २२ वरुण २३ अज २४ विवडि एहमे ठामे अनेरे अन्ये यदि बुधे स्युं नाम छे २५ पूपा २६ अग्नि २७ वम २८ सेतं समाप्ति एतलो देवता आश्रीनाम कथो हिवे कुलथाश्री नाम कहे छे सेकितं जेजिस्सा उग्रकुळादिकने विपे जखो तेहने तेइज उग्र कुळादिक नाम स्थापीतो उंतो कुलस्थापना नाम कहीये एभावार्थः सेतं निगमनं एतले कुलस्थापना नाम कथो हिवे पापण्ड स्थापना नाम कहेछे

स्त्रियते सा लोकस्थिति वैविचयाज्जातमात्रमपि किञ्चिदपत्य जीवन्निमित्तमवकरादिष्वस्थिति तस्य चावकरक उत्कृष्टक इत्यादि यन्नाम क्रियते तज्जीविकाहेतो स्यापना नामा ख्यायते सुप्पएत्तिव सुप्प कृत्वात्वज्जते तस्य सुप्पक एव नाम स्याप्यते शेष प्रतीत सेकित चाभिय्याइयनामे इत्यादि इष यत् इत्यादिषु प्रसिद्ध षक निवक इत्यादि नाम देयइटा साभिप्रायानुरोधतो गुणनिरपेक्ष पुरुषेषु व्यवस्थायते तदाभिप्रायिक स्यापनानामेति भावार्थं सादेतत्स्यापना प्रमाणत्रिप्यन्त्र सप्तविध नामेति सेकित दब्बपमाणे इत्यादि षयमत भावार्थं धर्मास्तिकायोऽधर्मास्तिकाय इत्यादीनि पटद्रव्यविषयानि

मल्लसेणे मल्लरक्खिए सेत गणनामे सेकित्त जीवियनामेइ अक्करए उक्करडिए उभिअए कज्जवए सुप्पुए सेत जीवियनामे सेकित्त अभिप्याइअनामेइ अक्करए पिलासए सिणए करोए सेत अभिप्याइअनामे सेत टवणापमाणे सेकित्त दब्बपमाणेइ छुव्विइपणत्ते धम्मत्थिकाए जाव अइवासमए सेत दब्बपमाणे सेकित्त भावपमाणेइ चउव्विइपणत्ते तज्जहा समासिए तद्धितए धाउए निरुत्थिए सेकित्त समासिएइ सत्तसमासा भवति तज्जहा ददेअ वज्जवीही कम्म

सेकित्त जेणि जेपाप ड कहता दर्यन पाअयु डइ तेणने तेनाम स्यापी तो ड्ततो पाखड स्यापना नाम बोखिये तिहा निगय सकतावस गेरुअसाजीव पचसासमणा इति वचनात् निग्र थादिक पाचपाखड] आथी अमण बोखिये एव नैवायिकपाखडदि आत्रित पांडुरागादिका सर्वं जाणया नवर भिच्च तेइचाबोइ दर्यनात्त्रित जाणवु सेत निगमन एतने पापड स्यापनानाम कच्छी अथमण स्यापनानाम कच्छेसेकित्तमल्लादिक गणत्तेतिहा जेगणने विजे जेवत्त तेणनो तेगण आथी नाम स्यापीये तेगण स्यापना नाम कच्छी एतले गण स्यापना नाम कच्छो णिये जीवित



नामानि द्रव्यमेव ग्रमाणां तेन निष्पन्नानि द्रव्यप्रमाणानामानि धर्मास्त्रिकायादि द्रव्यं विद्ययेन कदाचिदन्यत्र नवर्भेत इति तद्वैतकान्युच्यन्त इति तात्पर्यं  
 अनादि सिद्धान्तनामत्वेनैवेतानि प्रागुक्तानीति चेदुच्यतां को दोषोऽनन्त धर्मात्मके वस्तुनि तत्तद्वर्णनार्थेणानेक व्यपदेशता वा अदुष्टत्वादेवमन्यन्नापि यथा  
 सम्बन्धं वाच्यमिति सेकितं भाव्यमाणो इत्यादि भावो युक्तार्थत्वादिको गुणः स एव तद्वारेण वस्तुना परिच्छिद्यमानत्वात्प्रमाणं तेन नियन्त्रं तदाश्रयेण  
 निर्दिष्टं नाम सामासिकादि चतुर्विधं भवतीत्यत्र परमार्थः तत्र सेकितं समासिए इत्यादि द्वयोर्वद्भनावापदानां समसनं संमीलनं समासाशुनिर्दिष्टं तत्

धारए दिग्गूत्र तप्पूरिसे अर्ब्वर्भवे एकसेसेत्र सत्तमे सेकितं दंदेश्च उष्टौच दंतोष्टं स्तनौचउदरंच स्तनोदरं  
 वस्त्रंचपालंच वस्त्रपालं अश्वश्च महिषश्च अश्वमहिषं अहिश्च नकुलश्च अहिनकुलं सेतं ददे सेकितं बज्रत्रौहीसमासेर्  
 फुल्लाद्रसंमि गिरिमि कुडयकडयंवा सोद्रसो गिरौ फुल्लिय बुडयकयंनो सेतं बज्रत्रौहीसमासे सेकितं कम्भधारएर् धव  
 लोवसहो धवलवसहो क्रिएहोमियो क्रिएहशियो सेतोपडो रत्तोपडो रत्तपडो सेतं कम्भधारए सेकितं दिगु

हेतु स्थापना नाम कहेछे सेकितं जेहनो जात मात्र बालक मरतो छद्द तेलोक स्थितिना भिचित्र पणाथी जग्मित प्रमाणकोर् एक बाबकने कषरादि  
 कने विषे नापीने बली ग्रहे तेभणी अवनरक नाम स्थापे तथा उकुण्डिकादिक जेनाम करिये तेजीवित हेतु स्थापना नाम बोलिये तथा रूपडाने  
 विषे घाबीने जेनापीये तेहनं सूर्यक एहवो नाम स्थापये सेतं समाप्ति एतले जीवित हेतु स्थापना नाम पोल्थो छिक्के अभिप्रायक स्थापना नाम कहेछे  
 सेकितं एखने विषे प्रसिद्ध जेअं वकादिक नाम तेदेश रूढथी तथा आपणी इच्छाथी गुणनी अपेक्षा विना पुरुषने विषे स्थापीये तेषभिप्रायक स्थापना

सामासिक समासाच्च ह हादय सप्त तव समुच्चय प्रधानो ह ह दताशोष्ठो च दन्ताशोष्ठो च सानोदरमिति प्राख्य गत्वान् समाहार वक्ष्यपातमि  
त्यादौ त्वमाग्निजातिचादृष्टमच्छिपमित्यादौ पुन सौखतिकेभिरिवादेवमन्याय्युदाहरणानि भायनीयानि अन्यपर्यायप्रधानो वक्ष्यन्तीति युक्तिता कुटञ्ज  
कदंबा यस्मिन् गिरी सोय गिरि युष्मिन्कुटञ्जकदंब तत्पुरुषसमानाधिकरण कर्मधारय सच धवलवासो हृषयश्च धवकटपभ इत्यादि सख्यापूर्वोद्दिगु  
स्त्रीणि कटुकानि समाहृतानि त्रिकटुक एव तीर्थिमधुराणि समाहृतानि त्रिमधुर पद्मादिगणे दर्शनादिह पञ्चभूषीत्यादिषु स्त्रियामी प्रत्ययो नभवत्ये य

समासेर् तिथि कटु, गाग्नि तिकठग तिथिमङ्गराणि तिमङ्गर तिथिगुणाणि तिगुणं तिथिपुराणि तिपुरं तिथिस  
राणि तिसर तिथिपुञ्जराणि त्रिपुञ्जर तिथिबिदुश्चाणि त्रिबिदुश्च तिपहाणि तिपहं पचनदोश्चो पचनदो सप्तगया

नाम कश्चिये सेत समाप्तिहय एतले स्थापना प्रमाण नाम कस्यो सेकित धर्मीक्षिकायादिक पट् द्रव्यना नाम तेद्रव्येण सेप्रमाण तेद्रव्य प्रमाण तेण्येनी  
पनाच्छे जेद्रव्य प्रमाण नाम तेधर्माक्षिकायादिक द्रव्य टालीने अनेधिकदाचिपणि प्रवर्त्ते नही तेभणी तेद्रव्य हेठक नाम कश्चिये इति तात्पर्य इच्छा  
कोर् इ एक इम कहे एपूर्वे अनादि सिद्धांत नाम पणे कलाच्छे उत्तर कजातु कियु दोष जेभणी अन्नत धमरूप वस्तुने विणे तेधर्मनी अपेक्षयि अनेक  
नाम पणाने विणे दोष ७ कपले इम अनेरे ठामे पणि युक्ति कइबी सेत समाप्ति एतले द्रव्य १ माण नाम कस्यो चिदे भाव प्रमाण कहेछ सेकित माव  
कहता युक्तार्थ पणादिज गुणरूप तेचज जेप्रमाण तेभाव प्रमाण जेभणी तेगुणने हारे करी वस्तुनो निर्णय थाइ तेभणी तेप्रमाण जाणयो तेण्येनी पनी  
जेनाम तेचतुर्विध प्रख्या तद्यथा समासिक तद्धितज घाटुज निश्चितिक तिष्ठां समासिक नाम कहेछे सेकित तथा घणामदनी जेसमसयु कहतां

अनु टी० २५८ सूत्र भाषा

विशेषः केवलं जाति विचारायामेकवचनं वचनविचारायां तु बहुवचनमिति एवं कार्यापणशाल्यादिष्वपि भावनीयं अयं च समासो द्वंद्वविशेषोऽप्येते केवल  
 मेकाशेषपताऽत्र विधीयते इत्येतानता एधगुपाम् इति लक्ष्यते तत्वं तु सककव्याकरणवेदिनो वदन्तीत्यलमिति विजृंभितेन गतंसमासिकं सेकितं तद्वितए  
 इत्यादि तद्विताज्जातं तद्विनजं इह तद्वितशब्देन तद्वित प्राप्तिहेतुभूतयो गृह्यते तत्रोच्यते तत्रापि तुत्रापे तंतुवाए तद्वितप्रत्ययो न दृश्यते तत्रापि तद्वेत्तभूता  
 र्थस्य विद्यमानत्वात्तद्वितजं सिद्धं भनति कस्मै गाहापाठसिद्धः नवरं लोकः साधा रंथयोग्यरचना एते च कर्म शल्यादयोऽर्थासाश्चित प्रत्ययस्योत्पत्तयो  
 त्त्रिमिच्छी भवन्तीत्ये तद्दे वात्तद्वितजं नामाष्टविधमुच्यत इति भाग सातकर्मतद्वितजं दोषिण सोत्तिण इत्यादि द्रव्यं पयमस्येति दोषिकः सूत्रं पयमस्येति

एगसेसे सेतं समासिए सेकितं तद्वितएद् अद्विविहे पणत्ते तंनहा कम्मसिप्पसिलोए संजोगसमावत्रोअसंजूहे इस्स  
 रिअ अव्वयेअयं तद्वितणामंतु अद्विविहं ? सेकितं कम्मनामेद् तयहारए पत्तहारए कट्टहारए दोसिए सोत्तिए कप्पा

पद्य 8 पुरुषा अथवा जातिनी विचाराये सगले एकवचन पणि ऊद्द हिचे सूत्र कदिदेहे षण्णो पुरुषो० जिम पुरुष एकवचनात पुरुष शब्द इत्यर्थं तेएक  
 शेष समासे कस्ये ऊंते बहु अर्थगुं वाचक ऊद्द इतिगेष वाक्य तदावहयेपुरिसा तिमघणा पुरुष बहुवचनांत पुरुषा शब्द इत्यर्थं तेएकशेष समास कस्ये  
 ऊंते बहु अर्थनो वाचक ऊद्द, एशेष वचन तथा जिम एक शेष समासने विभे बहुवचनांत पुरुष शब्द बहु अर्थनो बोलणहारो इद्द तिम एकवचना  
 न्तपणि इद्द विशेष कोद्द नही एतले यथा पुरुषयन इम करीने एक पुरुष शब्दशेष राखीये तथा जिम एक वचनांत पुरुष शब्दबहु अर्थने बोले तिम बहु  
 वचनान्त पणि बोले एतले एक वचनान्त पणांतु विशेष कोद्द नही केवल जातिनी विचाराये एकवचन ऊद्द अने बहु अर्थनी विचाराये बहुवचन इद्द

अनु टी०

३६२

सुत्र

भाषा

भीतिषु गेप प्रतीत नवर भांडविचार कर्मोत्थेति भांडयेषारिक कौलालानि च्छाण्डानिपण्यमस्येति त्रिकोणादिक षड् क्रापितण्यारए इत्यादिष्यारो  
 ह्यने तात कानिदाश्च नाल्य तद्विदितप्रत्ययो न कविदुपलस्यते तथा वल्लभाणेष्वपि तुन्नाए ततुवाए इत्यादिषु माव ह्यने तत्कामित्येव भूतनाम्ना मिश्रीप  
 न्यासाद्योप्यने चाम्नादेव सुखीपयासानुषानि चरति वदतीत्यादिक कश्चिदाद्याकारहटकाद्वितोत्यन्तिहेतुभूतोऽर्थो द्रष्टव्या ततो यद्यपि साध्यासाहित  
 प्रत्ययो नादि यद्यपि तदुत्पत्तिनियमभूतमर्थसाहित्ये इत्यत्रेदो न विवदधते यदि तद्वितोत्यन्ति हेतुरर्थोऽपि तद्वितद्वितोपि कश्चाकोपद्यत इतिषेष्टोके  
 इत्यमेव कर्त्तव्यमिति तत्र अप्यथा अद्यादिषाद्यमुनिप्रणीत इतश्च आपकादेव आगीया इद्वितप्रत्यया इति अथ शिल्प तद्वितनामो

**सिद्धे भुडवे आलिये कौलालिणै संन कम्मनामे संकित त सिम्पनामेरे तुणए ततुवाए पठुकारे सुअकारे कठुकारे**

एभाष एव कर्षीपणा कर्त्तव्यः सोनइत्तयाश्च धान्यतेइने विपे पणि भोषवु एव गेप समास इ इ समासनोज विग्रेप जाणोयेके केरुए एकगेपता इरा तेभणी  
 जूषो पशो इरा तत्वतु सकल व्याकरणना जाणकार जाणो अलविसारेण सेत निगमनं गतं समासिक विने तद्वितज नाम कठियेखे येकित तद्वित  
 प्रत्ययधी जेनासनीपनो तेतद्वितज कश्चिये इरा तद्वित यन्दे करी तद्वित प्रत्यय पामबानो हेतुमत अर्थ कश्चिये तेभणी तिगं तुच्चाए ततुवाए इत्यादि  
 कने विपे तद्वित प्रत्यय नरीसे तिगं पणि तेप्रत्ययनो हेतुभूत अर्थ विद्यमानखे तेभणी तद्वितज नामनीपनो इइ कश्चेगाशा इगम नवर श्लोक कर्त्तव्य  
 चाया सयुष पन्वरएपाए कर्म गत्यादिक अर्थ तेतद्वित प्रत्ययना उपजवानी इच्छाने निमित्त कारख इइ तेभणी एवना भेदयो तद्वित नाम अटविक  
 इइ इति गार्थार्थे तिगं कम्म तद्वित नाम करेखे दूप्प कर्त्तव्य यक तेपन्न कर्त्तव्य क्रियाणोऽन्ते जेइहो तेवोपिक कश्चिये तथा सुत्तपयय भीयाणु एवे वेइहो  
 तेसोत्रिक कश्चिये तथा भांड विचार कर्मखे एइहो तेमांडयेषारिक कश्चिये तथा कौलाक कर्त्तव्य साटीना भांड तेपण्ये एइहो तेकोलाक कश्चिये

कौलालानि च्छाण्डानिपण्यमस्येति त्रिकोणादिक षड् क्रापितण्यारए इत्यादिष्यारो

ह्यने तात कानिदाश्च नाल्य तद्विदितप्रत्ययो न कविदुपलस्यते तथा वल्लभाणेष्वपि तुन्नाए ततुवाए इत्यादिषु माव ह्यने तत्कामित्येव भूतनाम्ना मिश्रीप

न्यासाद्योप्यने चाम्नादेव सुखीपयासानुषानि चरति वदतीत्यादिक कश्चिदाद्याकारहटकाद्वितोत्यन्तिहेतुभूतोऽर्थो द्रष्टव्या ततो यद्यपि साध्यासाहित



गम्यते अत्रापि चास्मादिशु च्छापकात् तद्वितनामता चित्त च पूर्वगत शब्दप्रामथ अत कथमिच्छ भावनास्वरूपमस्माद्दृगौ सम्यगपगम्यते समीपतद्वितनाम गिरिसमीपे नगर गिरिनगरमत्वाद्दूरभवत्येव न भवति गिरिनगरमित्येव प्रतीतत्वाद्गिरिदियाया अदूरभव नगर वैदियमतत्वाद्दूरभवत्येव न भवत्येवैव रुद्धत्वादिति सम्युच्य तद्वितनाम तरंगशब्दकारणत्वाद्दि तद्वितनामतावेतोत्तरत्वच पूर्ववद्भावनाया ऐख्ये तद्वितनाम रादूरसरे इत्यादि दूरे

सेत सलोगनामे सेकित समीवनामेद् गिरिसमीपेणगर गिरिनगर विदिसि समीवेणगर विदिसिणगर वेनाय स मीवे नगर वेनायनगर नगरसमीवे नगर नगरायनगर सेत समीवनामे सेकित्त संखूहनामेद् तरङ्गवद्भकारे मलयवद्

जले तथा जेद्रज किमी एक वाचनाने विपे अप्रसिद्ध नाम शीसेछे तेदेयातर रुढयो जाणिया सेत निगमन एतले शिल्प नाम कछो अय शोक तद्वित नाम कचियेछे सेकित अमणादिकना नाम द्वाथार्थ साध्यादिकने विपे रुढहे तेमयी एख ज्ञाना निवध नयी द्वाषा तद्वित प्रत्यय अथवा तेजमी छापनिनु सेतभूत जेषन ते दृशा पण जाणयो सेत तेए सलोक नाम एतले द्वाषा तद्वितन नाम कछो द्विचे सयोग तद्वितन नाम कछेरेणोससुरए इत्यादि दृशां ससुरूप सयोग जाणीयेछे दृशां पण एख पूर्वमुनी प्रणीत खूतना दृष्टांतयो तद्वित नाम पणु जाणयो पूर्वगत यच्छ पाभृतो विवित प्रकारे अर्थव्यभूत छतो तेमाण अप्रत्ययछे तेभणो दृशा सम्यस भावना स्वरूप किमजाण्यु जाइ सेत समाप्ति एतजे सयोग तद्वित नाम कछो द्विचे समीप तद्वितन नाम कछेछे गिरि समीवे नगर गिरि नगर अत्वादूरभवत्येव न भवति दूरमे प्रसिद्ध पणायी विदियाया अदूर भव नगर विदियि नगर दृशां अदूर भवमित्यण भवथेव दूरमज रुढिहे तेभणी दूरम येप पणि जाण्यु सेत निगमन द्विचे सयुचि तद्वितन नाम कछे

उत्तरागणितसंज्ञासूत्रम्

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

राजादि शब्दनिग्रन्थनमैश्वर्यमेव गन्तव्यं राजेश्वरादिशब्दार्थस्त्रिहेव पूर्वं व्याख्यात एव अपत्यतद्धितनाम तिल्यधरमाता इत्यादि तीर्थिकरो अपत्यं यस्या सा तीर्थिकरमाता एवमन्यत्वापि सुप्रसिद्धे नाप्रसिद्धं विशिष्यते अतः तीर्थिकरादिभिर्मातरो विशेष्यता साद्धितनामत्वभावना तथैव गतं तद्धितनाम अथ धातुज सुच्यते सेकितं धातुए इत्यादि भूर्यं परस्मै पदौ धातुः सत्ता लक्षणस्यार्थस्य वाचकत्वे न धातुजं नामेत्येवमन्यत्वापि अभिधानाच्चरासुसारतो निश्चितार्थस्य

कारि असाणसङ्कारि बिंदुकारि सेतं संजूहनामे सेकिन्तं ईसरिअनामेइ ईसरे तलवरे साडुंविए कोडुंविए इभ्भे सेठौ सत्यवाहे सेणावइ सेतं ईसरिअनामे सेकिन्तं अचवचनामेइ अरिइंतमाया चक्रवट्टिमाया बलदेवमाया वासु

सेकितं तरङ्गइकारे इत्यादि इहां तद्धित नाम पणुं तथा आगल वखी तद्धित नाम पणो पूर्वली परे भाषयुं एअर्थं टीका मध्ये एतल्लोज्जे तेभणी त्रिवरी लिखो नथी सेतं निगमनं अथ ऐश्वर्यं तद्धितज नाम कहेछे सेकितं इहां राजादिक शब्दतो कारण ईश्वर पणुं जाणवु अने एतल्लानु शब्दार्थं पूर्ववत् सेतं निगमनं अथापत्य तद्धित नाम कहेछे सेकितं अतीर्थं कर अपत्यके वेस्त्रीनुं तेतीर्थंकर माता कश्चिये इम सुप्रसिद्ध करी अप्रसिद्ध विशेषीये तेभणी इहां तीर्थिकरे करी माता विशेषीये इहां तद्धित नाम पणुं तिमज सेप माता पणि भावणी सेतं समाप्तिद्वयं एतले तद्धितज नाम कखो हिचे धातुज नाम कहेछे सेकितं भू धातु परस्मै पदौ सत्व रूप अर्थने वाचक पणे करी धातुज नाम बोलीये एवं अनेरा धातु सर्व इहां जाणवा सेतं समाप्ति अथ निरुक्तिक नाम कहेछे सेकितं तिहां वस्तुना नामना अक्षरना अक्षरना अक्षरार्थं भणवुं तेनिरुक्ति कश्चिये तेहने विषे छुषो तेनाम नेरुक्तिक कश्चिये तेसर्व सूत्र सिद्धज्जे सेतं समाप्ति तेइम नेरुक्तिक नाम कखो तेभणतां समाप्तययो उअय प्रमाण नाम तेभणी सेतं आवाप्यमाणे तेसमाप्त

पचन भणन निरुक्त तत्र सव नैरुक्त तच्च मह्यां गते सधुप इत्यादिकपाठसिद्धमेव तदेयमुक्त नैरुक्तनामज्ञहणने चावसित भावप्रमाणानाम तत्त्वमर्थनेच समापित गौणादिक द्यनाम एतैरपिच द्यनामभि सर्यस्यापि वस्तुनोऽभिधानद्वारेण सयहादयनमित्युच्यते तत्त्वमाप्ती च समाप्तसुपकमातर्गतद्वितीय नामहारमत सेतनिरुक्ति एत्यादि पक्षनिगमनानि नामहार समाप्त उक्तसुपकमातर्गते द्वितीयनामहारमय तदन्तर्गतमेव क्तमप्राप्त त्वतीय प्रमाणद्वार मभिधित्सुराह भेदितपमाणे इत्यादिपरिमीयते परिच्छिद्यते धान्यद्रव्याद्यनेनेति प्रमाणमसतिप्रत्ययादि अथवा इदचेदच स्वरूपमस्य भवतीत्येव प्रति

देवमाया रायमाया मुणिमाया वायगमाया सेतं अ्रवच्चनामे सेकि त भूसत्ताया घाउए परस्रैभापा एधट्ठी स्पईस ह्ये सेत घाउए सेकिन्त निरुक्ति मद्धारये तेमहिप ममति चरोतीतिममर मङ्गर्मङ्गलसतीति मुसल कपेरिवलवती कपित्य चिच्चकरोति खल्ल च भवति चिकवल्ल उईकर्ण उल्लूक यस्य माला मेखला सेत निरुक्ति ए सेत भावप माणे सेतं पमायेण सेत दस नामे सेतनामे सेकित पमाणेर् चउव्विहे पयत्ते तज्जा दृष्यपमाणे खेत्तपमाणे कालप्प

याती समाप्तो प्रमाण नाम तेभष्पी सेत पमाणेण तेसमाप्तयातां समाप्ता गौणादिक इय प्रकार नाम एणे द्य नामे करी सर्ववस्तुना बोलवायी वस्तुतु स्यइयथु तेभष्पी द्य नाम बोधीये तेभष्पी सेत द्यनामे द्विवे एत्थिपि नाम चतुर्नाम पचनाम अट नाम एने द्यनामतु स्वरूप व्याकरण अने तर्कविण्य भस्से सस्यरु प्रकारे शाण्यु, नजाइ जेभष्पी इहां पाचेी नामे मिलीने सपूर्णजेन व्याकरण सखेणु खे तेभष्पीए श्रीअनुयोगद्वारा वचन प्रत्यक्षदर्शच यायी व्याकरण अने तर्क प्रत्यना चत्यापणहार मिञ्जय अने मिथ्यावी जाणवा अलधिसारेण तेदयनाम समाप्तयाते समाप्तो उपकमहार मादिलो



नियतस्वरूपतया प्रत्येकंप्रमीयते परिच्छिद्यतेत्यत्र प्रमाणयथोक्तमेव यदिवा धान्यद्रव्यादेरेव प्रमितिः परिच्छिद्रस्वरूपावगमः प्रमाणं अत्र पक्षेऽसति प्रस्तुत्यादेश्चोत्पत्त्यात्प्रमाणता तच्च प्रमाणं द्रव्यादिप्रमेयवशाच्चतुर्विधं तद्यथा द्रव्यविषयं प्रमाणं एवं क्षेत्रकालभावप्रमाणेष्वपि धाच्यं तत्र द्रव्यप्रमाणं द्विविधं प्रदेशनिष्पन्नं विभागनिष्पन्नञ्च तत्र प्रदेश एक द्वित्याद्यणवसैर्निष्पन्नं तत्रैकप्रदेशनिष्पन्नः परमाणुद्विप्रदेशनिष्पन्नो द्विप्रदेशिक प्रदेशतयघटितस्त्रिप्रदेशिकः एवंयायदनन्तैः प्रदेशैः सम्पन्नोऽनन्तप्रदेशिकः नन्विदं परमाणवादिक्कमन्त प्रदेशिकस्तंधपर्यन्त द्रव्यमेव ततस्तस्य प्रमेयत्वात् प्रमाणातानयुक्तं भिचेन्नैवं प्रमेयस्यापि द्रव्यादेः प्रमाणातया कूटत्वात्तथाहि प्रस्यक्रादिप्रमाणेन भित्वापुञ्जीकृतं धात्यादिद्रव्यमा लोष्यलोके वक्तारो भवन्तिप्रस्यकादिरयं

माणे भावप्रमाणे सेकितं द्रव्यप्रमाणे दुर्विहे पश्यते तंजहा पएसनिष्पण्ये विभागनिष्पण्ये अ सेकितं पएसनिष्पण्ये २  
परमाणुपोगले दुपएसिए भावदसपएसिए संखिल्लपएसिए अशंतपएसिए सेतंपएसनिष्पण्ये सेकितं

बीजो नामद्वार तेभणी सेतं नामे एवं समाप्ति पंचकं इति नामद्वार समाप्तं र द्विधे षडकमद्वार मांशिलो लीजुं प्रमाणाद्वार कदेखे सेकितं प्रकमबीइ कइतां जांशीइ निर्णय करीये धान्यवस्त्रादिक एणे करौ तेभणी प्रमाण कइये तेषणि अस्ति प्रस्त्यादिक जांणवो अयवा एअनो स्वरूप एणी परे प्रतिनियत स्वरूप षणे प्रत्ये कर प्रकर्षइ मापीइ निर्णय करोये जे तेप्रमाण कइये तेषणि यथोक्तज जांणवुं एतले करण साधनरूप अनेककं साधन रूपनाम देखाओ अथवा धान्य द्रव्यादिकनो अप्रमितिक इता निर्णयणुं करवुं तेएतले स्वरूपणुं जाणवुं तेप्रमाण कइये एभाव सा धन पद्यने विषे अस्ति प्रस्त्यादिक तेचबाहेटपणा थी प्रमाणपणुं जाणवुं तेप्रमाण द्रव्यादिक प्रमेयवस्तुना वसथी अतुर्विध तद्यथा द्रव्यने विषे जेप्रमाण तेद्रव्यप्रमाण

પુસ્ત્રોક્તશ્ચિહ્નિતિ તત્તચેત્ત્વિ ત્વાદિ પ્રદેશનિપ્પન્નલક્ષણેન સ્વસ્વરૂપેષ્વ પ્રમીયમાત્માત્મરમાસ્ત્વાદિ દ્રવ્યસ્થાપિ કાર્મ સાધન પ્રમાણગદ્વાપ્યતાદુષ્ટેષ્વકર  
 ણસાધનપદ્મે ત્વેકદ્વિત્વાદિપ્રદેશનિપ્પન્નલક્ષણ સ્વરૂપસેવ સુસ્થતાયા પ્રમાણસુચ્યતે દ્રવ્ય ઠ તત્સ્વરૂપવોગારુપચારત સાધનપદ્મતાયાં તુપ્રમિતે પ્રમાણ  
 પ્રમેયાધીનત્વારુપચારાદેવ પ્રમાણપ્રમેયવો પ્રમાણતાગત્તાયા તદેવ કાર્મ સાધનપદ્મે પરમાસ્થાદિ દ્રવ્ય સુસ્થતાયા પ્રમાણસુચ્યતે કરણભાવસાધનપદ્મવો

**વિભાગનિપ્પણે ૨ પચ્ચિદે પચ્ચત્તે તજ્જહા માણે ઉપ્પાણે અવમાણે ગણિસે પહિમાણે ૨ દુવિદે પ્રચ્ચત્તે ત જહા**

एष चेतकालभाव प्रमाणने विषे पणिय बोधवो तिहा द्रव्यप्रमाण द्विविध प्रदेशनिप्यन्न अने विभागनिप्यन्न ते प्रदेशकचता एकात्रिभूयिष्य आदिपरमाणु  
 आनेषे करो नीपनो तेप्रदेशनिप्यन्नक तिहां एकप्रदेश निप्यन्न तेएक परमाणुषो द्विप्रदेशनिप्यन्न द्विप्रदेशीषो त्रिप्रदेशनिप्यन्न त्रिप्रदेशीषो एवं यावत्  
 अनन्तप्रदेश नीपनो अनन्तप्रदेशीषो पूरुहां कोदएक प्रेरे जे परमास्वादिक अनन्तप्रदेशगत स्ववपर्यन्ततो द्रव्यज छद्द अने ते द्रव्यतो प्रमेयमांदि छे पर  
 प्रमाणमांदि नयो ते भण्यो तेहने प्रमाणपणु कछु ते मिले नशी दृष्टां उत्तर भेसण्यो द्रव्यादिक प्रमेवनेपणिय प्रमाणपणु लोकरूढ छे जिम मस्यकादिक  
 प्रमाणे करीने पु जरूप कीधु धान्यादिक द्रव्य देखीने कोक इम बोवे ए प्रसकठ पु ज तिछे ते नण्यो एक द्वित्यादिकप्रदेशनिप्यन्नपथा रूपणापणे स्वरूप  
 ज णिण्य याबादणाथी परमास्वादिक द्रव्यनेपणिय कर्मसाधन प्रमाण शब्देकरी बोलनावोय पण्यो निर्देपज जाणतु अने कारणसाधनपचने विषे एक वि  
 त्तिणिय प्रदेशनिप्यन्नस्वरूपज सुस्वपणे प्रमाण बोधीये अने द्रव्यने तो तेस्वरूपना सवोग थी उपचार की प्रमाण बोधीये अनेभाषसाधन पचने विषे  
 प्रमिति निर्णयतु करतु तेप्रमाण कधीये अने प्रमेवने वसिछे ते भण्यो उपचार थीज प्रमेय विद्दने प्रमाणपणु जाणवो ते इम कर्मसाधनपचने विषे पर  
 मास्वादिक द्रव्यने सुस्वपणे प्रमाणदण्यो जाणवो अनेकरणसाधन भाषसाधन पचने विषे परमास्वादिकद्रव्यने उपचारगत थी प्रमाथपण्यो छद्द ते भण्यो

પરુ ટી૦ ૨૧૨ સુત્ર ભાગ

પરુ ટી૦ ૨૧૨ સુત્ર ભાગ

स्वपचारत इत्यहोपः इदं च यथोत्तरमन्यासंस्थोपेतैः स्वर्गतेरेव प्रदेशैर्निर्णयन्त्यात्मदेशनिष्पन्नसुक्तं द्वितीयं तस्वगतप्रदेशात्विहायापरो विविधो विशिष्टो वा भागो भङ्गो विकल्पः प्रकार इति यावत् न निष्पन्नं विभागनिष्पन्नं तयाचि नधान्यमानादेः स्वगतप्रदेशात्प्रयत्नेन स्वरूपं निरूपयिष्यते अपि तु दोषसती शोपसतीत्यादिको यो विशिष्टः प्रकारस्तेनेति तच्चपक्षविषं तद्यथा मानं चान्नानं अमानं गणिसं प्रतिमानं पुनरपि मानप्रमाणं द्विधाधान्यमानप्रमाणं चरस मानप्रमाणं च तत् मानमेव प्रमाणं धान्यविषयमानप्रमाणं तच्च दोषसती इत्यादि अन्वते तत्प्रभवत्वेन समस्तधान्यमानानि व्याप्नोतीत्यसतिरवाङ्मुख

**धनप्रमाणेषु रसप्यमाणेषु सेकितं धनप्रमाणे दोषसईश्रो पसई दोषसईश्रो रुतिया चत्तारि सेइआउकुलश्रो च**

दोष नही एवयोत्तर अनेरीर संख्यायुक्त आपणेन प्रदेशे करी निष्पन्नपणा यौ प्रदेशनिष्पन्नपणो बोध्यो अने बीजो आपणप्रदेशवरजी अपरविधि अथवा विशिष्ट जे भाग कइतां निकल्य तथाप्रकार तेणे करी जे नीपनो ते विभाग निष्पन्न कहीये ते किम जेभणी प्रधान्यद्रव्यादिकना आपणा प्रदेशने आपणवे करी धान्यद्रव्यसु प्रमाणस्वरूप नही देखाडीये किन्तु दोषसईच पसइ इत्यादिकज विशिष्टप्रकार तेणे करी प्रमाणस्वरूप देखाडीखे ते विभागनिष्पन्नपंच विधप्ररूप्युं तद्यथा मान चन्नान अथमान गणिस प्रतिमान तिहां मानप्रमाणद्विधा तद्यथा धान्यमाणप्रमाण अमे रसमान प्रमाण तिहां मानज जे प्रमाण ते मान प्रमाण धान्यने निपे जेमान प्रमाण ते दोषसइषो पसइ इत्यादि तिहां अइत कइतां सर्वधान्यना मान ते यी सुखप्रवर्त्त समस्त धान्यना मानने आपे तेभणी अइति कहीये तेपवाङ्मुख कइतल रूपजांणिवो तेणे मायुं धान्य पणि तेइज कहीये तेखी ये विक्रं अइति नीपनी प्रइती ऊइ ते भणी अइति तेनावाकार व्यवस्थापित प्रांजलि करतल रूप जांणवी विखं प्रइताइ सेतिकाऊइ ते सेतिकाने इहां प्रसिद्ध जे ते लीजे नही जे भणी मगधदेस प्रसिद्ध इहां मान बोलावानी विषयाछे तेभणी ए से तिकासगधदेशप्रसिद्धजकिसीएक जांणनी चत्तारिसेइ

इसतलरूपा तत्परिच्छिन्न धान्यमपि तयोच्यते तद्वयेन निष्पन्नानावाकारता व्यवस्थापित प्रासन्नकरतलरूपा प्रकृति द्वेषप्रकृतीसेतिका सेतिकानेहप्रसिद्धा गृह्यते मागधदेशप्रसिद्धस्यैवातमानस्य प्रतिपाददिवितत्वादत इय तत्रासिद्धा काचिद्वगन्तव्या चतस्र सेतिका कुडव सो पत्वार प्रस्थेऽसौ पत्वारि षाडक प्रस्थादि सूत्रसिद्धमेव यावदहभिराढकयतैर्निर्दिष्टोवाच अत्राच शिष्य एतेनासत्यादिना धान्यमानप्रमाणेन किप्रयोजन विधीयते इत्ययं श्रुतौ चतस्र पातनधान्यमान प्रमाणेन सुक्तोलीसुखे इटालिदापचारिचञ्चिदानां सुक्तोल्याद्याधारगतानां धान्यानां धान्यस्य यन्मानमित्यन्तालक्षण तदेव प्रम णास्यत निर्दिष्टि सिद्धि सत्या लक्षणपरिज्ञान भवति एतावद्बल धान्यमस्तीति परिज्ञान भवतीत्यर्थं सूत्रसुक्तोलीमोहा प्रवचपरिष्व सङ्कीर्णौ मध्ये त्वीपद्विभ्याला

सादि कुलयापत्यो चत्तारिपत्ययादगं चत्तारिआदगा दोषो सङ्घिआदयाद् अहन्नएकुंभे असीति आदयाद् सङ्घि मए कुंभे आदयसय उक्वोसए कुंभे अह्य आदय सतिए वाह एरणं धस्यमाण एरणं धस्यमाणप माणेण सुक्तोली सुख इदुर अलिदउचारै ससियाण धस्याण धस्यमाणप्यमाण निविति लक्खण भवद् सेत घणमाण

आठकुलव तथा चिड सेति काइ कुडवकुइ तथा चिड कुडये एकपावु कुइ तथा चिड प्रस्यवे एक आठक कुइ यावत् आठकइ षाडके एक वाहेस्ये नामे मान कुइ इशां शिष्य कहे छे एएण एणो असत्यादिब धान्यमानपणे करी चिड प्रयोजन किस अरीये इत्ययं इशां उत्तर एतेण एणे धान्यमान प्रमाणे करी सुक्तोल्यादिसञ्चित एतले सुक्तोल्यादिब आबारगतजे धान्य तेइयु जे मान एतथा पणो ते रूप तेइजके प्रमाण तेइनी जे निर्दिष्टि करतासिद्ध तेइयु ते लक्षण कर्तता परिज्ञान कुइ इशा एतवुं धान्यजे एइवो जाअपणो कुइ इत्ययं तिशा सुक्तोली कोटी अने हेठलि ऊपरसानडी अनेविच

कोटिकासुखगत्या उपरियद्दीयते सुं वादित्यु तंढंचनकादितद्विदूरं अविदुक्तं कुण्डुक्तं अपवारिदीर्घितरत्नान्यकोष्ठाकारविशेषः रसमानप्रमाणमाह सेकिंतं  
 मित्यादि रसोमद्यादि स्वाद्विषयं मानमेव प्रमाणं किमित्याह धान्यमानप्रमाणात्के तिकादित्यतुर्भांगविवर्द्धितं चतुर्भांगधिकं अथन्तरशिखायुक्तं यद्रसनामा  
 नंविधीयते क्रियते तद्रसमानप्रमाणमुच्यते धान्यस्याद्रूपत्वात्किञ्चिदधिकं भवति रसस्य तु द्रवरूपत्वान्न शिखा सञ्जवोऽभोवद्धिः शिखाभावधान्यमानानाञ्चतु  
 र्भांगद्विलक्षणया अभ्यन्तरशिखायावृत्ताच्चाभ्यन्तरशिखा युक्तमित्युक्तं तद्यथा षतुःषष्ठिकेत्यादि द्रवसुक्तं भवतिषड्भांगद्विषयतद्वयपलमानानामाणिका  
 नामवक्ष्यं रसमानं तस्य षतुःषष्ठितसभागनिष्यन्ता अर्थादेव षतुःपलप्रमाणा षतुःषष्ठिका एवं माणिकाया एव द्वाविंशत्तसभागवर्त्ति त्वादष्टपलप्रमाणा  
 द्वाविंशति का तथा माणिकाया एव षोडशभागवर्त्तितात् षोडशिका तस्या एवाष्टसभागवर्त्तितात् द्वाविंशत्यपरिमाणा षट्भागिका

पमाणेऽ सेकिंतं रसमायपमाणेऽ षसमाणपमाणाभो चतुर्भाग विवर्द्धिए अतिभन्तर सिहाजुत्ते रसमाय पमाणे  
 विवर्द्धिज्जं ति तं जहा चतुस्रिष्ठाऽ नत्तीसिष्ठाऽसोलसिष्ठाऽ १६ अष्टमाद्वात्राऽ २२ चतुर्मायाऽ १२८ माणोऽ २५६

ने बिगारेक पिच्छली एङ्की कोठी ते सुख तथा गानी अपरदेने वयादिकगुं ने आवार ते ईडूर तथा अलिङ्क ते कुण्डु तथा अपवारिते लाडुं वान्यनो  
 कौठार विषेप सेतं समाप्ति एतले धान्यमान प्रमायकस्युं अयरसमान प्रमायसाह सेकिंतं तिज्ञं एते मद्यादिक तेहनो जेमान तेहजे प्रमाण तेरस  
 मान प्रमाण ते किडुं धान्यमान प्रमाय जेसेतिकादिक तेयी चतुर्भाग विवर्द्धित चतुर्भांगविक अने अयं तर शिखायुक्त जे रसमानकहिजे तेरसमानने  
 विषे प्रमाण बोलीये एतले धान्यने अद्रवरूपपणावकी शिखा छद् अने रसगो द्रवरूप तेभणी तेहनी शिखानसंभवद् तेभणी वाहिली शिखा संभव

राय धनपत शिव बालपुराणे भाग ४४ अ १

तस्या एव चतुर्भागावर्तितास्तु पष्ठिपलमाना चतुर्भागा तस्या एवाहं भागवर्तिनी अष्टाविंशत्यधिकपलगतमानाऽहं माणिका इदं च षड्भु वाचनानि  
 येषु न दृश्यत एव यदुपचायदधिकयतइयपलप्रमाणामाणिका इत्यस्य चत पष्ठिकात्थानेकाऽहति शिका अवतीत्यादिगतार्थैर्व्यावर्तेन रसामाप्रमाणे  
 न चि प्रयोजनमतीत्तर मेतेन रसमानप्रमाणेन वारक षट्क करक गर्गरी इतिककरोडिका कु डिकासञ्चितानां रसानां रसस्य यन्मान तदेव प्रमाणतस्य  
 निहंति सिद्धिसास्यालक्षण परिज्ञान अवति ततातीवकियालसुषा कुण्डिकैर्ककरोडिका उच्यते येष प्रतीत क्वचिक्लसिकेति दृश्यते तत्रणसुतर कलग  
 एव क्वचिक्लसिधीयते एवमन्यदपि वाचनान्तरमभ्यूषा सेतमित्यादि निगमनद्वयं अयोनालमनिवित्पुटास सेकित उभाणे इत्यादि उन्मीयते तदित्यु

दोचउसठिआओ वत्तीसिआ दोसोलसिआओ अठभाइआ दोअठभाइआओ अठभाइआओ  
 या दोचउभाइयाओ अठभाओ दोअठभाओओ माओ एएणरसमाए प्रमाणेणकि पउअण एएण रसमाणेण वारकषडक

धान्य माजयी चठभांग इडिरूप अक्षितर शिण्ये करीयुक्तपणाधी अम्य तर शिवावुत इममोल्यो तद्वया दोयसयच्छप्यण पलमाननी माणिकानामा जे  
 रसमान तेचना धीसठिमाभागनी नीपनी अर्थयो थ्यारिपल प्रमाणनी चठ पठिका इत्यु मान ऊइर तया माणिकाना वतीसमा भागनी नीपनी, अर्थ  
 धी आठपल प्रमाणनी वतीसिका तमा माणिकाना सोबमाभागनी नीपनी सोलैपलप्रमाणनी,पोडयिका तवा तेउजना आठमाभागनी नीपनी यमी  
 सपलप्रमाण अष्टागिका तथा तेचिजना चोया भागनी नीपनी चौरुडिपलमान चठभांगिका तथा तेचना अहं नी नीपनी १२८ पलमान अहं माणिका  
 ए घषी वाचनाने विपे न धी दीसती तथा २५६पल माजमाणिका तथा विळ चौसठि आइ करी एक वतीसिका इइ येष पाठसिह तथा एएण

अष्टाविंशत्यधिकपलगतमानाऽहं माणिका इदं च षड्भु वाचनानि

येषु न दृश्यत एव यदुपचायदधिकयतइयपलप्रमाणामाणिका इत्यस्य चत पष्ठिकात्थानेकाऽहति शिका अवतीत्यादिगतार्थैर्व्यावर्तेन रसामाप्रमाणे

न चि प्रयोजनमतीत्तर मेतेन रसमानप्रमाणेन वारक षट्क करक गर्गरी इतिककरोडिका कु डिकासञ्चितानां रसानां रसस्य यन्मान तदेव प्रमाणतस्य

निहंति सिद्धिसास्यालक्षण परिज्ञान अवति ततातीवकियालसुषा कुण्डिकैर्ककरोडिका उच्यते येष प्रतीत क्वचिक्लसिकेति दृश्यते तत्रणसुतर कलग

एव क्वचिक्लसिधीयते एवमन्यदपि वाचनान्तरमभ्यूषा सेतमित्यादि निगमनद्वयं अयोनालमनिवित्पुटास सेकित उभाणे इत्यादि उन्मीयते तदित्यु

न्यायं उन्मीयते अनेनेति वा उन्मानमित्यादि तत्र कर्मसाधनप्रथमविज्ञात्वाह जेषं उन्मीयन्त्यादि यदुन्मीयते प्रतिनियतस्वरूपतया व्यवस्थाप्यते तदुन्मानं तद्यथा अर्द्धकर्म इत्यादि पक्षस्थापसाधोर्द्धकर्म; तस्यैव चतुर्भाग; कर्म; पञ्चसार्धं अर्द्धपक्षमित्यादि सर्वं सागधदेशप्रसिद्धं सूत्रमेव नवरं पञ्चाश

करक कलसिञ्ज कङ्कारि दद्वञ्जकरोडिञ्जकुञ्जिञ्जसंस्रियाणं रसाणं रसमाण पमाणनिव्वित्तिलक्खणं भवति सेतं रसमाण पमाणे सेतंमाणे सेकितं उन्मानेण जस्यं उन्मीयन्त्यादि तंजहा अर्द्धकरिसो करिसो पलं अर्द्धपलं अर्द्धतुला तुला अर्द्ध भारो भारो दोअर्द्धकरिसो करिसो दोकरिसो अर्द्धपलं दोअर्द्धपलाद् पलं पञ्चपलसद्भातुला दसतुलाञ्चोअर्द्धभारो वीसें

एणे रसमानप्रमाणे करी कियुं प्रयोजन इहां उत्तर एणे रसमानप्रमाणे करी वारकादिक आश्रितरसनो जेमान तेहज जेप्रमाण तेहनी जेनिव्वत्ति कहतां सिद्धि तेहनी लक्षण कहतां परिज्ञान इद्द तिहां वारक तेमोडो माट घटक तेघडो करक तेकडो गर्गरी तेगागरि इतिकते दीवडी करोटिका ते अतिमोटा सुखनी कुण्डिका अने कही अने कुण्डिका तेकुण्डो किषां एके कलयिका एहवो दीवेहे तिहां नाक्केरुं कलयज कलयिका कहीये इम वाचनातर पाण्डुं सेतं निगमनइयं एतले मान कह्यो अबोन्मान कहेहे जस्यं उन्मीयन्त्यादि जेउन्मीयन्ते उन्मान उन्मानवुंते उन्मान तेहवेप्रथमजे कर्मसाधन अर्थ कह्यो ते आश्री कहेहे जस्यं उन्मीयन्त्यादि जेउन्मीयन्ते उन्मान उन्मान तद्यथा पलनुं पाठसुं साग ते अर्द्धकर्म तथा पलनो चोयुं भागते कर्म तथा पलनुं अर्द्धते अर्द्धपल इत्यादि सागधदेश प्रसिद्ध सूत्रसिद्धज अर्थ नवरं पलते पलासपत्र कर्णीरी पत्रादिक तथा बोउते पलविशेष अने मत्स्य'डिका शर्कराविशेष सेतं समाप्ति एतले उन्मान कह्यो अथावमानमाह सेकितं० अवमवीये खाता

पत्रकर्मांसी पत्रादिक पत्र चौथ पत्रविशेष मन्त्र छिन्ना यर्कषाविशेष अथमान विषयुराह सेवित षम्भाणे इत्यादि अवमीयते परिच्छिद्यते खाताद्याने नति अथमान इहादडादि अथवा अवमीयते परिच्छिद्यते इशादिना वनदवमान खातादि तत्र कर्म साधनपञ्चमधिलक्ष्यतावदाष्ट जेणमित्यादि यदय मीयते खातादितदवमान केनावमीयते इत्यादि इत्येववा इत्येववा इत्यादि तत्र इशोवष्यमाखरूपदृष्टविद्यत्य सुलमानोऽनेनैव वशेन षट्भिर्भिर्षु कौ निर्णयका अथमानविशेषा दडवठ युगाशालिकाच्चतुगलरूपा पटसत्रा लभते अतएवाष्ट दडगाथा 'दडवठयुग ग मालिका' वाचसुयनष कारणसाधनपञ्च

तुक्ताचभारो एष्य उन्माणेण किपत्रोयण एष्यं उन्माणपमाणेण पत्ता अग्रतगरं चोसाकु कुम खडगुलमच्छ छिन्नाईरणं

दव्याण उन्माण पमाण निव्वित्तिलक्खण मवर सेत उन्माणपमाणेण सेकित अन्माणेद् जयं उन्मिणिल्लर तजहा

इत्ये गवा दडेणवा धणुक्खेणवा नुगेणवा नालिन्नाणवा अक्खेयवा मूसलेणवा दड घणु जुगनालिन्नाय अक्ख सुसलच

दिक एणे करी ते अयमान अथवा अवमीये निर्णय करीने इशादिके करी जे खातादिक ते अयमान तिषां कर्मसाधन पत्र अङ्गीकरीने कचेत्ते जाण

उन्मिणिल्लर जे अयमवीद् खातादिक ते अयमान केणे करी वाये करी दडे करी इत्यादि तिषां इसायल्यमाण स्वरूप षट्थीस चाणुबमान एणे

वसे करी प्यारि इशा नियन् अयमान विशेष दडादिक छसत्रापामे तेभणीज कहेत्ते दडगाथा० दडधनुय युगलनालिना अल्लसुसल एकरणसाधन पत्र

अगीकरीने अयमान सत्राये विषाणिविषये प ठ जाण ए सपध चिये दडादिक प्रत्ये क केववात्ते षट्ठ० षट्ठं स प्रमाणत्ते तथा दयनालिकाद् करी

एक रज्जु जाण्णो अयमानसत्राद् इति गार्थं । इशा कोद्दि एक इम कहे जो दडादिक सर्वषट्ठं स प्रमाणत्ते तो ते मध्ये एक दडादिक अनेराने

अनु टी० ३०५ सूत्र भाषा



संगी कथावसानसञ्ज्ञे या विजानीहीति संबंधः दंडादिकं प्रत्येकं कथं भूतमित्याह षट्दंशं दशभिर्नालिकाभिर्निष्पन्नां रज्जुं ष विजानीद्यवमान संज्ञं येति गार्थः ननु यदीदंदादयः सर्वे षट्दंशप्रमाणासस्यै केनेव दंडाद्यन्तरो पादानेन चरितार्थत्वात्किमितिषण्णामयु पादानं उच्यते मेयवस्तुपुभेदेन व्याधिवसारेत्वात्तथाचाह षच्छुं भिगाहा वांस्तुनिष्ठह भूमौ मीयतेनेनेति मेयं मानमित्यर्थः सुप्रद्वितीयैक षचनत्वेन दंशं विजानीहीति संबंधः इत्ये नैव वास्तुमीयत इति तात्पर्यं चेत्ते कृषिकर्मादि विषय भूते षट्दंशं वंशसङ्घणं दंडमेवमानं विजानीहि षपुरादीना षट्दंशसले समानेपि रूढिवयादंड संज्ञाप्रसिद्धेनैवावमान प्रमाणेन विशेषेण ज्ञेयं मीयते इति हृदयं पथिसार्थं विधाव षदुरेवमानं मार्गगव्यू तादि परिच्छेदो षतुः सञ्ज्ञा प्रसिद्धे नैवावमान विशेषेण त्रियते न दंडादिभिरिति भावः खातं कृपादिनालिकायेवं यद्विविशेषरूपयामोयत इति गम्यते एवं सुगादिरपि यस्य यत्र व्यापारो कूढ तत्र वाष्पः

षट्दहत्यं दसनालिभ्रंचरज्जुं विभ्राणसो माणससाए१ वत्यं मि हत्यं मेज्जं खिसे दंडं धणुं च पत्यंसि खायंच नालि  
 आए विभ्राणतो माणसंसाए२ एएणं अब्रमाणपमाणेणं किंपडन्नणं एएणं अब्रमाणपमाणेणं खाय चित्र करकचिय

ग्रहवे करो अर्थसिद्धि थाह तेइहांच्छनुं ग्रहण किस्सामणी बस्यो इहा उत्तर मवणीक वस्तुना भेद यकी एच्छजूजघा व्यापारीये तेभणी ते कहेछे वत्यं मि गाहा वस्तु कहतां घरनी भूमि तेहने विषे मवीये एणे करी तेभणी मेयमाना इत्यर्थः द्वितीयाना एकवचनना लोपथी हसने जांसाए संबंघ हाये जकरी सर्ववस्तु मापीये ए भाव तथा ज्ञेक कहतां कृषकमीदिक विषयभत तेचने विषे चटुंश वंशरूपदंडज कांणिये एतले धनुरादिक चारि हायने तुल्यपणेछे पणि रूढिना वयथी दंडसंज्ञा प्रसिद्ध जे अब्रमान विशेष तेणेज ज्ञेयमवीयेए अभिप्राय तथा पथिसार्गने विषे षतुपिजमान जाणि माउ षा

। अथ भूत । असादृशादिकमित्याह । अयमानसन्नायोपशिक्षितमिति गार्थार्थं । एते नायमान प्रमाणेन किं प्रयोजनमित्यादि भावितार्थमेव नगर ख्यात प्रापादि चित्त त्विटिकादि रचित प्रासादपीठादि क्रकचित्त करपत्रविदारित काष्ठादि कटादय प्रतीता एष परिच्छेपोभित्तादेरेव परिधिर्नगर परिखादिर्वा एतेषां खातादि सञ्चिता नाम भेदेऽपि भेद विकल्पनया खातादि विषयाणां द्रव्याणां खातादीनामेवेति तात्पर्यं अयमानमेव प्रमाण तस्य निर्दृष्टितिलक्षण भवतीति तदेतत्प्रयोजनमिति निगमनं चेकित गणिते इत्यादि गण्यते सख्यायतेत्यनेनेति गणित एकैकं अयथागण्यते सख्यायते यत्तत्र गणितमरूपकादि तत् कर्म साधनपक्षमगीकृत्याह जगमित्यादि गण्यते यत्तत्र गणित कथं गण्यते इत्याह एको इत्यादि एतेन गणितप्रमाणेन किं प्रयोजनमित्यादि गतार्थमेव नवर

कडपठ मिति परिवेवससियाण द्रव्याण अवमाणपमाण निव्वित्तिलक्षण भवद्र सेत अयमाणे सेकित गणिते २ जणं गणित्ज्जद्र तजहा एगो दस सय सहस्र दससहस्राद्र सयसहस्राद्र कोडो एएण गणितमप्यमाणेण किं

दिकतु निर्ययधनुष सन्ना प्रसिद्धं जे अयमान विषेप तेणेज करीये पर दडादिके न करीये एभाव तथा खातकृपादिकने नालिका सन्ना प्रसिद्धं जे अयमान विषेप तेणेज मवीये एष युगादिकनो पणि जेहेठ जिहां व्यापार रुढं तेहनो तिहा बोखबो जे किउ छे इस दडादिक तेकहे छे अयसग्याये उप सञ्चित सञ्चिते इति गार्थार्थं अत शिष्य आह एणे अयमान प्रमाणे किउ प्रयोजन दूहां उत्तर एणे अयमान प्रमाणे खात कृपादिक अने चितते इ दादिक रचित प्रासाद पीठादिक तथा क्रकचित्त तेकरयता दिके विदारण, काष्ठादिक तथा कट तेकडो पट ते यस्त भित्त परिच्छेप ते भीतादिकनी परिधि अथवा नगरादिकनीपाई एयातादिक सञ्चित द्रव्यने अभेदे पणे भेदनी कल्पनाद्र करीपातादिक विषये द्रव्यनु एतले ज्ञातादिक

भक्तकः कर्म करो भक्तिः पदात्यादीनां दृष्टि भक्तं भोजनं । वेतनकं कुर्विदादिनाभ्यूत वस्त्रव्यतिकरेऽर्थं प्रदानं एतेषु विषये आयव्यय संश्रितानां प्रति बद्धाना रूपकादिद्रव्याणा गणिमप्रमाणेन निवृत्तिलक्षणमित्यावगमरूपं भवति तदेतन्नणिमिति अथ प्रतिमान प्रमाणं निरूपयितुमाह सेकितं पडि माणेत्यादि मीयतेऽनेनेतिमानं सेवस्य सुवर्णादेः प्रतिरूपं सदृशं मानं प्रतिमानं गुंजादि अथवा प्रतिमीयते तदिति प्रतिमानं तत्र गुंजा चणोठिया ? सपादागुंजाकांक्षणी २ सत्तिभाग कांकण्या तिभागोनगुंजाद्वयेनवा निवृत्तो निष्पावः ३ तयोनिष्पावाः कर्मा मापकः ४ हादयकर्म मापका एकोमंडलकः ५ षोडश कर्मा मापका एकः सुवर्णाः ६ अशुमेबाथं किंचित्खू ले प्याह १ पंचगुंजाच इत्यादि पंचगुंजा एक कर्मा मापकः अथवा चतस्रः कांकण्य एकः कर्म

पडअणं एएणं गणिम प्रमाणेणं भितिग भिति भत्त वेअख आयव्यय संसिआणं दव्वाणं गणियप्रमाणं निव्वित्तिलक्खणं भवइ सेतं गणिमे सेकितं पडिमाणे २ जखं पडिमिणिक्खइ तंजहा गुंजा कांगणी निष्पावो कम्म मासओ मंडलओ

गुंजा अयमानज जेप्रमाण तेहनो निवृत्तिरुं लक्षण परिज्ञान छइ सेतं तेए अयमान अथ गणिममाह सेकितं गणीये संख्यारूप वस्तु करिये एणे करी तेगणिम एकादिक अथवा गणीये संख्या रूप करिये जे तेगणिम रूपद्रयादिक तिहां कर्मसाधन पक्ष अंगी करीने कहेछे जखं० जेगणीइं तेगणिम तद्यथा किमगणीइं एकादिक खूल सिद्ध अत्वणिय आह एणेगणिम प्रमाणे किछुं प्रयोजन इहां उत्तर एणे गणिम प्रमाणे तिहां अतक कर्म कर अने अतिपायकादिकनी दृष्टि तथा भक्त भोजन तथा वेतनकजुलाहादिकने वस्त्रादिक वखे छते द्रव्यरुं देवुं एतलाने विषे आयव्यय संश्रित प्रति वड्ठु जेरूपद्रयादिक द्रव्य तेहनो गणिम " प्रमाणे करी निवृत्ति लक्षण इम जाणवा " रूप छइ । सेतं० तेएगणिम अथ प्रतिमान माह

18 20 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

मापक यदिवा तयोनिष्पावका एक कर्म मापक इदमुक्त भवत्यस्य प्रकारतयस्य मध्ये येन केनचित्प्रकारेण इति भाति तेन यत्ताकर्म मापक प्रकृत्यतु पूर्वज्ञानुसारेण न कविदर्यभेदे इति एव चउक्त्वाकर्ममासस्यो इत्यादि चतसृभिर्कांक्षणीभिर्निष्पन्नत्वाच्चउक्तोय कर्ममापक इति स्वरूपविशेषणमात्रमिदं तद्वादायकर्म मापका एको मडलक एवमट चत्वारिण्यत्काक्षणीभिर्मडलको भवतीतियेपो भावार्थं पूर्ववदेव योऽयकर्म मापका सुवर्णं अथवा चतुःषट्किकाकल्प एक सुवर्णो भावार्थं ष एव एतेन प्रतिमान प्रमाणेन कि प्रयोजनमित्यादि गतार्थं नवर रजत रूप्य मणियय द्रुकांतादय शिलाराजपहकगध

सुवर्णो पचगु जाग्रो कर्ममासस्यो कागण्य पेचया चत्वारि कागणीओ कर्ममासस्यो तिणिनिष्पावा कर्ममासस्यो एवचउक्त्वा कर्ममासस्यो कांकारण पेचयेत्यर्थं वारसकर्ममासया मडलओ एव अडयालीस कागणीओ मडलओ सो

संबन्धित० मवीइ एणे करी तेभणी मान कश्चिये मेयवस्तु जेसुवर्णादिक तेइनो जे प्रतिरूप सहय मान तेप्रतिमान एतले गु जादिक अथवा प्रतिमवीइ जे तेप्रतिमान सुवर्णादिक वस्तु एमाव तद्यथा गु जाविणोठो तथा सवागु वाइ कांगणो तथा आगली एककांक्षणीये अथवा विभाग जणी पिड गु जाइ निष्पाव तथा त्रिणि निष्पावे एक कर्म माय तथा वारेकर्म माय के एक मडलक तथा सोलिकर्म मापके एक सुवर्णं हिये एइज अर्थं केतलो एक इउने विषे कहेहे पांच गु जाइं एक कर्म मापकयाय आरिकागणीये एककर्ममापक अथवा त्रिज्ज निष्पावे एक कर्ममापक एतले एत्रिणि प्रकार मध्ये जेणे केणे प्रकारे कर्ममापक चतसृ कश्चिये एवचन स्वरूपतु विशेषणमात्र जाणवो ते वारे कर्ममापके एक मडल ऊइ एव अडतालीसकांक्षणीइ एक मडल ऊइ अने तथा सोलिकर्ममापइ एक सुवर्णं ऊइ एव सोसटकाक्षणीइ एक सुवर्णं ऊइ ए भावार्थं अत शिय आइ एणे प्रतिमान प्रमाणे किउ

यद्यस्यात्मीयमंगुलं तेनात्मनोगुलेन द्वादश्यांगुलानि सुखं प्रमाणयुक्तं भवत्यनेन च सुखप्रमाणेन नवसुखानि सर्वोपि पुरुषः प्रमाणयुक्तो भवति प्रत्येकं द्वादश्यांगुलैर्नभिसु खैरद्योत्तरं शतमंगुलानां संपद्यते ततश्चैतावदुच्चयः पुरुषः प्रमाणयुक्तो भवतीति परिस्मार्थः अथतस्त्वेवमानयुक्तता प्रतिपदेनार्थमाह द्रोणिकः पुरुषोमानयुक्तो भवति द्रोणी जलपरिपूर्णा मृत्ती कुंडिका तस्यां प्रयेयितावः पुरुषो जलस्य द्रोणं पूर्वोक्तस्वरूपं निक्वाशयति द्रोणो जलस्थोनां वातां पूरयति सद्रोणिकः पुरुषोमान युक्तो निगद्यते इति भावः इदानीमेतस्यैवोमानयुक्ततामाह सारपुत्रलरचितत्याचुलारोपितः सऋद्धिभारं तलवन्पुरुष उमानयुक्तो भवति ततोत्तमपुरुषा यथोक्तैः प्रमाणमानोमानैः संपन्ना एव भवंतीत्येतदर्थयन्नाह साणुन्माणगाहा

जयामगुस्ता भवद् तैसिणं तथा अप्पणो अंगुलेणं दुवालस अंगुलाद् सुहं नवमुहापुरिसे । प्रमाणयुत्ते भवद् द्रोणिए  
पुरिसेमाणयुत्ते भवद् अद्धभारं तुल्लमाणे पुरिसे लम्माणेण युत्ता लक्खण वंजण गुणेहिं

आत्मांगुले करी पुरुषना प्रमाण युक्त पणादिकनुं निर्णय कारुं कहेत्ते अप्पणो जेहनो जे आत्मांगुले तेणे आत्मांगुले करी वारे आंगुल सुखप्रमाण युक्त सोइ एणे सुखने प्रमाणे करी नव सुख संपूर्ण पुरुष प्रमाण युक्त ऊइ प्रत्येक वारे आंगुल नव सुख करी एक सति आठ आंगुल गुमान संप जे तेभणी एतलो अंचुं पुरुष प्रमाण युक्त ऊइ एपरस्मार्थ अथ तेपुरुषणुं मानयुक्त पणो कहे के द्रोणिक पुरुष मानयुक्त ऊइ तिहां द्रोणिक कण्ठतां जल परिपूर्ण मोठी कुंडि तेहने निपे पेसाखो ऊतो जेपुरुष जलनो द्रोण पूर्वोक्त स्वरूपनीकले अथवा द्रोण जले करी जणी तेकुण्डोने पूरे तेद्रोणिक पुरुषमान युक्त ऊइ अथ एहण पुरुषणुं उन्मान हुक्तपणो कहेके सार पुत्रल रचित पणाथकी तुलाइ आरोप्यो ऊतो अर्द्धभार तुले तेपुरुष उन्मान हुक्त ऊइ तिहां



स्वरः सकलजनादेयत्व प्रकृतिगंभीरतादिगुणालंकारतोष्वनिः सत्त्वं दैन्यविनिर्मुक्तो मानसो वटः कः सारः शुभपुत्रलोपवयजंसारो रशक्ति विशेषश्लेषपरि  
 हीनाः संतस्रो चक्रमसुरपापाणां उपचित पुण्यप्राभाषाणां अथवा अनिच्छं तोप्यशुभकर्मव्ययतः प्रखलसुपयाति खरादियेषलक्षणवेकल्पसहायेव यथोक्त  
 प्रमाणाहीनाधिययमनिष्टफल मदायि प्रतिपन्नव्यं तैकेवलमिति लक्ष्यते भरतचक्रवर्त्यादीनां सांगुलतोविश्रत्यधिक्रागुलगत प्रमाणासपि निर्नीतलान् महा  
 वीराहीनांच केयाचिन्मतेन चतुरशीत्याद्यंगुल प्रमाणाणाङ्गवति विशिष्टाः खरादयः प्रधानफलदायिनो यतउक्तं अस्थिष्वर्थाः सुखं मांसे त्वचिभोगाः स्त्रिवो  
 क्षिपु गतौ यानं खरेचाज्ञा सर्वं सत्वे प्रतिष्ठितमिति गार्थार्थः एतेनांगुलप्रमाणेन पङ्गुलानि पादः पादस्य मध्यतः प्रदेशः पङ्गुलनिर्लीर्यः पादैकदेश  
 लात्वादः द्वौ च शुष्मी क्तौ पादौ वितस्त्रिः इ च वितस्त्रीरन्त्रिहंस इत्यर्थः रन्त्रिहयं कुञ्चिः प्रत्येकं कुञ्चिहयनिष्पन्नास्त षट्प्रमाणाविशेषादङ्गुलधुर्यं

अवसा पेसत्तण सुवेति ३ एणं अंगुल पमाणेणं छ अंगुलाद् पात्रो दोषाया विहत्थो दोविहत्थो रयणी दोरय

येष लक्षणशुं कहरणहारोके इति गार्थार्थं द्विवेजे अष्टोत्तर सो आंगुलना मानथी हीन अथवा अधिक ऊद् तेकेहवा तेकहेके हीणावागाहा  
 अष्टोत्तर सो आंगुलना मानथीहीणा अथवा अधिका जेपुरूप ऊद् खलुनिचै तिहां खर कइतां आदेयपथो अने प्रकृति गंभीर पणारिका  
 गुणालंकार ध्वनि तथा सत्व तेहीन भाव रहित मननुं अवष्टं तथा सार कइतां शुभ पुत्रक उपपथरूप शरीरनी शक्ति विशेष एतले  
 करी तेपुत्रव रहित ऊद् जेणे उत्तम पुरुषे पूर्वे पुण्यनो उपपथ अति घणो कस्यो ऊद् तेहना अवथा कइतां अणवाप्रता पणिऽशुभ  
 कर्मना विपाकना नसथी पेसत्तणसुवेति किंकर पणुं पामे एतले खरादियेष लक्षण पणानुं सहाइ के अने यथोक्त प्रमाणहीनाधिक पणुं  
 तेपनिष्ट फलनो देणशर जाणडुं निकेवल इमलधिये के भरत चक्रवर्त्यादिक आपणे आंगुले एकसो वीस आंगुल प्रमाण कही सुं क्वाहे

राजधनपतिविषयवर्षादिपुत्राणां अनामस्येव ३८४

त्रिंशत्सप्तगुणलक्षणः भवति अत्राद्योधुरी योगगताय हे धनु सृष्टेगद्युत घत्वारिगव्यतानियोजन एतेषु आयुज्यमाणेषु कियथोषणमितिगताय नवर येयदा मनुष्या भवति तेषां तदा आत्मानां गुणेन स्वकीयर कालसमवीन्यबटक्रदादीनिमीयत इति सटक सत अयट रूप साङ्गा खानितो जलायय विगेष भाष्यवतुरखा जलायय विगेषा पुन्व्रिण्या दत्तास्ता एव पुष्करवतोबा दीर्घका सारिण्य एष वक्राणुआलिका भण्य ते सर स्वय समूतो जलायय विगेष एष सरपतिवाउत्ति पत्तिभिय्यैयस्यापितानि सरासि सर पत्तय सररपतिवाउत्ति याससर पत्तिविक्रम्याखरसोऽयव ततोपि यन्यव क्पाटसघरकेनोदक सघरति ता सरर पत्तय विसपत्तय प्रतीता माधवीलतादियुदपत्याधीनि येष्वारमतिक्रीडति ते प्याराभा पुष्कफलादि सघद्वा

योत्रो कुत्थो दोकुत्थोच्चो दृड धणुजुगेनालिआ अकव मूसले दोधनूसहस्राद् गाउअ चत्तारिगाउआद् जोअण एएण आयगुलपमाणेण कि प्रभोयण एएण आयगुलेण जेण जया मनुस्साहवति तेसिण तथाण आयगुलेण अगड तलाग

अने श्रीमशशीरादिक केतला एकने मते चोरासी आदिक आंगुल प्रमाण कक्षाछे तेभणी तेहने विगिट खरादिक प्रधान फलना देणहार छद् जेभणी प्रन्यान्तरे कक्षोछे अस्थिखयी सुष मासे त्वपिभोग क्षियोचिपु गतो धानं खरेवाआा सर्व सत्त्वे प्रतिष्ठित । इति गार्थ तथा एणे आंगुल प्रमाणेकरे ह आंगुलनो पाद करतां पगतलनो मध्व प्रदेय ते छ आंगुल विसीर्येछे तेपगना एक देय पणायती पाद कश्चिये तेये एकठा करतां विरति छद् विडरतीये कुचि छद् अने कुचिहय निस्यन् प्रत्येक प्रमाण विगेष छद् दडधनु युगनालिका यच्चगुसल रूप तिनी अज तेधुरी योग दडधनु प्रसिद्ध तिषी येड सडधु धनुपे एकागाज अने विड गाउएँ एकयोजन अत शिष्य आठ एणे आजांगुरे करी किड प्रवीजना

अथानुगतं चतुर्विंशत्सप्तगुणलक्षणं

अथानुगतं चतुर्विंशत्सप्तगुणलक्षणं



ज्नेकदृष्टसंकुलान्युत्पत्तौ बद्धजनपरिभोग्यान्वुद्यानानि सामान्यदृष्टजातियुक्तानि नगराभ्यर्णवर्तीनि ज्ञाननानि शीर्षदृष्टकल्पितानिवा काननानि एक जातीयदृष्टाकीर्णानि वनानि अनेक जातीयैरुत्तमैश्चपादपेराकीर्णानि वनखंडानि एकजातीयानामितरेषां वा तरुना पंक्तयो वनराजयः संतोभजतेता मिति सभा पुरुषकवाचनभूमिर्वजनसमांगमस्थानंवा अथ उपरिख्व संमखातिका अथः संकीर्णो परि विस्तीर्णजातरूपाठ परिष्ठा प्राकारो परि आश्रय विधेयाः अष्टालकाः गृहाणां प्रकारस्य चांतरे अट्टश्रु निस्तारोहस्थादि संचारमार्गचरिका प्रतौली द्वाराणां परस्परतो अंतराणि गोपुराणि राजानां देवतानाच भवना ते प्रासादाः उत्प्रेथ बद्धलावा प्रासादाःधराणि सामान्य जातानां सामान्यानि शरण्यानि दृणमयावासरिकादीनि लयनान्युत्कीर्णपर्वत

**दह नदी वावि पुक्वरिणो दोहिय गुंजालिआओ सरा सरपंतिआओ सरसरपंतिआओ विलपंतिआओ आरारसु**

इहां उत्तर एणे आलागुले करी जेजिवारे मनुष्य ऊइ तेहने तिवारे आलांगुले करी तेकालना अषटादिकमनीइ ए संबंध तिहां अषट्ट तेकुप तडाग ते खणायुं जल स्थान विधेय इडा नदी प्रसिद्ध बावीते चोपणी पुक्वरिणी ते तेहज बाविटली अथवा पुक्वर कइतां कमल तेणे सहित तथा दीर्घि काते तेहज सारणी गुंजालिका तेवांकी बहती सरते खयं निसान जलस्थानविधेय तथासरपंति तेजेसर पंक्तिरूप कइया तथासरसर पंक्ति तेजेसरनीपनी पंक्तिने विधे एक सरथी बीजासरने विधे तेथी वली बीजासरने विधे कपाट संचारवैकरी उदक सांचरे अने विलपंति तेकुवानी पंक्ति प्रसिद्ध तथा आराम तेजिहां माघवीलतादिकने विधे स्त्री पुरुष आवीरमे सेयुनादिक खरूपे क्रीडा करे तथा उद्यान तेपुण फलादिक सखइ अनेक दृष्ट संकुल उत्पवादिकने विधे बद्धलोकने भोगववायोग्य तथा कानन तेसामान्य दृष्टजाति युक्त नगरने डेकडा अथवा कानन तेस्त्री पुरुष मध्य भावे ते एकज्ञाने भोगवणीक अथवा कानन तेजे भागलि पर्वत अथवा अटवी ऊइ अथवा कानन तेपूर्वोक्त सर्वथी पर्वतवत्ती ते अथवा कानन तेविनट दृष्टयुक्त तथा

नृणां गिरिगुहायां कार्यं टिकाद्यावासस्थानं वा आपणाच्छटा नानादृशाभ्यासितस्त्रिकोणोभभागविशेषः षट्पादकस्यापनाएव त्रिपथसमागमाद्यद्गण-  
 टकं त्रिकणं त्रिपथसमागमएवा तथा प्रभूतदृशात्रयचतुरस्रो भूभागचतुष्कपथा चतुष्पथसमागमएव चतुष्कचत्वर चतुष्पथसमागमएव पटुपथसमा-  
 गमोवा चत्वर चतुर्मुखदेवकुलिक्कादि चतुर्मुख मजान् राजसार्गमजपथ इतरे पथान् देवकुलसभादीनिपदानि क्वचिद्वाचना विशेषेण अत्रैवांतरे दृश्यन्ते  
 शकटगडडुकादि रथोद्दिधायानरथ सग्रामरथय ततसग्रामरथस्योपरि प्राकारानुकारिणी, कटौप्रमाणाफसकमयी वेदिकाक्रियते अपरस्यत्वसौ न भवतीति  
 विशेषेण यानगत्यादि जुगति गोलुविषयप्रसिद्धं द्विहस्तप्रमाणं चतुरस्रो वेदिकोपयोभित्ति जपान गिह्वन्ति इतिन उपरि कोष्ठरूपवायानामुप गिह्वतीव यि  
 क्षितिजाटानां यदपस्त्राण्य रूढतदन्वविषयेयुधिष्ठित्युच्यते सीयन्ति शिविका कृटाकाराच्छादितो जपानविशेषः सदमाप्यित्ति पुरुष प्रमाणा यामो

**ज्वाणकाण्य वणवगसडवणरार्द्धीश्चो देवलसभापवायुभूखाद्भ्रपरिहायो प्रागार अद्वालय चरिचदार गोपुर**

वनते एकजातिने दृष्टेकरी आकीर्णं तथा वनच्छते अनेकजातिने अने उन्नतदृष्टेकरी आकीर्णं तथा वनराजि ते एकजातिना अथवा अनेकजातिना  
 दृष्टमीपत्ति तथा देवकुलते सामान्य देहरो तथा सभा ते जेहने सत्युपभजे एतले पुराक पावन भूमि अथवा वज्जजन गिह्वानो ठाम् तथा प्रपाते  
 पर्यं तथा सूप ते सामान्य घतकना पांशुका संहित भोटलो तथा धार्दे ते अथो अने ऊपर समी तथा परिपाते परिपादेण पर अथो साकूली अने ऊपरि  
 विशीर्णं तथा प्राकारतेकोट तथा अहालक ते प्राकार ऊपरि आश्रय विशेषेण तथा परिष्का तेघरे अनेकोहने अतरे जे अठ असा विशीर्णं अस्यादिक सपर  
 वानोमार्गतां गोपुर ते प्रोख तथा प्रासाद ते राजाना अथवा देवताना जेघर अथवा प्रासाद ते जेहने उ घ पणो घण तथा घर ते सामान्य खोकनासामा  
 न्यपर तथा अरे ते त्रिणामय घर तथा लयन ते पर्यंतमांसे उकेसाघर अथवा लयने ते पर्यंतनी रुफा अथवा अचन ते कापडि आदिक वसवानुठाम तथा आषण

अंपानविशेष एव लोचिच्छि लोहीसंडनकादिप चनेकाकविष्ठी लोहकडाश्चिच्छि कोहमयं दृहलकं डिह्यं भाष्टं सन्वयादिभाजनं भातः नागभाजनाद्युपकरण  
माताया आधारविशेषः उपकरणंतनेकविधं कटपिठक सूर्यादिकं श्रेष्ठं यद्विद्वि कश्चिच्छि चिच्छि व्याख्यातं तस्यु गमत्यादिति संतथ्यं तदेवमात्मागुलेना  
स्त्रीयात्मीयकालं संभवीनिवस्तुन्यद्यकात्मीनानिच योजनानि मीयंते ये यत्न काले पुरुषा भवंति तदपेक्षयाद्यगन्दो द्रष्टव्यः द्रष्टव्यांगुलं सूच्यंगुलादि

पासाय घर सरण लयण आवण सिंघाडग तिग चउक्क चउसुह महापह पहा सगड रह जाणजुण गिच्छि धिच्छि

तेचट तथा शृंगटक तेनाना प्रकार घर संयुक्त त्रिपूणो भूमिहं भाग अथवा शृंगटक तेसिंघोडाने आकार त्रिणि पंथनो सनागस स्थापना तथा  
त्रिन्न तेजिज्ञा त्रिणि सेरी एकठी मित्ते तथा चोक्क तेप्रभत घर संयुक्त चोकोण भूमिभाग ततस्थापना अथवा चउक्क तेच्यारि पंथनुं समागम तथा चउर  
तेच्यार पंथनुं समागमज अथमा ए पंथनुं समागम तेचाचर कहिये तथा चउसुं ए तेमोटो देहरो तथा मचापंग तेराजसांण अने अनेरामार्ग ते  
पंथ कहिये इहां किसी एक वाचनाने विपे देव कुलसभादिक पर एहज आतराने विपे दीसे छे तथा श्रयट ते प्रसिद्ध तथा रथ ते द्विविध एक  
थान रथ वीजो संग्राम रथ उपर कोहने आकारे हस प्रमाण पाटियानीवेदिका करीये अने बीजाने एन छद्द एतलो विगेष तथा यान तेगंत्यादिक  
तथा सुय तेगोस देस प्रसिद्ध विहस प्रमाण चोक्कीवेदिका छपयोभित अंपान विशेष तथा गिच्छी तेच्योनी अंघाडो जेमसुयने गिले तथा धिमीते  
जेलाट देगनो पलाण तेअनेरा देगने विपे धिच्छी कहिये तथा यिविका तेकूटने आकार आद्याद्योअंपान विशेष तथा सादमानी तेपुरुष प्रमाणलावी  
अंपानज विशेष तथा लोहीते कोहमय माडादिक पचवानी लोहकडाच तेसोहसदे कढारं तथा कडिहण तेलोहयमद् कडिलुं तथा मांड  
तेहन्तिकामयादिक भाजन तथा मत्तते काश्य भाजनादिक तथा उपकरण तेअनेकविध कटपिठक सूर्यादिक ते इम आत्मागुले करी आपणार

भेदातिविध तत्र दीर्घ्यांगुलान्त्यात्त्वत्स्वेक प्रदेशिकीनभ प्रदेशेत्रेणिय एवमुच्यते एतच्चज्ञावतो सख्येय प्रदेशास्यसकल्पनया सूर्यागार व्यवस्थापित प्रदेशयत्नयनिष्पन्न द्रष्टव्य तज्जया सुचीसूत्रेण्येवगणिता प्रतरांगुले इदमपि परमार्थतो सख्येय प्रदेशात्मक असङ्गापतस्त्वेपयानतरदर्शिता ति प्रदेशालिकासुचिसूत्रैश्चैव गुरुयते अत प्रत्येक प्रदेशयत्नयनिष्पन्नसूचीवयात्मक नवप्रदेश सख्यसपद्यते स्थापना प्रतरयसूर्यागुणितोदैर्घ्याय विष्य भत पिण्डतयसमस्य घनांगुल भवति दैर्घ्यादिषु त्रिष्वपि स्थानेषु समतालक्षणेस्यैव समयचर्यया घनस्यै च ऊढत्वात्प्रतरांगुलतुदैर्घ्याविक्र भाग्यामेव चम न पिण्डतस्यैकप्रदेशमानत्वादिति भाव इदमपि यस्तुष्टव्याऽसख्यय प्रदेशमान असत्प्रकरणयातु सप्तविंशति प्रदेशात्मकं पूर्वीक्त सूर्या अपनतरोप नय

सिवेश्व सदमाणिआश्री लोहो लोहकडाह कडिल्लय भडमत्तोवगरगमाईणि अक्ककालिआइ च जोसशाइ मविल्लति  
से समासओ तिविदे पणत्ते तजहा सूइ अगुले पयरगुले षणगुले अगुलायया एगपरसिया सेठी सूइ षगुले सूइ

कालनी यस्तु अने आजनकालनायोजनसमीइ इहां अद्य यच्च तेजेकालने विपे जेमनुष्प ऊइ तेइनी अपेजाये जाणवु दूर्षा वाघनान्तरना वियेय स्वमेव यमोववा णिये तेचालांगुल सञ्चेषथी तिल्ल भेदे प्ररूपो तद्यथा सूर्यांगुल प्रतरांगुल घणांगुल तिर्षा दीर्घ यणे आंगुललायी अने वाङ्मल्ययी एक प्रदेशनी आकाशनी तेसुची आंगुल कणिये एसङ्गावथी असत्त्वात प्रदेशतु छतु यच्च असत्कल्पनाइ सुचिने आकारे माद्या प्रदेश त्रिणि निसख्य जाणवु तथा सुचिसयते गुणी ऊती प्रतरांगुल ऊइ एनिणि परमार्थयी असत्त्वैय प्रदेश रूपळे अने असङ्गाव कल्प नायी पूर्वदर्शित त्रिणि प्रदेश रूप सूचीते तेइज सयते गुणीये तियारे प्रत्येक प्रदेश त्रिणि निसख्य सूचीत्रिण रूप नभ प्रदेशतु प्रतरानीपजे तेइनी स्थापना अने तेप्रतर यवी

सूर्यागारस्यैकप्रदेशिकीनभ प्रदेशेत्रेणिय एवमुच्यते एतच्चज्ञावतो सख्येय प्रदेशास्यसकल्पनया सूर्यागार व्यवस्थापित प्रदेशयत्नयनिष्पन्न द्रष्टव्य तज्जया सुचीसूत्रेण्येवगणिता प्रतरांगुले इदमपि परमार्थतो सख्येय प्रदेशात्मक असङ्गापतस्त्वेपयानतरदर्शिता ति प्रदेशालिकासुचिसूत्रैश्चैव गुरुयते अत प्रत्येक प्रदेशयत्नयनिष्पन्नसूचीवयात्मक नवप्रदेश सख्यसपद्यते स्थापना प्रतरयसूर्यागुणितोदैर्घ्याय विष्य भत पिण्डतयसमस्य घनांगुल भवति दैर्घ्यादिषु त्रिष्वपि स्थानेषु समतालक्षणेस्यैव समयचर्यया घनस्यै च ऊढत्वात्प्रतरांगुलतुदैर्घ्याविक्र भाग्यामेव चम न पिण्डतस्यैकप्रदेशमानत्वादिति भाव इदमपि यस्तुष्टव्याऽसख्यय प्रदेशमान असत्प्रकरणयातु सप्तविंशति प्रदेशात्मकं पूर्वीक्त सूर्या अपनतरोप नय

सूर्यागारस्यैकप्रदेशिकीनभ प्रदेशेत्रेणिय एवमुच्यते एतच्चज्ञावतो सख्येय प्रदेशास्यसकल्पनया सूर्यागार व्यवस्थापित प्रदेशयत्नयनिष्पन्न द्रष्टव्य तज्जया सुचीसूत्रेण्येवगणिता प्रतरांगुले इदमपि परमार्थतो सख्येय प्रदेशात्मक असङ्गापतस्त्वेपयानतरदर्शिता ति प्रदेशालिकासुचिसूत्रैश्चैव गुरुयते अत प्रत्येक प्रदेशयत्नयनिष्पन्नसूचीवयात्मक नवप्रदेश सख्यसपद्यते स्थापना प्रतरयसूर्यागुणितोदैर्घ्याय विष्य भत पिण्डतयसमस्य घनांगुल भवति दैर्घ्यादिषु त्रिष्वपि स्थानेषु समतालक्षणेस्यैव समयचर्यया घनस्यै च ऊढत्वात्प्रतरांगुलतुदैर्घ्याविक्र भाग्यामेव चम न पिण्डतस्यैकप्रदेशमानत्वादिति भाव इदमपि यस्तुष्टव्याऽसख्यय प्रदेशमान असत्प्रकरणयातु सप्तविंशति प्रदेशात्मकं पूर्वीक्त सूर्या अपनतरोप नय

प्रदेशालके प्रतरे गुणिते एतावतामेव प्रदेशानां भाषा देशाच्च स्थापनां अनंतरं निदिष्टा नवप्रदेशालक प्रतरस्याप उपरिच नवर प्रदेशान् दत्त्वा भाषानीवा तथा देशप्रविष्यं भ पिंडेस्तुत्यामिदमापद्यते एएसिगंभंते इत्यादिना सूत्र्यंगुलादि प्रदेशानमल्पवृद्धत्वपिता यथा निदिष्टन्यायानुसारतः सुखावसोयैच तदेतदाकांगुलमिति अथोत्थे धांगुलनिर्णयार्थमात्र चेकितं उत्थे धांगुले इत्यादि उत्थे धो अणंताणं सुद्धसपरमाणुगलाणमित्यादि क्रमेणोच्यते इति नयनं तस्माज्जात मंगुलसुत्थे धांगुलं अथवा उत्थे धो नारकादि शरीराणां सुत्थे स्वंतत्वस्वरूपनिर्णयार्थमंगुलसुत्थे धांगुलं तच्चकारणस्य परमाणात्सरेखादेर

सूत्रगुणिया पथरंगुले पथरं सूत्रगुणितं घणंगुले एएसिगं सूत्रंगुल पथरंगुल घणंगुलाणं कथरेऽ हितो अप्पावा वृद्ध यावा तुष्ठावा विसेसाहियावा सव्यथोवे सुत्रंगुले पथरंगुले असंखिज्जगुणे घणंगुले असंखिज्जगुणे सेतं आयंगुले

सूची गुणोकरिद्धं तिथारे दीर्घं पणे पिङ्गल पणे पिंड पणे समसंख्य घनांगुल ऊद्ध जेभणी दीर्घादिक त्रिणि ठामने विपे समपणानेज सिद्धान्तय्यवहारने विपे घनए यब्द रुद्धे अने प्रतरांगुल तो दीर्घं पणे घनांगुल ऊद्ध जेभणी दीर्घादिक त्रिणि ठामने विपे समपणाने अने विस्संभ पणेज सरणो ऊद्ध परं पिंडथी तुल्य न ऊद्ध पिंड तेएकज प्रदेशुंछे तेभणीघनांगुल पणि यस्तुथी असंख्यात प्रदेशमानत्वे अने असत्कल्लनाथी सत्ताथीस प्रदेश रूप चांगणुं जेभणी पूर्वीक सूची संघाते अनन्तरोक्त नव प्रदेशरूप प्रतर गुणीद्धं तिथारे सत्ताथीस प्रदेश ऊद्ध एसत्ताथीस प्रदेशनी स्थापना पूर्वेदेपाडी छे जेनव प्रदेश रूप प्रतर तेरुने हेठे अने ऊपर नव नव प्रदेश देरने भावथी तिम करतांकांन पणे पिङ्गल पणे अनेजाड पणे मिड्डं प्रकारे करीं तुल्य पणुया इ एएसिगं इत्यादिक सूत्रे करी सूची अंगुलादिकना प्रदेशतुं अल्प वृद्धत्वपणुं सूत्र सिद्धज्जे सेतं तेए आकांगुल अथोत्थेधांगुलमात्र सेकितं

राव वनपत सिंधु वाणदेरका कागत संयुक्त भाग ४४३

नेकविधत्वाद्नेकविध प्रश्नत तदेव कारणानेकविधत्व द्रयंयति तद्येत्यादि परमाणु इत्यादि गाथां सूत्रकृतस्वयमेव विबरीपूरुष सेकित परमाण इत्यादि परमाणु द्विविध प्रश्नत सूत्रम् व्यवहारिकस्य सूत्र सूत्रप्रकृतस्वरूपा स्यात् प्रतिस्थायोऽनधिस्तत इत्यर्थं सेकित व्यवहारिए इत्यादिननु कियच्चि सूत्रम् नेकविधत्वाद्नेकविध प्रश्नत सूत्रम् व्यवहारिकपरमाणुनिष्पद्यते। अतोत्तर अनताण मित्यादि अनताना सूत्रपरमाणुपुत्रकानां सबधिनो येससुदाया दृशानि तेयावा ययिकपरमाणुभिरेको व्यवहारिकपरमाणुनिष्पद्यते। अतोत्तर अनताण मित्यादि अनताना सूत्रपरमाणुपुत्रक एको निष्पद्यते इदमुक्त ययति समितयो यद्वानि मौलनानि तासां समागम संयोग एकी भयन समुदय समिति समागम सो न व्यवहारिक परमाणुपुत्रक एको निष्पद्यते इदमुक्त ययति निश्चयनव कारणमेव तदत्यत सूत्रम् नित्यव भवति परमाणु एकरसवर्णगधोद्विष्यर्गं, कायैलिंगयेत्यादि लक्षणश्चिह्न निर्विभागमेव परमाणुमिच्छतियस्त्वे ते

सेकित उत्त्सेहगुलेर् अणेगविट्टि प्रणत्ते तंजहा परमाणु तसरेणु रहरेणु अग्रयच वालस्य लिक्खा जून्नाय जवो अठ्ठ गुणविवद्विन्ना कमसो १ सेकित परमाणुर् दुविहे प्रणत्ते तजहा सुऊमेअ व्यवहारिएअ तत्यण जेसे सुऊमे सेठम्पे

तिष्ठां चच्छय कर्ता अमुक्ते दृष्टिनु कारु तेथीनीपनो जे आंगुल तेत्तत्सेधांगुल कश्चिये अयवा उत्तत्सेधांगुननारकादिकना शरीरनु छ वपण तेइनु निर्णय करवाने अर्थे जे आंगुल तेत्तत्सेधांगुल कश्चिये ते आंगुलनाकारण परमाणु तसरेखादिक अनेक भेद छे तेभणी तेअनेक भेदे प्ररूप्य, तद्यया तेइज कारणनु अनेकविध पणु देखाडेके परमाणुंगाहा सुगमा तिष्ठा परमाणुअने सूत्र कर्ता स्वयमेव विवरवा इच्छतो कहेछे सेकितं० परमाणुद्विवध प्ररूप्यु तद्यया सूत्रम् अने व्यवहारिक, तिष्ठाजे, सूत्र परमाणुना स्वरूपनु कश्चिवो तेस्याय कर्ता राइवा देज तेइतो अधिकारनयो तेभणी सेकित व्यवहारिए केतने सूत्रम् नित्य परमाणुवे करी एक व्यवहारक परमाणुयोनीपने इर्षा उत्तर अनता सूत्र परमाणु पुत्रक सबधीयाजे सउदाय

रनेकैर्जायतेतसाश्रत्वात् स्तंभमेवम्पदिशति व्यवहारस्तदानेकतोनिष्पन्नोपि यः शस्त्रच्छेदाग्निदाहादि विषयो नभवति तमद्यापि तथाविधस्यूलताप्रतिपत्तेःपरमाणुत्वेनश्चाहरति ततोसो निश्चयतःस्तंभोपि व्यवहारनय मध्येष व्यनहारिकः परमाणुरक्तः नचवक्तव्यमयं तर्हिशस्त्राच्छेदादिविषयोभवति यतस्तान्निषेधार्थमेवप्रश्नसुत्वात्प्रायति सेरणं भंतेइत्यादि समदंत व्यवहारिक परमाणूः खड्गसहस्रारंवा क्षुरोनापितोपकरणं तद्वहारांवा अवगाहेत आकाशेद्वीत्तरं हंतावगाहेति हंतैतिकोमला मंतवणे अशुपगमद्योतनेवा अवगाहतेति शिष्यपृष्ठार्थं स्यात्पुनः पृच्छति सतलावगाहः संछिद्यै तवा विधा क्रियेतभिव्ये तवा अनेकधाविदायैत सूत्र्यादिना वस्त्रादिवहासच्छिद्रः क्रियते उत्तरमाह नायमर्थः समर्थ ' नैतदेव मितिभावः अतोपपत्तिमाह न खलु तल शस्तं क्रामतिः इदसुक्तं भवति यद्ययनंतैः परमाणुभिर्निष्पन्नाः काष्ठादयः शस्त्रच्छेदादि विषया इहा साथायनंतकस्थानंतभेदत्वात्वावत्प्रमाणैरेव

तत्पणं जे से व्यवहारिए सेणं अणंताए सुद्धमपोगलाणं ससुदय समिति समागमेणं व्यवहारिए परमाणुपोगले

कहता इदं तेहनी जेसमिति कहता घणाहं दणुं एकठामिलवुं तेहनुं जेसमागम कहता संयोग एकीभाव रूप तेससुदय समिति समागम तेणे करी एक व्यवहारक परमाणु पुज्जलनीपजे एतले पत्तंत सूद्ध नित्यानिर्विभांग एकीभूत परमाणु निश्चयनयमाने अने एणे अनन्ते करी जेनीपजे ते अंश सहित पणाथी निश्चयनय सूक्तज कहे परमाणुं न कहे व्यवहारनय ते अनेक सूद्ध परमाणुं इनीपनो पणि जे अजी शस्त्रच्छेद अग्निदाहादिकने गस्य न उद्ध ते अजी तथाविध स्थलपणुं नही पास्यो तेभणी परमाणुं पणे व्यवहार तेभणी निश्चयनयनेमते सूक्त्य एणे व्यवहारनयनेमते व्यवहारक परमाणुच नोलीइ शिवे तेकदाचि शस्त्र छेदादिक गस्य उद्धवालहे तेभणी शिष्य प्रश्न करेके हेभदंत तेव्यवहारिक परमाणुं च कदाचि असि कहतां पडग तेहनी धाराने अथवा क्षुर कहतां क्षुरा पाकणा तेहनीधाराने अवगाहे कहतां आक्रमे इहा उत्तर हंता इति कोमलामंतवणे

परमाख्यगतकेन निपपन्नासौ व्यवहारिक परमाणुयुक्तो यावत् प्रभाषेन निष्पन्नो व्यापिसूक्ष्मत्वाच्च शब्दच्छेदादि विषयतामासादयतीति भावः पुनरप्याह स भद्रताग्निकायस्य बद्धे मध्य मध्येनांतरव्यति त्रजे ब्रह्मकेतु तैत्थ्याद्युत्तर पूर्वपञ्चवर शस्त्रमिष्टाग्निशस्त्राद्या पन पृच्छति सेषा भते पुस्कले इत्यादि इदमपि सूत्र पूर्ववद्भावनीय नवर पुष्कर सर्वर्तस्य महाभेषस्थेय प्ररूपणा इहोत्सर्पिण्यामेकवियतवर्षं सप्तस्र मानेदुषमदुषमालजणे प्रथमार

निष्पन्न इ सेषा भते असिधारवा खुरधारवा लुगाहेज्जा इतालुगाहेज्जा सेषा तस्य छिज्जेज्जावा भिज्जेज्जावा नोदृण्डे समुद्रे नोखल तस्यसत्यं कम्पद्र सेषाभते अगणिकायस्य मज्जमज्जभोगवोद्वएज्जा इताविद्वएज्जा सेषातस्य नसेज्जा नोदृण्डे समुद्रे नोखलु तस्यसत्यकमद्र सेषाभते पुक्खरसुवट्टगस्य मङ्गामेहस्य मज्जमज्जभोगेण वोद्वएज्जा इताविद्वएज्जा

अथवामानवने अथ प्रवर्तं अवगाहे एगिय पूष्या अयंतुमानवातु वचन वली शिय पूरुहे तेव्यवहारिक परमाणुचो तिष्ठा अवगाह्या इतो च्छेदाद्ब्रह्मा इद्व अथवा भेदाद् भनेक खड्ड इद्व अथवा सूरे आदि के वस्त्रादिकनी परे सखि द्रुड इद्व इद्वं उत्तर नायमर्थं समर्थ एद्वम नही एभाव चिचे युक्ति कहेछे खलु निषय इद्वं यस्तकमेनदी कहतां वहेनही यस्तने गीषरनही एभाव एतले यद्यपि अमना परमाणु नियन्त्र काटादिक शस्त्रच्छेदादिकयोग्यछे तथापि अतन्ताना अनन्ता भेदछे तेभणो तेनलीजे अनन्त परमाणु येनीपनो एव्यवहारिक परमाणुलीजे एतया परमाणुनो गीपनो तथापि सूक्ष्म पणायीयस्ता दिक गोचर नयाद् एभाव वली पूरुहे तेभदत अग्निकायने मध्यव्यतित्रजे जाद् इद्वं उत्तर इन्ता कहता षा स्मृति त्रजे जाद् वली पूरुहे तेतिष्ठा णसेज्जा कहता वले इद्वं उत्तर नायमर्थं समर्थ इम नही एभाव चिचे युक्ति कहेछे खलु निषय तिष्ठा यस्त अग्नि उपक्रमे नही बहे नही सेषाभते

अनु टी०

२२३

खल

भाषा



केतिक्रांते द्वितीय यस्यादौ सकलजनस्याभ्युदयार्थं क्रमेणामी पंचमशामेघाः प्रादुर्भवियंति तज्जया पुष्कलसंवर्त्तना उदकरसः प्रथमः द्वितीयः क्षीरोद सुतीवो  
 हतोद चतुर्थोदतोदः पंचमोरसोद सातपुष्कलसंवर्त्तोऽस्य भरतक्षेत्रस्य पुष्कलं प्रचुरमपिसर्वमशुभाशुभावं भूमिकरुचितादाद्योदिकं प्रशसोदकेन संवर्त्त  
 यति नाशयति एवं शेषमेघ व्यापारोपि प्रथमानुयोगादगतं तत्र्यः उदउल्ले सियत्ति उदकेनाद्रः स्यादित्यर्थः गच्छता चातोदकस्यावसेवा सेणं भंते गंगायि  
 इत्यादि गंगाया महानद्याः प्रतिश्रोतो ह्यर्थं यीम्रमागच्छेत् पूर्वाद्यभिसुखेगंगा प्रवाहे वृत्तिसति पश्चिमाद्यभिसुखः सभागच्छेत् सध्याननेनेति भावः विविण्णशव  
 मित्यादि विनिघातसाश्रोतसि प्रतिखलनंतमापद्यते प्राप्नुयाच्छेपं पूर्ववत् सेणं भंते उदगावत्तमित्यादि उदकावत्तोदक विंदोर्भ्यश्चैष्वगाह्यतिष्ठेदित्यर्थः

सेणं तत्प्य उदउल्ले सिञ्चा नोदुच्छे समदृ शेखलु तत्प्यसत्यं कम्पद् सेणं भंते गंगा ए महाणदी ए पडिसीयं ह्वस्वमागच्छे  
 ज्जा हंता ह्वस्वमागच्छे ज्जा सेणं तत्प्यविधिषायमावज्जेज्जा नोदुण्डु समदृ शेखलु तत्प्यसत्यं कम्पद् सेणं भंते उदगावत्त

पूर्ववत् नवरं पुष्कर संवर्त्तक सभा मेघनी ए प्ररूपया दृशां उदर्यिञ्चिने विषे एकशोच सशत्रुवर्ष प्रमाण दुःषमदुषमाज्जालने अंते पुष्क  
 रोद मेघवरसे वीजोक्षीरोद मेघ तीजो हतोद मेघ चोयो अस्ततोद मेघ पापमोरसोद मेघ वरसे तिसां पुष्कर संवर्त्तते ते ए भरतक्षेत्रेण पुष्कल  
 कश्चता सगता अशुभानुभाव भूमिका रुचिता दाहादिक पाणीं करो संवर्त्ते नाशकरे तेभ्यो पुष्कर संवर्त्तक कश्चिये एवं गेप मेघनुं व्यापार  
 पश्चि प्रथमानुयोगबी जाणवो वली पूरुहे ते तिहा उदल्ले सि चापाणीं करो अलो क्कद् गेपं पूर्यवत् नवरं गच्छ पशो दृशा उदकनेज जाणवो  
 वली शिष्य पूरुहे हेभदंत गंगामहानदीना प्रतिश्रोत प्रतिरुध्वं अचता यीम्रमागच्छे जाण पूर्वाभिसुख गंगाप्रवाग तेवृत्तै यके पश्चिमाभिसुख

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

सचतत्वादक सफाीत कृयेद्वापूतिभाव यायात्पयीपद्ये तवा जल रूपतवा परिणमेदित्यर्प यपतयैव पूर्वोक्तमेवाये सद्येपत प्राप सत्येणगाथा गतार्यो नवर लक्षणेवास्ये दमभिधीयते न पुनसा कोपिच्छे नु भेनु आरगत पूत्नेतल्लजयदेन ध्रुवयति सिद्धन्ति ज्ञानसिद्धा केवलिनो नटासिद्धा सिद्धिगता सो पा यचनखा सत्त्वादिति अनतानो व्यवहारिक परमाणु पुत्रलागां समुदव समिति समागमेनया 'परमाद्यु' तेतिगम्यते सा एका अतिशयेन सृष्ट्या सृष्ट्या

व्या उदगविदुवा उगगाहेज्जा हताउगगाहेज्जा सेणतत्यशुच्छे ज्जावा योदुखद्वे समडे नोखलु तत्यसत्यकमइ सत्येणसु तिक्तयेणवि छित्तु भेतु चनकिरनसक्का तपरमाणु सिधा वयतिआइप्पमाणाण १ अणताण वव वारिअपरमाणापोग्ग

तेमाहे छदने आवे एभाव दृष्टा उत्तर इता कश्चता योप्रवागच्छे वली पूछेते तेतिष्ठां खोतने यिपे विण्णिवावभावज्जेज्जा० खलाथा पणुपामे योपन्तेषेव वली गिण्य पूछे तेभदत उदकावर्तं मध्वे अथवा विदुमध्वे अवगाहे रठे दृष्टा उत्तर तथैव वली पूछे ते तिष्ठां उदकनासयोग थी कुरे पूतिभाव पणो पामे अथवा परि आरज्जेज्जा जलरूप पणो पामे इत्यर्थं दृष्टां उत्तर तथैव द्विषे पूर्वोक्त सद्येपवी कहेछे सत्येणगाथा प्रकटा नवर सज्जणज एइनो बोलीये पर तेइने छेदेवे कोइ प्रादभे गही तथा सिद्धने दृष्टा ज्ञान सिद्ध केवली लेवा पर सिद्धि गति नही जेअथो तेइने वचन नयी इति गायार्थं द्विषे अनन्ता अथहारक परमाणु पुत्रलने समुदव समिति समागमि करो तेपरमाण अतिवि जेअच्छा तेअच्छा सृष्ट्या तेउजसु नाम तेअज्जण सृष्ट्याका कच्चिये द्विषे अनेआगलाप्रमाणनो अपेआइ उदभावत्यपणेकरी उअच्छासद्यणिका कच्चिये इतिशब्द तेस्वरूप देखाडिवाते अर्थे वा यन्दते आगिला नीअपेवाये समुच्चये तथाएउसएइसिद्धिवादिक यद्यपि यथोत्तर अटणुपपणेकरी कच्चिये तथापि प्रत्येकरअनन्त परमाणु निज्जय पणानो उख्यपणु अति

अनु टी०

२२५

सूत्र

भाषा

याषोत्तरवैक्रियाश्च ननु शरीरावगाहनाया प्रमाणे दृष्टे न द्विविधलक्षणभेदकथनसपस्तुतमिति चेन्नैवं तत्प्रमाण कथनागतात्तस्य हि विलक्षण प्रमाण युक्तेन भेदकथनेन व्यवस्थिताया अवगाहनायासङ्गेदकथनमंतरेण प्रतिनियतं किंप्रत्यसायं प्ररूपयितुं यद्यत्ते भेदोपन्यासेतु प्रतिभेदनिमित्तं तत्कथ्यत इति भावस्तत्र भवेनारकादि पर्याय भवनलक्षणे ष्यायुः समाप्तिं यावत्ततं प्रियते या सा भवधारणीया सञ्जगशीरगतैस्त्वर्थः यातुतञ्च, षणोत्तरकाल कार्यमाश्रित्य क्रियते सा उत्तरवैक्रिया तत्र भवधारणीया जन्मन्तोऽगुंलासंख्येय भागमात्रा उत्पद्यमानायां उत्कृष्टात् पंचवधुः यत्तमाना सप्तमष्टयिथ्या उत्तरवैक्रियात्वाद्यसमयेषु गुणस्य संख्येय भाग एव भवति तथाविध प्रयत्ना भावतोऽसंख्येयस्य भागस्य कर्तुं मयशक्यत्वादिति भावः उत्कृष्टस्तु यधुः सञ्जग

प्रणत्ता तंजहा भवधारणिज्जाय उत्तरवेड्विआय तत्थणं जासा भवधारणिज्जा सागंजहण्येणं अंगुलस्य असंखेज्जइ भागं उक्कोसेणं पंचधणु सयाइ' तत्थणं जासा, उत्तरवेड्विआ साजहण्येणं अंगुलस्य संखेज्जइ भागं उक्कोसेणं धणु

अवगाहना कश्चिये तेनारकादिकचुं शरीरञ्च जाणयो तेभवगाहना केवढी मोठीपूज्ये तथा षनेरेतीयंकरे प्ररूपी इहां श्रीभगवन्त गोतमने षामंवीनेउत्तर दीयेहे हेगोतभविकुं भेदे प्ररूपी तद्यथा भवधारणीय षनेउत्तरवेक्रिय इरुंकोई इमकहे जेगरीरनी अयगाहनातु प्रमाण पूर्येउते तेयरीरुं द्विविध रूप भेदुं कचुं अयुक्त इहां उत्तर तिमए नही जेभणी तेचवगाहनाना प्रमाणने कचयानुं कारखे तेहना भेदुं कश्चियुं एतले जूज्जा प्रमाण युक्त विकुं भेदने विपे रही अयगाहना कही सकीये नारकीना नियरूप किसुं इ प्रमाण अत्थं, न जाइ षने भेद कस्ये उते जूज्जा भेदनी जूरे जूइ अयगाहना कहाय तिसां भव कहतां पर्याय रूप तेहने आयु समाप्त जगे जेनिरंतर शरीये तेभवधारणीया कश्चिये अहज गरीरना एभाय षने जे तेयाहा

राय वनपनिषिष वलदेरिका यानम संयव भान ४४५५

प्रमाणा सप्तमष्टयिष्यमेव उत्पद्यते नारकाणां शरीरावगाहनामान प्रतिपाद्य तदेव विधेयतो निरूपयितुमाह रयण्युषापुटवी इत्यादि सूत्रसिद्धमेव नवर सुतलटावगाहना सर्वास्वपि द्यविकोपु स्वकीयर चरमप्रसंटेपु द्रष्टया भवधारणीयाद्योतलटाया सकाशादुत्तरवैक्रिया सर्वत्र हिरुणावसेया तदेव नैरदया

सहस्र रयण्युषापुटवीए नैरदुश्चाणभते के महालिआ सरीरोगाहणा पयत्ता गो दुविहा पयत्ता तजहा भवधार णिज्जाय उत्तरवेडवियाय तत्यण जासाभवधारणिज्जा साजहन्नेण अ गुलस अ सखिज्जाइभाग उकोसेण सत्त धणूइ तिणि रयणीओ छच्चत्रगुलाइ तत्यणजासा उत्तरवेडविया साजहन्नेण अ गलससखेज्जाइ भाग उकोसेण पणरसधणू दोन्निरयणीओ वारस अ गुलाइ सक्करप्पभापुटवीए नैरदुश्चाण भते के महालिआ सरीरोगाहणा पण ता गो दुविहा पयत्ता तजहा भवधा० उत्तरवे० तत्यण जासा० साज० अ गुलसअ० उकोसेण पणरसधणू इं दुणिर यणीओ वारसअ गुलाइ तत्यण जासा उत्तरवेडविया साजहन्नेणअ गुलस सखेज्जाइ भाग उकोसेण एकतीसधणूइं इक्करयणीअ वालुअप्पभापुटवीएणेरदुश्चाणभते के महालिआ सरीरोगाहणा प गो दुविहा पयत्ता तजहा भवधा०

पथी पागिला कालने विधे कायं पात्री करीये तेउत्तरवेक्रिया कडिने तिणं भवधारणीय तेउवन्यथी पांगुलना असल्यातभागा जाणवी तेउपज्जानी वेलाये छइ एने उन्नलट पांचसे धनुप तेसातमीनारकी पात्री तिणं जेउत्तरवेक्रिया तेउतलटथी सख्ख धनुप सातमीनरस पात्री

अथ टी० २६८ सूत्र भागा

असुराई पुढवाईवेदियादुत्तहय पंचेदितिरियनरा व्यंतरजोईसियावेमाणीति समयप्रसिद्ध घटविंशति दंडकस्याद्यपदवगाहनामानं निरूपितं सांप्रतम  
 उत्तरवे० तत्पणं जासा भव० साज० अंगुलस्रअ० उक्कोसेणं एकतीसंधणुइं इक्कारयणीअ तत्पणं जासा उत्तर० अंगु  
 लस्र संखेज्जइ भागं उक्कोसेणं वासद्धिधणुइं दोरयणी उत्तर एवं सव्वासिं पुढवीखं पुब्बा भाणियव्वा पंकाषभाए पुढ  
 वीए भवधारणिज्जा, अहखेणं अंगुलस्र असं० उक्कोसेणं वासद्धिधनुइं दोरयणीउत्तर उत्तरवे० जहखेणंअं० उक्कोसेणं  
 पणवोसं धणूसयं धूमप्यभाए भवधा० अंगुल० उक्कोसेणं पणवोसं धणुसयं उत्तरवे० अंसंगुलस्र संखे० उक्कोसेणं  
 अइइज्जाइं धणूसयाइं तमाए भवधारणिज्जा० अंगुलस्र असं० उक्कोसेणं अटाइज्जाइं धणूसयाइं उत्तरवे० अंगु  
 लस्रसं० उक्कोसेणं पंचधणूसयाइं तमतमाए पुढवीए नेरइयाणं भंते केमहालिआ सरौरोगाहणा पं० गो० दुविहा  
 पखत्ता तं जहा भवधारणिज्जाय उत्तरवे० तत्पणं जासा भवधारणिज्जा साजहखेणं अंगुलस्र असं० उक्कोसेणं  
 पंचधणु, सयाइं तत्पणं जासा उत्तरवे० उक्कोसेणं धणुसहसाइं असुरकुमाराणं भंते

उइ अने जर्धयथी आंगुलनो संख्यात सोभाग उइ तयाविध यक्तिना अभाबकी असंख्यातसोभाग विकुर्वीनजाइ तेअणीएतवेओषधीनारकीना यरीरनो  
 अवगाहनानो मान कहनी ते हजनुं मानविशेषथी कहिमेछे तेसूत्रनिषण्णार्थं तेइमनेरईआअसुराइ पुढवाई वेयंदियादुत्तहय पंचेदियतिरियनरा व्यंतर  
 जोइसिअवेमाणि इति सिद्धान्त प्रसिद्ध चोवीस दंडकना आद्य पदने विषे अवगाहनानोमान देखाखीने विषे असुरादिकने विषे तेइनोमान कहिछे

सुरादिपदेतन्मान निरूपयितुमात्र असुरकुमारारणा भते केमकाशियायेत्यादि सर्वपाठसिद्ध नवर उत्तरवे क्रियावगाहना नापि जषत्याअणुलस्य सख्येय भागएभोगुल्लटाठ दृगस्वपिनिकायेपु योजययतसहस्रमाना अन्वेत्वाङ्क गागकुमारादि नवनिकायेपूत्तष्टा योजन स्रष्टुमानेवेति अथ दृथिव्यादि पदवगाहमानमात्र पुढविक्रयेण भतेइत्यादि इहोधिक दृथिवीकायिकानां प्रथमअवगाहनामान निरूपयते । तत्रकोपानेवोधिकस्रष्टुमाणां तत स्रष्टुमाणांमप्य पर्याप्तानोऽ तथा वृक्षांशानां४ ततोपानेवापर्याप्त विद्योपितानां० तेषु च सप्तस्थपि स्थानेषु दृथिवी कायकानामगुलासख्येयभागएवावगाहना किलसख्येय कस्य असख्येय भेदत्वेन तस्मापितारतम्यसमभो जषत्योत्तृष्टता विचारो न विरुध्यते एवमप्यतेजो

केमहानिआ सरौरोगाहणा प गो दुविहा प० त० भवधारणिका उत्तरवेत्तृष्टिआ तत्यण जासामधधारणिका साजह ख्ये ग अ० उ० ऋ० सिं० सप्तारयणोउ उत्तरवेत्तृष्टिआ सानहस्य ग अगुलस्य स० उ० कोसिं० जोयणसयसहस्य एव असुरकुमा रगनेण जाययणियकुमाराणभाणि अत्र्य पुढवोकाइआणभतेके महानिआ सरौरोगाहणा प गो जहनेय अगुलस्य अ सखेवश्रभाग नकोसिएविअ एवसुइभाण ओहिआण अपञ्जसगाय पञ्जसगाणच भाणिअख्य एव जाववाटरवालका

संपंसत निष्पत्त्यं नपर उत्तरयेकिवावगाहना इषां उत्तृष्टठी दग्नेइनिकावने विपे लक्षयोजन कषी अनरा वली इम कहेछे नाग कुमारादिक नवनिका यने विपे उत्तृष्टठी स्रष्टुयोजनछे त य वड न्युतगस्य अथ दृथिवी कायने विपे ओविक दृथ्वीकाय । पछे ओविक तेइज सूक्ष्म पीछे सूक्ष्मअपयाप्त३ पीछे सप्त पर्याप्त४ ओविक तेइज वाटर५ वाटर अपर्याप्त ६ वाटर पर्याप्त० एषात स्थानकने विपे दृथ्वीकायनी अवगाहना अगलने असख्यत मेभाग इइ

सुखादिपदेतन्मान निरूपयितुमात्र असुरकुमारारणा भते केमकाशियायेत्यादि सर्वपाठसिद्ध नवर उत्तरवे क्रियावगाहना नापि जषत्याअणुलस्य सख्येय भागएभोगुल्लटाठ दृगस्वपिनिकायेपु योजययतसहस्रमाना अन्वेत्वाङ्क गागकुमारादि नवनिकायेपूत्तष्टा योजन स्रष्टुमानेवेति अथ दृथिव्यादि पदवगाहमानमात्र पुढविक्रयेण भतेइत्यादि इहोधिक दृथिवीकायिकानां प्रथमअवगाहनामान निरूपयते । तत्रकोपानेवोधिकस्रष्टुमाणां तत स्रष्टुमाणांमप्य पर्याप्तानोऽ तथा वृक्षांशानां४ ततोपानेवापर्याप्त विद्योपितानां० तेषु च सप्तस्थपि स्थानेषु दृथिवी कायकानामगुलासख्येयभागएवावगाहना किलसख्येय कस्य असख्येय भेदत्वेन तस्मापितारतम्यसमभो जषत्योत्तृष्टता विचारो न विरुध्यते एवमप्यतेजो

केमहानिआ सरौरोगाहणा प गो दुविहा प० त० भवधारणिका उत्तरवेत्तृष्टिआ तत्यण जासामधधारणिका साजह ख्ये ग अ० उ० ऋ० सिं० सप्तारयणोउ उत्तरवेत्तृष्टिआ सानहस्य ग अगुलस्य स० उ० कोसिं० जोयणसयसहस्य एव असुरकुमा रगनेण जाययणियकुमाराणभाणि अत्र्य पुढवोकाइआणभतेके महानिआ सरौरोगाहणा प गो जहनेय अगुलस्य अ सखेवश्रभाग नकोसिएविअ एवसुइभाण ओहिआण अपञ्जसगाय पञ्जसगाणच भाणिअख्य एव जाववाटरवालका

संपंसत निष्पत्त्यं नपर उत्तरयेकिवावगाहना इषां उत्तृष्टठी दग्नेइनिकावने विपे लक्षयोजन कषी अनरा वली इम कहेछे नाग कुमारादिक नवनिका यने विपे उत्तृष्टठी स्रष्टुयोजनछे त य वड न्युतगस्य अथ दृथिवी कायने विपे ओविक दृथ्वीकाय । पछे ओविक तेइज सूक्ष्म पीछे सूक्ष्मअपयाप्त३ पीछे सप्त पर्याप्त४ ओविक तेइज वाटर५ वाटर अपर्याप्त ६ वाटर पर्याप्त० एषात स्थानकने विपे दृथ्वीकायनी अवगाहना अगलने असख्यत मेभाग इइ

बाहुवनस्य त्विष्वं गुलासंख्येय भागवगात्रीनि बयोक्तानि सप्रस्थानानिवाच्यानि नवरसौधिकवाद्दरवनस्यतिषु पर्याप्तिसुषुषु तेषु जघन्यतो गुणासख्येयभागरूपा  
 उत्कृष्टतस्य ससुद्रगोतीर्यादि गतपद्मनालाद्याश्चित्य सातिरेकयोजनसहस्रमाना अवगाहना द्रष्टव्या अत्राह ननु यदीत्यं भेदतोऽवगाहना चिंत्यते तदानार  
 कासुरकुमारारादिष्वप्यपर्याप्त पर्याप्तभेदतः कणादसौ न प्रोक्ता सत्यं किंठनेकव्यतः सर्वेपि पर्याप्ताएव भवंत्यतो पर्याप्तात्वलक्षणस्य प्रकारांतरस्य किंकृततासंभ

द्रयाणं पञ्जसगाणं भाषिअब्बं वणस्सइ काइयाणंभंते केमहा०पं गो जहखेणं अंगुलस्स असं० उक्कोसेणं सातिरेगं जो  
 यणसहस्सं सुज्जमवणस्सइ काइआणं ओहिआणं अपज्जसगाणं पज्जसगाणं तिणहंमि जहखेणं अंगुलस्स अंसंखिज्ज  
 इभागं उक्कोसेणंवि अंगुलस्सअ० वादरवणस्सइकाइआणं जहखेणं अंगुलस्स० उक्कोसेणं सातिरेगं जोअणुअहस्सं अ  
 पज्जत्तगाणं अंगुलस्सअसं० उक्कोसेणंवि अंगुलस्सअ० पज्जसगाणं जहखेणं अंगुलस्स अ० उक्कोसेणं सातिरेगं जोय  
 णसहस्सं वेइदिआणं पुच्छा गो जहखेणं अंगुलस्स असं० उक्कोसेणं वारसजोअणुइं अपज्जत्तगाणं जहखेणं अंगुलस्स०

किंठ असंख्याताना अपंख्याता भेद प्रणायी हीनाधिकपणो संभवे एवं अप्यनेजोवाहुवनस्यतिष्वे सात स्थानकने विषे जाणवो नवरं ओधिकवनस्यति  
 काय ओधिक वाद्दर वनस्यति काय अने तेहण पर्याप्तक एत्तिणि स्थानकने विषे उत्तल्लठी साधिक सहअयोजन अवगाहना कही जेससुद्र गोतीर्यादि गत  
 पद्मनालादिक आत्री जाणवी इहा प्रेरक आह जो इम भेद छंती अवगाहना विचारीये तो नारक असुर कुमारादिकने विषे अपर्याप्त पर्याप्तक भेद  
 थकी अवगाहना कानकही गुरुबोल्या एसत्य परं खब्धि थकी ते सर्व पर्याप्ताज छइ ते भणी अपर्याप्ता रूपप्रकारातरना असंभव छंती तेहना ते भेदनी

राय यजपत सिध वातारिना मानस संयम मता ४४ का

वाक्यभेदतश्चि ता विधित्वाहाङ्गत्वत्यरित्यल विकारेण अर्ध्वीन्द्रियादि पदे अर्धगाङ्गानामान माङ् तत्रोष्णिकद्वीन्द्रियाणामपर्याप्तानोचति स्थानत्रये अथ  
 गाङ्गनात्र धित्यते एतेषुवादेत्त्वस्यैवसङ्गात् सूत्रमालाभावतो नतश्चि तासन्नव हादयचयोजनानि शरीरायगाङ्गना स्वयभ्रुमण्णादियथादीनामवसेया एव  
 त्वोद्द्वियेष्वपिस्थानत्रये अर्धगाङ्गना भावनीया नवरं गव्यं तत्रयं शरीरं शरीरं गव्यं तत्रयं शरीरं शरीरं कर्णेषुगाल्यादीनामवगतथा एषचतुरिन्द्रियेष्वपि नवरं गव्यं  
 तपतुष्टय शरीरमान शर्द्धीषवर्तिनाश्चररादीनां अथ पचेद्विय त्रियं कथगाङ्गनां निरूपयितुमाङ् पचेद्वियतिरिखलजोणियाणमत्यादि इक्षौधिक पचे  
 न्द्रिय तिरचां प्रथमवर्गगाङ्गना चित्त्यते साचोत्कृष्टा योजनसङ्ख जषय तु पद सर्वदागुला सव्येयभागरूपयेनाविग्रेपात्रोच्यते स्वयमेव भावनीय ।

उक्कोसेणवि अ गुलस० पञ्जत्तगाण अ गुलस० उक्कोसेणं वारसजोषणाद् तेरदिआण पुच्छा गो जहण्येण अ गु  
 लस० उक्कोसेण तिखिगाउयाद् अपञ्जत्तगाण जहण्येण अ गुलस० उक्कोसेणवि अं गु० पञ्जत्तगाण जहण्येण अं  
 गुलस० उक्कोसेण तिखिगाउयाद् चउरिदिआणं पुच्छा गो जहण्येण अ गुलस० उक्कोसेणं चउगाउयाद् अप  
 ज्जत्तगाण जहण्येण उक्कोसेणवि अ गुलस० पञ्जत्तगाण० अ गुल० उक्कोसेण चउगाउयाद् पचेद्विअतिरि०

विचारणा नक्षीधी अथवा सूत्रनी विधित गति छे ते भष्णी अथ हीन्द्रियते विषे चोष्णिक अपर्याप्त पर्याप्त एतदिण यां नक बालवा तिहां प्रथम पने चीना  
 रूप विच्छ स्थानकने विषे वारे योजन अर्धगाङ्गना ते स्वयभ्रु रमण समुद्रादिकना शब्दादिक आश्री कधी एव तेन्द्रियने विषे कश्चिषु नवरं तदिणि गाज  
 अर्धगाङ्गना ते वाहिरला हीपमध्ये ज्ञानशलाईयादिकनी आणवी एष चौरिन्द्रियते विषे कश्चिषु नवरं च्यारगाज अर्धगाङ्गना ते वाहिरला हीपना





सद्युगोत्तरखण्डे उपनिषत्सु योनिप्रसङ्गे

सप्तपदवर्तिनी देवकुर्वादि गत गर्भज द्विरदानामाश्रित्य पञ्चभ्युप्रमाणा निचेतया । ततसेपामेव सन्मृच्छं नजत्वयियोगिपितानां सागथ्यतूटयकत्व २ ततोऽ  
पर्याप्तानामुत्कृष्टाण्यह्लासत्वेयभाग पर्याप्तानां गथ्य तटयकत्व ४ तेषामेव गर्भजानां ग य्तपट्कं ५ तेषामेवापर्याप्तानामह्लासत्वेयभाग ६ पर्याप्ताना  
पञ्चभ्युत्तानि इति चतुष्पदस्यकृत्पर पञ्चेन्द्रियतिरिचामपि सप्तावगणनास्थानानि साश्रित्य विषधराष्टुर परिसर्पस्यसचरपञ्चेन्द्रियतिर्यक्त्यवगाधना प्रोच्यते  
ततोपिकोर परिसर्पाणां वृद्धीपवर्तिगर्भज सर्पानामाश्रित्योत्कृष्टा योनिनसहस्र सन्मृच्छंनजातां योजनघटयत्त्व २ तेषामप्यपर्याप्तानां अगुणारुत्थेय

गो जहन्नेण अगुलस्र असखे० उक्कोसेण जोअणसहस्र चउप्पयथलयर पचेदिय पुच्छा गो जहण्येण अग  
लस्र अ० उक्कोसेण छगाउआइ ससुच्छिम चउप्पय थलयर पुच्छा गो जहन्नेण अगुलस्र अस० उक्कोसेण गाल  
अपुडत्त अपज्जत्तग ससुच्छिम चउप्पय थलयर पुच्छा गो जहण्येण अगुलस्र अ० उक्कोसेणवि अगु० पज्जत्तग स  
सुच्छिम चउप्पय थलयर पुच्छा गो जहण्येण अगल० उक्को० गाउअपुडत्त गभभवक्कतिअ चउप्पय थलयर पुच्छा  
गो जहण्येण अगुलस्र उक्को० छगाउआइ अपज्जत्तग गभभवक्कतिअ चउप्पय थलयर पुच्छा गो जहण्येण अगुल  
स्रअ० उक्कोसेणवि अगुलस्र अस० पज्जत्तग गभभवक्कतिअ चउप्पय थलयर पुच्छा गो जहण्येण अगुलस्र अ० उक्को०

पाचमासातमा रूप पांचस्थानकने विषे योजन सहस्र कक्षा ते स्वयभूरमण सुदुग्ना मत्यादिक आश्रीतिषा एव चोपदने स्वसचरविषे सातस्थानकतिषा  
पचिना पांचमा सातमारूप विधि स्थानकने विषे छगाउ ते देव कुर्वादिकगत गर्भजशायी आश्रीतिषा अथ विषधरादिक छरपरिसर्पने विषे प्रथमपच

भागः ३ पर्याप्ताना योजनसहस्रं ४ गर्भजानां सर्पाणां योजनसहस्रं ५ अपर्याप्तानामष्टलासंख्येयभागः ६ पर्याप्तानां योजनसहस्रं ७ इत्युरः परिसर्पेषु सप्तस्थानान्येव भुजपरिसर्पेष्वपि गोधा नकुकादिस्थलचरेष्वित्यसेव सप्तावगाहनांस्थानानि दृष्टव्यानि नवरमेतेष्वष्टापदे सामान्यगर्भजपदे पर्याप्ता गर्भजपदे

कृगाउआइं उरपरिसर्पं थलयर पंचेदिय पुच्छा गो जह० अंगु० असं० उक्कोसे० जोअणसहस्रं समुच्छिम उरपरि सप्थ थलयर पुच्छा गो जह० अंगुल० असंखे० उक्को० जोअणपुहुत्तं अपवजत्तगसमुच्छिम उरपरिसप्थ थलयरपुच्छा गो जह० अंगुलस्य अ० उक्कोसेणवि अंगुल० असं० पवजत्तग समुच्छिम उरपरिसप्थ थलयरपुच्छा गो जह० अंगुलस्य अ० उक्कोसेण जोअणपुहुत्तं गर्भवक्कंतिअ उरपरिसप्थ थलयर पुच्छा गो जह० अंगु० असं० उक्को० जोअणसहस्रं अपवजत्तग गर्भवक्कंतिअ उरपरिसप्थ थलयरपुच्छा गो जह० अंगुलस्य अ० उक्कोसेणविअं० असं० पवजत्तग ग

सप्तम रूप त्रिणि स्थानकने विषे योजन सहस्र ते बाहिरथा द्वीपना गर्भज सर्पं आश्री कक्ष्या ऐसे भुष परिसर्पने विषे मोह नवलिया दिकका सात भव गाहनास्थानक जाणणा नवरं इतना विसेषहै पक्षला पदने विषे तीसरा गर्भज पर्याप्ता पदने विषे गाऊ प्रयुक्त देहमान कस्यो सामान्य समुच्छिम पदने विषे पर्याप्ता समुच्छिम पदने विषे पशु पृथुक्त देह० शेष अपर्याप्ता दोपदने विषे आंगुलके असंख्यतमे भागे देह० ऐसे थल चारी तेनुं भेदकी चिंतवणाकरी इसी प्रकारे खचर पंखीकी सातुं स्थान कनी अवगाहना चिंतवण करणी इतना विसेषहै इहां अपर्याप्त समुच्छिम अपर्याप्त गर्भज दो स्थानकने विषे आंगुलके असंख्यातमे भाग उतकट्टी पिण अवगाहना कही बाकी पांच स्थानकने विषे पशु प्रयुक्त



खचरलक्षणाद्योः प्रत्येकं धनुः प्रथक्त्वमेवेति छः तदेवं सन्ध्वं लविणयः संगहृष्टतोय गर्भजविणवं तं कुर्ध्वनाडः लोष्णसहस्रं छगाडयार् ततोय जोयनसहस्रं गालत्र पुञ्जत्त भुयगे पक्खीसुभवे धणुपुञ्जत्तं गर्भजानां जलवरपथेन्द्रियतिरवासुत्तडागना योजनसरसुमेय गर्भजवतुषदानां पडेय गव्यूतानि गर्भजोर. परिसर्पाणा योजन सहस्रं गर्भज भुजगाना गव्यूत प्रथक्त्वं गर्भजपत्रिणां धनुः प्रथक्त्वमिति षट् गद्यादयं क्षितिदेव वाचनाविगेपे दृश्यते सोपयोगत्वाच्च लिखितं अथ मनुष्याणा भवगाहना प्रोच्यते ततोत्रिरुपदे देयत्तुर्वादिमनुष्याणासुत्तडा तीणि गव्यूतानि । यातपित्त गुरुयोगिणि

पञ्जत्तं भुञ्जत्तं पुच्छा गो जहं अंगुं असंखे लको. गालअपुञ्जत्तं खहयरपंचिंदिय पुच्छा गो जहं अंगुं असं. असं. लको. धणपुञ्जत्तं समुच्छिम जहामुञ्जगपरिसुप्प समुच्छिमाणां तिसुविगमेसु तहामाणिञ्चयं गभम्भव कंतिअ खहयरपुच्छा गो जहं अंगुं असं. लको. धणुपुञ्जत्तं अपञ्जत्तगगं खहयरपुच्छा गो जहं अंगुं असं. लको. कोसेणवि अं.पञ्जत्तगगं खं गो जहं अंगुं असंखे. लको. धणुं. एत्थसङ्गहणि गाहाभो भवंति तंजहा जोष्णसह

ओविकर्गभंज ३ ते अपर्गिता ५ तेयर्गिता ५ एपाच स्यान्त चवगाहना अइ गंग मन्निप्यन्त्यः इम ते अगाहना सगली षष्णे धागुलेकरी मापित्ते से समासो तेउत्थेधांगुल संज्ञेपयी विळं प्रकारे प्रक्यो एसात्थांगुबनीपरे भाषुं सेतं तेएउत्थे धागुलकस्यो हिने प्रमाणागुल कस्सेहे सेकितं सउत्सुगुणीउत्थे धागुलथी प्रमाणागुल कहीये अथवा परमकर्परूप प्रमाणप्राप्त जे धागुल तेप्रमाणागुल कहीते एतनेउपरत अतिगोटुं धागुल मयी एभावतया समसा लोकव्यवहार राज्यादिक स्थिति प्रथम देखाडण्यचारपणा थी प्रमाणभूत एषवसर्पिणी कालनेविधे प्रथम श्रीपुगादिदेव अथवा भारत तेहनी जे धागुल ते

1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200





मालागुलवद्भाषनीय उक्तमुक्तेर्धागुलमय प्रमाणागुल विषद्वाराच सेकित प्रमाणगुलेत्यादि सहस्रगुणितानुषेधागुल प्रमाणाज्जात प्रमाणागुल अथवा परमप्रकर्परूप प्रमाण प्राप्तमगुल प्रमाणागुल नात पर दृष्टत्तरमगुलमशीति भाष यदि वा समश्लोकथयवारादिराज्यादि स्थिति मथमप्राणनाथेन प्रमाणभतोऽधिक्यत्र सपिणीकालेतावद्गुणादि देवो भरतो वा तस्यागुल प्रमाणगुल एतच्चकागणीरतस्वरूप परिज्ञानेन शिष्ययुत्यन्तिलक्षणगुणाधिम्य अप्यसाहारेण निरूपयितुमाह एगमयम्यणरणो इत्यादि एकैकस्वराश्रयतरत चक्रवर्त्तिनोऽष्टसौवर्णिक काकगौरत पट्तलादि धम्कोपेत मप्रप्त तस्यै

सूत्रं गुले पयर गुले असखेज्जगणे षण्णगुले असखेज्जगणे सेतउत्सेहगुले सेकित प्रमाणगुले प्रमाणगुले एगमे गसरन्तो चाउरतचक्रवद्विस्य अष्टसौवर्णिए कागणीयरयणे छत्तले दुवालससिए अष्टकिणिए अहिगरणसटाण सट्टिए प तस्यण एगमेगाकोणी उस्सेहगुले विवखभा त समणस्स भगवच्चोमहावीरस्स अह गुल तसहस्सगुण

प्रमाणागुल कशीये शिष्ये ए आगुल कागणी रतस्वरूपने जाणपणे करी येपनिपत्तिकरूप अधिकगुणदेखनेकु तेरने दारे करी देपाह एगमेगस एकैके राजा चतरत चक्रवर्त्तिनु अष्टसौवर्णिककागणीरल पट्तलादिक स्वरूपोपेत प्रकथ्यो तेहमी एकैक कोटि उखेधागुल विक्क भ ते तपखी पूज्यमहाधीरनु अर्द्धा गुल ऊइ ते सहस्रगुणो प्रमाणागुल ऊइ एसुदावायं अय अयवार्थमाह तिष्ठां भनेरा २ कालना जपना चक्रवर्त्तिना काकणी गत्तु तुल्य पणो कहवा भणी एकैक तु ग्रहणकए, तथा निरुपवरितराजयब्दनु विषय जाणया भणी राजयन्द ग्रणु तथा त्रिणि दिशि समुद्र चउली न्ने शिसणत पर्वत एसीम प्यारि रूप ने प्यारि अत ते प्यारि अत ते भणी चाउरतचक्रवर्त्ति कशीइ तथा प्यारि समुद्र तएणफ्लेमिली एकस्ये त

राज्यादिस्थिति मथमप्राणनाथेन

अनु टी० ४११ सुत भाषा



कैकाकोटिशुभे धांगुलविष्कंभा तत्रप्रमाणस्य भगवतो महावीरस्याङ्गारुलं तत्ररुद्रगुणं प्रमाणांगुलं भवतीति समुदायार्थं खाताव्याव्यवालोत्पन्नानामपि  
 धक्रियाकाङ्गारुलतुल्यता प्रतिपादनार्थं मेकेग्रहणं निरुपचरितराराशयञ्जविपयज्ञापनार्थं राजग्रहणादिगतयभेदभिन्नरुद्र३  
 सत्त्वणाय चत्तारान्तोसांशुतुरोपि चक्रेण वर्त्तयति पालयतीति चतुरंत चक्रवर्त्तितस्य परिपूर्णं पटुखंडभरतमोक्तुरित्यर्थः चत्वारि सधुरणफलान्येवाद्य  
 सर्वपः षोडशं सर्पपा एकं धान्यमापफलं द्वे धान्यमापफले एकागुंजा पंचगुंजा एकः कर्ममापकः षोडशकर्ममापका एकः सुवर्गः एतैरष्टभिः कावापीरुल  
 नियद्यते एतानिच सधुरणफलादीनि भरत चक्रवर्त्तिकांल संभवीग्येव गृह्यन्ते अन्यथा कालभेदेन तद्वैपस्यसंभवे काकिणीरुलं सर्वचक्रिणां तुल्यं न  
 स्यात् तुल्यं चेष्यते तदिति चत्वारि चतस्र्ष्वपिदिद्वह्वे षड्द्वेष इत्येवं पटुतलानि यत तत् पटुतलं धवलपरि पार्श्वतत्र प्रत्येकं चतस्रगासञ्चीणां भावात्  
 द्वादश अत्रयः कोटयो यत्र तद्वादयात्रिकं कार्षिकाः कोणासोपां चाशुपरिच प्रत्येकं चतुर्णोसङ्गाया दृष्टकारिणां अधकरिभिः सुवर्गकारोपकरणं तलंस्या  
 नेन संस्थितं तच्छ्रहयाकारं समचतुरस्रमिति यावत्प्रज्ञप्तं प्रकृषितं तस्य काकिणीरुलस्यैकैकाकोटिबल्ये धांगुल प्रमाणाविक्रंभा द्वादशायत्रय एकैकस्य  
 उत्तरेधांगुलप्रमाणा भवतीत्यर्थः अस्यसमचतुरस्रत्वादायामोविक्रंभश्च प्रत्येकं बल्ये धांगुलप्रमाण इत्युक्तं भवति यैवचकोटिकूर्हतीत्यायामं प्रतिपद्यते  
 साधतर्थात् व्ययस्थापिता विक्रंभभागवतीत्यायामविक्रंभयोरेकतरनिर्णयेष्यपरनिश्चयः स्यादेनेति सूत्रे विक्रंभस्येयग्रहणं तद्ग्रहणोपायामोपि गृहीत  
 एव समचतुरस्रत्वात्तस्येति तदेवं सर्वत उत्तरेधांगुलप्रमाणमिदं सिद्धं तदान्यत्र चतुरंगुल प्रमाणासुवर्गवरकागणीनेयेति अयते तच्चतुरंतं संभाव्यते  
 निश्चयंत सर्ववेदिनो विदंतीति तदेवैककोटिगंतसुत्तरे धांगुल अमणस्य भगवतो महावीरस्याङ्गारुलं कथमिदमुच्यते श्रीमहावीरस्य सप्तहस्राप्रमाणात्वादेके  
 अस्य हसस्य चतुर्धंगुल्युत्तरे धांगुलमानत्वादष्टपष्ठमविक्रगतांगुलमानो भगवात्तुत्तरे धांगुलेन सिद्धो भवति स एव चात्मागुलेन मतांतरमाश्रित्य स्वहसनेन

सार्द्धं वृक्षात्प्रयमानत्वाच्चतुर्यतीत्या गुलमानो गीयेतेऽतः सामर्थ्यादेकसुखेषु धांगुल श्रीमन्मन्त्रादीनां गुलापेष्वा षड्गुलामेव भवति त्रयोपच सतेन भगवान्नात्मा गुलेनाद्योत्तरयतां गुलमानोस्वच्छेन सार्द्धं वृक्षात्प्रयमानत्वात्तन्मतेन भगवत एकस्मिन्नात्मागुले एकसुखेषु धांगुल तस्य च पचनवभागा भवति षट् । पष्ठमधिकं यत्स्याद्योत्तरयतेन भागापचारे एतावता एव भावात् यन्मतेन तु भगवान्निवृत्त्यधिकमगुलसत्सुखेभ्यश्चसामानत्वात्तन्मतेन भगवत एकस्मिन् ५ आत्मागुल एकसुखेषु धांगुलसुखेषु भवति षट्पद्याधिक्यतस्य विद्यतः अधिक्यतेन भागे ह्यते इत्यतएव साभाज्जदेवमिच्छामश्चमतेमपेक्ष्यैकसुखेषु धां ८ गुल भगवदत्मागुलसार्द्धंरूपतया प्रोक्तमित्यवसयमिति तदुच्छेदांगुल सुखगुणित प्रमाणांगुल भवति कथमिदमवसीयते उच्यते भरतवक्रवर्त्तो प्रमाणां

प्रमाणांगुल भवद्द एरण अंगुलप्रमाणेण च्छन्न गुलाद् पादो दुवालसगुलाद् विहृत्योत्तरयणी दोरयणीओ

सुपप तथा सोले खेत सुपप मिली एक धान्य मापफल शोयवाय्यमापकमिली एकए जा चिरमी होय पाव सु जाये एककर्ममापक सोने कर्ममापके एकगुवर्णसोनद्वयोद्योयो ए आठसोनद्वयेकांगणी रत्नहोय तथा एमधुर दण्डनादिक भरत चक्रवर्त्तना कालना नीपना ग्रहीद् अयथाकालने भेदे करीते षडु अधिक्या ओद्धापणी सभवे तेये छते काकणीरत्न सर्वघकीरु तुल्यन छद्द अने ते तुल्यज बोल्नु छे ते रत्न बली केशवु छे षिड्ड दिसे ऊर्ध्वचने अथ एष छतला लिखां छे ते पट्टतल तथा अथ ऊपरि अने पासे प्रत्येकर आरि शंस सभवे ते वारि शंसि छद्द जिशां ते हादयात्रिक तथा यर्षिका कर्ता कोणा ते अथ ऊपर व्यारर सभवे ते भर्णो आठ कोणा छे जिशां ते षट् कर्णं तथा अधिकरणी ते सीनीरु उपकरण तेचने सस्याने सस्थित ते सरियु आकार सम चटरख एभाव तथाते कागणी रत्ननी एक एक कोटि चत्वे धांगुल विस्त म पिच्छली छे वारि शंसि एकर चत्वे धांगुलनी छद्द ए भाव एषु चटरख पणा माटे आयाम विष्क भमध्ये एकसु निर्णय कसे छते अनेरासु पणि निर्णय याद् तेभणी सूत्रने षिषे विष्क भसु ग्रहण कसु

अनु टी. ४१२ सूत्र भाषा

तेहने ग्रहणो' करी आधाम परिण ग्रह्युं ते द्रुम सर्वत ए उत्प्लेधागुलप्रमाण मीपनो जे अनेरा ग्रन्थने विषे द्रुम कक्षुं छे चौरंगुल प्रमाणा सुवशवरका गणीनेआ तेहनुं' सतांतर द्रुम संभावियेके निश्चय सर्ववेदी जागो ते एकर कोटि मान उत्प्लेधांगुल अमगा भगवंत श्रीमहावीररुं' अर्द्धांगुल ऊइ तेकिम जेभणी श्रीमहावीरखामीनोप्रमाण सातहाथ कक्षुं छे तेएकर हाथना चौवीस उत्प्लेधांगुल घाइ तेभणी एकसो अडसठि आंगुलमान श्रीभगवंत उत्प्लेधांगुले करी नीपनुं' ऊइ हिवे तेहज भगवंत आत्मागुले करी सतांतर आत्री जोतां आपणे हाथे करी साढा त्रिणि हाथऊइ ते भणी चौरासी आंगुलनु मान कहीयेके एतला भणी एक उत्प्लेधांगुल ते महावीरना आत्मांगुलनी अपेद्याये अर्द्धाङ्गुलज ऊइ अने जेहनामत धिये श्रीमहावीर आत्मांगुले करी एकसो आठ आंगुलनोके अने आपणे हाथे साढाचारि हाथयुं' के तेहना मतने विषे श्रीभगवंतने एक आत्मागुले एक उत्प्लेधांगुल अने एक उत्प्लेधांगुल ना नव भाग करीइ' तेहवा पांच भाग ऊइ जे भणी एक सो अडसठि आंगुलने अष्टोत्तरसौ संघाते आंगाकार कखे ऊं'ते एतलुंजलाभे । अने जेहना मतने विषे श्री भगवंत आत्मांगुले करी एक सौवीस उत्प्लेधांगुल मानथायके अने आपणे हाथे पांच हांय मानकक्षुं' छे तेहना मतने विषे ५ श्रीभगवंतने एक आत्मांगुले करी एक उत्प्लेधांगुल अने एक सौ उत्प्लेधांगुलना पांच भाग करीये तेहवा विभाग जेभणी एक सो अडसठि आंगुलने एकसो वीस ८ उत्प्लेधागुलसंघाते भाग हरतां एतजोळ आवे इहां आद्यमतनी अपेद्याइं एक उत्प्लेधांगुल श्रीभगवंतना आत्मागुलने अर्द्धपणे कख्यो ते उत्प्लेधांगुल सहस्रगुणा कख्यो एअ प्रमाणांगुल ऊइ किम भरत चकी प्रमाणांगुले करी एक सो वीस आंगुलनु ऊइ जे भणी भरतनुं आत्मांगुल अने प्रमाणांगुल एक छे ते भणी उत्प्लेधांगुले करी पांच सो धनुख छे तिहा एकर धनुख क्वनिवे आंगुल मान ऊइ तेभणी अडतालीस सहस्र उत्प्लेधागुल याइ एतला भणी एक प्रमाणांगुलने विषे चार सै उत्प्लेधांगुल ऊइ जे भणी अडतालीस सहस्रने एक सो वीस संघाते भागहरतां

गुणेनात्मागुनेन च किल विप्रयति यतमगुणानां भवति भरतात्मागुलस्य प्रमाणागुलस्य चैकरूपत्वात् तत्र खे धागुलेन तु पचधनु यतमानत्वात्प्रतिधसुखपन्नयत्यगुल  
 सद्भावाद्दटचचारियश्च श्यगुलानां स्पष्टतेऽत सामर्थ्यादेकस्मिन्प्रमाणागुले चत्वारि यतान्युच्ये धागुलानां भवन्ति विगत्यपिक यतेन अष्टपत्वारि म  
 षष्ट्याणां भागापकारे एतावता साभावाद्ये बसुखे धागुलात्प्रमाणागुलं चतु यतगुणमेव स्यात्कथं सत्प्रमाणागुलस्यार्धं तृतीयो  
 ष्ठे धागुनरूपवाच्यमस्ति ततो यदास्वकीयवाच्येन युक्तं यथावस्थितमेवेदं धित्यने तदेव धागुलाच्चतु यतगुणमेव भवति यदात्तर्धं तृतीयो ष्ठे  
 गुलस्येवमेव वाच्येन गतचतुष्टयलक्षणं दर्शयगुण्यते तदा अगुलविक्रभावात्स्वागलदीर्घा प्रमाणागुलं धिययासूचिजायते इदमुक्तं भवति अर्धं  
 तृतीयो गलविक्रमे प्रमाणागुने तिष्ठ त्रेण्य कल्पते एकागुलविक्रभागत चतुष्टय दीर्घा द्वितीयापितायमानैव तृतीयादिदेव्येण चतु यत माने

कुत्यो दो कुत्योओ धण दोधणु सइस्साइ गाल्छ चत्वारिगाउआइ जोअण एएणपमाअणुलेण किपओओ अएण एएण

एतलाव आगुललाभे जो इम वषे धागुलथी प्रमाणागुल प्यारुके गुणोव ऊइ तो सत्सुखगुणो किम ऊइ ए सत्य पर प्रमाणागुलनो अदीषागुलवाङ्मल्य  
 पण एते भणी जिवारे चापणा वाङ्मल्य पणा युक्तं यथावस्थित ज ऊइ तो वखे धागुल तिवारे प्यारिसयसुणो ज ऊइ अने जिवारे अदी वखे धागुलरूप  
 वाङ्मल्यपणा सवोने प्यारसव रूपदीर्घं पणु गुणीइ तिवारे चागुलविक्रम अने सत्सत्तागुल दीर्घप्रमाणागुल नीपजे एतले इम कत्यु अदाइ आगुल  
 विक्रम प्रमाणागुलने विपे त्रिषि अथी कज्यीये तिशां पचली एक अगुल विक्रम प्यारसव आगुलदीर्घं ऊइ वीणी पणि नेवडीज ऊइ अो तीजी  
 अेणि पणि दीर्घं पणे प्यार से आगुलज लावी पर विक्कम अी अर्धाद्रुलप्रमाण ऊइ नेविसे अगुलणी तेअना दीर्घपणा मांशिथी देयसे आगुललेइने  
 विअेणि वरावर करिये तिवारे विक्रमपणु आगुलप्रमाण सपजे ते कखे ऊ ते दीयसे आगुलदीर्घं अने एक आगुलविक्रम एतीजी अेणि ऊइ पछे ते

अनु टी ४१५ सुत्र भागा

वविक्रं भस्वङ्गं गुणं ततोऽस्त्रापि दैवर्षी इयं गृहीत्वा विक्रं भोऽंगुल प्रमाणसंपद्यते तथा च सत्यं गुणशतद्वय दीर्घा अंगुलविक्रं भाद्रयमपि सिद्धा ततस्त्रिसहस्रगामयेतासासुपयुं परि भवस्थापने उक्त्वे धांगुलतोऽंगुल सहस्रदीर्घा अंगुलविक्रं भाद्रयमपि ततः सप्तसप्तत्योक्त्वे धांगुलात्तत्सहस्रगुणसुक्तं वस्तु तस्तु चतुःशतगुणमेव अतएव पृथ्वीपर्वतत्रिमामादि मानालनेनैव चतुःशतगुणेन च तृतीयांगुल लघुणस्यपिष्कं भास्वितेना मीधंते नतु सहस्रगुणया अंगुलविक्रं भया सूच्येति येन भावितार्थं वास्तुदुर्बोयंति रत्नप्रभादीनां कंडायांति रत्नकांडादीनां पातालायांति पा ताल कलयानां भवणायांति भवनपत्यावासादीनां भवणपत्यायांति नरकप्रसाटांते तेषां निरयायांति नरकावासानां निरयावलि

पमाणांगुलेणं पुटवीणं कंडाणं भवणपत्यायां निरयायां निरयावलीणं निरयपत्यायां कप्राणं विमा  
णाणं विमाणापत्यायां टंकाणं कूडायां विजयाणं वक्वाराणं वासहराणं पव्वयाणं वेलाणं

त्रिणि अंगुल उपर स्यापीये तिवारे एक उक्त्वे धांगुल विक्रं भ अने सहस्र उक्त्वे धांगुल दीर्घ एवढा प्रमाणनी सूची नीपजे ते भणी एक सूची आश्री उक्त्वे धांगुल धी सहस्र गुणुं प्रमाणांगुल बोलेयुं पर वस्तुधी च्यारिसै गुणुं जाणवुं एतला भणी पृथ्वी त्रिमामादिक एणजे च्यारिसै गुणुं करी अने चढाई उक्त्वे धांगुलने विक्रं भये युक्ते ज करी प्रमाणांगुले करी सविये परं सहस्रगुणो अंगुल विक्रं भ सूचीइं करी नमवीइं शेषं पूर्ववत् पुटु रत्नप्रभादिक पृथ्वीनुं कंडायां रत्नकंडादिक कांडसु तथा पातालां ससुद्रमाडिला मोटा च्यार कलयानुं तथा भवणायां भवनपत्यादिकना भवननुं तथा भयपच्छ डाणं तेरेपायडाना चांतराने विपे जे भवनले तेहनुं तथा निरयाणं नरकावासाइं तथा निरयावलिष्याणं नरकावासानां पंक्तिनुं निरयपत्यायां नर

रत्न वनपत्यादिक वासाइं करी वासानां संयत्तं भाद्रयम ४४४

याणति नरकावास पत्नीनां निरयमपडाणन्ति तेरेकारसनवसत्त पचतिप्रियतचेवकोयेत्यादिना प्रतिपादिताना परकप्रस्तानां येष प्रतीत नवर टकाणति छिन्नटकाणां कूडाणति रत्नकूटादीना सेलाणति सु डपर्वताना सिहरीणति पर्वतानामेय शिखरयक्ता पभाराणति तेषामेयेयनताना येषा णति जलधि सेलाविषय भूमीनां ठर्वाधो भूमि मध्ये वगाच तदेव अगुलविहयिणीत्यादि गयोपन्यशागुलादीनि योयनावसानाणि पदानि व्याख्या तानि साम्प्रत गोपाति श्रेण्यादीनि व्याचिष्यामुराच असलेज्जाठजोथणकोडाकोडीठ सेदिति अनतर निर्णीत प्रमाणागुलेन यद्योजा तेन योजनेना मख्येया याजनकोठी कोटय सपत्तिं त समचतुरथीकृतलोकस्यैका श्रेणिर्भवति कय पुनर्लोकसवत्थे समचतुरथी क्रियते न्यते इह स्वरूपतो लोकसाव

वेदस्मरण वेद्वयाग टाराण दीवाणं समुद्राण आयाम विक्क भोच्चत्तोक्वेह परिक्खे वामविज्ज ति सेसमास ओ तिनिहे पणत्ते तजहा सेदो अगुले पयरागुले षणां गुले अस्सखेज्जाओ नोअणकोडाकोडीओ सेदोए गुणियाणप

काना गुणपचास पाद्यडाना कल्प्यादिक प्रसिद्ध ट काण छिन्नटकनु तथा कूडाण रत्नकूटादिक कूटनु तथा सेलाण पर्वतनु तथा सिहरीण शिखरयुक्तपर्वत नु तथा पभाराण इपन्नात नस्या पर्वतनु येष सुगम नवर सेलाण समुद्रनी खेखनी भूमिनु तथा आयामलांबपणु तथा विक्क भपिडलपणु तथा वच्चत्त उ चपणु तथा परिच्छेपपरिधि मापीये ते इम अ गुल विहच्छि रयथी इत्यादि गाथाने विषे जे प्रज्ञा कृता पद ते मध्ये अगुलादिक योजनात लगे पद यथाख्या शिये येष जे श्रेण्यादिक पद ते कए छे सेसमासषोति प्रमाणागुल सचेप थो विज्ज भेदे प्रकथु तद्यथा श्रेण्यागुन प्रतरांगुल घनागुल तिहा अभातेज्जाथो अनतर जे प्रमाणागुलनु निर्णय कथु, तेषे आंगुले करी जे योजन छद्द तेषे योजने करी असख्याता योजननी कोडाकोडी

अनुवाचरसिखरयक्ता लतीव प्रसादा जने भवे

अठहं ग्ररज्जु अिप्रत अषसाहे शो नं सप्तरज्जु विशार शिखर्यग्लोकमध्ये एक रज्जु विस्तृतः ब्रह्मलोकमध्ये पञ्चरज्जुविशीर्षं उपरि तु लोकांते एकारज्जु विष्कंभः शेषस्थानेषु क्वचित्त्वोपनिधत्तौ विरारः रज्जु प्रमाणं तु स्वयंभूरमण ससुद्रस्य पौरस्यप्रात्यायवेदिकात् वावहृच्छिणोत्तरवेदिकान्तं वा यावद्दशरथं एवं स्थितौ सोलोकौ बुद्धिपरिकल्पनया संवर्त्यं वनी क्रियते तथाहि रज्जु विशीर्षायास्तसनाडिकाया दक्षिणादिग्वत्त्वं धोलोक खंडमधस्ताद्देशो न रज्जुलयाविशीर्षं क्रमे अहीयमान विशारं तदेयोपरिष्टाद्रज्ज्वसंख्येयभाग विष्कंभं सातिरेकरज्जु उच्छृतं गृहीत्वा तसनाडिकाया एकोत्तरपाश्वे विपरीतं संघाल्यते अघसतनंभाग सुपरिहृत्वा उपरितनंचाधः समानीय संख्येज्जत इत्यर्थः एवं च कृते अधोवर्ति लोकस्याद्धं देशोन रज्जुचतुष्टयविशीर्षं सातिरेकसप्तज्जुच्छ्रितं बाहुल्यतमघः क्वचिद्देशोन सप्तरज्जुमानं अन्यत त्वनिधत बाहुल्यं जायते इदानीमुपरिमलोकौद्धं संवर्त्यं ते तत्रापि रज्जुविखारा यास्तसनाडिकाया दक्षिणादिग्वत्तिं नी

### यत्प्रयत्नं सैदौगुणियंलोगो संखेज्जएगंलोगो गुणियंलोगो असंखेज्जालोगो अश्रयंतेण

एतत्सम चउरंस लोकनी एकत्रेणि ऊद् अथ लोक किम संकलने समघोरंस करीद् इहा स्वरूप थी लोकचउदरज्जु जं चो के अने विशार भात्री हे ठलसात रज्जु विशारहे तिर्यलोकमध्ये एक रज्जु विशारहे अने ब्रह्मलोक मध्ये पांच रज्जुत्वं विशार हे अने ऊपरलोकातने विषे एक रज्जु नो विशार के येथ सर्वस्थानकने विष्काद् केतबुं रद्म अनियत विशारे हिवे रज्जुनो प्रमाण स्वयंभूरमण ससुद्रनी पूर्वली वेदिकाना अंत थी पश्चिमनी वेदिकाना अंत लगे अथवा दक्षिणोत्तरवेदिकात् लगे जायबुं हिवे इम रज्जुं के जे लोक तेहने कल्पनाद् करी घन करीये तेकिम रज्जु विशीर्षं जे तसनाडिकातेह नी दक्षिणादिसिनुं जे अधोलोक खण्ड ते केवडुं ऊद् हेठलदेशो न रज्जु त्रिणि विशीर्षं पक्के अशुकसे विशार हीणु धातो ऊ तं तेन ऊपररज्जु नो असंख्यातनो भागविशीर्षं अने भाक्केरो सात रज्जु उंचो के ते एहबुं खण्ड ग्रहीने तसनाडिकानीज उत्तरना पासाने विषे विपरीत पणे करी जो





इहां चारिद खण्डने पर्यन्त चार चागुलना सहस्र भाग ऊइ केवल एक दिगिने विपे जे तेणे मिडुं भागे करी एतज चागुल सहस्र भाग ऊइ एक दिशि वत्तीपणा थी इस चनेरा जे विभाग तेणे करी जे एक सहस्र भाग ऊइ ते भणी एभिभागा द्विकपणुं बोलुं तथा देगो न सात रज्जु जं चो वाळल्य पणा थी ब्रह्मलीकामधे पञ्चरज्जु वाळल्यपणुं अने चनेरा ठामने विपे अनियत वाळल्यपणुं एगवुं ऊर्जु लोकां अर्जुनीपजे तेसर्वनेईने हेठना संवर्ततलोवना अर्धने उत्तरने पासे जोडीये तिवारे अर्धलोकना गंडथी जे प्रतराधिक ऊइ तेचंडीने ऊपरला बोणा अगुना वाळल्यपणाने विपे उर्ध्वीयत जोडीये इस कखै ऊते भाऊं रा पाच रज्जु किहार्दे एके वाळल्यपणुं ऊइ तथा हेठला खण्डने हेठनि क्या कखै देगो न सत्तरज्जु वाळल्य पणुं पूवे कखै छे ते ऊपरला खंडना देगोणा रज्जुइय वाळल्यपणा थी जे अधिक ऊइ ते गंडीने ऊपरला खंडना वाळल्यपणाने विपे जोडीये इस कखै ऊंते वाळल्यपणा थी सर्व एचोरासीयत आगायनु गंड ते केतला एक प्रदेगने विपे रज्जुना असंख्यातसा भाग अधिक रज्जु ऊइ ते चारार थी एसर्वसात रज्जु वाळल्यपणुं गोलिये जे भणी व्यवहार नय तेकांदि एक ऊणां सात छाय प्रमाणपहादित वस्तुने परिपूर्ण कात गाग खाने गतजे देगो न वस्तुने व्यवहार नयपरिपूर्ण कहे ते भणी एहना मतने विपे इहां सात रज्जु वाळल्यपणुं सर्वत जाणुं अने आगम सिंज्जु शापणे प्रसे तद्गो न सात रज्जु प्रमाण एह्यो ते व्यवहार थी इहा पणि प्रत्येक सात रज्जु प्रमाण पणुं जाणवुं ते इस व्यवहार नयने सते प्रायास विक्कं ग गळल्यपणे करी प्रत्येक सात रज्जु प्रमाण घन ह्यो ए वेयापस्थानी श्रिति पुरुपने आकारे सर्वत वाटलुं लोकनुं स्वरूपस्वाधीने सर्भाथो अथवीलिपाननेविपे जिगा अगिनुं मान गल्लुं के तिहां सगले एधनीयतलोकसम्बन्धिनी सातरज्जु प्रमाण अगिजागवी तथा प्रतरपणि एतलाज प्रमाणत जाणवुं तेइल सात रज्जु लावी अने प्रमाणागले करी असंख्याता योजननी कोडा कोडिनी लावी एकप्रदेगनी अणि ऊइ ते चेटीर एगुगता पवरतेअणि गणीयज



प्रतरः सोपि वयोक्त त्रेखागुणितो लोकः अयमपि संख्ये येन रागिनागुणिताः संख्ये यातोक्ताः असंख्ये येन तु रागिनामसाहतो संख्ये यालोकाः पनन्ते  
 दलोकैरलोकः नव्यं गुलादिर्ज्वावा जीवादि वस्तुनि प्रसीयंत इति तेषा प्रमाणता युक्ता अलोकेन तु न किंचित्तत्त्वीयते इति ज्ञेयं तस्य प्रमाणाता  
 उच्यते यद्यपि वाच्यं वस्तुनेन न प्रसीयते तथापि स्य स्वरूपं तेन प्रसीयत एव तदभावेतद्विषययुग्मभाष्यप्रसंगान्तदेवं बंगुलपिचिद्विरयगीत्यादि गाया  
 व्याख्याता समाप्तं च चेतप्रमाणमिति अथकाल प्रमाणमुच्यते चेत्किंतं कालाप्यमाणे इत्यादि गतान्नेमेव नवरसिद्ध प्रदेशाः । ज्ञानस्य निर्दिभागा भागस्य  
 निर्दिष्यन् प्रदेगनिष्यन्न' तत्रैव समगस्थितिकः परमाणुस्त्वधोवा एकेन कालप्रदेगेण निष्यन्नो निष्यन्नस्य स्थितिः इत्यस्या एवं ज्ञानसंख्येय समगस्थितिकोः  
 असंख्येय कालप्रदेगेर्निर्दिष्टः परतस्त्वेकेन रूपेण पुत्रलाना स्थितिरैव नास्ति प्रमाणात्तच्च प्रदेग निष्यन्न इत्यप्रमाणात्तद्वापनीना विभागनिष्यन्नं तु

सेतं खेतप्यमाणे सेकितं कालाप्यमाणे द्रुविह्वे पणत्ते तंजज्ञा पएसनिष्यणे च विभाग निष्यणे य सेकितं पएसनिष्यणे रे  
 एगसमयठिईए दुसमयठिईए तिसमयठिईए जावदससमयठिईए संखिज्जसमयठिईए चसंखिज्जसमयठिईए सेतं  
 पएसनिष्यणे सेकितं विभागनिष्यणे समयवलिअमुज्जत्ता दिवसयहोरत्त पक्वसासाय संवच्छेर जुगपलिअ सागर

आगुल विह्वरखणी इत्यादि गाया वयाणी शेषं पूर्ववत् सेतं तेषप्रमाणागुल सेतं तेष विभाग निष्यन्न सेतं ते ए जेतप्रमाण एं समाप्तयं इति  
 चेत प्रमाणं समाप्तं अथ कालप्रमाणमाह सेकितं अथ किंसु' ते कालप्रमाण प्रुदां उत्तर कालप्रमाणविअं प्रुदारे प्ररुष्यो तद्यथा प्रदेगनिष्यन्न चने  
 विभागनिष्यन्न तिछां अदि भेदमाह सेकितं अथ किंसु' ते प्रदेगनिष्यन्न तिछां प्रदेय ते कालना निर्दिभाग सेगे करी निष्यन्न तेषप्रदेगनिष्यन्न तेकहे तेष

समयादि तथा चाह समया धलियगाथा एताव गायोखवमेव विधरीपु सर्वेपामपिकाण भेदानां समयादित्वात्तनिर्योयतायदाह सेकितमित्यादि अथका यप्रमय इति दृष्टे सत्याह समयस्य प्ररूपणां विसरती आख्या करिष्यामि सूक्ष्मत्वात् चोपत कथितोपिनाथी सम्मकप्रतीति प्रयलवतरतीतिभाय सोदेवाह सेजघानामए इत्यादि सकथिज्जया नामको यत्प्रकारनामादेशदत्तादि नामित्यर्थं तथागदारयि ख्रिचिक इत्यर्थं स्याद्भयेज्ज किमित्याह तरुणादि विग्रे पेण विगिट पटसाटिकां पहसाटिकांवा ग्टचीत्वा सयराह भटिति जत्या हसमातपसारयेत्फाटयेदिति सठक अथवा सद्भूति पूर्ववद्येय्युपदर्शने नामेति सभावनीना ए इति वाक्यालकारे ततश्चमज्जिदेयतायस्यभाय्यते तथागदारकीयसरुणादे विग्रेपण स्यात्कदाचित्पटसाटिकांवा ग्टचीत्वा भटिति हसमातमपसारयेत्फाटियेदिति तथैव सबध तत्र तदण प्रवर्द्धमानवथा चाह दारक प्रवर्द्धमानवथा एव भवति कि विग्रेपणेन नैर्ध आसन्न

**उसप्पिणिपरिचय्या १ सेकित समए समयसण पखुवण करिस्सामि सेजहानामए तुथागदारएसिआ तरुणे वल्लन**

एगस० इत्यादि सुगस सेत ते एप्रदयनिपण सेकित अय किस ते विभाग निपत्र दृशा उत्तर विभाग निपत्र ते एगसमयगाथा एगाथाने सुत्र कारक स्वयमेव विधरीये छे तिहा सर्वकालना भेद मध्ये समय चादि छे तेभणी प्रथम तेइनु निर्यय करीये छे सेकित अय किस ते समय दृष्टांउत्तर समयनी प्ररूपणा कथतां विसरती आख्या करस सूक्ष्मपथा यी सत्तेपथा की कल्लु, जतो समय्णु जाख्यो न जाइ ते भणी सेजणा तेकोई एक यथानाम कथतां वरुथा प्रकारनु देवदत्तादिक नाम इत्यर्थं तथागदारएसिआ दरकी इत्यर्थं स्यात् अइ ते कियु, करे ते कहेछे तद्वयादिक विग्रेपण विगिट पट याटकाने अथवा पटगाटिकां वेईने सयराह कथता भटिति करीने हसमात उसारिज्जा अपसारे कथतां फाडे एसवध अथवा सेकहता ते कोई एक यथा तेदेयाडवने अर्थे नाम ते सभावनाने अर्थे एते वाक्यालकारने अर्थे ते भणी इम अर्थ करीइ ते कोई एत एतलु करतो सभाबीइ तथागदारक जे



दिना बाह्य यस्य स तथा आगतकोपकरणजसामप्य माह चर्मेटकावुषणसुष्टिकसमाहृतनिश्चित गात्रकाय चर्मेटकवा बुधणेन सुष्टिकेनचसमाहृतानि प्रतिदिनमस्यास प्रहसस्य निश्चितानि निविडो कृतानि गात्राणि स्त धोर दृष्टादीनि यत्र स तथाविध कायो देशो यस्य स तथा चर्मेटकादयश्च लोक प्रतीता एव उरस्य बलसमन्वागत आतरोष्वाहवीर्ययुक्त व्यायामवर्त्तादियंयति खंवनसवनजविनव्यायामसमर्थं जविन शब्द ग्रीप्रबचन च्छेक प्रयोगश्च दत्त

**चर्मटुग दुहण मुद्रिञ्च समाहृत निश्चितगतकाए उरसवल समखाणए लघण पवण जइण वायामसमर्थे च्छेए दक्खे**

बस्या ग्रहवा भणो विधेपण तथा दूषां अल्प शब्द अभाष वाचक ते अल्प आतकळे जेहने ते अत्यातक रोगरहित इत्यय तथास्त्रिर कहतां यश्च फाड तां अप्रकप अपग्रहशी ज्ञायतु अयजेइतु ते स्थिराग्रहस तथा इदृशाय अने पगळे जेहना ते हृदपाणिपाद तथा विपासा अने दृष्टांतर पूठिनाअतर अने उर सायल एपरिणव कहता परिपूर्णपणु पास्यां छे जेहना तेपार्ख दृष्टांतरोशपरिणत सर्व अवयवे करो उत्तम सवयण इत्यर्थ तथा तत्र कहतां तालहव तेइतु जसक कहतां समत्रेणिक युगल कहतां जोडो अने परिध कहतां अंगला णिभ कहतां तेसरीपी दीर्घ अने सरलसूलपणादिके करी बाहुल्य छे जेहनी तेतलयमलयुगल परिधनिभवाह्द द्विये वाञ्छिते उपकरणे करी अपनो समर्थपणा कहेछे चर्मेटके करी तथा बुधणे करी अनेसुष्टिके करी समाहृत कहतां प्रतिदिनअभ्यास करतां गात्रनिश्चित कहतां निविड कीधळे गात्र कहतां स्कन्ध उरदृष्टादिक जिहां तथाविध कायदेइछे जेइतु तेचर्मेटक बुधणसुष्टिक समाहृत निश्चितगात्र तिहां चर्मेटकादिक ग्रमसलोकप्रसिद्ध तथा उरसवलसमन्वागए हृदयनामलयुक्तएतलेअतरोष्वाहवीर्ययुक्तअय व्यायामवर्त्तीपणु देखाडेछे तिहां लघनते उल्लघवु तथा लघन तेउदकतु इत्यादिक अनेक व्यायाम तेइने विधे समर्थ तथा जविनशब्द ग्रीप्रवाचक तेलघन लघनजविनव्यायाम समर्थ तथा च्छेकप्रयोगा दिकत जाण तथा दक्षयीप्रकारी तथा प्राप्तार्थ प्रारभित कर्मने विधे दरियुणं पणुं पास्या अथवा प्रज्ञायत

सुष्टिकेनचसमाहृतानि बुधणेन चर्मेटकावुषणसुष्टिकसमाहृतनिश्चित गात्रकाय चर्मेटकवा बुधणेन सुष्टिकेनचसमाहृतानि

शीघ्रकारी प्राप्तायां अभिज्ञत कर्मणिनिष्ठागतः प्राञ्जरत्यन्वे कुशलमाचोचित कारी सेषापीसुखच्छ त इदं गगं शः निपुण उपादानं तं तं एषः तिलोपगतः  
 सुखस शिल्पसमन्वितः एषं विधोत्तुल्ये नैव कालेन साटिक्तौ पाटयतीति तद्विगोपणोपादानं सरस्यं भूत एतः सार्वतो पटसाटिक्तौ पटसाटिक्ताया पटसाटि  
 क्ताया इयं अद्यत्तरेति भेदेनोपादानं गृहीत्वा सवरास्र मिति सकृत्कृटिति कृत्वा एवमात्मनसपसारयेत्साटिकैः तैः तैः तैः स्मिते प्रे. जः शिल्पः  
 प्रज्ञापयतीति प्रज्ञापको गुरुसमेतस (अथैल्लि) येन कालेन तेनतुणागदारकेण तस्या पटसाटिक्तायाः पटसाटिक्ताया स कृत्स्नमात्मनसपसारितं पाटितनसो  
 समस्यो भवति प्रज्ञापक आह नायसर्गः समर्थः नेतदेवमित्युक्तं भरति अथप्राद्विति इष्ट उपपत्तिमात्र यथासं विंगानांततानी समुद्रसमिति समागमेति

पत्तके कुसले सेलावौ निउणे निउणसिष्येवगए एगं सहती पडिसाडिया पटसाडियंवा गहाय सयरायं कल्यसे  
 चं उसारिज्जा तत्थचोचए पणवयं एवंवयासि जेणं कालेणं तेणंतुणागदारएणं तीसेपडसाडिजाएजा पटसाडिसाएवा

तथा कुशल आलोचितकारी तथा सेषापी एकवारसाभल्यां कार्यनं करणधर तथा निपुण उपायनं चारंभत तथा निपुणशिल्पपगत सुखसिमान संयुक्त  
 एषु' ऊर्ध्व तेनोडेज काले याटिक्ताने फारे तेभगी यणा विगोपण यजा तेषुभ्यं पुरुष एव सहती सोदो' पटसाटिक्ताने यत्त पटसाटिक्ताने पटसाटिक्ता  
 शी एवमिति सुखस एव तेभगी ऊर्ध्व यही तथा गडाज लेडुने सगराजं कर्ताती सकृत् कटति तरिनि कथंनं अथमार तन्काल फारै त्त्यैः तिजो गुरुने  
 चोयिप्रेरे तेभगी शिल्पने चोदक कतीये ते प्रज्ञापक कृताता गुरु ने प्रेत इम गेल्युं भगवन् जेणं कृताता जेतने काले तेणे तद्व्यागदारके पटसाटिक्ताने तथा  
 पटसाटिक्ताने एतवार प्रज्ञा मात फाडे एतले काले तेसमय ऊर्ध्व किंवा न ऊर्ध्व ए गोप बाय गुरु गेल्या जोपणते समरे नायभर्यः समर्थं न ऊर्ध्व

तत्र पठनीयं त्रिंशत्तमोऽध्यायः ४२५







स्याच्चित्तशक्तिवात्प्रतिसमयमननानां सघातानाच्छेद उपपद्यते एवञ्च सत्ये कश्चित्कर्मभये यावत् सघाताच्छिद्यते ते तेरनतैरपिसूक्ष्मतर एक एव सघातो विवक्ष्यते अतएव भूता सूक्ष्मतरसघाता एकस्मिन्व्यवसायिण्येव असख्येया एवभवति तेषां कर्मिण्येव असख्येयै समये पक्षच्छिद्यतेऽतो न कश्चिद्विरोध इत्यत्र विशेषो विद्यते सूत्रे अमुक्तमप्यवश्य प्रतिपत्तथ्यमन्यथा ग्रन्थान्तरे सच विरोधप्रसंगात्सूत्रणाथ सूचीभावात्वादिति ततोऽसख्येयेरेव समयोर्यथोक्तपक्षेणो विदार्थे माणत्वाच्छेदस्तथाह भवविषयस्य समय प्रसाधकस्य विशिष्टक्रियाविशेषस्य कस्यचिदर्थव्यतिरिक्तमयथात्वादेसोविधानमुक्तमतराये समये इति सामान्येणोक्तवा निति एकस्मादुपरित न पक्षच्छेदेनकालादसख्यतन्मोघ समय इति स्थित युगपदनत सघातविदारणहेतु पूर्वोक्त प्रयत्नविशेषे सिद्धिय नगरादि

गदारण तस्मत्तुसु अविरिक्ते पक्षे स्थिते सेसमए भवद् नभवद् कक्षा जघ्नाण अघाताण सघायाण समुदयसमिति समागमेण एगे पक्षे निष्पञ्जए अविरिक्ते सघाएअविसघाद्रए हेठिक्ते सघाए नविसघाद्रज्ज्वद् अण्य भिकालेउवरिक्ते संघाए

समिति क्वहता अन्योन्य लोली भाव ते समित्तु जे समागम क्वहता एक यस्तुनिपचावया निमित्त एकठा क्विक्तु अयवा समुदाय याचकपथा यी समु द्यादिक शब्द एकार्य जाणवा तेषे करी एक पक्षानीपजे तिहा ऊपरलो सघात अविसघात ते क्वहता अण्यथथा छ ने हेठलो सघातनविसघातिद्र क्वहता नविविपटाये गेयसुगम तच्चा तेभणी तेउपरलो पक्ष छेदेवाउ कालसमयनइद्र तो क्विस्यु तेसमय तेकहेछे एस्तोविषय एउपरला एकपक्षच्छेदवाना काल यीपण अत्यन्त सूक्ष्मसमय प्रक्यो हे अमण आउअन् इरां मे रक क्वहेछे भगवन् जो अनतपरमाणुआने सघातेमिली एकपक्षानीपजे अने तेसघात अमु क्वसे छेदेद्रतो पक्षने विषे एणे विदारतां छतां अनता समय लागे अने एतो आगम सघाते विरोधाय जेभणी आगमने विषे असख्यतो सख्यर्पणी अय

प्रस्थिता नवरंप्रवृत्त पुरुषादेः प्रयत्नविशेषात्मनिर्वाणं यच्छब्दः प्रदेगाविलंघ्याचिरेणैवेष्टेगप्रतिभासीया यः पुनरभी कसेणे केशयोस प्रदेशं लंबये  
 युक्तिनटैर्भाष्यं सर्वज्ञवचनप्रसाद्यादुक्तं च प्रागु यादं गुलनेडीमत्ते उरुष्यं गीय असंगेजा इत्यादि यचनादिति भावः नवातींद्रियेष्वत्रै एकात्तेन  
 वीतरागोऽदृतं वाक्यं नान्याहेत्व संभवात् २ उपपत्तिर्भेद्युक्ति र्थातद्भावप्रसादिका सायय अतिरेकादि लक्षणालु रभिः कर्तेतः निदर्शितं च भेदमवर्षाद्विदः  
 विस्तरेण गेयं गतायं यावत् च्छब्दभगाद्या षटस्य तदस्य च्चनतत्त्वस्य जरसायपीडितस्य निरूपकित्त्वव्याभिवाक्यं संभ्रंतं च नभिभनस्य जंतोर्ननुया  
 विसंधाद्ज्ज्ज्द्र अणंनिकाले हिद्विस्त्रे संघाए विसंधाद्ज्ज्द्र तज्जा सेमसण भवद् एत्तोवित्रगं सुद्धसतगए ससए पणत्ते  
 समगाउसो असंपिज्जागं समुदयसंप्रिति समागसेगं साएगायावनिचत्ति नुचद्द्र संसेज्जायो आउलियायो उसासो

सर्षिणीना असंख्याताजसमय गोल्यादे वत उक्तं यसंरेज्ज, उगं भंते उव्यपिणी चामपिणी सुंकाएच्यासमय पणत्ता गो' ससंगिजा सगं  
 तासुगंभंते उमपणी अवसपणीसुकेवइया समयपन्नता गा अणंता ता एभिहात तिम भिने गृह वील्या एसत्य विन्नु फाडो मबलां पुमपनी  
 प्रयत्नी यक्ति अचित्त्य चिन्ताया अगोचर हे ते भणी प्रतिमसरे यंता संपजे इम केड ते एक सपयने विो उतलः संगाने रेडाइ नेण  
 अनन्त संघाते मिलीने पणि स्थूलतर एकजसंघाते विषयीये एतना भणी यतिस्त्वसयान एत पयने रिने असंख्याताज उद्द्र नेणे अणुज्जे  
 वेदते ज्जते असंख्यातेज समये पकर वेदाइ ते भणी क्रियुं पिराध नडो इम वियेपणी यद्यपि सूत्रने रिप नयी तत्तुं तयपि एरियेण

देके लच्छासयको निश्वासर एयप्रमाण लयते गकजटादिभिरस्वस्वस्य जता रच्छासनि स्वासस्वरितादि स्वरूपतया स्वभावस्थो भवत्यतो ष्टुटानि विद्येयपणो पाठान सप्तवागणोत्थादि लोके सप्तप्रमाण यथोक्तस्वरूपा स एकलोक सप्तभाका स एकलोकानां सप्तप्रत्यायो नि पद्यते एपमुक्तोक्तोव्याख्यात

सन्निज्जाद्यो आबलिआ ओ नोसासो ष्टुस्र अणवगह्लस निरुनक्तिस्वजतुणो एगेजसासनोसासे एसपाणत्तिवुच्चइ १

एवर्पाणध अन्यथा सुदमाय वयाणता घणा सिद्धाने विराध थाइ सुवतु सर्वस्वुषी सात छे ते भणी असख्यातेजसमयेकरो पम्हने विदारिता पणा यो अने छप्रस्यता अनुभवना विषयनी साधणचारी क्रियाना विषयना काइ देखाडवना अशक्यपणा इतो एत्तोविचणत उक्तमतराणसमएइम सामान्य पचने करी कल्लू छे एतने एक ऊपरना पञ्जना छेदशना कालनु असत्यातमोभाग ते समय कहीये इमनीपनो अथएककालने विपे अनतासघात विदारकना हेतुनु जे प्रयत्न विगप तेउनीजे सिद्धि तेजिम कोइ एक पुरुपनगरान्तिक धी घाल्या ऊइ तेचना प्रयत्नना विगप धी समयेर अमल्याता आकाग प्रदेश उल्लघीने घोडेज काने नगरादिकनी प्राप्त ऊइ तिम भावभी अने जा पुरुप अनुक्रमे एकर आकागप्रदेग उल्लघेतो असख्याती अशसर्पिणी उखर्पिणीये करी इटदेगनी प्राप्ति ऊइ ते भणी आगमसथ्य कल्लू, छे अगुल सेढोभिजे उसप्विणोओ असरोज्ज, इतियपपात् अने थलो अतीन्द्रियाद्ये नेविपे एकांतियुक्ति बालवीज इम एकांत नथी जे भणी सर्वज्ञतु वचनयुक्ति विनायणिय प्रमाण करसु छे उक्त च आगमसोपपनिच सपूर्ण विद्विनक्षणा अतीन्द्रियाणागमर्थोना सदुभाय प्रतिपत्तये । आगमथा प्रवचन प्राप्त दोष क्षयाद्विदु धीतरागोदृत वाक्य नवयाद्वेत्यसम्भवात् । उपपत्ति भेदेसु किं वातज्ञाय प्रसाधिका सात्वयथितरेकादि लक्षणा चुरिभि लताइ इकां विदु देवाद्या तथाअसन्निज्ज णमित्यादिसुगम ष्टुस्रजोक्त ष्टुस्रजताउटतेचना तथाअन वकल्पकहतां अराये करी पीछ नथी तेउतु तथा निरवकिट्टम व्यावकरो प्रथमचने छिबडां व्यायो नथी तेजतु मनुष्यएक उच्छामयुक्त निरुजासएसकहतां

सांप्रतं सप्त सप्ततिलवमानतया सामायेन निरूपयतं सुद्धर्तमेवोखाससंख्येया विधेयतो निरूपयितुमाह तिगिसहस्रागाहा षष्ट्या भावार्थः सप्तभि  
 रच्छासैरेकः श्लोको निर्दिष्टः एवं भूताद्यश्लोका एकस्मिन्नुभवे सप्तप्रोक्तास्ततः सप्त सप्तभिरेव गुणिता इत्येकस्मिन्नुभवे एकोनपंचागदुच्छासाः सिद्धा एकस्मि

सप्तपाणूणिसेत्रोवे सत्तथोवाणिसेलवे लवाणंसत्तहत्तरोए एसमुद्धत्तेविआहिंतिर् तिगिसहस्रासत्तथ सयाद् तैद्धत्तरि  
 चऊसासा एसमुद्धत्ताभणिओ सब्वेहिंअणंतनाणोहिंश् एएणंमुद्धत्त पमाणेणं तीसंमुद्धत्ता अहोरत्तं पणरस अहोरत्ता  
 पक्खो दोपक्खामासो दोमासाऊज तिणियउजअयणं दोअयणाद् संवत्सरे पंचसंवत्सराद् जुगे वोसंजुगाद् वासस  
 यं दसवाससयाद् वाससहस्रं सयवाससहस्राणं वाससयसहस्रचौरासोद् वाससयसहस्राद् सेएगेपुब्बंगे चउरासीद्  
 पुब्बंगसयसहस्राद् सेएगेपुब्बे चउरासीद् पुव्वसयसहस्राद् सेएगेतुडिअंगे चउरासीद् तुडिअंगसतसहस्राद् सेएगे

ए उच्छासनिःश्वास ते प्राण एह्वं कालमान बीलीये इहं शोक जरादिके करी पीडित जीवने उखास निश्वास उंतावला भाये ते भणी ऋट्टादिकविशे  
 यणप्रत्या इति श्लोकार्थः सत्तपाणूणि ज्ञाक सात प्राण यथोक्त स्वरूप तेणे करी एकश्लोक एह्वं कालमान ऊद् तथा अथ सत्तहत्तरि लवे करी एन  
 मुद्धर्त एह्वं काल मान हे इति श्लोकार्थः तेगिसगाहा एह्वं ए भावार्थः सात उच्छासे एक श्लोक अने सात श्लोके एकलव तेसातसातसं गुणतां एक  
 लवने विधे उगुण पंचास उच्छास ऊद् अने एक सद्धर्तने विधे लवसतहस्रविश्लेया हे अने उगुणपंचास उच्छास सत्तहत्तरिसंघाते गुणीये तिवरे ए  
 यथोक्त उच्छास मान भावे इति गाथा भावार्थ अथ अहोरात्रादिक शीर्षे प्रहेलिका पर्यन्त काश विशेष कालादुप्यनि विधे कथा हे तिम लेवा तथा

नृ ऊर्णे तथा सप्त सप्ततिनिर्णयता अतएकोन पचाशत्सप्त सप्तत्यां गुण्यते ततो ययोरु सुच्छास निम्बासमाण भवति उच्छासशब्दस्योपलक्षणत्वात् अहोरात्रा  
 इय शीर्षप्रहेलिका पर्यन्तास्तुजाल प्रमाणवियेया आखानु पूर्व्यामेव निर्णोतार्या एतावताचेवगणए इत्यादि एतावत्शीर्षप्रहेलिका पर्यन्तमेव तावत्प्रणित  
 एतावतामेवशीर्षप्रहेलिका पय ताना चतुर्णवस्यधिक्यत कचणानामेवाकस्थानानां दर्शनादेतावदेवगणित भवति न परत इति भाव एतावतेवच शीर्ष  
 प्रहेलिका प्रमितराशि पर्यन्तो गणितस्यविषयो गणितस्य प्रमेयमित्यर्थं अतपरं सर्वसौपमिकतदेव निरूपयितुमाह सेकित उभमिए इत्यादि उभमया

तुडिए चउरासीद् तुडिअसय सहस्राद् सेएगेअहडगे चोरासीद् अडगसतसहस्राद् सेएगेअडडे एव अत्रवगे अत्रवे  
 ऊडअगे ऊडए उप्पलगे उप्पले पउमगे पउमे नलियगे नलिये अच्छनिउरे अउअगे अउए पउअगे  
 पउए अउअगे अउए चूलिअगे चूलिया सोसपहेलियगे अउरासीद् सोसपहेलि अ सतसहस्राद् साएगासीसपहेलि  
 आ एतावताचेवगणिते एतावताचेवगणि अस्मविसए अतोपर उवमिए पवत्तति सेकित उवमिए२ दुनिहे पयत्ते तजहा

एतावता चेवगणिए एतलु ज शीर्षप्रहेलिका पर्यन्त १२४ आकना स्थानक देषाडवा थी गणित ऊद् उपरान्त नयी एभाव तथा एतावता चेव एतलु ज  
 शीर्ष प्रहेलिका । राशिपर्यन्त गणिततु विषय बोस्यु गणिततु प्रमेय ऊद् इत्यर्थं एतौपर उभमिए एतथा उपरान्त सर्वउपमिक प्रवर्त्ते अथ तेषिजकहे छे  
 सेकित अय कियु ते औपमिक रूपां उत्तर उभमिए औपमायेकरीनीपनोति औपमिक औपमाविना जेबावनो मान अणतिगयी मनुये ग्रहीनसकीये ते  
 औपमिक एभाव तेषिभेदे प्ररूप्यो तद्वथा तिष्ठा आन्यनापन्नयो परे पत्य जेवच्छमाण स्वरूप तेषे करी औपमाछे तिष्ठा तैपत्योपम अने मोटपणानाटल्य

निर्दत्तसौपमिकं उपमानमंतरिण यत्काल प्रमाणमनतिश्रयिताग्रहीतं न शक्यते तदोपमिकमितिभाव सच्चद्विधा पल्योपमं सागरोपमंच तत्र घात्यपल्य वत्यल्योपमंतिधाः वक्ष्यमाणस्वरूप पल्योपमायादिस्वात्यल्योपमतया महत्त्वसाभ्यास्वागरेणोपमायत् तत्सागरोपमांतत्र पल्योपमंतिधाः तज्जथा उद्धारपलि ओवसे इत्यादि तत्र वक्ष्यमाणस्वरूपवालाग्राणा तत्खंडानावा, तद्वारे हीपसमुद्राणांवा प्रतिसमयसुद्धारणसपहरणसुद्धारखद्विपयं तत्प्रधानंवा पल्योपमसुद्धारपल्योपमंतथा अङ्गे तिकालः सचेह प्रसावाहजमाणवालाग्राणातत्खंडानांवा प्रत्येकं वर्षयत लक्षण उद्धारकालो गृह्यते अथवा यो नार काद्यायुः कालः प्रकृतपल्योपममेयत्वेन वक्ष्यते सहवोपादीयते ततस्तत्प्रधानं पल्योपममद्वापल्योपमं तथा जेतमाकाशं तदुद्धार प्रधानं पल्योपमं जेतपल्योपमं तत्वाद्यं निरूपयितुमाह शेकितं उद्धारपलिवसे इत्यादि उद्धारपल्योपमं द्विविधं प्रकृतं तद्यथा बालाग्राणां सूक्ष्म खंडकारणात् सूक्ष्मं च तेषां मेवसां

पलिओवमेय सागरोवमेय पलियोवमेतिविद्धे पणत्ते तंजहा उद्धार पलिओवमे अद्वापलिओवमे जेतपलिओवमेच सेकिं तं उद्धारपलिओवमेद् दुविहे पंणत्ते तंजहा सुद्धमेअ ववद्धारिएअ तत्यणं जेसेसुहमे सेठप्ये तत्यणं जेसेववहारिए सेज

पयाथी सागरसुं ओपसा छे जिह्वां ते सागरोपम तिहा आदिभेदमाह शेकितं०॥ अथ किंसुंते पल्योपम इहा उत्तर पल्योपम विद्धं भेदे प्रकृत्योत द्यथा तिहां वक्ष्यमाण बालाग्र अथवा बालाग्रना खंड तेहने द्वारे करी हीप समुद्रनुं समयप्रति जे उद्धारयुं अपहरवुं ते उद्धार तेविपय छे जेहनुं अथवा तेहिज प्रधान छे जे पल्योपम ते उद्धार पल्योपम तथा अद्वा कहता काल ते इहां प्रसाव थी वक्ष्यमाण बालाग्रनु अथवा तेहना सुं उहु प्रत्येकर सौवर्परूप उद्धार बालग्रहीये अथवा नारकादिकना आजपारूप बालनुं एणे पल्योपमे करी प्रमाब बोलीस्थे ते इहां ग्रहीये ते इद्वा प्रधान जे पल्योपम ते अद्वा

व्यवहारिक प्रत्यक्ष व्यवहारिभिर्गृह्यामाणांनामखंडानां यथास्थितानां ग्रहणात्प्ररूपणमात्र व्यवहारोपयोगिगत्वाद्यावहारिकश्चेति तत्र वतस्त्वन्न तद्व्याप्य  
 तिष्ठत तावद्यवहारिक प्ररूपणा पूर्णकत्वादेतत्प्ररूपणाग्रो पथात्प्ररूपयित्येते इतिभाव सातवत्तद्यावहारिकसुधारणपल्लोपम तदिदमितियोप सादेष विषय  
 राः खेजजानामए इत्यादि तद्यथानाम धान्यपल्पइषपल्प स्नायुषहत्तत्वादायामधिक्यभास्या देवर्षां विस्ताराभ्यां प्रत्येकसुखेधांगुलकमनिष्पन्न योजन  
 लहसुस्रुत्वेनापि तद्योजन त्रिगुण सवियेप परिच्छेयेष भ्रमितिमगौकृत्येति सर्वस्वापिहसपरिधे किञ्चिन्त्य नप्रउभागाधिकतियुत्वात्सापिपल्पस्य किञ्चि  
 न्यन पङ्भागधिकानि त्रीष्वियोजनानि परिधिर्भवतीत्यर्थ सपल्प एगाधिक्येयाहियतेपाहियत्तिपटीवचनलोपादेकाहिनद्याधिक त्याहिकानां लक्ष्यंत

**हानामए पल्लेसिञ्चा जोयणत्रायाम विक्रव भेण जोञ्चणउट्ट उच्चत्तेण ततिगुण सधिसेध परेक्खेवेण सेणपल्ले एगाहिञ्च**

पल्लोपम तथा खेज कसीइ आकाय तेवना प्रदेशग उट्टर्यू ते प्रधान जेपल्लोपम ते खेज पल्लोपम तिहा आदि भेदमाह सेकित अथ कित्थु ते उट्टार  
 पन्वोपम उट्टर उट्टार पल्लोपम विभेद प्ररूप्यो तदथा तिहां गलाग्रना सूझापण्ड करवा यी सूझ कशीये एने वाकाग्रना उण्ड अण कखे ऊते सख  
 वहारिक कर्हतां प्रत्यक्ष व्यवहारी जे जीय तेषे ग्रहा जाइ तेज्ज यथावस्थित गलाग्रना गृहवा यी एने प्ररूपणा मात्र व्यवहारना उपयोगपयाथी  
 व्यपहारिक कशीये तिहा जे सूक्ष्म ते स्थाप्यु रववा देवु व्यवहारिकनी प्ररूपणा कस्या पल्ली एवनी प्ररूपणा करी खे एभाव तिहा जेय्यवहारिक ते  
 एइतियेप वचन ते यथा नामक धान्वना पल्लनी परे पल्प उट्ट तेवाटला पणा यी आयाम विच्छेधेनकहतां दीर्घ एने विस्तारपणे करी प्रत्येक उत्सेया  
 प्रूलनिष्पन्न एकेकयोजन एने एकयोजन उत्सेयण ज उपणे करी तकहतां ते योजन त्रिगुणो सवियेप कर्हता आर्भेइ परियेय कर्हता वापता परिधे करी धव  
 वाटलाउ परिधि किञ्चित् जनच्छेहा भाग अधिक त्रिगुणो उट्ट तेभयो एपालान पणि परिधि छेहा भागाधिक तिष्णि योजन उट्ट तेपस एकाहियइत्या इ

अप्यनानात्तद्विषयं पञ्चमस्य तत्र

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००



समस्य प्रकृताना भूतो बालाशकोटीनामिति संबंधं तल सुं डितेशिरस्ये केनाङ्गायाभस्माभावालागकोटय उच्यते त्वात्ता एकाङ्किकः ह्याभ्यां तु या उच्यते इति ताहाङ्किकः त्विभिसुत्वाङ्किकः कथं भवत इत्याह संसृष्ट आकर्ण्यपूरितः संनिचितः प्रचयवियोगो विधीकृत किं वञ्चना एवं भूतोऽसौ भूतो येन तानि बालाश्याणि नाग्निहोत्रे वायुरपरहरेदतीव निमित्तात्वाद्ग्नियवनापि न तल कामत इत्यर्थः नोक्तोऽप्यन्तिनोक्त्ये युः प्रचयवियोगादेव सुपिरा भावात् वायोरसं भवाच्चनासारतां गच्छेयुः अतएव चनोपरिविष्टं सेज्जन्ति कतिपयपरिसाटनमयं गीकृतानपरिबिधं सत्यर्थः अतएव चनोपूङ्गताएहव्यमागच्छेज्जन्ति नपूति त्वेन कदाचिदप्यागच्छे चुनं कदाचिदुर्गंधितां प्राप्तेयुरित्यर्थः तद्यथाऽपि तेस्यो यावत्प्रस्यः समये समये एकैकं बालागमपङ्कल्यकालोमीयते इति नियोगः

वेआङ्किक्य ते आहिय उक्तोसिणं सत्तरत्तपरुढाणं संसृष्टे संनिचिते भरितेवालागकोडोणं तेषां बालाश्या नोच्चगिगडहेज्जा नोवाजहरेज्जा नोबुहेज्जा नोविष्टं सिज्जा योपुङ्गताएहव्यमागच्छेज्जा तदणं समएङ्गमेगं बालगुणवहाय जावद्दणं

इहां पटीना वञ्चयचनना लोप यी एकाङ्किकीरुं घ्राङ्किकीनो त्वाङ्किकीनो वृत्तकृष्ट यौ सात रात्रि प्रकृतबालाग कोटिवुं भय्यो इति सत्यन्व तिहां जेहवुं शिर सुधुं ऊह तेहना सिरने विपे एक दिहाडे जेतली वाकनी यणी ऊठे ते एकाङ्किकी बालागरूप कोटि ककता यणी कहीये अने सिदिहाडि जेतली कोटि ऊठे ते घ्राङ्किकी अने त्रिणि दिहाडि जेतली उठे ते त्वाङ्किकी विधे पालुं केशुं भय्यो संसृष्ट कानालगे भय्युं तया संनिचितप्रचयना वियोगयी निवड कीधुं किं वञ्चना एहवुं भय्यो जेते वाबाग्रने अग्निवाले नही वायुन यपररे एतले अति नियडपया यौ अग्नि अने वायु तिहां संसमीन सके तथा नो कुहज्जा संडे नही जेभणी प्रचयना वियोगयी पोकाडनथी अने वायुना असम्भव यौ असारपणुं न पामे एतला भणीज विध्वंसाय नही

1188 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200

ततश्चजाबर्हणमित्यादि यावता कावेन सपत्य स्त्रीषो वाजायकर्मैर्वात्तुचयसुभागत अक्षतधान्यकोटागारपक्षया नीरयेति निर्गतो रज सूक्ष्म वाजाग्रोऽपक्षतधाम्यरज कोटागारवत्तया निष्कृमिति अत्यत सञ्चेपात्तन्मायतांगतवालाप्र लेपापशरान्त्रिलेप अपतीतमित्यादिगत धान्यलेपकोटागार वदेभिसिद्धिभि प्रकारैर्निर्दिष्टो विशुद्ध इत्यर्थ एकायिकावा एते शब्दा अत्यतविशुद्धि प्रतिपादनपरा वाचनात्तरदृश्यमान अन्यादपिपदसुक्तानुसारेण व्याप्येय एतावत्कालसकृप यादरसुक्षारपन्योपम भवति एतच्चपल्पांतगत वाजाश्राणां सुखेयत्वात् सखेयैसमयेसादपाशरसभवात् सखेय समयमान द्रष्टव्य सेक्तमित्यादि निगमन स्ववहारिक पल्योपम निरूप्याय सागरोपमाक एएसिपक्ष्वाणगाहा एतेषा मनतरोक्तपल्योपमाना दशभि कोटा कोटिविरेक

**कालेण सेपल्लेखीले नीरए निष्कृवे णिठिए भवद् सेत ववहारिए उव्वारपक्खिओवमे एएसिपल्लुवाण कोडाकोडीण्वेज्ज**

कक्षां केतला एक पण सुडवानी अपेक्षाये सुडे नशी एवज कारण ॥ ती पूतिभाय न गच्छद् कक्षतां बदाचित् पणि वुर्गन्धपणु न पामे तत्रण तेवालाय मांदि यी समयर एकर वालाप्र अवशाय अपशरीने काखमवीये दूतियेप बचन अंतले काले तेपत्य स्त्रीण ऊद्. वाजायना आर्क्यवाथी क्षय पास्यो हुद् जिम कोठार मांदि यी धान्य काढी लीधु हुद् तेहनी परे तन्ना नीरए ते रज रक्षित कीधो हुद् सूक्ष्मवालायना अपशरवा यी पत्य रजरश्चित कीधो धान्यना कोठारनी परे तथा निलेपऊद् अत्यन्त सञ्चेप पासवा यी तन्मय पणु पास्या जे बालाय तेहना लेपना अपशर ऊ ती जिम धान्यनाकोठा रनी भोत्यादिक यी वात्थु लेपचलगो कीधु ऊद् तेहनी परे एत्विण्णिर प्रकारे बरी भिठिए निर्दिष्टां विशुद्ध इत्यर्थ अथवा ए सर्वथन्द एकार्थ अत्यन्त विशुद्धिना करणशर छे द्वा वाचनान्तर अनंतरापि कक्षां ना अनुसार यी वपाण्णु एतथा काखनु बादर उव्वार पल्योपम हुद् एवाका मांदिना वाजाग्रु अपशर उव्वारने समये बरी कोद् ते भणी सुख्याता समवमान एबल्यापम जाण्णु सेत ते एव्यवहारिक उव्वार पल्योपम एतले पादर पल्योपम

सुवद्वारात्तरक्षित एपक्षम तानेव मनात्त ज्ञानं सु

समराल प्ररुढानां भृतो बालाशकोटीनामिति संबंधं तल सुं डितेगिरस्ये केनाङ्गायात्रमाषावालाशकोटय उच्छिष्टं ति ताएकाद्विष्यः हास्यातुया उच्छिष्टं ति  
 ताहाद्विष्यः त्रिभिस्तुत्याद्विष्यः कथंमत इत्याह संसृष्ट आकर्ण्यपूरितः संनिचितः प्रपद्यद्वियोगोच्चिष्योक्त किं वक्तुना एवं भूतोऽसौ भृतो येन तानि बाला  
 श्राणि नाग्निर्हेम वायुरपरहरेदतीव निश्चितत्वाद्ग्नियपवनाशपि न तल कामत इत्यर्थः नोक्तोऽस्ति नोक्तयोः प्रपद्यद्वियोगादेवसुपिरा भावात् वायोरसं  
 भवाच्चनासारतां गच्छेत्सुः अतएवचमोपरिबिम्बं सेज्जति कतिपयपरिसाटनमयं गीकृत्यनपरिविध्वंसेत्यर्थः अतएवचनोपुद्गताएहव्यमागच्छेज्जति नपूति  
 त्वेन कदाचिदथागच्छे बुनकदाचिदुर्गंधितां प्राप्तेयुरित्यर्थः तत्रयंति तेभ्यो वाकाशेभ्यः समये समये एकैकं बालाश्रमपद्मत्यकालोमीयते इति वियेषः

वेआद्विअ तेआहिय उक्कोसिणं सत्तरत्तपहृढाणं संसृष्टे संनिचिते भरितीवालाशकोडोणं तैणं बालाश्रा नोच्चिगिगडहेज्जा  
 नोवाजहरज्जा नोक्तुहेज्जा नोविधं सिज्जा योपुद्गताएहव्यमागच्छे ज्जा तउणं समएद्दएगमेगंवालगुअवहाय जावइएणं

इहां पटीना वक्तवचनना लोप यी एकाद्विकीसुं द्याद्विकीनो त्वाद्विकीनो उतृष्टय यी सात रात्रि प्ररुढपालाश्र कोटिवुं भस्यो इति सुखन्ध तिहां  
 जेह्वुं शिर सुडुं ऊइ तेहना सिरने विदे एक दिशडे जेतली वाकनी अणी ऊठे ते एकाद्विकी बालाश्ररूप कोटि कइता अणी कहीये फले विदिशडे  
 जेतली कोटि ऊठे ते द्याद्विकी अने त्रिणि दिशडे जेतली उठे ते त्वाद्विकी शिवे पालुं केह्वुं भस्यो संसृष्ट कानालगे भस्युं तथा संनिचितप्रचयना  
 वियेपययी निवड कीधुं किं वक्तुना एह्वुं भस्यो जेते वाकाश्रने अग्निपाले नही वायुम अपपर एतले अति निवडयया यी अग्नि अने वासु तिहां संजसीन  
 सके तथा नो कुद्विज्जा सडे नही जेभणी प्रपद्यमा वियेपययी पोकाडनयी अने वायुना असम्भय यी असारणुं न पामे एतला भणीज विध्वंसाय नही

राय अनापत सिधु अनापतरेका भाषाया संयव संन ४४५

राय अनापत सिधु अनापतरेका भाषाया संयव संन ४४५

ततश्चाधुएणमित्यादि यावता कालेन सपत्य श्रीशो धाखाप्रकर्षणात्स्यसुपागत अकृष्टधान्यकोटागारवत्तया नीरयेति निर्गन्तो रज सुख्य  
 धाखाप्रोपकृष्टधान्यरज कोटागारवत्तया निश्चेदिति अत्यत सञ्चेपात्तन्मयतांगतवालाप्र लेपापारानिलेप अपतीतभित्त्यादिगत धान्यलेपकोटागार  
 वदेभित्तिसि प्रकारेर्निष्ठितो विद्युत् प्रत्ययं एकाधिकवा एते यन्दा अत्यतविद्युच्चि प्रतिपादनपरा पाषनांतरदृश्यमान अन्यादपिपदसुक्तासुषारेण  
 व्याप्येय एतावत्कालस्यरूपं वादरमुद्धारपल्योपम भवति एतच्चपल्पांतगत धाखाग्राणां, सयेयत्वात् सत्येयैसमयेसादपाशरसभवात् सत्येय समयमान द्रष्टव्य  
 सेनामित्यादि निगमन अर्थकारिक पल्योपम निरूपयाय सागरोपमाश् एसिपञ्चाणगाश् एतेषा मनतरोक्तपल्योपमानां दृशभि कोटा कोटिभिरैक

कालेण सेपल्लेखलोणे नीरेण निष्कृते विष्टि ए भवद् सेत ववहारिए उद्धारपलिञ्जोवसे एएसिपञ्चवाण कोडाकोडीरुवेञ्ज

कश्चतां केतला एक पण सडवानी अपेक्षायै सडे नशी एरज कारण अती पूतिभाष न गच्छद् कश्चतां कदाचित् पयि नुर्गन्थयण न मामे तच्छण तेवालाप्र  
 मांशि यी समयर एकर वालाप्र अवशाय अपशरीने कालमवीये इतियेय बचन अंतले काले तेपल्य श्रीण अद् धाखायना आशयंयाथी स्वय पास्यो  
 हुद् जिम कोठार मांशि यी धान्य काढी खीधु हुद् तेरनी परे तथा नीरेण ते रज रचित कीधो हुद् सुख्यवालायना अपशरवा यी पल्य रजरचित  
 कीधो धायना कोठारनी परे तथा निलेपअद् अत्यन्त सञ्चेप पामथा यी तन्मय पणु पास्या जे बाकाय तेरना लेपना अपशार अती जिम धान्यनाकोठा  
 रनी भीत्यादिज यी धान्यह लेपफलगो कीधु अद् तेरनी परे एतिथिर प्रकारे करो निठिए निठित्तविद्युत् इत्यर्थं अथवा ए सर्वग्रन्द् एकार्यं अत्यन्त  
 विद्युच्छिना करणशर अे इषां वाषनान्तर अनरापयि कक्षां ना असुसार यी वपाण्डु एतला काशनु वादर अद्धार पल्योपम हुद् एपाका मांशि  
 पाणाप्रमु अपशार अर्याते समये खरी जोद् ते भणी सख्याता समवमान एबल्योपम जाणधु सेत ते एख्यवहारिक उद्धार पल्योपम एतले वादर पल्योपम

सागरोपमं भवतीति तात्पर्यं शिष्यः दृच्छति। एतेव्यवहारिकपल्योपम सागरोपमैः किं प्रयोजनं कोऽर्थः साध्यतेः ततोत्तरं नास्ति किंचित्प्रयोजनं निरर्थकं सार्चितदुपन्यास इत्याशंकाह केवलं प्रज्ञापनाप्रज्ञाप्यते प्ररूपणामात्रं क्रियत इत्यर्थः ननु निरर्थकस्य प्ररूपणायपि किं कर्तव्यमतोय किञ्चिदुसन्नैवमभि प्रायो परिज्ञानादेवं हि मन्यते वादरे प्ररूपिते सूत्रां सुखायासयस्यादतोवादर प्ररूपणा सूत्रोपयोगित्वान्नैकातोनैरर्थक्यमनुभवति तर्हि नास्ति किंचित्प्रयोजनमित्युक्तं असत्यं प्राप्नोतीति चेन्नैवमेतावतः प्रयोजनस्याल्पत्वेनाविचक्षितत्वादेव यादराहापल्योपमाद्वाधपि वाच्यं सेकितं सुद्धमे इत्यादि गतार्थमेव

दसगुणिया तं व्यवहारिअस उद्वार सागरोवमस एगस भवे परिमाणं२एहिं ववहारिअउद्वारपलिओवस सागरोव  
हमेहिं किंपओअणं एएहिं ववहारिअपलिओवम सागरोवमेहिं णत्थि किंचिअओअणं केवलं पणवशापणविल्लइ से  
तं व्यवहारिए उद्वारपलिओवमे सेकितं सुद्धमेउद्वारपलिओवमे २से जहाणामए पल्ले सिआ जोअणं आयामविकवं भेणं

देखाडीने शिष्ये वादर उद्वार सागरोपम कहे छे एएसिगंगाया एव्यवहारिक उद्वार पल्योपमनी दयजोषा कोडि करी ते एक व्यवहारिक उद्वारसागरोपमसुं परिमाण उद्ध इतिगाथार्थः दूहां शिष्य आह एएहिं एणे व्यवहारिक पल्योपम सागरोपमे करी किसो प्रयोजन किसं श्यं साधीये उत्तर गुरु बोल्या नथी कांइ प्रयोजन तो निरर्थक तेइयु ग्रहण इम आसंकीने कहे छे केवल प्रज्ञापना प्ररूपणा मात्रे करीये इशा प्रेरक आह भगवन् निरर्थकनी प्ररूपणाइं किसं करवूं ते भणी एउन्नाशवाक्यनी परे थाइ गुरू बोल्या कस इम नही इहां इम जासीये छे जेवादर देखाये उंते सूत्रा सुखे समुझाइ ते भणी वादरनी प्ररूपणाते सूत्राना उपयोगी पणा उंती एकांतिते वादरनी प्ररूपणा निरर्थक पणुं न पामे वली शिष्य बोल्नुं तो नास्ति

जावतत्यण एगमेगेवालाये असखेज्जाइमित्यादि पूर्व वालाग्राणि सखजान्येव गृहीतान्यते त्वेकैकमसख्येयखडीकत गृह्यत इति भाव एष सख्यैकिक खडस्य दन्नाथ भवति तत्रिरूपयिठमाइ तेण वालाग्रादिद्वीभोगाण्याओ इत्यादि तानि खडीकत वालाग्राणि प्रत्येक ह्यवगाहनात कि असख्येय भाग माताणि हटिचशुर्हारीरुप दर्शनरुपा सावगाहने परिच्छेदेद्वारेण प्रवर्तते तत्र वस्तुनि तदेवसुदृष्टवगाहना प्रोच्यते ततोऽसख्येय भागवर्त्तानि प्रत्येक वाखाग्रखडानि मतन्यानीदमुक्त भवति यत्पुत्रलद्रथ विशुद्धसत्त्वदर्शन अथास्य पश्यते तदसख्येय भागमाताप्येकैकगृहानि भवते द्रव्यतो निरूप्याय

लोचण लवेहेण त तिगुण सविसेस परिक्खेण सेणपल्ले एगाहिअ वेआहिअ तेआहिअ लकोसेण सत्तरत्तपरुटाण ससठ्ठे सनिचिते भरिते वालागृकोडोण तत्थण एगमेगेवालगे असखिज्जाइ खडाइकज्जाइ ते बालगृदिद्वौण ओगाह णाउ असखेज्जाइ भागमेत्ता सज्जमस पण्णणीवसस सरौरोगाहणाउ असखेज्जागुणा तेणालगा गोअग्गोडरेज्जा नोवाउहरेज्जा णोकुहेज्जाओविद्वसिज्जा नोपुइत्ताए हव्वभागच्छेज्जा तलण समएएगमेगपालगा अवहायजावइ

किश्चित्प्रयोजन एवमथ असत्यपणु पामे गुब शोल्या घोडा प्रयोजननी विवज्जाना अणकरवा थी असत्यपणि न कशीये एव वादर अच्चापत्योपमादिक्कने विषे पणि बोलउ सेत समाप्ति सेकित संव तथैव तन्नण पूर्व वालाग्रस्वभावनाज ग्रच्छा छ ता इहां तेमांजिजा एकर वागायगा असख्याता खड करीये तिथा एकर, यण्डगु जेमान छइ तेकहे के तेण तेण्डाकत वालाग्र प्रत्येकर हटनी अयगाहना थी असख्यातमा मागमात्र छइ तिहां हटि ते चत्तु, नाहार थी जपनु दर्शनरुप ते जे यस्तुने विषे अयगाहनानि विषे निर्णयहारि प्रथमे ते यस्तुने हटि अयगाहना कशीये एतले जे यस्तु अतिस्वल्प हटिभावे

अनुवाकान्तरेण उपक्रम लताय प्रमाणात् ५०

क्षेत्रतस्तन्मानमाह सुहृमस्ये त्यादिभ्यमयमल भावार्थः सुहृत्पनकजीव शरीरं नावतिक्षेपमगंघते ततोसंख्येयगुणानि प्रत्येकं तानि भवन्ति वादर दृष्टिवी  
काधिकपर्याप्तशरीरं तुल्यानीति दृष्टवादः एषांचवालाग्र खंडानामसंख्येयत्वात् प्रतिसमयसुद्वारे किल संख्येयावर्षकोद्यातिक्रामंत्यतः संख्येयवर्षं कोटि  
मानमिदमवसेयं शेषं ब्रह्मायं प्रायं यावत् जावद्वा अटाइज्जायं उद्वारसागरोवमाणमित्यादि यावंतोर्द्धं ततोयसागरोपमेदूद्वारसमया वालाग्री नारोप  
सञ्चिताः समया उद्वारसमयाः एतावंतोद्दिगुणर विष्णुभाद्वीपससुद्वययोक्तेनोद्वारेण प्रज्ञप्ताः असंख्येया इत्यर्थः उक्तसुद्वारपत्योपम अयाद्वापकरोपमं

एणकालेणं सेपल्लेखीणे नीरए निल्लेवे णिट्टिए भवद् सेतं सुहृमे उद्वारपलिओवसे एएसिंपल्लवाणं कोडाकोडो हवेज्ज  
दसगुणिआ तं सुहृमस्य उद्वारसागरोवमस्यएगस्यभवेपरिमाणं एएहिं सुहृमउद्वारसागरोवसेहिं किंपओअणं एएहिं  
सुहृमउद्वारपलिओपमसागरोवसेहिं दीवससुद्दाणं उद्वारवेप्पद् केवईआणं भंते दीवससुद्दा उद्वारेणं पंगो जावद्  
आणं अटाइज्जायं उद्वारसा० उद्वारसमनाएवद्दआणं दीवससुद्दा उद्वारेणं पयत्ता सेतं सुहृमे उद्वारपलिओवसे सेतं

तेहना असख्यात माभागमानं प्रत्येकर तेवालाग्रना खण्ड जाणवा एतले द्रव्ययौ तेह्वं मान कहीने षिवे चेतवी तेमान कफेके सुहृमस्येत्यादिइहा ए  
भाषार्थसूक्ष्मपनक जीवतुं शरीरजेतले चेतो अवगाहे तेषी असख्यात गुणां प्रत्येकर तेवालाग्रना खण्ड जाणवा एतले वादरदृष्टवीकाधिकपर्याप्तक शरीर  
तुल्य जाणवा ए दृष्टतुं यषन शेषं पूर्ववत् वावाग्रना खंड असख्याता छे ते समयर उद्वारता संख्याता वर्षं कोटि पतिक्रमे ते भणी संख्याता वर्षंकोटीमान  
एत्योपम जाणवतुं शेषं तथैव जावद्वा अटाइज्जायं जेतला अटाई उद्वार सागरोमना उद्वारसमय कर्हतां जेतला ते समय उद्द एतला हीपससुद्द





यावर्षकोद्योवसेयाः सूक्ष्मपल्योपमेत्वसंख्येया इति यदि नारकादीनामाशुऐतैस्मीयंते तर्हि नारकाणां भदंत कियंतं कालं स्थितिः प्रज्ञप्ता स्थीयते नारकादि भवेष्वनीयस्थितिः आयुः कर्मानुभवपरिणति इह यद्यपि कर्मपुत्रलानां बन्धकालादारभ्य निर्जरणकालं यावत्यामान्ये नावस्थितिः कर्मशास्त्रेषु स्थितिः प्रतीता ग्रन्थ ४००० तथायायुः कर्मपुत्रलानुभवनमेव जीवितं रूढं शास्त्रकारस्यापि च दशवर्षसहस्रादिकां स्थितिं प्रतिपादयतस्तदेवाभिधातु

ज्जइभागमेत्ता सुद्धमस्सपण्णग०सरोरोगाहणाओ असंखेज्जगुण्या तेणवालगा णोअग्गी०जावनोपत्तिविद्धं सिज्जा नोपूइत्ताएहव्वमा० ततोणंवाससएइ एगमेगंवालगां अवहाय जावइणं कालेणं सेप० नो० निज्जेवे णिट्ठिएभवइ सेतं सुद्धमेहिं अद्वा० एएसिंपह्णाणंकोडाकोडि भवेज्जदस गुणियात्ता तं सुद्धमस्स अद्वासा० एगस्स भवे परिमाणं ? एएहिं सुद्धमेहिं अद्वाप० सागरोपमेहिं किंपउअणं एएहिं सुद्धमेहिं अद्वाप० साग०नेरइअ तिरिक्खजोणिअ मणूसं देवाणं आउअंम विज्जंति णेरइअणंभंते केवइअंकालठिइ पणत्ता गो षहणंणं दसवाणसहस्साइ उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइ रयणप्पभापुढविणेरइअणं भंते केवइअं कालठिइ पं गो जहणंणं दसवा० उक्कोसेणं एगसागरोवमं अपज्जत्तगरयणप्पभा

अथ जो नारकादिकना आजवा तेणो पल्योपमे अने सागरोपमे करीमवीये तो नैरधिकनी भदंत केतली कालस्थिति प्ररूपी तिहां रक्षीये नारकादिक भवने विषे एणीये करी तेभणी स्थिति कक्षीये आयुकर्म अनुभववानीपरिणति इत्यर्थः इहां यद्यपि कर्म पुत्रलनी बन्ध कालथी प्रारंभीने निर्जरण काल लगे समुच्चय स्थिति कर्मशास्त्रने विषे कक्षीये तथापि आयुःकर्मनु अनुभववुं तेचज जीवित लोकरूढछे अने शासाकारने पणि दशवर्ष सहस्रादिकस्थिति

सभिमेतन्मन्या धष्टेनावुपा प्राग्भये यावन्त कालमवतिष्ठते जन्तुसो न भ्रमधिकेव दशवर्षसहस्रादिकां स्थितिरक्तास्याथैव तस्मात्प्रकादिभ्रमसासनां  
 प्रथमसमयादारभ्यायुपोऽनुभव कालएनावस्थिति साध नारकाणामोधिकपदे जघन्यतो दशवर्षसहस्राण्युत्कृष्टतस्तु तयस्त्रियत्वागरोपमानं रत्नप्रभाया  
 जघन्या तथैव उत्कृष्टातुसागरोपम अपर्याप्तपदे जघन्यत उत्कृष्टतश्चान्तमुं हर्त्तमेव तत परमयथ्यसेपाऽपर्याप्तत्वसम्भवात् पर्याप्तपदेवा पर्याप्तकारो  
 षीमा ओषिप्येवस्थितिरुद्रव्या एभमन्यास्यपि पृथिवीप बाष्प नवरमुत्कृष्टा स्थिति सर्वासु इत्यमवसेया सागरमेगतिस्तत्र दसयसत्तरसत्तहयवावीसा तैती

पुढविणेरुद्राणमते केवद्वयं प गो जहन्ने गविअतो मुहुत्त उत्क्रोसेणविअ तोमुहुत्त पञ्जतगरयणप्यं नेरुद्राणभते  
 केवद्वं प गो जहस्ये ण दसवा० अतोमुहुत्तणाद्र उत्क्रोसेण एग सागरोवमं अतो मुहुत्तेण सक्करप्पभापुढवि नेरुद्रा  
 णभते केवद्वं प गो जहस्ये ण एग सागरोवम उत्क्रोसेण तिखिसागरोवमाद्र एवसेसपुढवीउ पुच्छाभागियव्वा वालुअ  
 प्पभापुढविनेरुद्राण जह०तिगिण सागरोवमाद्र उत्क्रो० सत्तरसागरोवमाद्र पकप्पभा पु० जह० सत० उत्क्रो० दससा०  
 धूमप्पभापु० जह० दससा० उत्क्रो० सत्तरसागरोवमाद्र तमप्पभापु० जह० सत्तरस० उत्क्रोसेण वावोस० तमतमापुढ

वोलता तेचज बोलवानो भाव दीसेछे जो तेभाव नउद्ध तो आलखा वांध्या पछी पहिला भवने विपे जेतलु कालरहे तेतलो अधिकी दशवर्षसहस्रादिक  
 स्थिति बोली होये तेतो दीसती नथी तेभणी नारकादिकभ्रमाम्या पछी प्रथम समय आरभीने जेआलखा आनुभववानु कालते स्थिति जाणवी तेस्थिति  
 प्रथम ओषिक पदने विपे बोली अने अपर्याप्त पदने विपे जघन्य अने उत्कृष्ट अतमुं हर्त्तं ज ऊद्ध पर्याप्तपदने विपे अपर्याप्तकाने षीणी ओषिजजस्थिति

संजावठिई सत्तसुकमणे पुढवीसुत्ति जघन्यानुजा पढमाए जेढा साधीयाएकणिठिया भणिएत्यादि कमाज्ञापनीया अपर्याप्तकालस्तु सर्वतान्तसुं हृतमेव अपर्याप्तकाले चोधिकस्थितेर्विशोधित सर्वत योगापर्याप्ते स्थितिः अपर्याप्ताश्च नारकादेया असंख्येयावपर्यायुष्क तिर्थप्लुतव्याश्च कारणातएव द्रष्टव्याः लब्धितस्तु पर्याप्ता एव योगेपास्तु लब्ध्या पर्याप्ताऽपपर्याप्ताश्च सम्भवन्ति तदेवं पूर्वाभिहितं चतुर्विंशति दंडकमस्तुत्त नारकाणामायुः स्थितिर्निकृतिता अथासुरकुमारानां

वीर्यंभंते की० गो० जह० वावोसंसा० लक्कोसिणं तेत्तोस सागरोपमाइं असुरकुमारानं भंते कीवइइअंकाएठिई पं गो जहणेणं दसवास सहसाइं लक्को० सातिरेगं सागरोवभं असुरकुमारदेवीयंभंते कीवइ० पं गो जहणेणं दस० लक्को० अइपंचमाइं पलिउवमाइं नागकुमारानं भंते कीव० पं गो जह० दसवास० लक्कोसिणं देसूणाइं दुग्णिपलि ओवमाइं नागकुमारौणं भंते कीव० पं गो ज० दसवास० लक्को० देसूणं पलिओवमं एवं जहा णाग० देवाणं देवीणय तथाजाव वणियकुमारानं देवाणं देवीणय भाणियव्वं पुढवीकाईयाणंभंते के० गो० जह० अन्तोसु० लक्को० वावी संवाससहसाइं सुळम पुढवीकाईआणं भंते कीव० पं गो जह० अंतो सुळत्तं लक्कोसिणवि अंतो सुळत्तं वादर पुढ विकाईआणं पुच्छा गो जह० अंतो सुळत्तं लक्कोसिणं वावोसंवास सहसाइं अपज्जत्तग वादर पु० पुच्छा गो जह

ऊइ इहा नारकी देयता असंख्याता वर्धना आउत्ताना तिर्थेच मनुष्य ते कारणाळ्ळती अपर्याप्त ऊइ परं लक्ष्मी धी पर्याप्ताई ऊइ अनेगेपलब्धिसे पर्याप्ता पणि ऊइ अपर्याप्तपिणहोय तथा समुद्यादिक अपर्याप्तानी जयत्यधी अने उत्तुल्लथी पणि अन्तसुं हृत्तं स्थिति ऊइ परं अथय पर्याप्तो ऊइ अथवा मरे



संजावठिई सत्तलुकमणे पुढवीसुत्ति जघन्यानुजा पढमाए जेढा सावीयाएकगिण्टिया भणिएत्यादि क्रमाज्ञापनीया अपर्याप्तकालसु सर्वतान्तसु हर्तमेव अपर्याप्तकाले चोधिकस्थितेर्विशोधित सर्वत शेषपर्याप्तिस्थितिः अपर्याप्ताश्च नारकादेवा असंख्येवावपर्यायुक्त तिर्यग्प्रसुथाश्च करणतएव द्रष्टव्याः लक्षितसु पर्याप्ता एव शेषस्तु लब्ध्या पर्याप्ताऽपर्याप्ताश्च सम्भवन्ति तदेवं पूर्वभिहितं चतुर्विंशति दंडकमनुसृत्य नारकाणामायुः स्थितिर्निरूपिता अथासुरकुमाराराणा

वीर्यंभंते के० गो० जह० वावोसंसा० लक्कोसियं तेत्तोस सागरोपमांइं असुरकुमारारणं भंते केवइइअंकालठिईं पं गो० जहखेणं दसवास सहस्राइं लक्को० सातिरेगं सागरोवसं असुरकुमारदेवीर्यंभंते केवइ० पं गो० जहखेणं दस० लक्को० अइपंचमाइं पलिउवमाइं नागकुमारारणं भंते केव० पं गो० जह० दसवास० लक्कोसियं देसूगाइं दुगिपलि आवमाइं नागकुमारौणं भंते केव० पं गो० ज० दसवास० लक्को० देसूयं पलिओवसं एवं जहा राग० देवाणं देवाणं देवौण्य वणियकुमारारणं देवाणं देवौण्य भाणियव्वं पुढवीकार्दियाणंभंते के० गो० जह० अन्तोसु० लक्को० वात्री संवाससहस्राइं सुद्धम पुढवीकार्दियाणं भंते केव० पं गो० जह० अंतो सुद्धत्तं लक्कोसियवि अंतो सुद्धत्तं वादर पुढ विकार्दियाणं पुच्छा गो० जह० अंतो सुद्धत्तं लक्कोसियं वावोसंवास सहस्राइं अपज्जत्तग वादर पु० पुच्छा गो० जह

इइ इहा नारकी देवता असंख्याता वर्षना आउत्ताना तिर्यंच मनुय ते कारणज्जंती अपर्याप्त इइ परं लयी यी पर्याप्ताइं इइ अनेगेपन्नधिसे पर्याप्ता पणि इइ अपर्याप्तविणहोय तथा मनुयादिक अपर्याप्तानी जघन्ययी अने उतल्लटयी पणि चन्तसु हर्तमेव स्थिति इइ परे शषय्य पर्याप्ता इइ अथवा मरे

एव वनपद विषु मीवदर मी अगम सुय म ४४४

गेरुधि अ० उक्कोसेणवि अ० पञ्जत्तगवादर पु० पुच्छा गो जह अ तो मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त  
 णाद् एव सेसकाइआणवि पुच्छावयण भाणिअव्व आउकाइआण जह० अतो० उक्कोसे० सत्तवा० मुज्जमआउका  
 इ० ओहिआण अपञ्जत्तगाण पञ्जत्तगाण तिग्गहवि जहणेणवि अन्तो० उक्कोसेणवि अ० वादर आउका० जहाओहि  
 आण अपञ्जत्तगवादरआ० जहणेणविअतो० उक्कोसेणवि अ० पञ्जत्तगवादरआ० जह० अ तोमुज्जत्त उक्को० सत्तवा  
 सस० अ तो मुज्जत्तगाइ तेउकाइआण जह० अ० उक्को० तिणिराइ दिआइ सुज्जमते० ओरियाण अपञ्जत्तगाण  
 पञ्जत्तगाण तिग्गहवि जहणेणवि अतो० उक्कोसेणविअ० वादरतेउकाइआण जहणेण अ तोमुज्जत्त उक्को० तिणि  
 राइ दिआइ अपञ्जत्तगवादर तेउका० जहणेणवि अ तो० उक्कोसेणविअ० पञ्जत्तगवाद० जह० अ तोमु० उक्को०  
 तिणिरा० अ तोमु० वाउका० जहणेण अ तोमुज्जत्त उक्को० तिणिवाससहसाइ० सउमवाउ० ओरियाण अपञ्जत्तगा  
 ण पञ्जत्तगाणयतिणवि जहणेणविअ तो० उक्कोसे० अ० अपञ्जत्तगवादर वाऊकाइ० जह० अ० उक्कोसेणविअ० पञ्ज  
 त्तगवादरवाउ० जह० अ तो मुज्जत्त उक्को० तिणिया० अ तोमु० वणसइ काइआण जहणेण अ० उक्को० वासदससर  
 साइ सुज्जमवणसाइका० ओहिआण अपञ्जत्तगाण पञ्जत्तगाणय तिग्गहवि जहणेणवि अ तोमु० उक्कोसे० अ० वादर

अतो मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त  
 मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त

अतो मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त  
 मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त

अतो मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त  
 मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त

अतो मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त  
 मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त

अतो मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त  
 मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त

अतो मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त  
 मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त

अतो मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त  
 मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त

अतो मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त  
 मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त

अतो मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त  
 मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त

अतो मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त  
 मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त

अतो मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त  
 मुज्जत्त उक्को० वावोसया० अतो मुज्जत्त

निरूपयितुमाह अक्षररज्जुभारणं भंते इत्यादि सूत्रसिद्धमेव यावन्नानुयसूत्रं नवरं मनुष्यादीनामपर्याप्तानां जघन्यत उत्कृष्टतश्चान्तसु ह्यर्त्तमेवस्थितिस्ततः परमवस्थं पर्याप्तत्वसम्भवात्परगाहोति भावनीयं व्यन्तरादिस्त्रुताख्यपि वैमानिकसूत्र पर्यन्तानि पाठसिद्धान्येव नवरमेतेषामपर्याप्तानां जघन्यत उत्कृष्टश्चान्त

वणस्त्रैकाद्भ्राणं जह० अ० तो० उक्को० दसवा० अपञ्जत्तगवा० जह० अ० उक्कोसे० अ० तो० पञ्जत्तवाद्दरण० जहण्येणं अ०  
 उक्कोसेणं दसवास० अ० तो० सुहुत्त राद्द० वेदिभ्राणं भंते केव० पं गो जहण्येणं अ० तो० सुहुत्तं उक्को० द्वादससं वच्छराणि अ  
 पञ्जत्तगवेद्द० दिभ्राणं पुच्छा० गो जहण्येण विअ० तो० सुहुत्तं उक्कोसेण विअ० पञ्जत्तगवेद्द० जह० अ० उक्को० द्वादससं० तेद्द०  
 दिभ्राणं पुच्छा गो जह० अ० उक्को० एगुणं पणासं राद्द० दिभ्राणं अपञ्जत्तगतेद्द० दिभ्राणं पुच्छा गो जहण्येण वि अ० तो०  
 उक्कोसे० अ० पञ्जत्तगतेद्द० पुच्छा गो जह० अ० तो० सुहुत्तं उक्को० एगुणं पणासं राद्द० दिभ्राणं अ० तो० सुहुत्तगद्द० चउरिदि  
 भ्राणं भंते केद्द० पं गो जह० अ० तो० उक्को० द्वादसा अपञ्जत्तगचउरिदिभ्राणं पुच्छा गो जहण्येण विअ० तो० उक्कोसेण  
 विअ० तो० पञ्जत्तगचउरिदिभ्राणं पुच्छा गो जहण्येणं अ० उक्को० द्वादसा अ० तो० पंचिदिभ्राणं विअ० तो० उक्कोसेण  
 भंते केवद्द० पं गो जह० अ० तो० सुहुत्तं उक्को० तिणिपलिभ्रौवसाद्द० जलयर पंचिदिभ्राणं विअ० तो० उक्कोसेणं भंते केवद्द०  
 कालठिद्दं पं गो जहण्येणं अ० तो० सुहुत्तं उक्को० सेणं पुष्कलीडी समुत्क्रिमजलयर पंचेदियपुच्छा गो जहण्येणं अ० तो० उक्को०

राय वनपत सिधु भगवद्वरकी अणस स्युव यान ४४ म

पुब्वकोडो अपञ्जत्तय समुच्छिम जलयरपचिदियपुच्छा गो जहणे णविअ तो० उक्कोसिणविअ तो० पञ्जत्तयसमुच्छिम  
 जलयरपचिदियपुच्छा गो जह० अ तो० उक्को।० पुब्वकोडो अ तोमुहुत्तूणाइ गम्भवक्क तिअजलयरपचे दिअपुच्छा गो  
 जहणे ण अन्तोमुहुत्त उक्कोसिण पुब्वकोडो अपञ्जत्तगगम्भवक्कतिय जलयरपचेदियपुच्छा गो जहणे णवि अन्तो०  
 उक्कोसिणपि अन्तो० पञ्जत्तगगम्भवक्क तिय जलयरपचेदियपुच्छा गो जहणे ण अतो मुहुत्त उक्कोसिण पुब्वकोडो अ  
 न्तोमुहुत्तूणा चउप्पयथलयरपचिदियपुच्छा गो जह० अन्तो० उक्को० तिण्णिपलिअोवमाइ समुच्छिमचउप्पयथलयर  
 पचिदियजान गो जर० अतो० उक्को०, चउरासोइ वाससहसाइ अपञ्जत्तय समुच्छिम चउप्पयथलयर पचिदियनाव  
 गो जहन्ने णविअ तो० उक्कोसिणपि अ तो० पञ्जत्तयसमुच्छिम चउप्पयथलयर पचिदिय जाव गो जह० अ तो० उक्को० ति  
 चउरासोइ वाससहसाइ अ तोमुहुत्तूणाइ गम्भवक्कतिअचउप्पयथलयर पचिदियजाव गो जर० अ तो० उक्को० ति  
 णिपलिअोवमाइ अपञ्जत्तग गम्भवक्क तिअचउप्पयथलयर पचिदिय जाव गो जहणे णवि अ तो० उक्कोसिणपि अ तो०  
 पञ्जत्तगगम्भवक्क तिअ चउप्पयथलयर प चिदिय नाव गो जह० अ तो० उक्को० तिण्णिपलिअोवमाइ उरपरिसप्पयल  
 यरपञ्चेन्दियपुच्छा गो० जह० अन्तो० उक्को० पुब्वकोडो समुच्छिम उरपरिसप्पयथलयर प चिदियपुच्छा गो० जह०

सुवोपनिषत्सु लक्ष्मणस्य वचनानि ॥ १ ॥

॥ १ ॥ सुवोपनिषत्सु लक्ष्मणस्य वचनानि ॥ १ ॥



अन्तो० लको० तेवन्तं वाससहस्राद् अञ्जत्तयसमुच्छिस उरपरिसप्पथलयर पंचेदिय जाव गो जहणेणवि अं०  
लकोसेणवि अंतो० पञ्जत्तयसमुच्छिस उरपरिसप्पथलयर पंचिंदिय जाव गो जह० अंतो० लको० तेवणं वाससह  
स्राद् अंतोमुज्जत्तूणाद् गम्भवक्कंतिअ उरपरिसप्पथलयर पंचिंदिय जाव जह० अंतो० लको० पुव्वकोडी अपञ्ज  
त्तग गम्भवक्कंतिथ उरपरिसप्पथलयर पंचिंदिय जाव गो जहणेणवि अंतो० लकोसेणवि अंतो० पञ्जत्तयगम्भवक्कं  
तिअ उरपरिसप्पथलयर पंचेदिय जाव गो जह० अंतो० लको० पुव्वकोडी अंतो मुहत्तूणा भूअगपरिसप्पथलयर  
पंचिंदिअजाव गो जहणेणवि अंतो० लकोसेणं पुव्वकोडी समुच्छिसभुयपरिसप्पथल० गो जह० अं० लको० वायालो  
संवाससहस्राद् अपञ्जत्तय समुच्छिस भूअपरिसप्पथलयर पंचिंदिअ जाव गो जह० अंतो० लको० अंतो० पञ्जत्तगस  
सुच्छिस भूअपरिसप्पथलयर पंचिंदिय जाव गो जह० अंतो० लको० वायालोसं वाससहस्राद् अंतो० गम्भवक्कंतिथ  
भूअपरिसप्पथलयर पंचिंदिय जाव गो जह० अंतो० लको० पुव्वकोडी अपञ्जत्तय गम्भवक्कंतिअ भूअपरिसप्पथलयर  
पंचिंदियजाव गो जहणेणवि अंतो० लकोसेणवि अंतो० पञ्जत्तय गम्भवक्कंतिअ भूअपरिसप्पथलयर पंचिंदिय जाव  
गो जह० अंतो० लको० पुव्वकोडी अंतो मुज्जत्तूणा खहयरपंचिंदिय जाव गो जह० अंतो० लको० पलिअोवसस

असखेज्जद्र भागो समुच्छिम खहयर पचिदिय जाव गो जह० अतो० उक्को० नावत्तरि वाससहस्साद्र अपज्जत्तग  
 समुच्छिमखहयर पचिदिय पच्छा गो जह० अतो० उक्को० अतो० पक्खत्तगसमुच्छिम खहयर पचिदिय जाव गो  
 जहणेण अन्तो उक्को० वावत्तरि वाससहस्साद्र अन्तो सुज्जत्तूणाद्र गम्भवत्तित्तिअखहयर० जाव गो जह० अन्तो० उक्को०  
 पलिओयमस्स असखेज्जद्र भागो अपज्जत्तगगम्भवत्तित्तिअ खहयर० जाव गो जहणेणवि अन्तो० उक्कां० अन्तो०  
 पज्जत्तगखय० पचिदियतिरिक्खज्जोणियाणमते केवइयकालिट्ठिद्र पणत्ता गो जह० अन्तो० उक्कां० पलिओयमस्स  
 अरुविज्जद्र भागो अन्तोमुज्जत्तूणो एत्य एणिसण सगहणियाहा भवति तज्जा समुच्छिमपुब्बकोडो चउररासौद्र भवे  
 सहस्साद्र तेवरय वायाला वावत्तरिमेव पक्खोण १ गम्भंसि पुब्बकोडो तिण्णिअ पलिओवमाद्र परमाओ उरगभुअग  
 पुवकोडो पलिओवमासखुभागोअ २ मणस्साणमते केवइअ० पणत्ता गो जह० अन्तो० उक्कां० तिण्णिपतिओवमाद्र  
 समुच्छिममणस्साण जाव गो जहणेवि अन्तो० उक्को से० अन्तो० गम्भवत्तित्तिअमणस्साण जाव गो जह० अंतो०  
 उक्को० तिण्णिपलिओवमाद्र अपज्जत्तग गम्भं० मणस्साणंभते केवइ० पणत्ता गो जह० अतो० उक्को० अन्तो० पज्ज  
 त्तगग्ग० मणस्साण मतेकेवइ० गो०जह० अन्तो० उक्को० तिण्णिपलि० अतो सुज्जत्तूणाद्र वाणमतराण देवाणं केवइ०  
 पणत्ता गो जह दसमासमहस्साद्र उक्को० पलिओवम वाणमतराण देवीण मतेकेव० पणत्ता गो जह० दसवास सह

स्वाद्रं उक्को० अद्रपलिश्रोवमं जोद्रसिआणंभंते देवाणं केवद्र० गो जह० सातिरेगं अद्रभागपलिश्रोवमं उक्को० पलिश्रो  
 वमं वाससयसहस्र सवभक्तहिअं जोद्रसिदेवीणं भंते केवद्र० गो जह०खेणं अद्रभागपलिश्रोवमं उक्कोसिणं अद्रपलिश्रोवमं  
 पणसाए वाससहस्रेहिं सवभक्तहिअं चंदविमाणंभंते देवाणं केव० गो जह० चउभागपलिश्रोवमं उक्को० पलिश्रोवमं  
 वाससय सहस्र सवभक्तहिअं चंदविमाणंभंते देवीणं गो जह० चउभागपलिश्रोवमं उक्को० अद्रपलिश्रोवमं पणसाए  
 वाससहस्रेहिं सवभक्तहिअं सूरविमाणंभंते देवाणं गो जह०चउभाग पलिश्रोवमं उक्को०पलिश्रोवमं वाससहस्र सवभक्त  
 हिअं सूरविमाणं देवीणं गो जह० चउभागपलिश्रोवमं उक्को० अद्रपलिश्रोवमं पंचहिं वाससयेहिं सवभक्तहिअं गह  
 विमाणं देवाणं गो जह० चउभागपलिश्रोवमं उक्को० पलिश्रोवमं गहविमाणंभंते देवीणं गो जह० चउभागप  
 लिश्रोवमं उक्को० अद्रपलिश्रोवमं णक्वत्तविमाणंभंते देवाणं गो जह० चउभागपलिश्रोवमं उक्को०अद्रपलिश्रोवमं  
 णक्वत्तविमाणंभंते देवीणं गो जह०चउभागपलिश्रोवमं ताराविमाणंभंते गो जह०  
 साइरेगं अद्रभागपलिश्रोवमं उक्को०चउभागपलिश्रोवमं ताराविमाणंभंते केवद्रअं० पणसा गो जह० अद्र  
 भागपलिश्रोवमं उक्को०साइरेगं अद्रभागपलिश्रोवमं वेमाणिआणंभंते देवाणं केव०पणसा गो जह० पलिश्रोवमं उक्को०  
 तेत्तोसंसागरोषसाद्रं वेमाणियाणंभंते देवीणं केवद्र० पणसा गो जह० पलिश्रोवमं उक्को० पणपणं पलिश्रोवसाद्रं सो



सुहृत्तं मेवांस्थितिः ततः परमवर्ष्यं पर्याप्तत्वसम्वादेव भावनोयं श्रेयैककसूत्रे षाधसानी त्वयम् षाधसाननैवेयनाग्रदेनोप्यते मयथास्तु तयो मध्यमगैवेयत्र  
शब्देन उपरितनास्तुत्रय उपरितनग्रेवेयक शब्देन पुनरप्यधसानेषु प्रसूतेषु मध्ये षाधसानाऽधसानगैवेयना ग्रदेनप्यपदिस्तते मध्यमसत्वधसानअधम

यमाद् उक्त्वा० तेवोसं सागरोवमाद् हेड्विम मञ्जिमगैवेज्जविमाणे सुणं भन्ते देवाणं केव० गो जह० तेवोसं सागरो  
वमाद् उक्त्वा० चउवोसं सागरोवमाद् हेड्विमउवरिमगैवेज्जविमाणे सुणं भन्ते देवाणं गो जह० चउवोसं सागरोव  
माद् उक्त्वा० पणवोसं सागरोवमाद् मञ्जिमहेड्विमगैवेज्जविमाणे सुणं भन्ते देवाणं गो जह० पणवोसं सागरोवमाद्  
उक्त्वा० छव्वोसं सागरोवमाद् मञ्जिममउवरिमगैवेज्जविमाणे सुणं भं० गो जह० छव्वोसं सागरोवमाद् उक्त्वा० सत्तावोसं  
सागरोवमाद् मञ्जिमउवरिमगैवे० गो जह० सत्तावोसंसा० उक्त्वा० अट्टावोसं० उवरिमहेड्विमगैवि० देवाणं गो  
जह० अट्टावोसंसा० उक्त्वा० एगुणतीसं सागरोवमाद् उवरिममञ्जिम गैविज्जविमाणे सुणंभते देवाणं गो जह० एगुण

मवरं हेठत्वातिकग्रेवेयकना प्रसूटने चिड्वमग्रेवेयककश्चिये विषत्वातिकग्रेवेयकना प्रसूटने मध्यमग्रेवेयककश्चिये एनेजपरला तिमियिग्रेयकना प्रसूटनेजपरि  
तनग्रेवेयक कश्चिये तिष्ठां वली षाधसानग्रेवेयकत्विक मध्ये जेपहिलुं प्रसूट तेऽधसानाधसान ग्रेवेयक कश्चिये वीजो प्रसूट तेऽधसान मध्यमरतीजुं प्रसूटते  
षाधसानोपरितनं तथा योजावित्तनो जेहेठलो प्रसूट तेमध्यमाधसान४ वीजो तेमध्यम मध्यम५ तीजोते मध्यमोपरितन४ तथा तीजावित्तनो जेपहिलुं प्रसू  
ट तेउपरितनाधसान० तीजानोविचलो प्रसूट तेउपरितनमध्यम ८ उपरितनग्रेवेयकनुं छेडलोप्रसूट तेउपरिन्नोपरितन ९ सेतं समाप्तद्वयं एतले सप्रयोजन

राज धनपत विष वा शरित्त मा अनास सुयव भान ४४५

शब्देन उपरितनस्वधक्षानोपरिसमयश्चेन्न एव मध्यमेष्वपि त्रिषु प्रकटेषु मध्याऽधक्षानप्रकटो मध्यमाधक्षानप्रवेयकसब्देनाभिधीयते मध्यमस्तु मध्यम शब्देन उपरितनस्तु मध्यमोपरि शब्देन एवमुपरितनेष्वपि त्रिषु प्रकटेषु क्रमेणोपरिमाधक्षानोपरिसमयस्य उपरिमोपरिमयश्चाप्यता भावनीयेति उक्तस्य प्रयोजनं महापत्योपम हेतुपत्योपमसम्पूक्तानुसारत एव भावनीय नवर व्यवहारिक पत्योपमे जेष तस्य पक्षमेत्यादि तस्य पत्यस्यातर्गता नभ प्रदेयासौर्वा लाग्ये अप्पुणत्ति चास्पृथायासा आकांता इति यावत् तेषां सूत्रात्प्राप्तिसमयमेकैकापकारे असख्येया उख्यपिं ख्यसख्यिं ग्यानिफामत्यतोऽसख्येयोल्ल

तोससागरोजमाइ उक्त्वा० तोससागरोवमाइ उवरिमउवरिम गेवेअविमाणेसुणभते देवाण गो जह० तोससागरो वमाइ उक्त्वा० एक्कोतोससागरोवमाइ विजयवेजयतजयत अपराजितविमाणे सुण भते देवाण केवइ० पणत्ता गो जह खेण एक्कोतोससागरोवमाइ उक्त्वा० तेत्तोससागरोवमाइ सव्वइसिद्धेण भते महाविमाणे । देवाण केवइ० पणत्ता गो जहइण उक्त्वा० सेण तेत्तोससागरोवमाइ सेत सुइमे अद्वापलिओवमे सेत अद्वापलिओवमे सेकित खेतपलिओवमे दुविहे पणत्ते तजहा सुइमेअ वमहारिएअ तत्यण जेसेसुइमे सेठप्पे तत्यण जेसेमवहारिए सेजहानामए पत्ते भिआ जोअण आयाअविकख भेण जोअण उव्वेहेण ततिगुण सविसेस परिक्खेवेणं सेण पत्ते एगाहिअ वेआ

अद्वापत्योपम रपांखो अथ खेतपत्यापममाइ सेकित सर्वपूर्ववत् नवरवाहर खेतपत्योपमने विषे जणतस्य जेतेमाइइला आकायप्रदेयतेणे यालागै करीअणु वा असुटावाप्पा आकस्या इत्यर्थं तेजना सूत्रमपणायी प्रतिमय एकेक आकायप्रदेव अपहरतां असख्यातो अवसख्यिंणीरषतिकमे तेभणीए वादरखेत

अनु टी० ४५२ सुत भाषा

अनु टी० ४५२ सुत भाषा

धिर्ग्यवसर्पिणीमानं प्रस्तुत पलप्रोपमं ज्ञातव्यं सूत्रज्ञेन पल्योपमेत सूत्रम् वीलाग्रैः स्पष्टा अस्य ष्टाच नभःप्रदेशादृच्छते अतस्तद्यावहारिकादसंख्ये यगुण कालमानं द्रष्टव्यं आह यदि स्पृष्टा अस्य ष्टाच नभःप्रदेशादृच्छन्ते तर्हि बाबाग्रैः किं प्रयोजनं योक्त पल्यान्तर्गत नभःप्रदेशापहारमाततः सामान्ये नैव वक्तुं सुचितं स्यात्कथं किंतु प्रस्तुत पल्योपमेन दृष्टिवादे द्रव्याणि भिद्यन्ते तानिकानिषिद्यथोक्त बालाग्रस्पृष्टे नभःप्रदेशे मीयंते कानिचिदस्पृष्टेरित्यतो दृष्टिवादेन द्रव्यमानोपयोगित्वाद्वालाग्र प्ररूपणात् प्रयोजनवतीति तत्त्वयंचोयएपणवगमित्यादि तत्र नभःप्रदेशानां स्पृष्टास्पृष्टत्वप्ररूपणे सति जातसन्देहः

हिअ तेआहिअ जाव सरिएवालगाहिअ कोढीणं तेणं बालगा णोअग्गीडहेज्जा जावणो पडूत्ताए हव्वसाग च्छेज्जा जेणं तस्सपल्लस्स आगासएसा तेहिं बालग्गेहिं अफुन्ना तओणं समए २ एगमेगं आगासपएसं अत्र हाय जावदएणं कालेणं सेपल्लेखीणे जावनिट्टिए भवइ सेतं ववहारिए खेत्तपलिओवसे एएसिं पल्लानं कोडाकोडी भवेज्जदसगुणिआ तंजहा ववहारिअस्स खेत्तसागरोवमस्स एगस्स भवेपरिमाणं १ एएहिं ववहारिएहिं खेत्त पलिओवसेहिं किंपउअणं एएहिंव० २ नत्थि किंचिप्पउअणं केवलं पणवणाकिज्जइ सेतं वव० सेकिंतां सुद्धसे खेत्तप

पल्योपमनो असंख्याती अवसर्पिणी उत्सर्पिणीमान जाणवो तथा सूत्रज्ञेन पल्योपमने विधे सूत्रवालाग्रे करी फुन्नावा अणफुन्नावा फरस्या अने अणफ रस्या जेआकाश प्रदेश तेग्रहीये तेभगी वादर जेत पल्योपमसे असंख्यातगुणो कालमानजानवो इहां प्रेरक आह भगवन् जो फरस्या अने अणफरस्या आकाश प्रदेश ग्रहीये तो बालाग्र साथइ स्युं प्रयोजन यथोक्त पल्यमांदिवा आकाय प्रदेशना अपहार मातथी समुच्चयरूप कश्चिदुं युक्त ऊइ रुकभोल्या

प्रेरक प्रसापकसाधार्यमेव मन्वादीकृदन्त किमस्ये तद्युगतस्य पल्यस्यातंगतासो केचित्प्याकागप्रदेशाद्विद्यन्ते ये तैर्विज्ञानै रस्पृष्टा पर्योक्तप्रकारेण बालाया  
या तत्र निविष्टतयावस्थापनाच्छिद्रस्य कश्चिदप्यसभवादुदुष्येण गदमिद यत्तन्नास्पृष्टा नभ प्रदेशा सतीतिप्रच्छन्नाभिप्राय ततोत्तर एतास्ये तन्नातसदेव  
कर्तव्य इदं च दृष्टव्यं दृष्टान्ततरेण धार्यात्तत प्रतिपत्ता, जगत् पुनर्विनेय प्रच्छति यथाकोत्तदृष्टांत मन्वापक आह से जहा नामए इत्यादि अयमन्तभावाय  
कुम्पाण्डानां पूर्णफलानां भते कोटके स्य, लहटीनां तावदृष्टतोयसिति प्रतीतिर्भवति अथ कुम्पाण्डानां वादरत्वात्तरस्सरं तानि छिद्राणि सम्प्राप्यते येन

लिश्रोवसे २ सेनहाणामए पल्ले सिआ जीअण आयाम० जावपरिकखे वेण सेपल्ले एगाहिय वीआहिय तेआहिय  
जावभरिए बालगकोडीण तत्थण एगसेगेबालगे असखिज्जाइ खडाइ कज्जाइ तेण बालगादिद्वीण ओगाहणाओ  
असखेज्जाइ भागसेत्ता सुज्जमस पयगजौवस सरौरोगाहणाओ असखेज्जा गुणा तेणवालगा खो अग्गीडहेज्जा जा  
वणेपुइत्ताए हव्वमागच्छिज्जा जेणत्सपल्लस आगासपएसा तेहिवालगेहि फु, न्नावा अणफु, न्नावा तओण समएइ  
एगसेग आगासपएस अवहाय जावइएण कालेण सेपल्ले खोणे जावनिदिए भवइ सेतं सुज्जसे खेत्तपलिओवसे तत्थ

एधत्थ पर एणै पल्लोपमे करी दृष्टिवाटने विपे द्रव्यमवीइ तेमध्ये कोइ एकद्रव्य यथोक बालाये करी फरसा जेआकाय प्रदेश तेणेकरी मवीइ अने केत  
ता एकद्रव्य थाण फट्ठे आकाश प्रदेशे करी मवीये तेभणी दृष्टि वादोक्त द्रव्यमानने उपयोगी पणा छ ती बालाप्रनी प्ररूपणा सप्रयोजन जाणवी तलण  
वीअएपखण इत्यादि तिसर आकागप्रदेशने अणफरसणा पये सांभल्ले छते यिल्लने सदेव उपनो तेभणी यिय आचार्ये प्रते पूसवील्लु भगवन् इम किउ



द्यापि मातृलिंगानि बीजपूरगाणिमांति तत्प्रज्ञेपे च पुनर्भूतोयमिति प्रतीतावपि मातृलिंगं चिद्रेषु विल्लानि प्रचिह्नानि तान्यपि मातान्येवं तावद्यावत्स  
 र्थपचिद्रेषु गङ्गाबालुका प्रचिह्ना सापि माता एवं अर्वाग्निदृष्टयो यद्यपि यथोक्त पत्न्ये यूपिरा भायतोऽस्य दृढनभः प्रदेशान्न सञ्भावयन्ति तथापि पालाश्राणा  
 वादरत्वाकाशप्रदेशानां तु सुच्छालात् सन्त्येवा असंख्याता अस्युष्टा नभः प्रदेशाः दृश्यन्ते च निषिद्धतया सम्भाव्यमानेषु स्थंभादौ आस्तालितायः कीलकानां

शं चोत्रेण प्रणवगं एवंवयासौ अत्यिणं तस्मिन्स आगासपसा जेणतेहिं बालगेहिं अग फु श्या रंता अत्यि जहाको  
 दिद्वंतो सेजहाणामए कोठएसिआ कोहंडाणं भरिए तत्यणं मातृलिंगापक्खित्ता तेविमाया तत्यणं विल्लापक्खित्ता  
 तेविमाया तत्यणं आमलगापक्खित्ता तेविमाया तत्यणं वयराप० तत्यणं चणगापक्खित्ता तेविमाया तत्यणं सुंगा  
 पक्खि० तत्यणं सरिसवाप० तत्यणं गंगावालुआपक्खित्ता साविमाया एवमेव एणं दिद्वं तेणं अत्यिणं तस्मिन्स आ

हे जेनेपल्ल मांछिला केतला एक आकाशप्रदेश तेणे बालाये करी अणफरस्याहे जेभणी पूर्वोक्तप्रकारे तिचा बासागने निविड पणे रचवाथी जिडाई संभवे  
 नची तेभणीए युक्ति केमामिले जे तिचा अणफरस्या आकाशप्रदेशहे इहां उत्तर रंता चंनच्छ इहां संदेश नकरणुं एभाय छिडे दृष्टांत विनां यचनमात्रणी  
 जाण्युं नजाइ तेभणी गिय कहेहे यथा कोतदृष्टात कोई इहां दृष्टांतहे गुरुबोल्या सेजहा नामए इहां एभावाथं जिम कुण्ड जोहलाने फलेकरी कोतुं  
 भस्यो ऊइ तेइने विपे स्थूलदृष्टीये पछिली एरवी बुद्धि ऊइ जेएकोठो भस्योहे तिहां कुण्डाजमा मोटा पणा ऊंती परस्परे छिद्रसंभाविये जेइने विपे मातृ  
 लिंग वीजोराई मावे इमतेभस्ये ऊते यली एरवीज मति ऊपणे कोठो भस्योहे इमकांश्ये ऊते पण्णि मातृलिंगना छिद्रनेयिपे वीला प्रदोपीये तेपण्णि



पूर्वोक्तपदार्थ व्यवहारनयाभिप्रायात्तु बुद्धिपरिकल्पितो द्विभागतिभागादिक सस्यैव देयः यथा संपूर्णो धर्मास्तिकायो जीवादिगत्युपटम्भकं द्रव्यमित्यते एवं तद्देशा अपि तदुपटम्भकानि पृथगेव द्रव्याणीति भावः ऋजुसूत्राभिप्रायतस्तु स्वकीयर सामर्थ्येन जीवादि गत्युपटम्भे व्याप्रियमाणासस्य प्रदेशा बुद्धि परिकल्पितानिर्विभागा भागाः पृथगेव द्रव्याणि एवं अधर्मास्तिकाय योरपि प्रत्येकं तत्रैकमेव इत्यतै कवचनं वर्त्तमानकाल समयस्यैव एकस्य सत्त्वादीतानागतयोस्तु निश्चय नयमतेन विनष्टत्वानुत्पन्नत्वाभ्यामसत्त्वादतएवेह देयप्रदेशचिन्ता न कृता एकस्मिन् समये निरंगत्वे न तदसम्भवात्तदेवं दशविधान्यरूप्यजीवद्रव्याणि त स्तन्मादि भेदाच्चतुर्ह्रीं तत्र स्तन्माद्यगुणादयोनन्तानुकावसाना देयास्तु तद्विभाग ति

दसत्रिहा पंगुत्ता तंजहा धम्मत्थिकाए धम्मत्थिकायस्सपएसे धम्मत्थिकायस्सपएसे अधम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकायस्सदेसे अधम्मत्थिकायस्सपएसे आगासं पएसे अध्वासमए रूवोन्नोवद्व्वाणं भंतेकइ

प्रथम वपागेच्छे अजीव दव्याण मित्यादि सुगमं तिहां बली अरूपी अजीव पहे कक्षाशका पणि पडिली कहेछे तिहा धर्मास्तिकाय एरुपणि नयनाभेदथी त्रिणि प्रकारे भेदाइ तिहा संग्रह नयना अभिप्रायथी एकज धर्मास्तिकाय अने व्यवहार नयना अभिप्राय छंती बुद्धि परिकल्पित द्विभागादिक तेहजनुं देश पणि द्रव्य कहिये छिवे तेनय इम कहे जिम संपूर्ण धर्मास्तिकाय जीवादिकने गतिनो कारण बोलीये तिम तेहना देश पणि तेजीवा दिकने गतिना कारण जूअ बोखिये तेभणी जूअ द्रव्य छइ अने ऋजु सूत्र नयना अभिप्रायथी आपणीर गक्के करी जीवादिकनी गतिना उप टंभने विषे व्यापारितायका तेधर्मास्तिकायना बुद्धिनाकीषा निर्विभाग जेभाग तेप्रदेश कहीइ तेसर्वं जूअ द्रव्यछइ एवं अधर्मास्तिकाय आकायास्तिकाय

भागादिरूपा अथयथा प्रदेशा पुनस्तद्व्ययभूता एव निरया भागा परमाणुपुङ्खा स्तम्भभयमनापत्रा एकातिन परमाणय तानि च रूपिद्रव्याण्यन  
सानि कथमित्याह अनन्ता परमाणुयोगला इत्यादि एतेच स्तम्भादय प्रत्येकमनन्ता अथ लीव द्रव्याणि विचारयितुमाह जीवदध्याण भते किसखे

विहा प गो चउब्विहा प्रयत्ता तजहा खधा खधदेसा खधप्पएसा परमाणुपोगना तेणभते किसखिज्जा असखिज्जा  
अगता गो अर्थता सेकेणट्टेणभते एव बुच्चइ नोसखिज्जा नोअसखेज्जा अणता गो अणतापरमाणुपोगला दुपएसि  
आखधा जाव अणता अणतपएसिआखधा सेएणट्टेण गो एव बुच्चइ नो सखिज्जा नोअ० अणता जीवदध्याणभते कि

नाप्रत्येक २ विणिर भेद नरता एव नव द्रव्य छडा तथा अह्वा समय इहां एकवचन एतला भयोछे जेभणी यत्तमान कानना एक समयके अनेअतीताना  
गतकालना समय तेनिअव गयेने मते प्रमाण नथी जेभणी अतीत समय तेविणठो अने अनागत समय तेउपनो नथी तेभणी तेहनी नासि जाणवी  
तेणे कारणे इहां देश प्रदेशनी चिता न करी जेभणी एक समयने विपे निरग पगाथी देय प्रदेशे न रुभवे ते इम दगभेद अरूपी द्रव्य वपाखा अय  
रूपी अजीव द्रव्याख्याह तेचउविध तद्यथा तिहां खध तेहिप्रदेशकादिक अनत प्रदेशिक पर्यत तथा स्काधदेश तेस्क धना हिभाग त्रिभागादिक अवयव तथा  
स्तम्भ प्रदेशे तेपणि स्का धना अवयव रूपज निर्विभाग तथा परमाणु पुङ्खल तेस्तम्भभाव अणयास्या एकाकी परमाणुआ ते रूपी अजीव द्रव्य हेभदत  
किस्य सख्याता छे किंवा असख्याता छे के अनता छे हे गीतम सख्याता नथी असख्याता गयी अनता छे किये अर्थे हे भदत  
इम कशीये असख्याता नथी अनता छे हे गीतम अनता परमाणु पुङ्खल छे इत्यादि ते एणे अर्थे हे गीतम इम कशीये असख्याता नथी अनता छे

ज्वाइत्यादि यस्मान्नारकादिराशयः प्रत्येकमसंख्याताः वनस्पतयः सिद्धाश्चानन्ता अतो जीव द्रव्याख्यनंतान्येवेत्यर्थः तदत्र नारकादयोऽसंख्येयादिस्वरूपतः सामान्येन प्रोक्ता विशेषतस्तु तदसंख्येयकं कियत्प्रमाणागमिति न ज्ञायते अदारिकादिशरीरविचार तत्परिज्ञानं सिद्धत्यौदारिकादिशरीर स्वरूपबोधश्च विनियानं सम्पद्यते इति चेतसि निधाय जीवाजीव द्रव्यविचार प्रस्तावाच्छरीराणां तदुभयरूपत्वात्तानि विचारवितुसुपकमते कद्गुणंभंते शरीरा इत्यादि

संखिज्जा असंखिज्जा अणंता गो० नोसंखिज्जा नोअसंखिज्जा अणंता सेकेण्डेणंभंते एवं वुच्चइ नोसंखिज्जा नोअसंखिज्जा अणंता गो असंखेज्जाणेरइया असंखेज्जा असुरकुमारा जाव असंखेज्जा घणियकुमारा असंखिज्जा पुटवीकाईया जावअसंखिज्जा वाउकाइआ अणंतावणस्इकाइआ असंखेज्जावेइदिआ जाव असंखिज्जा चउरिंदिया असंखिज्जा पंचिंदिअतिरिक्वजोणिआ असंखिज्जासणुसा असंखिज्जावाणंभंतरा असंखिज्जाजोइसिआ असंखेज्जावेसाणिआ अणंतासिद्धा सेण्डेणं गो एवं वुच्चइ नोसंखिज्जा नोअसंखिज्जा अणंता कद्दविहाणंभंते शरीरा पं गो पंचसरीरा

एतले अजीव द्रव्य कच्चा हिवे जीव द्रव्यविवरेहे जीवदब्बाणं इत्यादि सुगमं इहां नारकादिक समूह प्रत्येक असंख्याता बखाय्या अने वनस्पति कायिक अने सिद्धजीव ए अणंता कच्चा ते समुच्चय रूपे बखाय्या ते भणी विशेषयकी असंख्यातादिक पणु केवहुंहे इम न जणाइ अने थोदारिकादिक शरीर विचारतां छतां ते जाणपणुं नीपजे अनं औदारिक शरीरादिकतुं जाणपणुं शिथने पणि थाइ एहवो अवलंबीने जीवाजीवना विचारना प्रस्ताव थी अने शरीरने तदुभयरूपपणा थी ते शरीरना विचार कहे हे कद्गुणं भंते० केतला भदंत शरीरप्रकृष्या हे गौतम पाचशरीर प्रकृष्या तद्यथा तिहा



क्षतमत्वाच्च क्रमेण शेषशरीराणामिति तदेवं सामान्येन शरीराणि निरूप्य चतुर्विंशतिदण्डके तानि चिन्तयितुमाह नेरईयाणं भते कइसरीरा इत्यादि पाठसिद्धासेव यावत्केवईयाणंभते उरालियसरीरा इत्यादि कियतिक्वियत्वं ख्याण्योदारिकशरीराणि सर्वास्त्रपि भवन्यनोत्तरं गोयमा दुविहेल्यादि ओदारि

तेअए कम्मए असुरकुमारणंभते कइसरीरा पंगो तिअसरीरा पंगुत्ता तंजहा वेउ तेअ० कम्मए एवं तिण्णि२ एए  
चेव सरीरा जावधणियकुमाराणं भाण्णिअवा पुढविकाइआणंभते कइसरीरा पंगुत्ता गो०तिअसरीरा पंगुत्ता तंजहा  
उरालिए तेअए कम्मए वेइ दिअ तेइ दिअ चउरिंदियाणं जहा पुढवौ काइयाणं पंचिंदियतिरिक्खजोण्णिआणं जहा  
वाउकाइआणं मणुस्साणंजाव गो पंचसरीरां पं उरालिए वेउव्विए आहारए तेअए कम्मए वाणअंतराणं जोतिस्सिआ

रिकादिक शरीरं कारण भवानुचायी कर्मसु जे विकारोति कर्मण्यथवा कर्मज ते कर्मण अत्र स्वल्प पुद्गले करी नोपना पणा थी अनेवाहर परिणाम थी प्रथम उदारिक शरीरनु ग्रहण अने तेह थी वड्ड वड्डतर वड्डतम पुद्गले करी नोपना पणा थी अने सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम पणा थी शेष शरीर अनुक्रमे गच्छा ते इस सामान्य थी सरीर कहीने हिवे चउवीसं दुंढकने विषे ते शरीर विवरीये छे नेरइआणमित्यादि सुगमं केवइयाणं केतली सञ्चाना भदंत ओदारिक शरीर प्ररूया हेगौतम विप्रकारे प्ररूया तद्यथा बद्ध अने सुक्त इहा उदारिकादिक शरीरनी संख्या पूछे ऊते वद्ध सुक्तरूप हिविध पणानु प्ररूपवुं अयुक्त इस कोइ प्रेरैतिहा उत्तर बद्ध सुक्त भेदने कहये करी संख्या कहवा भणी वद्ध सुक्तरूप हिविधपणानु प्ररूपवुं युक्त हिवे एवइसुक्त उदारिकनु प्रमाण किहाइ एके द्रव्ये अभय्यादिके करी बोलस्ये तथा किहांइ एके चेतने अेणि प्रतरादिके करी बोलस्ये तथा किहांइ एके काले

कमरीर सन्ध्यायां दृष्ट्वा यो बहून्पुत्रान्पश्यन् प्रसन्नो भवेत् तत्रैव बहून्पुत्रयोर्भेदेन सत्याकृत्यायं यातस्य इदं च बहून्पुत्रोदारिकादि प्रमाणं कथं प्रत्येयाभ्यां रज्ज्वा बन्धति कश्चिन्नु ज्ञेयं प्रतरादिना कश्चिन्नु काले न समयावलिक्तादिना भायेन ननु बद्धति तस्यै च द्रव्यात्तर्गतयन विषयित्वात् तान्नाम बहूनामीन्द्रक मरं राणां कालत चेततचमान निरूपयितुमाह तन्मण जेनेवहो सुया इत्यादि इह ११८८ कदेगां चदात्किगरीरानि बहूनि तावत्समस्ये च वैजङ्गरीरयातेपामत पारियेयात्तिर्यज्जमसुवै श्याविष विषय कर्मोद्याद्यानि बहूनि गृहीतानीत्यर्थं दृष्ट्वासमस्येते सच द्यानि भवद्वा नि तिष्ठतीति यावत् तांि सामान्यत सथास्यस्येया नि न ज्ञावते तदस्यै य कियदपीत्यतो विगिनटि अस्येवैकादिमित्यां प्रतिमसय यनेवैक गरीरमवच्छिन्ने तन् समस्येवैकस्यै शीत स्यात्स्यैवोत्पि स्यवस्यै शीप समस्येवोत्पि स्यवस्यै शीप यावत्समया सावति तानि

गौरीसाणिप्राण जहनिरदयाग क्षेत्रदयागुभ ते सरालिअसरीरा पशुत्ता गो दुनिहा परपुत्ता तजहा बहुलुगाय सुधे

समयाय-यादि कटी बागस्ये सने भाये फरी तो नशो बोले जे भणी भाव ते द्रव्यमादि ते भणी तेचनी विवक्षा द्रव्यमध्ये कीधी छे तिष्ठां बहू उदा दिक् गरीरान् कालधी सने जेत यी मान देवाडे छे तथण० तिष्ठां जे बहू इहा नारकी देवतानि षोदात्कि वत्त सग्नये नशी जेभणी ते वैशियगरीरज सुद्धे भणी सने नोने भनुवे सने तिर्यक् जेतयाविष फर्मना उदय थी बांध्या ककता प्रत्या उद्ध इत्यर्थ एतन्ने दृष्ट्वा समयने विपे सतुल्य सने तिर्यक् भाये बांध्या तिष्ठे ए भाव ते बहू कशीये ते सामान्य यी असान्य यी सने ते असल्यातो केवदु इम १ जाणीइ ते भणी विगोप कहेणे प्रतिमसये जो ऐकेका गरीर अपपरीयेतो असल्यातो उत्पिष्णी सवसर्पिणीये करी सर्वसर्पच्छिद्यतेक० अपपरीजे एतन्ने असल्यातो उत्पिष्णी सवसर्पिणीने विपे जेतला समय उद्ध तेतला षोदात्कि गरीर बहू उद्ध इति परमार्थ कावत् तेए कालयी मान कण्ठ चिने जेतउ नेलधी मान कहेते एससेज्जा लोगा इशां इम

अनु टी० ४६२



बद्धानि प्राप्यंत इति परमार्थत्वादतकालतोमानसुक्तं अथ चेततसदाह खेत्तु अंखेज्जालोगत्ति इदसुक्तं भवति प्रत्येकमसंख्येयं प्रदेशात्मिकायां स्वकीय स्वकीयावगाहनायां यद्यैकैकं शरीरं व्यवस्थाप्यते तदासंख्येयालोकसौम्यं यंते एकैकस्मिन्नपिनभः प्रदेशे प्रत्येकं तैर्यं वस्थाप्यमानैरसंख्येया लोका भ्यते एव केवलं शरीरस्य जघन्यतोयसंख्येय प्रदेशावगाहिलादेकस्मिन्प्रदेशेऽवगाहाः सिद्धांते निषिद्ध इतिनेत्यस्युच्यते असकल्पनया उच्यतामेवमपि को दोष इतिचेत्तो निवारयितो केवलं सिद्धांतेऽपि संवादि प्रकारेण प्ररूपणोदृष्टे लभ्यमाने स एव स्वीकर्तुं येयानिति चाह भवत्वेवं किंलौदारिक शरीरि णमनुयतिरश्चामनन्तात्कथमनंतानि शरीराणि न भवंति येनासंख्येयान्येनोक्तान्युच्यते प्रत्येक शरीरिणसावदसंख्याताएवातसोपां शरीराख्यसंख्याता

सुगायतत्यणं जेतेबड़ेसुगा तेणं असंखिज्जा असंखिज्जाहिं उस्सप्पिणोहिं अवहरंति कालओ खेत्तओ असं  
खेज्जालोगा तत्थणंजेते सुकेसुगा तेणंअणंता अणंताहिं उस्सप्पिणोहिं अवहरंति कालओ खेत्तओ अणंता

कहिंयो प्रत्येकर असंख्येय प्रदेशरूप आपापणी अवगाहनाइंथी एकेकुंशरीर स्यापीये तो तेणे शरीरे असंख्याता लोक भरीये अथ एकैकप्रदेशने विषे पणि एकैक बहु उदारिक शरीर स्थापता जतां असंख्याता लोक भरी जे परं शरीरना जघन्य थी पणि असंख्यात प्रदेशावगाही पणा थी एकप्रदेशने विषे अवगाही सिद्धातने विषे निषिद्ध छे ते भणी इम नथी कस्यो अथ असकल्पनाइं इम करतां कियुं दोष इम जो कोइं कहे तिहां इम कहिंनु सिद्धाते निर्दोष प्रकार प्ररूपणालाभे जंते तेहज प्रकार अङ्गीकरवुओइ इहा शिष्य कहेछे भगवन् ए इमज होओ परं ओदारिक शरीर तियंचना अनंता पणा ज तो अनंताकाइ न जइ जे असंख्याता ज बोल्या इहा उत्तर प्रत्येक शरीर असंख्याता छे ते भणी तेहना शरीरपण पसंख्याता ज जइ अने

न्येव साधारण शरीरिणस्तु विद्यते अन्तता किंतु तेषां नैकैकजीवस्यैकैकं शरीरं किञ्चनतानांर एकैकं बहुस्थितं शरीरकारिकशरीराणां मानंत्वेपिप्ररीरा  
 प्यसत्येयान्नेवेति तत्रच अनेतेषुके सुयेत्यादि भवतिरसक्तौ मोक्षगमनकात्वात्कीर्वाय्योद्धारिकानि सुकान्तिपत्तानि सुसुचितानि ताव्यनतातिप्राप्यते  
 अन्तकस्थानतत्वात् न्यायते कियदप्यनतकमिदं काको न विवेकवति प्रसिद्धमवमेकैकापकार अन्तानिभिरुष्यिं अवरुष्यिं षीभिरुष्यिंयते तत्रमय  
 रायि तुल्यानि अवातीत्यर्थं अयं शेततो विप्रिमदि अंतसचनताकोगतिं शेतत शेतमाश्रित्यागतानांकोकप्रमाणपुष्पानां च प्रदेश राशिसानुल्यानि  
 भवतीति भाव द्रव्यतो नियमयति अमभसिष्टिष्टिमित्यादि अभवत् कीवद्रुमसंश्लान्तानुल्यानि सिद्धजीव द्रव्यसत्यायास्वनंतभागवर्त्तानि आश  
 यद्येव देः सम्यक्क लक्षणावृत्तिं प्यात्वेगमनात्तत्पत्तंते प्रतिपतितस्यगृहवोप्यभवे भ्योऽनतगुणा सिद्धानामनत भागे प्रज्ञापना मशदकके पद्य ते तत्कि  
 नेतानि तत्तुल्यानि भवति नैतदेव यदि तत् समसंश्लानि भवेदुसादाशयैवतानि निर्दिष्टानि स्युर्नैवैव तत प्रतिपतित सम्यगृहटिराशे कदाचिष्टीमानि  
 कदाचिष्टुल्यानिजदाबिलधिकानि इति प्रतिपत्त्यमिति पुनरप्याच नमुनीधे परित्यक्तशरीराप्यामोनात्यमेवतावद्यायगच्छाम शवा किमेतानि प्रज्ञानादि  
 गतान्वद्ययात्येव यानि तिटति तानि गृह्णाते कतखडीभूवपरमात्मादि भावेन परित्यामात्कारपत्तानि यद्याद्य पक्ष सचिं तेषामनतकात्वावस्थाना भावत  
 शोक्तादानत्यनाद्येव अयथापरं पक्षसचिंठकचित्तुपुत्रकोपि नास्तिशेतीतास्त्रायामेकैक जीवेनौद्धारिक शरीररूप तवा अगतय परिणमद्येनसुक्तासत  
 सर्वस्यापि पुत्रसाशिकावत्स्यं अश्वमायत्र एव च सत्यभवे भ्योऽनंतगुणानि सिद्धानामनतभागे इत्येतद्विषयते सर्वं पुत्रसाशिकावगत पुत्रजानांसर्वजीवे  
 श्वोप्यनन्तान्तगुणत्वादलोच्यते नैपदोपो भवदुपपन्नपक्षद्वयस्त्रीष्यनौकरणात्किं तुणीवमिप्रसुतो एकैकस्त्रिभौद्धारिक शरीरेयान्यकत खजानि जायते  
 तानिअवावद्यापित जीवप्रयोगनिर्भूतितमौद्धारिक शरीरपरिणाम परित्यज्य परिणामान्तरनासादवति तावदौद्धारिक शरीरावयवत्वादेकदेशेऽपि

अथ ठी. ८४५. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

साधारण शरीरी अनंताच्छे परं तेहना एकर जीवतुं एकर शरीर नयी किन्तु अनंतर जीवतु एकर शरीरच्छे तेभणी चौदारिक शरीर अनताच्छे तो पणि शरीर असंख्याता ज ऊइ तल्यणं जे ते सुकृत्तया तिसां जेसुक्त अनैरा भवने विषे संक्रम्ये ऊं ते पथवा मोक्षजावाना कालने विषे जीवे जेउदारिक शरीर सुख्या कहतां त्यक्त कख्या ते अनंता छे अथ अनंताना अनंतमेदच्छे तेभणी न जाणीये केवलुं अनंतो तेभणी ए काले करी विशेषे छे प्रति समये एकर अपहरता अनंतो उत्सर्पिणी अवसर्पिणीइ करी अपहरति अपहरीजे एतले अनंतो उत्सर्पिणीर ना समय राशि तुल्य छे कालउकाल थी विशेष कस्योच्छे खेत्तल चेतबी चेल आथी अनंता लोकना जेतला ऊइ तेतला ऊइ इत्यर्थः अथ द्रव्यथी मानं कहीयेच्छे अभव्य सिद्धिकथी अनंतगुणा अने सिद्धने अनंतसे भागेच्छे इहा शिष्य आइ भगवन् जेणसस्यक्त कहोने वली भिष्यात्वने विषे जावाथी तेछांजु तेप्रतिपतित सम्यग्दृष्टीपणि अभव्यथी अनंत गुणा अनेसिद्धने अनंतसे भागे प्रज्ञापनाना मश्रादंडकने विषे भयोच्छे तोएशरीर प्रतिपतित सम्यग्दृष्टीनी-राशिथी कदाचित् हीन कदाचित्तुल्यकदाचित् अधिक पणि ऊइ वली शिष्य बोल्युं भगवन् जीवना मुंख्या शरीरतुं अनंता पणुं अ नयी जायता तथाहि कियुं एशरीर प्रमशानादिकने विषे आखाज जे छे ते ग्रहीये अथवा खण्डर होइने जे परमाखादिकने भावे परिणामांतर प्राप्त्या ते-ग्रहीये इहां जो-प्रथम पक्ष ग्रहीये तो तेहतुं अनंतकालरहितुनथी ते भणी थोडा पणा थी अनंतापणुं नथी होय अथ बीजो पक्ष ग्रहीये ताते कोई सुन्नक नबी जेपतीतकालने विषे एकरजीव-उदारिक शरीर पणेअनंत वार परिणमावीने सुकुं नथी ते भणी सर्वपुन्नलासिकायतुं ग्रहण पास्युं हिचे इमच्छेतेत-अभव्यथी अनंत गुणा अने सिद्धिने अनंतसे भागेच्छे ए मिले नही जे भणी सर्व पुन्नलासिकायने विषे जे पुन्नल छे ते सर्व जीवा जोन थो पणि-अनंतानंत गुणाच्छे गुरु बोल्या ए दीप नही जे भणी ताहरा कख्या वि ऊं इ पक्ष ग्रहणे अन्हें अंगीकार करता नथी अन्हें इम कऊ कुं जीव रक्षित एकर उदारिक शरीरने विषे जे अनंता खंड छइ, ते जांजगे तेजीवतु नीपा

ग्रामो दस्य पटो वग्ध इत्यादि वदयववे समुदायोपचारादिषु मध्ये कर्मोद्धारिक शरीराणि भव्य ते तत्र चैतै हस्य नीवविप्रसुक्तौदारिक शरीरस्यानतभेदे भिन्नत्वात्ते पांच भेदाना मन्त्र क तदप्यपत्वेन प्रसृत शरीरोपचारादेतेपाच भेदानां प्रकृतशरीरपरिणामत्वाते अथेया मत् परिणामवतासुत्पत्ति समवा ध्ययोक्तानन्तकसख्यान्वौदारिक शरीराणि कोकेन कदाचिषषष्टिद्यत इति स्थित तदेव मोषक सुता उद्धारिक शरीरसख्याविभागानामप्युपरिष्ठात्कम माप्ताभिमां वदति। अयौषत एव वैकिय सखासाच केवइएणभते वेचव्यियेयादि मत् नारकदेयानामेतानि सर्वदेववद्वानि सभवन्ति समुत्पत्तिरच्यतिवे कियकलिमतसुत्तरवैकियकरणकाले तत् आगत्यन अटगंतिकानामपि नीयानामसूनिमद्वान्य सखे यानिलभ्यते तानिकागतो असखे योक्त्विक्यं खवसप्यं

लोगा प्रभयसिद्धिर्हि अणतशुया सिद्धिण अणतभागो केवइ आणभते वेचव्यिअसरोरा प गो दुविरा प० त० वद्वेह्लथाय सुक्ते ल्लयाय तत्यण जेतेवद्वेह्लया तेणअसखिज्जा असखेज्जाहि असप्यणो असप्यणोहि अचवहोरति कालत्रो त्वेत्तत्रो अ योवदारिक शरीरसु परिणाम खाडीने चनेरे परिणामे न पुंऊचे तां लगे उद्धारिक शरीरना अवयवयणा थी मखे कर लुगुषा उद्धारिक शरीर शोभीये निम यामसु एक देय वल्यु ऊड तो पणि इस कडीये शर्म वल्यु तथा पटनेो एक देय वल्ये ऊडे पट वल्यु इत्यादि अवयवने विषे समुदायनो उपचार करण ऊ गी ते हने उद्धारिक शरीर शोभीये हो ते भणी एकर नीवनासु क्या उद्धारिक शरीरना भेदे अनता ऊड ते अगता भेदे मयिकर नेइना अपयव ऊड ते अडववने विषे शरीरसु उपचार करमां ऊडा एक नीयना एक सुत्तौदारिक शरीरने विषे पणि अनता सुत्तौदारिक शरीर कडीये मया केतलाएय भेदे ते शरीरसु परिणाम खाडे तिम भनेरा वकी तेहने परिणामे ऊड तेभणो यथोक्त अनतर सख्यारूप भौदारिक शरीर लाकने विष कदाचिन विच्छे

सुत्तौदारिक शरीरसु परिणाम खाडीने चनेरे परिणामे न पुंऊचे तां लगे उद्धारिक शरीरना अवयवयणा थी मखे कर लुगुषा उद्धारिक शरीर शोभीये निम यामसु एक देय वल्यु ऊड तो पणि इस कडीये शर्म वल्यु तथा पटनेो एक देय वल्ये ऊडे पट वल्यु इत्यादि अवयवने विषे समुदायनो उपचार करण ऊ गी ते हने उद्धारिक शरीर शोभीये हो ते भणी एकर नीवनासु क्या उद्धारिक शरीरना भेदे अनता ऊड ते अगता भेदे मयिकर नेइना अपयव ऊड ते अडववने विषे शरीरसु उपचार करमां ऊडा एक नीयना एक सुत्तौदारिक शरीरने विषे पणि अनता सुत्तौदारिक शरीर कडीये मया केतलाएय भेदे ते शरीरसु परिणाम खाडे तिम भनेरा वकी तेहने परिणामे ऊड तेभणो यथोक्त अनतर सख्यारूप भौदारिक शरीर लाकने विष कदाचिन विच्छे

श्रीसमथराशिशुल्यानि ज्योतिषतस्तुपूर्वोक्तप्रतरासंख्येयश्रीनां यःप्रदेशराशिसाखंल्यानि संभवन्ति मुक्तानि यथौदारिकाषितयैवर अथौषधत  
 एवाचारकाख्याक केवदयाणं भते आहारगेत्यादि एतानि यद्वानि चतुर्दशपूर्वविदो विषय नापरस्यसंभवति अंतरं चैपांशास्त्रान्तरे जषन्वतः समय अंतुष्टाष्ट  
 तस्तुपलासान्यावदभिहितमत उक्तं यद्वानि कदाचित्कति कदाभिसंसति यद्दि भवति तदा जषन्वत एक हे तीणिवा अतुष्टाष्टतस्तु सखस एयक्तं हि प्रभंत्वा

संखिज्जाश्रीसेढीउ प्रयरस्यअसंखेज्जभागो तत्पणंजेतिसुक्केल्लया तेणं अणंताहिं उसप्पिणीहिं उसप्पिणीहिं अत्रहीरं  
 ति कालश्री सेसंजहा उरालिअ सुक्केल्लया तरहाएण्हिंभाणिअवा केवदुआहारगसंगोदुविहावद्वेमुक्केतत्यणं जेते  
 वद्वेसुया तेणं सिअअत्थिसिअनत्थि अइअत्थि अहखेणं एगोवा दोवा तिखिवा उक्कोसिणंसहससुहत्तं मुक्केलयानहाडरा०

दाइ एतले उदारिक शरीरतुं वयोक्त प्रमाणयुक्तिउं मिल्युं एतले इम ओषधी उदारिक शरीरनी संख्या बोली विभाग थी आगलि बोलस्ये अथ ओषधी  
 वैकिय शरीरनी संख्या कहे छे केवदयाणं सुगमं तिहां नारकी देवताने एसवदा बहुसंभवे अने ममुख तिर्थेचने वैकियकथिवंत ऊइ तेइने उसर  
 वैकिय करवाना कालने विषे ऊइ तो ते ससुच्य रूपे च्यारि गतिना जीवमे बहुअसंख्यातालाभे तिकेकालसेती असंख्याता उक्तार्पणी २ भासमथराशि  
 तुल्यहोय जेतथी पूर्वोक्त प्रतर असंख्यात भागवर्सी ए असंख्याती खेयिना जेतला प्रदेश ऊइ तेतला एसम्भवे अने मुक्ततो जिम उदारिक सुक्त  
 कक्षा तिमज जाणवा एतले ओषधी वैकिय शरीर कक्षा िद्वे ओषधी आहारक शरीर कहे छे केवदु आणं सुगमं ते एशरीर औद पूर्वधरव  
 जीने अनेराने सम्भवे नही तथा एइतुं अंतरो शास्त्रा तरने विषे जषन्व एक संभव अतुष्टाष्टमास लगे बोल्युं छे ते भणी इम कक्षी वद्वकदा

रास मगपतिसे व भवेतिरका यानदा रयवे ४४५५ ५५५

नवम्य समयप्रसिद्धा प्रयत्नसुष्यते मुक्तानियमौदारिकाणि तथैव नवरसनतत्त्वज्ञानतमेदात्मस्यैव लघुतर द्रष्टव्य ३ तथैव तैजसान्याह केवद्वयाणभतेतेय  
 गेयादि एतानिवह्वान्तानि भवति कालतोऽनतोऽपि एवसर्पिणी समयरात्रिसत्त्वानि चेतोऽनतकोक प्रदेशरात्रियमानानि द्रव्यत सिद्धेभ्यो  
 ज्ञानतगुणानि अनतभागान् नसर्वजीवसत्त्वप्रमाणाणि तत् स्वामिना मननत्वात्त्वौदारिकापि स्वामिनो विद्युतेऽनतान्ये ततोऽन्ये तावत्त्वान्यान् ज्ञान्य  
 लोच्यते उदारिक मनुष्यतिरसमेव भवति तत्रापि साधारण शरीराणा मननानामेकमेव इदमर्गुर्गतिरानामप्यसि साधारणशरीरिणां चाप्रतिजो  
 वसे कैक प्राप्यते तत्रशैजसानिसवससादि जीवसत्त्वानि भवति ससादिणसजीवा सिद्धेभ्योऽनतगुणा अत एतान्यपि सिद्धेभ्योऽनतान्य ज्ञानि

तहाभाणि अथवा केवद्वयाणभते तेऽगसरीरा प गो दुविहा प० त० यद्वैज्ञयाय सुक्तेऽनयाय तत्पण जेतेवद्वैज्ञया तेण  
 अथता अथताहि ससर्पिणौर्हि अथशरीरतिकाकालश्चो खेसश्चो अथतालोकासिद्धे हि अथतगुणा सखजीवाण अथतभा

चि हे कदाचि नवी जो ऊह तो जवन्य यो एक वि विवि सत्सुष्ट वी सख ययुक्त ऊह अने सुक्ते उदारिक शरीर कक्षा तिम कहे छे नवर  
 अनताना अनता भेद छे तेभणी इषा नान्देव अनतुलेपुं एतले सोव बी बाशरकयरीर कक्षा सिद्धे सोपयी तेजस शरीर कहे छे केवद्वयाण० सुगज  
 तिषा जे बांध्या ते अनता छे काक्यी अनती सत्त्वपिणी २ ना समय रात्रि तुल्य ऊह अने जेतयी अनता लोकांना प्रदेश रात्रि तुल्य ऊह अने  
 इत्य यी सिद्ध यी अनत गुणा अनतमा भाग जणा सर्वजीवनी सत्त्वा वरावर जे भणी तेइना स्वामी अनता छे इषां कोई इम कहे षौदारिकाशरीरना  
 पदि स्वामी अनता छे तो ते शरीर तेतळा कांन कक्षा इषां उतर षौदारिक तेमशुप्य तिर्यचनेज ऊह तिषां बली साधारण शरीर अनता एक २ ज छे

सुवर्णवाराखिल उपक्रम लोकोपमाने

१११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २००

सर्वजीवसंख्या न प्राप्तुवन्ति सिद्धजीवानातद्संभवात्सिद्धाद्य येषजीवानामनंतभागे यत्तं ते ज्ञतः सिद्धजीवलक्षणानंत भागेनहीना येसर्वजीवासात संख्यान्यभिहितानि सुक्तान्यपि अनंतानि कालतोऽनंतोत्पत्तिर्षण्यवसर्पिणी समय राशितुल्यानि जेततोऽनंतलोकानां ये प्रदेशास्तुल्यानि द्रव्यतः सर्वजीवेश्योनंतानि तर्हिजीवराशिनैवगुणितो जीववर्गो भस्यते एतावत्संख्यानि तानि भवति नेत्याह जीवस्य अणंतभागोक्तिः सर्वजीवसद्भावतोऽनंता अपिकल्पनया किल द्यसतसहस्राणि तानिच तैरेव गुणितानि ततोसत्कल्पनया दृगकोटि संख्यः सद्भावतन्वानं न्निनन्तसंख्यो जीववर्गो भवति तस्यानन्तगुणकल्पनया यततमेभागे एतानि यत्तं ते अतः सद्भावतोऽनन्तान्यपि किल द्यलक्षं संख्यानि तानि सिद्धानि किं कारणं जीववर्ग संख्यान्येव न भवंत्यच्यते यानि यानि तैकसानि सुक्तान्यनन्तभेदेभिद्यंते तानि तान्यसंख्येयकालादूढं तं परिणानं परित्यज्य नियमात् परिणामातरमासा

### गूणात्थयं जेतंमुक्तेस्तथा तेषं अणंता अणंताहिं उस्सप्पिणोहिं अबहौरंति कालञ्चो खेत्तञ्चो अणंता लोणा

अने एशरीर तो चिद्धगतिना जीवने हे अने वली साधारण शरीर एकर जीवने एकर पामीये तेभणी तेजस शरीर सर्वसंसारी जोयनी संख्या तुल्य ऊद् अने संसारी जीवतो सिद्धथी अनंत गुणा हे तेभणी एशरीर पणि सिद्धथी अनंतगुणा योल्या परं सर्व जीवनी संख्या तुल्य कानि ऊद् जे भणी सिद्धिने ए शरीर नथी अने ते सिद्धनाजीव संसारी जीवने अनंतमे भागे हे तेभणी सिद्ध जीव रूप अनंतमा भागधीन जे सर्वजीव तेजनी संख्या राशर योल्या जिहा जे सुक्त तेजस ते अनंता हे काल थी अनंती उत्सर्पिणीरना समच राशि तुल्य ऊद् अने जेत थी अनंता लोकना प्रदेश राशि तुल्य ऊद् अने द्रव्य थी सर्वजीव थी अनंतगुणा हे तो जीव राशिर संघाते गुणीये ते जीववर्ग बोलीये ते जीववर्ग तुल्य ऊद् निया नधी ते कहे हे जीव वर्गस्य अणंतभागो इहा सर्वजीव सद्भाव थी अनंता हे तोपिण असत्कल्पनाये आप्णे किल द्यससहस्र ते हे तेजस गुणा करीये तो असत्कल्पनाद् दृगकोटि

सर्वजीवसंख्या न प्राप्तुवन्ति सिद्धजीवानातद्संभवात्सिद्धाद्य येषजीवानामनंतभागे यत्तं ते ज्ञतः सिद्धजीवलक्षणानंत भागेनहीना येसर्वजीवासात संख्यान्यभिहितानि सुक्तान्यपि अनंतानि कालतोऽनंतोत्पत्तिर्षण्यवसर्पिणी समय राशितुल्यानि जेततोऽनंतलोकानां ये प्रदेशास्तुल्यानि द्रव्यतः सर्वजीवेश्योनंतानि तर्हिजीवराशिनैवगुणितो जीववर्गो भस्यते एतावत्संख्यानि तानि भवति नेत्याह जीवस्य अणंतभागोक्तिः सर्वजीवसद्भावतोऽनंता अपिकल्पनया किल द्यसतसहस्राणि तानिच तैरेव गुणितानि ततोसत्कल्पनया दृगकोटि संख्यः सद्भावतन्वानं न्निनन्तसंख्यो जीववर्गो भवति तस्यानन्तगुणकल्पनया यततमेभागे एतानि यत्तं ते अतः सद्भावतोऽनन्तान्यपि किल द्यलक्षं संख्यानि तानि सिद्धानि किं कारणं जीववर्ग संख्यान्येव न भवंत्यच्यते यानि यानि तैकसानि सुक्तान्यनन्तभेदेभिद्यंते तानि तान्यसंख्येयकालादूढं तं परिणानं परित्यज्य नियमात् परिणामातरमासा

अनु टी० ४७० सूत्र भाषा

दयत्यत प्रतिनिवतकालावस्थादुत्कृष्टतोमि यथोक्तसंख्यात्वे वैतानि समुदितानि प्राप्य ते नाधिकानीत्यलमिति विशररेण केवद्रयाण कम्पये इत्यादि  
तैजसकार्मण्यो समानस्यानिकवाप्यदैव सच धरितत्वाच्च समानैवकथ्यतेति तदैव मोघत पचापियरीरास्यक्तानि सांप्रत ताव्येव नारकादि चत  
विद्यति दृढके विशेषतो विचारितुमाच नेरईयाण भते केवद्रया सरालिय सरीरेत्यादि द्विविधानि प्रकृतानीति यदुच्यते तत्र महानामसद्रूपेणैव नारकेषु  
सत्त्वमवशेय न सद्रूपेण अतएवोक्त तत्र यानि महानि तानि न सति तेषां वैकियशरीर वेगौवारिकवधा भावात् सुक्तानि तु प्राक् तिवर्गादि नागाभवेषु सभ

सर्व जीविहि अणतगुणा सर्वलौवगस्र अणतभागो केवद्रुं कम्पगसरीरा प गो दुविहा पणत्ता तजरा वधे सुक्ते  
जहाते अगसरीरा तहाकम्पगसरीरा विभागिअवा नेरद्राणभते केवद्रुअउरालिअसरीरा प गो दुविहा पणत्ता

सख्या सहाय थी अनतानन्त सख्यजीव वर्गं ऊद्र तेरने अनतमे भागे असत्कल्पनाद्र जाणे किरसीमे भागे ए शरीर यत्ते भणी सहाव/थी ए अनता  
हे तो पणि असत्कल्पनाद्र दग्गलसख्यारूप एयदा अय किस्यो कारण जे जीव वर्गं सख्या रूप ते न ऊद्र ते कहीये हे जेजे सुक्त तैजस अनत भेद याद्र  
तेने असख्याता काल उपरांत ते परणाम लाडने निचये अनेरो परिणाम पमि ते भणी मर्यादा रूप कालक्षण पणा थी उत्कृष्ट थी पणि यथोक्त सख्या  
रूप जे एकठा ए यामीये अधिका नही एतले ओषधी तैजस शरीर कस्या हिदे ओषधी कार्मण शरीर कहेहे केवद्रुआण सुगम इजां तैजस कार्मण  
शरीरना स्वामी तुल्य हे अने ते शरीर जीवसाये सदा ऊद्र ते भणी विडनी तुल्य वक्तयता हे एतले दूम ओषधी पांच शरीर कहीने हिदे नारकादिक  
असवीस दृढकने विपे तेरज देखाडे हे नेरद्राणसुगम इजां जे दूम कस्यौ धिनिध प्रकृया तिजां वस रूपसु अक्कते रूपे प्कृता पणु जाणवु पर छते







एथेति तदेवं कल्पनया चतुःपष्टिक्रपाणां सङ्घावतोऽसंखेयानां त्रेणीना यः प्रदेशराशिरेतावत्संख्यानि नारकाणां वद्वैक्रियाणि प्राप्य त इति प्रत्येक गरीरित्वाच्चारका अथे तावतएव एवं सति पूर्वनारका सामान्यै वैषासंखेयया उक्ता अत त गरीरविचार प्रसावात्तदयसंघेयकं प्रतिनियतस्वरूपं सिद्धं भवति एवमन्यत्रापि प्रत्येक गरीरिणः सर्वे स्वकीयर वद्वगरीरसंख्या तुल्या द्रष्टव्याः सुक्तवैक्रियाणि सुक्तौदारिकवाह्यानि आशरकाणि बह्वान्येषां न संभवंति चतुर्दशपूर्वधरसंभवितात्तद्वधस्य सुक्तानि त सुक्तौदारिकबह्वान्यनि मनुष्यभायैरुतेष्विवाशरकगरीराणा प्रतिपतितचतुर्दशपूर्वयिदा नारकेपूत्य

त्रिदश्रवणमूल षण्णपमाण सेत्ताओ सेद्वीओ तत्थणंजेतेसुक्केल्लया तीजहाओहिआ ओरालिअसरौरा तहाभाणिअञ्चवा  
नेरइथाणंभंते केवइया आहारगसरीरा पणत्ता गो० दुविहा पणत्ता तंजहा वहे० सुक्के० तन्थणंवेइल्लया तेगांनत्थि

एकज ए यद्द ए अथेने विपे प्रवत्ते चिचे तेहिज प्रकारतर कटि छे अंगुलवीषवर्गमूल अंगुल प्रमाण प्रतर जेवने विपे जे असंख्याती अणि ऊइ ते अणिनु जे वीजो वर्गमूल पूर्वोक्त चिडंनो संख्यारूप तेचगु जे घन चउसष्टि रूप तेतली अणि इहां यथीये इम प्ररूपये करी अनेरो भेद ऊइ परं पर सार्थथी अर्थ तेहिज ऊइ ते इम कल्पनाये चौसठि रूपना सहाव थी असंख्याती अणिनी जे प्रदेश राणि ऊइ एतका नारकीना वैक्रिय गरीर बह्व पामीये अने प्रत्येक गरीर पणा ऊंती नारकी पणि एतलाजहे तो इम इते पूर्व जे नारकी समग्र रूप असंख्याता कत्ता ऊता इहां ते गरीर विचारना प्रभाव थी असंख्यातो सर्यादा स्वरूपनीपनो इम अनेरे ठामे पणि प्रत्येक गरीर सर्व सापापणा बह्वगरीरनी संख्या जाणवी अने सुक्त वैक्रिय तेसुक्तओदारिकनी परे बोलवा तथा आशरक बह तो एहने न सम्भवे तेहनो बंध चौद पूर्वधरने विपे ज सभभवे तेभणो अने सुक्ताएर

स्ति स भवदौदारिकोक्तान्यायेनानतागां तेषां स भय इति भाय तैजसकामंषानि तु बह्वानि सुक्तानि च यथैषामेवैकयाणि तथा वक्तव्यानि उक्तानि  
 धर्षापि शरीराणि नारकेष्वयासुरकुमारैः तु तानिवक्तुमाह असुरकुमाराण भर्ते इत्यादि औदारिकाख्यतापिनारकवहाण्यानि वैक्रियाख्यपि तथैव नवरस  
 सुरकुमाराणां नारकेभ्यसोक्तत्वात् प्रसूतशरीराख्यपिसोकाव्यतो विष्क भस्वस्या विशेष साधैव तासिण चेदोण विष्क भस्वइत्यादि तासासनतरोत्त  
 श्रेणीनां विष्क भ स्वरिषिकरत्रेणिरगुल प्रथमवर्गमूलस्थासुखेय भाग इदमुक्त भवति प्रतरस्थांगुल प्रमाणेद्येवै यासुखेययो भत ति तासां यत्प्रथमवर्ग

तत्पुणजेते सुक्के सुया तेजहाओहियाओरालिया तेजगकमगसरीरा तेजहा एणसिचेव वेउब्बि अस  
 रोरा तेजहाभाणियव्वा असुरकुमाराणभते केवइआ उरालियसरीरा प गो० जहानेरइयाण उरालि० तहाभा०  
 असुरकुमाराण सतेके० वेउब्बिअसरोरा पं गो दुविहा पणत्ता तेजहा बहे सुयाय सुक्के सुयाय तत्पुणजेतेवइ सुया

कसुतौदारिकनी परे बोलवा जेमणी तेरने सतुय भवने विपे चउद पूर्वघरनी अयस्याचे याचार शरीर बांधां सु क्या सम्भवे छे एतले चउदपूर्वघरपणि पडि  
 ते नरके जाता सम्भवे छे ते भणी नारकीने सुत्ताचारिक शरीर सुतौदारिक शरीरनी परे बनन्ता छे एभाष तथा तैजस कामंण शरीर वसु अनेसुत्त  
 जिम एरनाज वैक्रिय शरीर तिम बोलवा एतले नारकीने विपे पाच शरीर यषाख्यं षिचे असुर कुमारने विपे ते बोलोयेछे इहां औदारिक शरीर जिम  
 नारकीना औदारिक शरीर तिम कइवा अने वैक्रिय पणि तिमज गवर असुरकुमार नारकी यी थोडा छे ते भणी ए शरीर पणि थोडा छे एतला  
 भणी विष्क भ स्वरिषीने विपे एविशेष तासिण चेदोण विष्क भ स्वरि ते अनन्तरोक्त श्रेणिनी विखार च्रेणि ते अगुल प्रथमवर्गमूलतु असख्यातमो भाग

अनु ठी० ४०५ सुत भाषा

अनु ठी० ४०५ सुत भाषा



केवल यदोषिकवहानामसंश्रय प्रमाणत्वसुक्त तदिरुहसुतरा संश्रय केन द्रष्टव्य तत्वाकायादिशरीरे सच सामान्य चिन्तितत्वादवत केवलशुष्कीकाय माव प्रसावादिति भाव वैकृत्याहारकाणि बह्वानि नसति सुक्तानि तु प्राग्बुधैरमनुष्यादि भयेषु च भवति तानि तुमुक्तौषिकौदारिकपदभिधानी यानि तेजसकार्थं शान्त्यत्वं बोक्तोदारिकवह्वानि एवमपृक्तायिक्त तेल कायिकेष्वपि सर्व वाप्य वायुपुत्रैकियलतो विग्रेय समशितदभिधानार्थमात्र वाउकायाण भन्ते इत्यादि इहापि सर्वं दृष्टिबोकायिकवह्वान्य नवर वैकृत्याण्यहान्यमीयामसंश्रयानि खभ्यते तानि च प्रतिसमयमपङ्क्तिप्रमाणानि श्लेषे पल्योपमश्या

भन्ते केवद्वया शोरालिश्रसरीरा प गो दुविहा पणत्ता तजहा वहुसुयाय सुक्तेसुयाय एव जहाश्रोहिश्रया  
 लुरालिश्रसरीरा तहामा० पुढविका० केवद्वयवेउल्लिश्रसरीरा पं गो दुविहा पणत्ता तजहा वहुसुयाय सुक्तेसुयाय  
 तत्यण जेतेवद्वेसुया तेणणत्त्य सुक्तेसुया जहाश्रोहिश्रया लुरालिश्रसरीरा तहामा० आहारगसरीरावि एवचैव  
 भाणियञ्जा तेअगकम्यगसरीरा जहा एणसिचैव लुरालिश्रसरीरा तहामाणिअव्वा जहापुढवि कार्दुआण एव आउ

मान्दरो नेषु जे भणो तिष्ठा अपकायादिक शरीर साये विषासा अने इहा एक दृष्ट्योकायनोज प्रसाव छे ते भणो तथा वैकृत्य अने आहारक पचन एणने नधी अने सुक्ततौ पूवशी परे मशुय्यादिक भवने विषे समये ते सुक्त ओधिक औदारिक शरीरनी परे शोखवा अने तेजस कार्मण शरीर ते जिम एहना औदारिक शरीर तिम कशवा एय यावत्तेजस्तायिका अयवाउकाइआण सर्वदृष्ट्यो कायिकवत् नवर वैकृत्यवध एणने असख्याता क्षाभे ते प्रति समये २ अपपरिता यका श्लेष पल्योपमने असख्यातमे भागे जेतना आकाग प्रदेश इह तेतेले समये अपशरीये श्लेष पल्योपमा सख्येतमभागवती

अथ टी. ४७७ सुत भाषा

अथ टी. ४७७ सुत भाषा



रेण तेषां चेष्टाया एवाभावात्तच्च न घटते यत् सर्वस्मिन्नपि लोके यत् क्वचित् युष्मिन् तत्र सर्वत्र चलावायवो नियमात्सत्ये व यद्विवा तत्सर्वोपि वैक्रियशरीरिण्यप्यक्षदायववैक्रियशरीराणि प्रभूतानि प्राप्तुं इति ननु यथोक्त मानान्येवेति तस्मादेवैक्रियशरीरिणापि याति वायव उक्तव अल्पिण भते ईक्षिपुरे वाया पच्छ वाया मदावाया मदावाया वायति इति अल्पि क्रयाण भते जाववायति गोयमा जयाण वाठयाए आकारियरीयद् जयाण वाठयाए उत्तरकिरियरीयद् जयाण वाठकुमारा वाठकुमारीचवा अय्यपोषा परस्मया तदुभयक्षवा अष्टाए वाठयाय उदीरति तथाणं ईक्षिजाववायति आकारियरीयत्ति रीतरीति सभाव इत्यर्थं तस्यानतिक्रमेण यथारीतरीयते गच्छति यदा स्वाभाविकौदारिक गरीर गत्या गच्छ तीत्यर्थं उत्तरकिरियति उत्तरा उत्तरवै क्रियगरीराश्चयागतिवक्षणा क्रिया यत् गमने तदुत्तर क्रियतद्यथा भवतीत्ये व यदारीयते तदेवमवगताना वानेक प्रकारतय प्रतिपादयिता स्वाभाविक

समए २ अवहीरमाणा २ खेत्तपलिञ्चोवमस्य अस्खिज्जद् भागसेत्ते ण कालेण अवहोरति नोचेवण अवहिञ्चासिञ्चा मुक्केल्लया वेत्तल्लिञ्चसरीरा आहारगसरीराय जहापुढविकाइञ्चाण तहाभाणिञ्चल्ला तेअगकगगसरीरा जहापुढ

ते मध्ये पणि तेइना असह्यातमा भागना बन्ध वैक्रिय शरीर दृच्छा समयने विपे पामीये ते भणी यथोक्तप्रमाणज बन्धवैक्रिय शरीर ऊद्द ईशां कोर्देएक इम माने छे जेतला केर्दे वायु वाइ छे ते सर्ववैक्रियशरीरने विपे वत्ते छे जे भणी वैक्रिय विना तेइने गमनसम्भये नही ते तेइनु मत घटे नही जे भणी सर्वलोकने विपे जिजां किजाइ पोसाडि छे तिजां सपले चल यायु नियमा छेज अने जोते सर्ववैक्रिय शरीर ऊद्द तो बन्धवैक्रियशरीर घणा ऊद्द पर यथोक्तमान न ऊद्द ते भणी अवेक्रिय शरीर पणि वायु वाइछे उक्त अञ्ची भगवत्या अल्पिण भते ईक्षि पुरे वाया पच्छा वाया मदा वाया मदावायावायति

अनु टी० ४०८ द्वय भाषा



स्वपिगमनसुक्तमतोवैक्रियशरीरिण एवतेवातीतिन नियम इत्यलं बिस्तरिण वनस्पति सूत्रेपि सर्वं पृथ्वीकायकबहुक्तव्यं नवरं पृथिवी कायिकाना प्रत्येक शरीरित्वाश्वस्थानबह्वैदारिक संख्या तुल्यानि तैजसकर्मणान्युक्तान्यत तु वनस्पतीनां बहूनां साधारणशरीरत्वाच्छरीरिणामानत्येधौदारिक शरीराख्य संख्यातान्यैव तैजसकर्मणानिप्रतिजीवं पृथग्भावादनंतानि तमोन स्वस्वाभत्वहौदारिक बुल्यानि भक्तयानि किं तु यथौघिकतैजसकर्मणान्यभिष्टितानि तथैवातापिभावनीयानि वेद्दिश्यांभंते इत्यादि अत्र बह्वौदारिकाख्य संखेप्रयानि काकतोऽसंखेप्रयोर्ष्वित्यस्यैव सर्पिणी समयराशितुल्यानि श्वेतसु

विकाइत्राणं तह्नाभाणिअत्रवा वणस्सइकाइत्राणं उरालिअ वेउव्विय आहारगशरीरा जहापुठविकाइत्राणं तहा भाणिअत्रवा वणस्सइकाइत्राणंभंते केवइत्रा तेअगसरीरा पंगो दुविहा पसत्ता तंजहा वड्ढेसुयाय सुक्केसुयाय तत्य णंजेते वड्ढेसुया तेणंणत्थि जहाओहिअ तेअगकम्मगसरीरा तेअगकम्मगसरीरा भाणि

इंता अत्यि कयाणंभंते ईसिजाववायंति गोजयाणं वाउआए आहारिइरीअइ जयाणं वाउकुमारा वाउकुमारिउवा अयणोवा परसुवा तदुभयसुवा अट्टाए वाउआयं उदीरंति तयाणं ईसिजाववायंति व्याख्या तिहां रीति स्वभाव इत्यर्थः तेहने अणतिकमवै यथारीतरीअ इगच्छति जिवारेखाभाविक औदारिक शरीरनी गत्तेश्चाले इत्यर्थः तथा उत्तरा कर्हता उत्तर वैक्रियशरीरनी गत्तिक्रिया जिहां गमनने विपेक्के ते उत्तरवे क्रिय कहीये तेउत्तरवेक्रिय जिम ऊइ तिम जिवारेरीअइ चाले तेइम इहां वायुनावाज्जवाने विपे प्रकार त्रिणिवोल्या तेमध्येस्वाभावीक गमन पणुं वोल्यां तेभणीवैक्रियशरीरज तेवाइ एनियमनही अय वनस्पति कायिक पृथिवी कायिकवत् नवरंपृथ्वी कायिकने प्रत्येक शरीरपणाथी स्वस्थानवन्धोदारकशरीर

प्रतरामस्येय भागवत्स्यं सखेयय श्रेणीनां य प्रदेशराशि तत्तुल्यानि तासांच प्रतरासखेप्रयभागवर्ति श्रेणीनां विष्क भस्त्रुविरसखेयय योजनकोटी श्रोटीम माणागतपाप्मा एतदेव वियेवतरमाच अस खेज्जाइ सेटिवगममूलाइ त्ति एकस्मा नभत्रे षोयं प्रदेशराशि सचसद्भावतोऽस प्यगत प्रदेशालकोपि कल्पनया पचपटि सचसद्वाणि पचगतानि पटति गदधिकानि ६५५३६ अस्य प्रथमं वर्गमूल २५६ द्वितीय १६ तृतीय ४ चतुर्थ २ एतानि कल्पनया चत्वारिपि सद्भापतो

अत्रा वेद दिश्याणम ते केवदूआ उरालियत्रसरोरा प गो दुविहा पयत्ता तजहा वद्वेक्षयाय सुकेक्षयाय तत्पण जेते वद्वेक्षया तेण असखिज्जा असखिज्जाहि उसपिणोइहि अयहोरति कालओ खेत्तओ असखेज्जाओ सेटोओ पयरस असखिज्जाइभागो तासिण सेटोण विक्क भसूइ असखेज्जाओ जोअण कोडाकोडोओ असखिज्जाइ सेटिवगममूलाइ

नोसद्वातुल्य तेजसकामंण यरीर गेल्या अने इहां वनसतीने साधारण यरीर पणा गटे शरीरने अनतपणे छेते पणि षौदारिक शरीरवध असद्वाताज इइ अने तेजस कामंणयरीरतो जूनषाजीवने जज्जा छे ते भणी ते अनता छे कारणे सस्यानबन्धोदारिक तुल्यज योलवा कितु जिम षोधिक तेजस कामण यरीर गेल्या छे तिम इहां पणि भाषवा एतले पांचसावरने विपे पांच यरीर कक्षा अथ त्रिणविकलेन्द्रियने विपे ते कहे छे येइ दिवाण सुगम इहां बधौदारिक यरीर असद्वाता छे ते काल यो असद्वाताती उखर्पिणी २ ना समय रासि तुल्य छे अने जेत यी प्रतरने अचद्वातमे भागेवर्तती असद्वाताती श्रेणिनी जे प्रदेश राशि ते तुल्य छे तासिणसेटोण विक्कभसूइ ते प्रतरासखेयतम भाग वर्तती श्रेणिनी विष्कभसूची असद्वाता योजननी कोडा कोडि प्रमाण इहां लेबी किये एरुज वियेप कहे छे असखिज्जाइ एक षाकाय श्रेणिनी जे प्रदेश राशि ते

संख्येयानि वर्गसूत्रानि एतेषां च मीलने कल्पनया अष्ट सप्तत्यधिके द्विशते सङ्गावतस्वसंख्येयः प्रदेशाजायंते ततएतावत्प्रदेशाप्रस्तुत विष्कंभसूत्रचिर्भवति इदानीं प्रस्तुतशरीरमानमेव प्रकारान्तरेणाह वेदं दिद्याणं उरालियशरीरेहिं वहिस्सएचिमित्यादि द्वौ द्वियाणां यानि वह्यान्यौदारिकाशरीराणि तैः प्रतरः सर्वोपपङ्कियते क्रियता कालेनेत्याह असंख्येयोत्वपिण्यवसर्पिणीभिः केन पुनः क्षेत्र विभागेन कालप्रतिभागेणच एतावता कालेनायसपङ्कियत इत्याह अंगुलप्रतरलक्षणास्य क्षेत्रस्य आवलिका लक्षणास्यचकालस्ययोऽसंख्येय भागरूपः प्रतिभागोऽंशस्तेन इदसुक्तं भवति यद्ये कैकेनद्वौ द्वियाशरीरेण प्रतरस्यैवेकोऽंगुलासंख्येयभागैकेनावलिकाऽसंख्येयभागेनक्रमशोपङ्कियते तदा संख्येयोत्वपिण्यवसर्पिणीभिः सर्वोपि प्रतरो निष्टं याति एवंप्रतरस्यैवेकलक्षणं गुला

वेदं दिद्याणं उरालिय वद्वेक्षएहिं पयस्स अवहौरइ असंखिज्जाहिं उसप्पियौरहिं कालओ खेत्तओ अंगुलपयस्सओव  
लिओएओ असंज्जइभागपडिभागेणं सुक्केसुया जहा ओहिओ उरालिओसरीरा तथा भाणिओव्वा वेत्तिविओ आहारग

सङ्गावथी असङ्ख्येय प्रदेश रूपेण असत्कल्पनाद्दं पेंसट्टिससहस्र पांच से क्वतीस जाणथा ६५५३६ इहा प्रथम वर्गसूत्रं १६ द्वितीयं १६ तृतीयं ४ चतुर्थं २ ए कल्पनाद्दं चारि वर्गसूत्रं होय पणि सङ्गावथी जाणे असङ्ख्याता वर्गसूत्रे एहने एकठा कारता दायसय अट्टोत्तरि २७८ ऊइ तेसङ्गावथी असङ्ख्यात प्रदेश ऊइ ते भणी एतला प्रदेशनी एविकंभ सूची ऊइ हिवे ए शरीरसुं मानज प्रकारातरे कहे के वेदं दिद्याणं वेदन्दिद्यना जे बंध औदारिकाशरीर तेणे करी प्रतर सगलो अपहरीये हिवे केतले काले ते कहे के असङ्ख्याती उत्सर्पिणीरेये तथा केतले क्षेत्रने विभागे ते कहे के अंगुल पयस्स अंगुल प्रतर रूपे क्षेत्रनो अने आवलिकारूप जे काल तेहनो जे असङ्ख्यातसो भाग ते रूपजे प्रतिभाग कहतां अंश तेणे करी एतले इम कस्यो जो एक हीन्द्रिय

मधेय भागे एकैकेनावलकाऽसप्रेय भागेन प्रत्ये कक्रमेण स्याप्यमानागिहोन्द्रियशरीराण्यस्येययोष्यपिख्यवसपिणीभिर्भु संव प्रतर पूर्यतीत्यपि द्रष्टव्य वस्तुत एकार्यत्वादिति सुतौदारिक वैक्रियाचारकाणि दृष्यीकाविक्रयहास्यानि तेजस कार्मण्यानि तु यथैपामेवौदारिकाणि त्रीन्द्रिय चतारिन्द्रियाणामप्येव नैव साध्य पक्षेन्द्रियतिरश्चामपीत्यमेव नधरमेतेषु केषांश्चिद्वैक्रियलब्धि सम्प्राप्यतो वहाय्यपि येक्रियशरीराणि लभ्यन्तेऽतसासृष्ट्यानिरूपणार्थमाह पक्षेन्द्रियति रिकसुजोशियाण भतेकेवर्द्धया येवब्धियशरीरा इत्यादि इह च सामान्येनासहोयता माता व्यभिचारतस्त्रीन्द्रियादीनामतिदेशीभन्तव्यो न पुन सर्वथा पर स्पर सप्यासास्यमेतेषां यत एक एएसिण भते एगिदिय येदृदिय चतारिदिय पचिदियाणां काथरेकथरेहितो अप्यावा वड्यावा तुष्णावा विसे

सरीरा वडैल्लयानत्यि सुकैल्लया जहाओहिया उरालियसरीरा तहाभाणिअव्या तेअगकमगसरीरा जहाएएसिचेवउ रालिअसरीरा तहा भाणिअव्या जहा वेदृ दिअण तहातेदृ दिअ चउरिदिअणविभाणिअव्या पचिदियतिरिक्खजो

शरीर करी प्रतरनु एक आगुलनु असह्यातमो भाग अने एक एक आयलीने असह्यातमे भागे असुकमे अपशरीये तो असह्यातो उत्त्वपिणीरइ करी सगलो आपो प्रतर सपूर्ण थाय इमज यली प्रतरना एकर अगुवना असह्यातमा भागने विपे अने एकर आयलीने असह्यातमे भागे करी जूजषा असुकमे वेदृन्द्रियना शरीर स्थापता उता असह्याती उत्त्वपिणीरइ करी सपूर्ण प्रतरने पूरे जे भणी परमार्यंथी एकार्यंज उडइ अथ सुतौ दारिक वैक्रिय आचारकशरीर ते प्रिबी कायवत् तथा तेजस कार्मण शरीरतो जिम एइजना औदारिकशरीर कह्या तिम कश्चिवा एव थावत् चत रिन्द्रिय एतले विकलेन्द्रियने विदे पांच शरीर कह्या अथ पक्षेन्द्रिय तिर्यग्योनिकने विपे ते कहे छे पक्षेन्द्रिय तिर्यक्षने पणिए इमज वखाणवा नवर

साहिद्यावा गोयमा सबबोना पंचेदिया चउरिंदिया विसेसाहिद्या वेइंदिया विसेसाहिद्या एगिंदिया अणंतगुणा तदेवअिहसुत्वे  
 हीन्द्रियादीना कियत्यपि जीवसख्या वैचित्यस्योक्तत्वात्तच्छरीराणामपि तदिह द्रष्टव्यं प्रत्येकशरीराणां जीवसंख्यायाः शरीरसंख्याया तुल्यत्वादित्यलं प्रस  
 ज्जे नप्रकृतमुच्यते तत्र पंचेन्द्रिय तिरश्चावद्धानि वैक्रियशरीराण्यसंखेयानि सर्वदेव लभ्यन्ते तानिच कालतोऽसंखेयोत्सर्पिण्यवसर्पिणी समयराशि तुल्यानि जे  
 ततस्तु प्रतरासङ्खेयभागवत्त्व्यं संखेय अणीनांयः प्रदेशराशिः तत्तुल्यानि तासांच अणीना विष्कं भस्वचिरंगुलप्रथमवर्गमूलस्यासङ्खेयभागं शेषभावना असुर  
 कुमारवत्कार्या मणुस्वार्यं भंते केवईयाइत्यादि इह मनुष्यादिविधा वातपित्तादि जन्मानः सन्सृष्टर्कजाः स्त्रीगर्भोत्पन्ना गर्भजाश्च तत्वाद्याः कदाचिन भव

णियाणवि उरालियसरीरा एवंचेव भाणियव्वा पंचिदिअतिरिक्व जोणिअणं भंते केवइआ वेउव्विअसरीरा पणत्ता  
 गो दुविहा पणत्ता तंजहा बइल्लयाय सुक्केल्लयाय तत्यणं जंते बइल्लया तेणं असंखिज्जा असंखेज्जाहिं उसप्पिणीइहिं

एहने विषे कोइएकने वैक्रियलव्वि संभवे ते भणी बन्ध वैक्रिय शरीर षणि लाभे एतला भणी तेहनी सङ्ख्या कहे के पक्खेन्द्रियअतिरिक्व सुगमं इहा  
 ससुच्चय रूप असङ्ख्याता मणा रूपना अणविषटवा ज्जंती वेइन्द्रियनो अतिदेश कहता पूर्वलाने भोलावुं कीधुं परं सर्वदा सङ्खानो तुल्य पणो न लेवो  
 तेभणी इस कथो छे एएसिणं भंते एगिंदिय वेइंदिय चउरिंदिय पंचिदियाणं कयरेर हितो अयावा वज्जआवा तुल्लावा विसेसाहिद्यावा  
 गो सबयो वा पंचिदिया चउरिंदिया विसेसाहिद्या वेइंदिया विसेसाहिद्या एगिंदिया अणंतगुणा तेइस सुत्तने विषे पंचेन्द्रिय  
 जीव थो हीन्द्रियादिक केतला एक जीवनी सङ्ख्या विशेषाधिक, कहीये ते भणी तेहना शरीरनी पणि ते संख्याइहा जाणवी जे भणी प्रत्येक शरीरनां

त्येव जपन्यत समयस्योत्प्लवस्तु चतुर्थियति सुहृत्सोना तदनार कालस्य प्रतिपादितत्वाद्युत्पन्नानां तु जपन्यतो उत्प्लवस्तुतमुहृत्सं स्थितिक त्वे न परत सर्वेषां निर्लेपसम्प्रदाया तु भवति तदा जपन्यत एको द्वौ तयो वा उत्प्लवस्तुसंख्याता इतरे तु सर्वदेव संख्येया भवन्ति नासंख्येयास्त सन्मूर्च्छजा यदा न भवन्ति तदैव जपन्यपदिनो गर्भजा एव गृह्यन्ते अन्यथा जपन्यपदवत्तत्त्वमिव नस्थात्ते च स्वभावात् सख्येया एवातस्तत्परीराख्यपि बद्धानि सख्येया देयात च जपस्य पण्येज्जति संख्येयस्य सख्यातभेदत्वाच्च ज्ञायते कियदपि सख्येयकमित्याह सख्येया कोटी कोटय पुनर्विगेषित तमाह तिम जमलपयया उचरि चउजमलपयण हेदुक्ति इदमुक्त भवति अटानां २ अकस्थानाना यमलपदमिति सामयिको सञ्चा ततस्त्वयाणा यमलपदानां समा

अवहोरति कालो खेत्तत्रो असखिज्जात्रो सेटीत्रो प्रयरसत्रसखिज्जाद्रभागे तासिणसेटोय विक्ख मसुद्धे अगुलपट मवगमूलसत्रसखिज्जाद्र भागो सुक्केल्लया जहाओहिआउरालिआ तहामांआहारयसरोरा जराविद्दिआण तेअग

जीवांनी अने शरीरनी सख्या तुल्येहे ते भणी इहा शरीरनी सख्यानु शीनाधिक यणु जाणवु तिहा पसेन्द्रिय तिर्यक्ने वन्वैकिय शरीर असख्याता साभे ते काल यी असख्याती वत्थर्य्यणीरना समय तुल्य खेत्तउ असखिज्जाउ सेटीओ पयरस असखिज्जाद्रभागे अने सेत्तयी प्रतरने असख्यातसेभागे ओ असख्याती त्रेण तेइना प्रदेश तुल्य तासिण सेटीण तेत्रेणिनो विक्क भ सूची अगुल प्रयमवगमूलनो असख्यातसु भाग जाणवो येषथइरकुमारयत् एतत्रे पसेन्द्रियतिर्यग्योनिकने विपे पांच शरीर यथास्या षिवे समुच्यने विपे ते कहेहे कणुष्माण सुगम तिहा मयुय्या विभेद एक वात पिप्सादिकनेविपे जपनी सन्धर्मम अने बीजा स्त्रीना गर्भने विपे जपना गर्भज तिहां सन्धर्मिस मयुय कदाचि म्बलीयी न ऊइ जे भणी जपन्य एक समय अने उत्प्लव

असखिज्जाद्रभागे तासिणसेटोय विक्ख मसुद्धे अगुलपट मवगमूलसत्रसखिज्जाद्रभागे सुक्केल्लया जहाओहिआउरालिआ तहामांआहारयसरोरा जराविद्दिआण तेअग







वर्गः पञ्चमष्टिसहस्राणि पञ्चाशतानि षड्विंशत्यधिकानीति चतुर्थो वर्गः ६५५३६ अस्य राशेर्वर्गः सार्धं गायया प्रोच्यते चत्तारियकोडिसया अउणत्तीसंच  
 ऊंति कोडीयो अउणावनं लक्खा सत्तट्टिचैवय सहस्रा दोयसयाछन्न उया पंचमवगो इमो विणिदिहोत्ति १ अंकतोप्ये प दश्यंते ४२८१४६।६०२८६५५  
 पिराशेर्गाथा तथेण वर्गः प्रतिपाद्यते लक्खं कोडा कोडीणं चउरासीयं भये सहस्राइं चत्तारिसत्तहा ऊंति सयाकोडि कोडीणं १ चउयालं लक्खाइं  
 कोडी णंसत्तचैवयसहस्रा तिनियसयाय सत्तरि कोडीणं ऊंति नायबा २ पंचाण ऊइलक्खा एगावन्नं भये सहस्राइं छसोलसोत्तरसयाए सोः छट्टोहवइव  
 गोइ अंकतोपि दश्यंते १८४४६०४४०३०६५५१६१ इतदयं पछो वर्गः पूर्वोक्ते न पञ्चमवर्गेण सुख्यते तथाच सतिया संख्या भवति तस्यां जधन्यपदिनो गर्भज

**णांइं तिजमलपयसस उवरिंचउजमलपयससहेठ्ठा अहवणं छुणउइहेअदायि**

प्रकारे कियुं करवो सतिप्रकटप्रकार कहीमे हे अहवणं पाठान्तरनी व्याख्या पूर्वपत्तु छट्टो वर्ग पांचमवर्गसाथे प्रत्युत्तन्न कहुतां जिबारे सुखुं छुइ तिवारे  
 एमनुष्यनी सह्या भाये इत्यर्थः छिवे कियुं ते छट्टो वर्ग अने कियुं तेपांचमो वर्ग ते कहीये हे विवचित कोइएक रायि ते जिबारे तेचज रायि संघाते  
 सुणीये ते तो वर्ग कहीये तियां एकनु वर्ग एकज ऊइ ते भणी छट्टि रहित पणा ऊंती ते वर्गजन गणीये अने विऊंनुं वर्ग च्यारि ४ ए प्रथम वर्ग तथा  
 विऊंनु वर्ग सोले १६ ए द्वितीयवर्ग तथा बोलिनोवर्ग देयसे छप्पन्न २५६ ए तृतीयवर्ग ए रायिनुं वर्ग पइं सट्टिसत्तल पांच सइ ललीस ६५५३६ ए चतुर्थः ए  
 रायिनुं वर्ग दउढगाथाये बोलीयेछे चत्तारिस कोडि सया अउणत्तीसंचऊंति कोडीयो अउणावयालक्खा सत्तट्टिचैवय सहस्रा १० दोअसया ऊगाउआणं च  
 मवगो इमो विणिदिहो अंकतोपि ४२८१४६०२८६५५१६०२८६५५५ पञ्चम रायिनुं वर्गत्रिणि गाययाइं करी कहीयेछे लक्खं कोडा कोडीणं चउरासीइं भये सहस्राइं चत्तारिस  
 सत्तहा ऊंति सया कोडि कोडीणं २ चउआलं लक्खाइं कोडीणं सत्तचैवयसहस्रा तिणिअसयाय सत्तरि कोडीणं ऊंति नायबा २ पंचाणउइलक्खा

सुख्यते तस्यां जधन्यपदिनो गर्भज गोइ अंकतोपि दश्यंते १८४४६०४४०३०६५५१६१ इतदयं पछो वर्गः पूर्वोक्ते न पञ्चमवर्गेण सुख्यते तथाच सतिया संख्या भवति तस्यां जधन्यपदिनो गर्भज

मनुष्या वृत्तते साधेय ७८२२८१६१५१४२६४२३०५८३५४३२५०३३६ अथ वरायि कोटीशोव्यादि प्रकारेण केनाय्यभिधांतु न गच्छते अत पर्यतादारम्याक  
 मानसप्रसायं गाथाइय छत्तिन्त्रित्तिन्त्रिउत्त्र पचेरवनवयतिन्त्रि चत्तारि पचेवतिखिनवपच सप्ततिन्त्रे वतिन्त्रे य ए चठछदौचठएको पणदीळके ङगोयचठेव दोदो  
 नवसत्तेवथ अकटाणोपराऊत्तार तदेवमेतेव्जेकोनत्रियदक स्थानेषु जघन्यपदिनो गर्भजमनुष्या वर्त्तते इतिस्थित अमुमेवायं प्रकारांतरेणाए अठवयंछत्रउंरे  
 छेयणगयाई रासिति छेदनकरायेरहोकरेण तत पक्षवति छेदनानियोरशिर्देदाति पर्यतेष परिपूर्णकरूपपर्यवसितो भवतिनतुळडितरूपपर्यवसित सप्र  
 हतमनुष्यसव्यास्वरुपोमंतय्य सचायमेवेकोन त्रियदकस्थान निष्पन्नोऽनतरदशितोनाय्य अयदि पुन पुन च्छिद्यमानोऽहोऽक्रियमाण पणवतिच्छदासुचमते  
 पर्यतेष परिपूर्णकरूपपर्यवसितो भवतीति पक्षवति छेदनानि भाष्यते उच्यते प्रथमोवर्ग चठटयकपो यो दशितसतदे छेदने भवत तथाचि चठुर्णामद्वे ही

रासो उक्कोसपए स अस्खिज्जा अस्खिज्जाहि उस्खिणोरेहि अस्वहोरति कालत्रो खेतत्रो उक्कोसेण हूवपक्खित्तेहि  
 ए भावन्न भवे सख्याद् अकोस सोत्तरसया एषोखदोहवइल्लो ३ अक तोपि १८४४६७४४०३०३०२५५१६१६ पठ एखदो वगे पुर्योक्त पाचमा वर्ग साथे  
 पुषोइ तिवादे जे सख्या भाये ते सख्यानि विप जपय्य पदीआगर्भज मनुष्य वर्त्ते ते ए सख्या ७८२२८१६१५१४२६४२३०५८३५४३२५०३३६ एउना  
 पर्यत यो आरभीने आक सपठवा मणी गाथावेकशीयेछे छत्तिखि तिखि सुन्न पचे वयनवयतिखि चत्तारि पचेवतिखि नवपच सप्त तिखेव तिखेव १ अठ  
 अहो चठएजो पणदो अके ङगोच अठेव दोदोनवसत्तेवव अकटाणो पराऊत्ता २ ते इम ए उगुणतीस अकस्थानकने विपे जघन्यपदिषा गर्भज मनुष्यवर्त्त  
 इम नीपनु अय एउज अयं वखी प्रकारांतरे कहे छे अठवण शब्दायिं पूर्ववत् अठवट्टेपणगयाई रासिति तिर्षा छेदनक अठतां राशिनु अर्धं कएउ ते  
 कणठछेद जे राशि दीये छेउछे परिपूर्ण एकरूप आनी रहे पर उचित रूपनरहे ते राशि गर्भज मनुष्यनु सख्या स्वरूप जाणितु तेराशि एउज जे

अनु १

४८८

खल

भाषा

तयोरप्यर्द्धे एक इत्येवमुत्तरेष्वपि वर्गेषु भावनीयं द्वितीये तु वर्गेष्वारिच्छेदनानि संपद्यंते तृतीये अष्टौ चतुर्थे षोडश पंचमेष्टानि शतं षष्ठे चतुःषष्टिः पंचमंस्तु षष्ठेन गुणितं आसोऽतः पंचमसंस्कान्त्यपि छेदनकानि षष्ठप्रविष्टानि प्राप्यंते इत्युभयगतान्यपि मौल्यंते ततो जातानि प्रस्तुत राशौ षण्णवतिच्छेदेन कानि स्वयमेव वा पुनःच्छेदं कृत्वा अभियुक्ते न भावनीयानि तदेवं जंबव्यपदस्तु मथोत्कृष्टपदमभिधित्यु राह उक्तोसपए असंखेज्जानि उत्कृष्टपदे समनुष्यवद्धान्यौ दारिक शरीराण्यसंख्येयानि कालतोऽसंख्येयोर्ख्येयवसर्पिणी 'समयराशितुल्यानि चेततस्व कस्मिन्ननुष्यशरीररूपे प्रक्षिप्तौ सौमंनुष्यशरीरैरेकानमः प्रदेशेत्रेणिरपि कियते कियताकालेनेत्याह असंख्येयोर्ख्येयवसर्पिणीभिः कियताचेतखंडापकारेणेत्याह अं गुलपदमवगमूलं तद्भयवगमूलपडु पयुत्ति अं शोरं गुलप्रमाणे चेतरे यः प्रदेशराशिसस्य यत्प्रथमं वर्गमूलं तत्तृतीयवर्गमूलप्रदेशराशिना गुण्यते गुणितेषुयः प्रदेशराशि भवति यत्प्रमाणं चेतखंडमे

**संणुस्सेहिसेठौ अवहौरद तासिसेठौए कालखेत्तिहिं अवहौरोमसिज्जइ कालत्रो अस्सिखिज्जाहिं उस्सिपिणौइहिं**

शिवडा उगुणतीस आकनियन्त्र अनेरो नही जे भणी एहज राशि वारंवार छेदी तो कहतां अर्द्धं की जतो छटं छसु छेदपसे अनेपद्यंतने विषे परिपूर्ण एकरूप आवी रहे ते भणी ए राशि छणु छेदनक बोलीये अथ ते छणु छेदनक किम भाबीये तिहां प्रथम वर्ग प्यारि रूप देखाद्यं के तिजा छेदनक ऊइ ते किम प्यारितुं अर्द्धदोइ ते दोइतुं अर्द्ध एक इम आगिला वर्गने विषे पणि भाबतुं तिहा बीजा वर्गने विषे प्यारि छेदनक ऊइ तीजा वर्गने विषे आठ छेदनक ऊइ चउथा वर्गने विषे सोले छेदनक ऊइ पांचमा वर्गने विषे बलीस छेदनक ऊइ छटा वर्गने विषे चौसट्टि छेदनक ऊइ अने पाचमो वर्ग छट्टावर्ग साथे गुण्यं, छे तेभणी पांचमा वर्गना पणि छेदनक छट्टावर्गने विषे पैठा पाभीये ते भणी जिज्जं ना एकठा मेलीये तिवारे एराशिने विषे छणु, छेदनक नीपजे अथवा स्वयमेव वारंवार छेद करीने सावधान पणि भाववा तेइम अव्यपहवोल्या अथउत्कृष्टपदमाह उक्तोसापए उत्कृष्टपदने

राय चतुर्ण विषयं भाष्ये (का) शीतना संयत्तं सान ४४४



यंते सुक्ताव्योषवद्वाप्यानि आहारकानि तु बद्धानि सुक्तानिषययौषिकानि तथैव तैजसकाम्पानि तु यथैषामेवौदारिकाणि व्यंतराणां सर्वनारकवद्वाप्यं नव,  
रं नारकेभ्यो व्यंतराणा मसंख्येयगुणत्वेन महादंडके पठितत्वाद्बिष्कं भस्त्रुष्यां विषेष इत्याह तासिणंसेढीणमित्यादि तासामसंख्येयानां त्रेणीनां विष्कभस्त्रुचिः

अत्रहीरमाण्ड संखेज्जं कालेणं अत्रहौरंति नोचेवणं अत्रहिसिआ सुक्नेसुया जहाओहिआ उरालियाणं सुक्नेसु  
या तहाभा० मणुस्त्राणं भंते केवद्रआ आहारक सरोरा पं गो दुविहा पयसा तंजहा वदेसुयाय सुक्नेसुयाय तत्थणं  
जेते वदेसुया तेणंसिआत्रत्य सियनत्यि जद्रअत्यि जहस्येणं एक्कोवा देवा तिखिवा उक्कोसेणं सहस्रपुज्जत्तं सुक्नेसुया  
जहाओहिआ तेअगकम्मगसरोरा जहाएएसिंचेव उरालिआ तहाभाणिअवा वाणमंतराणं उरालिआसरोरा जहा

भयी सर्वोत्कृष्ट एकदा गर्भज समुद्धिममसुथ एतलाज हे अधिका नही ते इम समुधुना वन्धौदारिक शरीर बोल्या अने सुक्तौदारिक शरीर ते ओधिकनी  
परे वखाणवा अथ वैक्किव सरीरमाह मणुस्त्राणं सुगमं तिहां वैक्रियशरीरबंध एहने संख्याताज उद्द जे भणी ते गर्भज मसुधुने विषे सम्भवे तिहां वबी  
लन्धिवंतने विषेज सम्भवे तेवबी प्रच्छा समयमध्ये केतला एकज सम्भवे तेभणी तेप्रति समये एक एक अपहरतां संख्याता कालेकरी अपहरीजे नोचेवणं  
अवच्छिआसिया इम प्ररूपणज करीये परं पूर्वकेणे इम अपहख्या नथी अने सुक्त वैक्रियतो ओषवत् तथा आहारक शरीर बन्ध अने सुक्त ते जिम ओधिक  
बोल्या तिम बोलवा तथा तैजसकाम्पण शरीर, जिम एहजना औदारिक कल्या तिम कहवा एतले मसुधुने विषे पांचशरीर वखाण्यां अथवाणमन्तरनेविषे  
तेकहेके इहां सर्वनारकीवत् नवरं नारकीथी व्यंतरने असंख्यात गुणापण्या अंती विष्कं भस्त्रुचिने विषे विशेष कहे हे तासिणं सेढीणं ते असइयाती अ

पूर्वोक्तस्य प्रश्नापनामशादुक्तेकोक्तस्यवातुसारेण स्वयमेवदृष्टेति वाक्ययोगेप साच पूर्वोक्ताया पचेद्वियतिर्यग् विष्कभसूत्रेपरसखेयगुणघोना द्रष्टव्या पचेद्विय  
तिर्यग्भ्योस्य तराणामसखेयगुणघोनात् न सहादुक्ते पठितत्वात् कियता पुन प्रतिभागेनध्यतरा सर्वप्रतरमपहरतीत्याह सखिज्जायेजनेत्यादि सख्येय  
योजनगतानां योवर्गस्यरूपोय प्रतिभागो एक कस्येत्याह प्रतर स्यद्वयमुक्तं भवति सख्येय योजनगतवर्गरूप प्रतरस्य भाग यद्ये केकोथ्य ततोऽपहरति  
तन्म सर्वोपि प्रतरोऽपहरते यद्विवातावतिभागोएकैकश्चिन स्य तदे वस्याप्यमाने सर्वोपि प्रतर पूर्वते ज्जातिकसूत्रेपितासिण सेदोण विक्ख भसूत्रे

नेरद्व्याण वाणमतराणमंते केवद्वआ वेचव्विअसरोरा प गो दुविहा प्रथत्ता तजहा वद्वे ल्लयाय सुक्के ल्लयाय तत्थणजेते  
वद्वे ल्लया तेण असखिज्जाहि उअप्पिणोर्हि अवहीरति कालओ खेत्तओ असखिज्जाओ सेदोओ प्रयरससखिज्जाइ  
भागो तासिणसेदोण विक्ख भसूरे सखेज्जाओअण सयवग्गपलिभागोपयरसस सुं जहाओहिआ उरालिया तहाभां  
आहां दुविहादियजहाअसुं तहाभांवाणंभते केवद्वया तेअगसं प गो जहाएएसिचेव वेचव्विं तहा तेअगंभाणिअत्रा

णिनी विष्क भ सूची पूर्वोक्त श्रीप्रश्नापनाना मशादुक्तेने विपे बोल्याने अमुसारे स्वयमेव जाणवी एवाक्येप तेपूर्वोक्त तिर्यच पचेन्द्रियनी विष्कभ सूचीयो  
असखेयय गुणघोना जाणवी जेभणी तिर्यच पचेन्द्रिय यी खन्तर असखेयय गुणघोनापणे मशादुक्क मांदि भख्या छे ते भणी अथ केतले प्रति भागे करी  
खन्तर सर्वप्रतर अपहरते सखेज्जाओअण सयवग्गपलिभागो सज्जाता योजनगा सतदु जे वग ते रूपजे प्रतिभाग ककर्ता अथ तेकेचनु ते कहेछे पयरअ  
प्रतरदु एतले इम कसु सज्जाता योजनगतवर्गरूपप्रतरनो भाग जो एकेको थ्यन्तर अपहरते तो सर्व सपूर्ण प्रतर अपहरते अथवा तेतजा भागनेविपे

स्वयमेव हस्तेति बाक्यशेषो बसेयः साधव्यं तर विष्कं भस्त्रुचेरधिका संखेय गुणादृष्ट्या व्यं तरेथो ज्योतिष्काणां संखेयगुणत्वे न महादंडके पट्टितत्वादिहा  
पिच प्रतरापहारक्षेत्रस्य तत्क्षेत्रादसीषां संखेयगुणहीनस्याभिधानाद्यादाह वैष्णव्यन् गुलसयवगणपलिभागोसि पट्टपंचागदधिकगुलयतद्वयवर्गं रूपं  
प्रतिभागं प्रतरस्यांशं सयद्येकैकोजोतिष्कोपहरति तदा सर्वं प्रतरसपहरति प्रत्येकंस्याप्यमानावा तावतिप्रतिभागे सर्वं प्रतरं प्ररयति व्यं तरेस्य  
एतेसंखेय गुणत्वाद्ब्रह्मव सतो व्यं तरोक्त प्रतरप्रतिभागक्षेत्रवंधाद्यथोक्तरूपतया संखेयगुणहीनेन स्वस्ये मापिक्षेत्रखंडेन प्रतरमेतेपहरंति पूरयंतिवा

जोद्रसियाणंभंते केवंपं गो दुविहा पयुत्ता तंजहा जहानेरंतहाभाजोद्रसि केव० वेउव्विंपं गो दुविहा पयुत्ता तंज  
हा वद्धे० सुक्के० तत्त्यणं जेतैवजावतासिणं सेढीणं विक्खंभसूद्र वेळ्ळप्पणंगुल सयवगणपलिभागो पयरस्स सुक्के० जहाओ  
उरा० तहाभा० आहारय० जहानेर० तहाभा० तेअ० जहा एणसिंचेव वेउ० तहा० वेमाणियाणंभंते केव० उरा० पं० गो जहाने०

एकेको व्यन्तर स्थापीये तो सर्वं प्रतरतेणं पूरीजे अय ज्योतिषसूत्रने विपे सर्वसुगमं नवरं तासिणं सेढीणं विक्खंभसूद्र स्वयमेव जाणवी एवाकाशेप  
तेव्यन्तरना विष्कंभ सूचीथी संब्रगत सुणी अधिको जाणवी व्यन्तर थी ज्योतिपी संब्रगत गुण अधिकपणे महादण्डकमादि भख्याहे तेभणी अने दूहा  
पणि जे प्रतरापहार क्षेत्र ते तेहना क्षेत्र थी एहनो संब्रगतगुणं हीणुं बोल्थुं हे तेभणी पणि तेहज कहेहे वे ळ्ळप्पणं गुलसयवगणपलिभागो देयसे ळ्ळप्प  
संभंगुल वर्गं रूपने प्रतिभाग कहतां अंश ते केहनो पयरस्स पतरसुं एतले यथोक्तप्रमाण प्रतरनोअंग जोएकेको ज्योतिपी अपहरे तो आपो प्रतरज्योति  
पी अपहरे अथवा एतला अंशने विपे एकेको ज्योतिपी स्थापीतो ळ्ळतो आषो प्रतर एज्योतिपी पूरे एतवे अन्तर थी ए संब्रगत गुणा माटे घणा हे ते





विसारसुखिरिहृदस्यते अहवणमित्यादि अथवा अंगुल तृतीयवर्गस्य द्विकलस्य योवनो अष्टौ एतावत्यः त्रैणयोऽत्र विष्कंभसूत्र्यां मृत्सूत्रं ते इति स एवार्थस्य देवं भुवनपत्यादि सूत्रेरेषा संखेयगुणशीनामंतव्या शेषं सुश्रान्देयं यावत्वे संखेत्त पलिभोवमेति तदेवं समयवावलयसुद्धते त्यादि गाथा निर्दिष्टासादुपलक्षिताद्यान्येषु च्छासादयो व्याख्याताः काश्चिन्नाभा अत आह सेतं विभागनिष्पन्नैति एवं च समर्थितं कालप्रमाणमित्यादि सेतं कालम्

भा० आहा० अहानेरद्वयानं तेजग० अहाएएसिंचेव वेडव्विअसरोरा तहाभाणिअत्रा सेतंसुद्धमखेत्तपलिओवमे सेतं खेत्तपलिओवमे सेतंपलिओवमे सेतंत्रिभागनिष्पत्थे सेतंकालप्यमाणे सेकितं भावप्यमाणे २ तिविहे पयत्ते तंजहा गुण प्यमाणे नयप्यमाणे संखप्यमाणे सेकितं गुणप्यमाणे २ दुविहे पयत्ते तंजहा जीवगुण प्यमाणे अजीवगुणप्यमाणे अ सेकितं अजीवगुणप्यमाणे २ पंचविहे पयत्ते तंजहा वखगुणप्यमाणे गंधगुणप्यमाणे रसगुणप्यमाणे फासगुण प्यमाणे संठाणगुणप्यमाणे सेकितं वखगुणप्यमाणे २ पंचविहे पयत्ते तंजहा कालवखगुणप्यमाणे जावसुक्लिखवखगुण

साथे गुणोचै तिवारे आठयाइ एवं इहां सद्भाव श्री असंख्याती त्रैणीपणि कल्पनाइ आठ त्रैणि रूप विसार सूत्रो ग्रहीये अथ एवञ्च भाव प्रकारातरे कहे छे अहवणं अंगुलतई अत्रगच्छलं घणप्यमाणसेताभौसेटीभो अथवा तीजा वर्गमूल द्विकरूपने जे एत आठरूप ऊइ एतकी त्रैणि इहां विष्कंभ सूचीने बिधे लीजे एतले अर्थ तेहिज ऊच्यो ते इम भवनपत्यादिकनी सूची यी ए सूची असंख्यात गुणाहीण जाणवी सेतं सुद्धमे सेत पलिठवमे ते इम पूरा कीयां विच्छं भेद तेहनी समाप्ति सेतं सेतपलिठवमे ते इम समयवावलय इत्यादि गाथोक्त तथा उपलक्षणपणा यी बली अनेरा च्छासादि

१०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २००

२०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३००

माणेति अथभावप्रमाणमभिधित्वाह चेकितभावप्रमाणे इत्यादि भवन भावो वस्तुन परिणामोज्ञानादिवर्णादिय प्रमिति प्रमीयते अनेन प्रमीयते स इति या प्रमाण भावएवप्रमाण भावप्रमाण भावसाधनपक्षे प्रमितिवस्तुपरिच्छेदकहेतुवाद्भावस्य प्रमाणत्वावसेया तच्चभावप्रमाण त्रिविध प्रकृत तद्यथा

प्रमाणे सेतवस्यगुणप्रमाणे सेकित गधगुणप्रमाणे इदविहे प्रकृते तजहा सुरभिगधगुणप्रमाणे दुरभिगन्धगुणप्रमाणे  
सेत गन्धगुणप्रमाणे सेकित रसगुणप्रमाणे २ पचविहे पकृते तजहा तित्तरसगुणप्रमाणे जावमज्जरसगुणप्रमाणे

कक्षाखना विभागवत्याख्या तेहनी समाप्ति सेत विभाग निपत्ये एव काल प्रमाण पूरु क्रीडु तेहनी समाप्ति सेत कालप्रमाण एतले कालप्रमाण पूरु क्रीडु अथ भावप्रमाणमाह सेकित अथ किड ते भाव प्रमाण इषा उत्तर तिहां भवन होडु ते भाव एतने वस्तुडु जे परिणाम ज्ञानादिक तथा पर्णादिक तेभाय कहीये अने प्रमिति निर्णयरूप जाणडु तेप्रमाण अथवा जेणे करी जाणीये ते प्रमाण अथवा जेहने जाणीये ते प्रमाण एतले भाव साधन कारण साधन एव प्रमाणनां त्रिण अर्थ जाणवा पळे भावज जे प्रमाण ते भाव प्रमाण तिहां ये अर्थ जायी भाव प्रमाण उड पर भाव साधन पचने विपे भावने प्रमाण पणु किम उड ते कहीयेले प्रमिति वस्तुडु निर्णयकरडु तेहनु हेतले भाव तेभणी तेहने प्रमाणपणु जाणडु कारणे कावोपचार इति वचनानु ते भाव प्रमाण तिज्ज भेदे प्रकृणु तद्यथा गुण कहता ज्ञानादिक तेहज जे प्रमाण ते गुण प्रमाण ते एतला भणी जे गुणे करी द्रव्य जाणीये अने गुण ते गुण रूप पणि जाणीये ते भणी गुणने प्रमाणपणु बोळु अथ अनतधर्मरूप वस्तुने एक अशे करी निर्णयणु करडु तेगु तेहनु नीति एषीजु नाम जाणडु ते नवज जे प्रमाण ते नव प्रमाण अथ सख्यान सख्यागु करडु तेसख्या कहीये तेहज जेप्रमाण ते सत्याप्रमाण



गुणसद्रूप प्रमाण षट्पद्विध तद्यथा प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगम श्रवण अश्रुव्याप्त्यावित्यस्य धातोरनुते ज्ञानालना अर्थानि व्याप्नोतीति षष्ठी जीव अनुभोजने इत्यस्यथा अत्रातिभुक्तेपालयति वा सर्वार्थानित्यस्यो जीवप्रतिगताच्चित्तमद्य प्रत्यक्षमिति आत्मादय क्रान्ताद्यर्थे द्वितीययेति समास जीवस्यार्थे साक्षात्कारित्वे न यत्ज्ञान वर्त्तते तत्प्रत्यक्षमित्यर्थ अस्येत्वच्चमद्य प्रतिवर्त्तते इत्यव्ययी भावसमास यिदधति तच्चनयुच्यतेऽव्ययीभावस्य नपु सकलिगत्वा त्प्रत्यक्षयद्दस्यत्विखिगतानस्यात् इत्यन्ते चैव प्रत्याद्यादुष्टि प्रत्यक्षो बोध प्रत्यक्ष ज्ञानमिति दर्शनात्ततो यथादर्शितस्य रूपएयाय तच्चप्रत्यक्ष द्विविध इन्द्रियप्रत्यक्ष नो इन्द्रियप्रत्यक्ष च अतैर्द्रिय श्रोत्रादि तन्निमित्त सहकारिकारण यस्योत्पत्त्योसादाखिगकयद्धरूपस्यैविययज्ञानमिन्द्रियप्रत्यक्ष इदंचैन्द्रियलक्षण

पणत्ते तजहा णाणगुण्यमाणे २ दसणगुण्यमाणे चरित्तगुण्यमाणे सेकित खाणगुण्यमाणे २ चउव्विके पणत्ते तजहा पच्चक्वे अणुंमाणे उमस्से आगसे सेकित पच्चक्वे २ दुविहे पणत्ते तजहा इन्द्रियपच्चक्वे अणुं द्विअपच्चक्वे अ सेकित

तद्रूपजे प्रमाण ते जीवगुण प्रमाण ते त्रिविध प्ररूप्यु तद्यथा सुगम तिहा आद्य भेदमाप सेकित सुगम तिहा ज्ञानरूपजे गुण ते रूप जे प्रमाण ते षट्पद्विध प्ररूप्यु तद्यथा प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगम तिहा आद्य भेदमाप सेकित तिहा अणु व्याप्ती इति धातु तेऽर्थी नीपनो अद्य नाम अणुते कश्चता ज्ञान स्वरूपे करी अर्थने व्यापे ते भणी अल्य कहीये जीव अयथा अय भोजने धातुनो नीपनु एताम तिहा अत्राति कश्चता भोगे अयवापाने सर्व अर्थने तेभणी अद्य जीव कहीये पछे प्रतिगत कश्चता आत्रयी अद्यने तेभणी प्रत्यक्ष कहीये अत्यादय क्रान्ताद्यर्थे द्वितीययेति समास जीवो साक्षात्कारो रीपणे करी जे ज्ञान वर्त्तते ते प्रत्यक्ष कहीये इत्यर्थ अनैरा दृहा दूम समास करै छे अचर प्रतिवर्त्तते भणी प्रत्यक्ष कहीये दूम अव्ययीभाव समास करै छे

अनु ठी ४८८ सुत्र भाषा

अनु ठी ४८८ सुत्र भाषा

अनु ठी ४८८ सुत्र भाषा

जीवात्परं व्यतिरिक्तं निमित्तमाश्रित्योत्पद्यते इति प्रमादग्निज्ञानमिव सखुतोऽर्थे साक्षात्कारित्वा भावात्परोक्षमेव केवलं लोकेऽस्य प्रत्यक्षतया रूढत्वात्  
 व्यवहारतोऽपि तथोच्यत इत्यलं विशदरेण तदाकांक्षिणाटनद्यथयनसम्बन्धेणोयं इन्द्रियप्रत्यक्षं यत्नभवति तन्नोद्द्रियमत्यक्षं नो शब्दस्य सर्वनिषेध  
 परत्वात्तेन्द्रियं सर्वशेकनप्रवर्तते किंठ जीवएव साक्षादर्थं पश्यति तन्नोद्द्रिय प्रत्यक्षं अविधमनः पर्यायिकेत्वाख्यामिति भावार्थः सेकितं अणुं माणो इत्यादि  
 इन्द्रियपञ्चकवेऽपंचविहे पश्यते तंजहा सोद्द्रियपञ्चकवे चकवु रिन्द्रिय पञ्चकवे शशिन्द्रियपञ्चकवे जिह्निन्द्रिय  
 चकवे फासिन्द्रियपञ्चकवे सेकितं शोद्द्रियपञ्चकवे तंजहा ओहियाणपञ्चकवे सेकितं अणुमाणेऽतिविहे पश्यते  
 मरणपञ्जवराणपञ्चकवे केवलराणपञ्चकवे सेतं शोद्द्रियपञ्चकवे सेतं पञ्चकवे सेकितं अणुमाणेऽतिविहे पश्यते  
 ते तो न वटे जे भणी अथयीभाव समास मणु संकलिङ्ग ज ऊइ अने प्रत्यक्ष शब्दने तिलिगी पणु हीसे हे वया प्रत्यक्षा बुद्धिः प्रत्यक्षो बोध प्रत्यक्षं ज्ञानं  
 ते भणी यथा दर्शित तत्पुरुषसमास ज जाणव ते प्रत्यक्ष त्रिविधमरूप्यु, तद्यथा इन्द्रियप्रत्यक्ष अनेनो इन्द्रिय प्रत्यक्ष तिरां इन्द्रिय त्रौत्वादिक ते निमित्त  
 सङ्कारो कारण जे उपजवुइच्छता ज्ञाने हे एतले ते आलिंगन शब्द रूप गंध रस स्पर्शने विषे जे ज्ञान जपजे ते इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहीये एद्यान  
 इन्द्रियरूप जीव थी अनेरो जे व्यतिरिक्तं निमित्त ऊती जपजे ते भणी धुं आधी अग्नि ज्ञाननी परे वस्तुने प्रत्यक्ष अणकाखे जपजे ते भणी परोक्षऊइ  
 प्रत्यक्ष न ऊइ परं लोकने विषे इन्द्रियसु ज्ञान प्रत्यक्ष रूपपणि रूढ हे तेभणी व्यवहार नयनामतथी इहां पणि तिमज प्रत्यक्ष रूप बोल्युं एतले  
 इन्द्रियसु ज्ञान निश्चय नयने मते परोक्ष ज्ञान कहीये अने व्यवहार नये प्रत्यक्ष ज्ञानपणि कहीये अने इन्द्रिय प्रत्यक्ष जे न ऊइ ते नो इन्द्रियप्रत्यक्ष

तत्र वनपत्तित्तिव वशिष्ठिरका खलम सुयव शत ४४४

अथलंगमशब्दो बोधपरमपरमपरम पर्यायीति परिच्छिद्यते भवतीति अतमान तत्र त्रिविध पूर्ववत् येष्वप्यु दृष्टावर्णमं वञ्चति सेकित्त पुष्यमित्यादि  
 भिदिदं पूर्वपिपलम्/अप्र/मपपूर्वमुच्यते तत्रैव निमित्तिभावरूपतया यस्याभितत्पूर्ववत् तद्वृद्धारेणगमकमसुमात् पूर्ववदितिभाषसायाचाच मातापुत्रमित्यादि  
 योसं तथा भाता वकीर्ण पुन वाण्यापस्यायो मद् सुशान सत कालांतरेण पुन कयसप्यागत काश्चित्तयाविधच्छति पाठवपती नशर्षा पूर्ववदृष्टे न खिगेन  
 क्रियन्तिताविभा मत्प्र/भिजाभीवाणाम्/तोवमिति अगुभियुयादित्यर्थं केन पुनर्किं नेनेत्याच सतेनेयेत्यादि स्पदेशोद्भवमेवमत व्यागसुक्खुदृष्टादि कृतो  
 तस्य लोप्यममनतिलकास्तु प्रतीताशयमगतप्रयोगोगतपुत्रोय अगन्वशाभारणयतादिलक्षणविगिदलिगोपलव्येदिति सार्धमर्थव्यंशदृष्टोतयो सत्येतरा भावाद

रां अथा पूर्वपर येस्य दिदृष्टावर्णमेव सेकित्तं पुष्ययत्मायापुस अहानठ जुवाण पुणारागय कार्दयच्चाभि जाण्ज्वा पुष्वलि  
 गेणगेणइ १ त अथा परो ग्याया वणो ग्याया लंछ्यो ग्याया मसेणवा तिलएणवा सेत पुष्ववं सेकित्तं सेसवं २ पचविह पणत्त

कधीये ते अथनि ज्ञान मान पर्यायज्ञान केवल ज्ञानरूप ए भावार्थं को ग्रह् इषी सार्धं निपेधने अये छे ते भणी इन्द्रिय जिषां सर्वथा न प्रवर्त्ते किन्तु  
 जीवज अणमेव प्रलक्षणरूप पूर्णो अगने देते तेनोइ इन्द्रियप्रत्यक्ष कधीये येष एगम सेत सम्यसिदह्य एतले प्रत्यक्ष कक्षु, अय अनुमानमारु सेकित्त अतु  
 कक्षतो लिङ्गण पश्य अने उच्यन्त्यथ एतएण तेवने पळे जेमवीये निरर्थव करिये वस्तु तेभणी अनुमान कधीये तेअनुमान तियथ प्रक्यु तद्वया पूर्ववत् येष  
 क्तु दृष्टावर्णवत् तिषां आदिभ्येमाच सेकित्त तिषां पूर्वेषु कण, विक्र ते पूर्व बोलीये तेवज निमित्त रूपपणे जेठने छे ते पूर्ववत् कधीये तेवने इदरे  
 कटो जग्यावर्णवतो अतमान पूर्ववत् कधीये ते कळे छे मायापुस बोक्क जिममाता आपणु पुत्र बाल्यावस्थाये देयांतरे गयु ऊठ वली कालांतरे युवान

अथदीर्घावर्णस्य लोप्यममनतिलकास्तु प्रतीताशयमगतप्रयोगोगतपुत्रोय अगन्वशाभारणयतादिलक्षणविगिदलिगोपलव्येदिति सार्धमर्थव्यंशदृष्टोतयो सत्येतरा भावाद

अथदीर्घावर्णस्य लोप्यममनतिलकास्तु प्रतीताशयमगतप्रयोगोगतपुत्रोय अगन्वशाभारणयतादिलक्षणविगिदलिगोपलव्येदिति सार्धमर्थव्यंशदृष्टोतयो सत्येतरा भावाद



यथोक्तोपभयात्वाद्येन सशान्ययानुपपन्नत्वसन्वेपणीय तर्हितदैक लक्षणतयावस्तुसुचित किं रूपत्वयेणेत्याप षययानुपपन्नत्व यत् तद्वत्तयेण किं नाम्यथानुपपन्नत्व यत् तद्वत्तयेण किं मित्याद्यत् यच्छ्रुत्वव्य तन्नुनोष्यते य यगहनता प्रसगादन्यत् यत्तेनोक्त्यात्वेति प्राण प्रत्ययविषयत्वादिवा तापुमान प्रवृत्तिरुक्ता नेष पुरुषपिण्डमात्र प्रत्ययतायामपि भाव्युत्तोनयेति सदृशाद्युक्तयानुमानोपन्यास प्रति कृत प्रसंगेन सेकित सेसयमित्यादि पुरुषाद्योपयोगिण पदिजिज्ञासितात्तरगादेर्यदिन्योरेपितादिरर्थे गेय इहोच्यते सगमकालेन दस्याशितच्छेपयदुत्तमान तत्रुपचक्षिष तज्यया कायेगे

**निष्कृष्टक ह्यहेसिएण गय गु गुलार्इएण र ह धणधणाद्रएण सेत कज्जेण सेकित्त कारणेण त तवोपडस्य कारणेण**

इह उक्तस यायवादिना पुरुषणन्द्रेण अन्ययानुपपन्नत्व मात्रहेतो स्थलक्षण सत्त्वासत्त्वे चित्तवृत्ती दृष्टो तद्वृत्ती तत्कथता अन्ययागुपपन्न स्वरूपजे हेतु चेतना धम कण्ठता स्वरूप जागृता तेस य अनेप्रसत्त्वस्वरूप केववा छे साधर्म्य अने धेधर्म्य रूपदृष्टान्त विच्छने विपै सञ्चीये जाणीये अथ जो दृष्टांत हये कटो धर्मीनी सत्ताने विपे धर्म सर्वना उद्भूतो पटादिकने गुल्लात्वादिक धर्म करी विषटयु उद्भू ते भणी दृष्टांतना धर्म सत्त्वासत्त्व जाणया यद्यपि किञ्चो ए ते एण्टने विपे गदी से तयापि धर्मस्वरूप अन्ययानुपपन्नत्व उद्भवे विगेष कोर्ध नधी एभाष अने जिशां यलो धूमादिकने विपे दृष्टान्तद्वय मध्ये सत्त्वत्वहेतु दीसे छे तिहा पणि सात्थु जो अन्ययानुपपन्नत्व हेतु तेहन प्रधानपणा यो तेहन एकने हेतु स्वरूपपणु जाणुत तथाचाष धूमादे र्यद्यपिस्यातां सत्त्वासत्त्ववलक्षणे अन्ययानुपपन्नत्व प्राधान्यालक्षणैकता ( अथ जोदृष्टांतमे सत्त्वधसत्त्वदर्शनते हेतु गु गमकमानो तो वज्जरीरा लोचलेख नीयचै टयवी विकार ऐण्णैते काटादियत् इत्यादिकतु वीवोधकत्व ऐाय तेकल्लो चे दृष्टाते सदसत्त्वाभ्या हेतु समग्रदीस्यते लोणैख भवेद्भजन पाथिवत्वादु दूमादिषदिति ( तथा यत्तद्धर्मस्य सपक्षस्य विषयप्रसत्त्वरूपचेतुनु त्तिणि स्वरूपपणु अगीकरीने विणययोक्तदोपनाभय यी साध्यसाये अन्ययानुपपन्नत्वपणु

अनुपपन्नत्वस्य कारणेण तद्वत्तयेण किं रूपत्वयेणेत्याप षययानुपपन्नत्व यत् तद्वत्तयेण किं नाम्यथानुपपन्नत्व यत् तद्वत्तयेण किं मित्याद्यत् यच्छ्रुत्वव्य तन्नुनोष्यते य यगहनता प्रसगादन्यत् यत्तेनोक्त्यात्वेति प्राण प्रत्ययविषयत्वादिवा तापुमान प्रवृत्तिरुक्ता नेष पुरुषपिण्डमात्र प्रत्ययतायामपि भाव्युत्तोनयेति सदृशाद्युक्तयानुमानोपन्यास प्रति कृत प्रसंगेन सेकित सेसयमित्यादि पुरुषाद्योपयोगिण पदिजिज्ञासितात्तरगादेर्यदिन्योरेपितादिरर्थे गेय इहोच्यते सगमकालेन दस्याशितच्छेपयदुत्तमान तत्रुपचक्षिष तज्यया कायेगे

अनुपपन्नत्वस्य कारणेण तद्वत्तयेण किं रूपत्वयेणेत्याप षययानुपपन्नत्व यत् तद्वत्तयेण किं नाम्यथानुपपन्नत्व यत् तद्वत्तयेण किं मित्याद्यत् यच्छ्रुत्वव्य तन्नुनोष्यते य यगहनता प्रसगादन्यत् यत्तेनोक्त्यात्वेति प्राण प्रत्ययविषयत्वादिवा तापुमान प्रवृत्तिरुक्ता नेष पुरुषपिण्डमात्र प्रत्ययतायामपि भाव्युत्तोनयेति सदृशाद्युक्तयानुमानोपन्यास प्रति कृत प्रसंगेन सेकित सेसयमित्यादि पुरुषाद्योपयोगिण पदिजिज्ञासितात्तरगादेर्यदिन्योरेपितादिरर्थे गेय इहोच्यते सगमकालेन दस्याशितच्छेपयदुत्तमान तत्रुपचक्षिष तज्यया कायेगे



त्यादि तत्र कार्येणात्मानं यथा खं अखं हेपितेन अनुमिते इत्यध्याहारः हेपितस्य तत्कार्यत्वात्तदाकार्यं ह्येतत्वेति याप्रतीतिरुच्यते तद्विषयकार्येणकार्यद्वारेणोत्पन्नं शेषवदनुमानमुच्यते इति भावः क्वचित्सु प्रथमतः शंस्यगद्धेनेत्यादि दृश्यते ततोक्तानुसारतः सर्वोदाहरणेषु भावना कार्या सेकितं कारणेणमित्यादि इह कारणेन कार्यं अनुमीयते यथा विशिष्टमेवोच्यते दर्शनात् कश्चित् दृष्टानुमानं करोति यदाह रोलंबगवलव्यालतमालमलिन त्विपः दृष्टिं व्यभिचरन्तीह नैवंप्रायाः पयोसुच इति एवंंद्रो दयाज्जलधेर्द्विरनुमीयते कसुद विकासश्च मितोदयाज्जलरुद्रप्रबोधोघकमदमोक्षश्च तथाविध

**शाण्डो तं तुकारणं वौरणकडस्यकारणं एकडोवीरणकारणं मिषिंडोघडस्य कारणं नघडोमिषिंडकारणं सेतं कारणे**

गधेपयुतो तेहज एक लक्षणं पणि बोलवुं युक्तं त्विणि रूपसु किंसु करवु भासश्च अन्यथानुपपन्नत्वं यत् तत्र तत्रेण किं नान्यथानुपपन्नत्वं यत् तत्र तत्रेण किं वली शिष्य बोल्यो भगवन् इमज ऊद्र परं एतन्ननुज्ञानतो प्रत्यक्षपणे जपनो वली यनुमाननी प्रवृत्ति बली तेतो अयुक्त गुरु बोल्या पुरुषपिंड माव प्रत्यक्षपण माहरो पुत ऊद्र किंवा नही एहवा संदेह यी ए अनुमाननुं ग्रहणयुक्त भेतं ते एपूर्ववत् सेकितं संप्रैत्यादि पुरुष अर्थनो लपयोगी दृच्छीता तुरगादिक अर्थधी अनरो चीसादिक अर्थ तेदृशं शेष एच्छिचे शब्दे करी बोलीये तेगमक पणि जेहने ह्ये ते शेषवत् अनुमान तेपस्वधिव प्ररूषु तद्यथा शेष सुगमं सेकितं कजेणगित्यादि तिचा कार्यकरी अनुमान यथा अखने हेपित शब्देकरी यनुमानकरे एतने यनुमान ज्ञानेकरी जाणे इमएपदसवले जोडवु एतलेहेपितगद्धते अखनु कार्येतेसामलीने एह्यु ज्ञान उपजे इहां अख्खे तेकार्यद्वारे करीने उपनो अनुमान शेषयत् तच्छीद्र एभाव किहांद्रै एकेप्र यम तः सखं शब्देनइत्यादि दीसेछे तिहां पणि पूर्वोक्तानुसारथी सर्वउदाहरणने विधे भावना करवी सेतं तेएकार्ये करी अनुमान सेकितं इहां कारणेकरी कार्य जाणीये यथाविशिष्ट मेष उन्नत देप्पिने किहांद्रै एकेवरसवानो अनुमान करे यदाह रालंबगवल व्यालतमाल मलिनत्विपः दृष्टिं व्यभिचरन्तीह नैवं प्रायाः

रालंबगवल व्यालतमाल मलिनत्विपः दृष्टिं व्यभिचरन्तीह नैवं प्रायाः

रालंबगवल व्यालतमाल मलिनत्विपः दृष्टिं व्यभिचरन्तीह नैवं प्रायाः





ततय सतीति सत्येनोपयोगात्ते पटम्यकारणमुष्य ते पटपियोजनकालित्वे कैकतत्ववस्याया पटोनोपलभ्यते अतस्तत्रमेतेनोपयोगा भावाच्चासौ तेषां कारण एष धीरण कटादिष्वपि भावना कार्या तदेव यद्यस्य कार्यस्य कारणत्वेन निश्चित तत्तस्य यथा सम्प्रव गमकयेन वक्तव्यमिति सेकित सुणेणमि त्यादि निकप कपपट्टगता कपित सुवणरेखा तेन सुवर्णमनुमीयते यथा पञ्चदगादिवर्णकोपितमिद सुवर्ण तथाविध निकयोपलभानुपूर्वोपलब्धयो भव्य सम्प्रत सुवर्णवत् एव गतपतिक्कादि पुष्यमत्र तथाविधगन्धोपलभ्यवस्तुवत् एष लक्षणे सदिरावस्तादयोनेकमे देसम्भवतोऽनियतस्वरूपा अपि प्रतिनियत तथाविध रसास्वाद स्वर्गीदिगुणोपलब्धे इति नियतस्वरूपा साधयितया सेकित अवयवदर्येनोपलब्धयो अनुमीयते यथा

अवयवेषु महिससिगेण कुक्कुड सिहायण हल्य विसाणेण वाराहदाटाए मोर पिच्छेण आसखुरेण वग्घनहेण चमरि  
वालगेण दुपय मणुस्सादि चउपयगवसादि वज्जुपय गोमिआमादि सोहकेसरेण वसह कुक्कुहेण महिला वलयवाहाए

दिक्क इषां मनुष्ये खे जेभणी तेविना अनेथे वेपग नड्डइ तेदीसे खे तेभणी पूर्वला दीठा मनुष्यी परे एव चतुप्पदादिकने विपे पणि भावणा करवी नवर गोम्भी तेकानयलाईया नोपरे परिअरवघेण भड एगथा पूर्वे यखाणीज्जे खेत तेए अवयवै करी अनुमानं कस्यो सेकित अय किड तेथायथे करी उदार आयथे करीये तेए आयय तेधूमवलाकादि तिर्हा धूमयो अग्निनो अनुमानं उड्ड युगलासे मेघकाअनुमानंशेय तेप्रसिद्धे एव गेप उदाहरणपणि भावणा इगिता खोक तिर्हायाकार इ गितादिक जेपूर्वे यखाया तेषे करी एतले आकारेद्रितादिक जेदेवदत्तादिकना यरीरने विपे आसयाखे तेषे करी अतर्गल मनयसीये एतले तेखना मननु अनुमानं आनउड्ड तेप्रसिद्धे इति खोकार्ये इषां शिष्यपेरेखे भगवन् धूमते अग्निनु कार्यखे तेभणी पूर्वोक्तकार्य अनुमानं ज

महिषोत्ततदविना भूतशृंगोपलम्बेः पूर्वोपलम्बोभय सम्भत प्रदेशवत् अयं च प्रयोगो वृत्तिवर्णककाद्यन्तरितत्वादप्रत्यक्ष एषावयविनि द्रष्टव्यस्तत्रत्यक्षतायामध्य  
क्षतएव तस्मिन्नेरुमान वैयर्थ्यं प्रकृद्गादिति एवं शेषोदाहरणान्यपि भावनीयानि नवरं द्विपदं मनुष्यादीत्यादि मनुष्योयं तदविनाभू तपदद्वयोपलम्भात् पूर्वदृष्ट  
मनुष्यवदेवं चतुष्पदश्चपदेष्वपि गोश्लोकैर्गणेश्चगावो परिचरवंधेग भडमित्यादि गाथापूर्वव्याख्यातैव तदनुसारेण भावार्थोप्युक्त इति सेकितं आसएणमि  
त्यादि आश्रयतीत्याश्रयो धमवलाकादि खत धमादग्न्यनुमानं प्रतीतमेवं आकारेणित्वादिभिश्च पूर्व व्याख्यातस्य रूपदेवदत्ताद्याश्रितैसादन्तर्गतं मनोऽनुमानं

परिश्ररबंधेण भडं जाणिक्का महिलिञ्च निवसणेणं सित्येणदोणपागं कविंच एकाएगाहाए१ सेतं अत्रयवेणं सेकिन्तं  
आसएणं २ अग्निंधूमेणं सलिलंबलागेणं बुद्धिं अभभिकारेणं कुलपुत्तं सीलमायारेणं द्रुगिताकारितेज्यैः क्रियाभि  
भीषितेनच नेववत्तु विकारिञ्च गृहतेतर्गतं मनः १ सेतं आसएणं सेतं सेसवं सेकितं दिष्टसाहस्रवं २ दुविहं पणत्तं  
तंजहा सामन्नादिष्टं च त्रिसेसदिष्टं च सेकितं सामणदिष्टं २ जहाएगोपुरिसो तहावहवेपुरिसा जहावहवेपुरिसा तहाए

ऊइ तीकित्यां भणी एहत्तं इहं गृहण कखो गुरु षोल्या एसत्य तथापि ए अग्नि आश्रय पणे करी पणि रूढे तेभणी इहं पणि एहत्तं गृहण कखोसेतं  
समाप्तद्वयं एतले शोपवत् अनुमान समास्यं चिने दृष्ट साधस्यं गत् अनुमानमाह सेकितं तिहां दीठं कहतां पूर्व जाण्युं जेअर्थ तेसाथे साधस्यं कहतां तुल्य  
पणुं तेदृष्ट साधस्यं कहीये तेजणावणहार पणि के तिहंते दृष्टसाधस्यं नत् कहीये ते पूर्व दीठुं जे अर्थ ते कीइ एक सामान्य थी दीठो ऊइ कोईएक विशेष  
थी दीठो ऊइ ते भणी द्विविध प्रकृत्यो तद्यथा सामान्य दीठो अने विगेष दीठो तिहां सामान्यथीदीठुं यथा एकः पुरुषः तथा यक्षवः पुरुषाः इहा इम कखो

तत्र चतुर्विंशति श्लोकाः समाप्तः ४४

सुप्रसिद्धमेव अताह ननु ब्रूमस्याग्निकार्यत्वात् पूर्वोक्तकार्यानुमान एव गतत्वात्किमिहोपन्यास सत्त्व किन्त्वन्यात्रयत्वेनापि लोके तस्य रुद्धत्वादत्वायुपन्यास  
 एत इत्यदोय सदेतद्रुद्धवदनुमान सेकित दिदृशाहम्बधमित्यादि दृष्टेन पूर्वोपलब्धेनार्थेन सहसाधस्य दृष्टसाधस्य तद्गमत्वत्वेन विद्यते यत्र तद्दृष्टसाधस्य वत  
 पूर्वदृष्टवार्थे कश्चिन्नामान्यत कश्चित्त विशेषतो दृष्ट स्यादतसाद्देशादिदृ द्विविध सामान्यतो दृष्टार्थयोगात्सामान्य दृष्ट विशेषतो दृष्टार्थयोगाद्विधेयदृष्ट  
 तत्र सामान्यदृष्ट यथा एक पुरुषस्तथा वक्ष्य पुरुषा इत्यादि इदमुक्त भवति नालिकेरद्वीपाद्यायात कश्चित तत्रत्यमतया सामान्यत एक कश्चनपुरुष इहा

गोपुरिसो जहा एगोकरिसावणो तहावहवेकरिसावणा जहावहवेकरिसावणा तहाएगोकरिसावणो सेत सामणदि  
 ठ सेकितं विसेसदिठर सेजहाणाम केइपुरसे वडण पुरिसाण मवके पुवदिठ पच्चभिजाणेज्जा अयसेपुरिसे वडणं

कोई एकनालिकेरादिक द्वीप थी आथ्यु मनुष्य पशुसु सामान्य रूपपरणे दीतु ते देखीने इम अनुमान करे जिम एपुरुष देखीतो एहवा आकारनु  
 दीसे छे तिम इहा घणा अण दीसता पणि पुरुष एहवा ज आकारगा इइसे जे भणी पुरुषपणानु विशेष नथी अने अनेरा आकार पणे छते पुरुष  
 पणानी हाणि याइ गवादिवत अथ घणा पुरुष प्रथम देख्या छता एहवु अनुमान करे जिम ए दीसता घणा पुरुष एहवा आकारना दीसेछे तिम अनेरो  
 कोइएक पुरुष पणि एहवाज आकारनो छस्ये जे भणी पुरणपणानु विशेष नथी अनेजे अनेरो आकार इइ तो पुरुषपणानी हाणि याइ अखादिषत् एव  
 कर्पापणादिकने विणे पणिवोलपु सेत तेए सामान्यथी दीठो सेकित अथ किड तेविशेषथी दीठु उत्तर बिसेपथीदीठु ते इहा पुरुष सामान्य पणे प्रसिद्धज  
 जाणीये केवलजगरे कोइएक पुरुषर विशेषने देखीने वकी कालांतर घणा पुरुषना समुदाय मध्ये तेपुरुषने वैठु देखी अनुमान ज्ञानकरे जेपूर्वे इम दीठु

अनुटीनाराखीय सप्तमोऽध्यायः

अनुटीनाराखीय सप्तमोऽध्यायः



मानमुष्यते पुरुषविषयेषु विषयत्यादेव कार्पापणादिष्वपि यास्य तदेयमनुमानस्य वै विध्यमुपदर्शं साग्रत तस्यै च कालत्रय विषयतां दर्शयन्नाह तस्य समा  
सस्यो तिविह गृहणमित्यादि तस्येति सामान्येनानुवर्त्तमानमनुमानमात्र सम्बध्यते तस्यानुमानस्य त्रिविध ग्रहण भवति तद्यथा अतीतकालविषयग्रहण  
यास्य वस्तुन परिच्छेदोत्तीतकालग्रहण प्रत्युत्पन्नो वर्त्तमान कालसाद्विषयग्रहण प्रत्युत्पन्नकालग्रहण अनागतोभविष्यत्काल साद्विषय ग्रहणमनागत  
कालग्रहण कालत्रयवृत्तिनोपि विषयस्यानुमानात्परिच्छेदो भवतीत्यर्थं सात्र उत्तिणादिति उक्तानि तेषु यनेषु तानि तथा अयमत्र प्रयोग सुदृष्टि  
रिशासोदुल्लग्नन निष्पन्न सस्य दृष्योत्तलजलपरिपूर्णकुण्डादि जलाशयप्रग्रथति तत्कार्यदर्शनादभिमतदेशवदित्यतीतस्य दृष्टिलक्षणविषयस्य परिच्छेद साधुष

इति पृथग्विद्य कुण्ड सरण इदं दौहित्र्या तडागाद् पासिता तेण साहिज्जद् जहासुवद्वी आसौ सेत अतीतकालग्रहण  
सेकित पडुप्पणकाल गहणर साऊ गोअरग्गय वित्यडिअपउरभत्तपणपसिता तेण साहिज्जद् जहासुभिकने वट्टे

तथा पूजा एप्रयोग सुदृष्टि दृशा ऊद् एपच जे भणी उक्तणवण निष्पन्न गर्व दृष्योत्तल जलपरिपूर्ण कुण्डजल स्यात्प्रग्रथति तेषु कार्यदीसे जे ते भणी  
हेतु अनेरा प्रत्यक्ष दीठा देशनी परे एदटान्त इम त्रिषि प्रकारे प्रयोग जाणुषु एतने इम अतीत दृष्टि रूप विषयपु निर्णय करीये तथा साधु गोचरा  
ग्रगतकृता भिजाने समतो यली केश्यु वियेपे छदित कृतां प्रस्ये दीधाछे प्रचुर घणा भात पाणी जेउने ते छदित भक्तपाा प्रचुर कणीये एहवा  
साधुने देखीने कीर्एक इम साधे सुभिजु दृचां पत्ते छे इति पच जे भणी प्रचुर भक्तपाणीरु लाभ दीसे छे इति हेतु पूर्ण दृष्ट देशवत् इति दृष्टान्त  
अथाग्र गाशा आकाशरु निर्मलपणु अने कण्णगिरि पर्वत काला तथा बीजली सचित मेघ तथा शानितमेघ गर्जित वाउत्तमो तथाविध दृष्टि करवायोग





विशिष्टा प्रातः निम्नं लवाद्यो दृष्टि नयभिरत्यस प्रतिपत्तौ व तत्र निपुणेन भाव्यमिति एएसिचेविविज्जाये इत्यादि एतेयामेवोक्त नृणावनादीना अपतीत  
 दृष्ट्यादिसाधक वेनोपपन्नाना हेतवना व्यत्यासेव्यत्यये साध्यस्यापि व्यत्यय साधयितव्यो यथा कुट्टिदिशासीविसृणुषनादिदर्यनादित्यदित्यत्यय सूत्रविद्यो

गयकालगहण सेकित अतीयकालगहण नित्तिणाद् अनिष्पण्य वा सब्वा मेदृणी सुक्काणिअ कुंड सर नद्र दोरिअ  
 तडागाद् पासित्ता तेणसाहिज्जद् जहाकुवुद्यो आसो सेत अतीयकालगहण सेकितपडुपयकालगहणद् साङ्गोयग्ग  
 गय भिक्ख अलभमाण पासित्ता तेणसाहिज्जद् जहादुभिकखेवद्दद् सेतं पडुपयकालगहण सेकित अणगयकाल  
 गहण २ घूमायतिदिसाओ सविअसेदृणीअपडिअद्वा वायानेद्दअाम्लु कुवुमीमेवनिवेयति१ अग्गेयवा वायव्वा

दीती दृष्टि तिम ए दृष्टान्त इहां काईएक विओप युक्त अन्न निर्मल पणादिक दृष्टि यिना न ऊद् ते भणी जाणणहारज निपुण होयु एएसि एएज  
 दृष्टयलादिक जेअतीत दृष्टि आदिकने साधक पणे बोल्या तो हेत तेइने व्यत्याया सविपरीत पणे छतै साध्यु पणि विपरोतपणुं साधवु यथा कुट्टि  
 इया उद् जे भणी निसृणुषनादिक दीसे छे विपरीत भाव सूत्रसिद्ध नवर आग्नेयमण्डल वायव्यमण्डलनु ए स्वरूप विद्याया भरणी पुप पूर्वफा पूर्वभा  
 मथा क्षत्तिका सप्तभिधित्ते राग्नेयमण्डल भवेत् । चित्ता इत्तोखिनी खाति चग्गीं पुनर्वसु उत्तरा फाल्गुनीत्येतद्देवायथ्यमण्डलर ए विमण्डल दृष्टिना  
 विधातक छे अने पूर्वला वेमण्डलदृष्टिना हेतु छे ते भणी सेत विसेसदिद सेत दिदसाइम्मव एविसमाप्ति इहां दृष्टि साधर्म्यद्रूप अतुमान सचित अतुमान  
 ना तिणि भेद समाप्तयया आगलि जोइये जो सर्ववाचनाने विषे इहाज ए विसमाप्ति दीसेछे तो दृष्टसाधर्म्यवत् भेदसयुक्त अतुमानजनो विओपत्ते तेभणी



सर्वपयोर्हयोरपि भूर्त्तस्य साहस्य समुद्रगोप्सदयो सोदकत्वमात्र आदित्यशोतयो राकागमनोद्योतकत्व रूप घन्द्रकुमुदयो शुक्लत्वमिति सेकित पायसाय  
श्वे इत्यादि मुरककुदविपाषाणगूला देहं योरपि समानत्वा न्यपर सकश्लोगीर्हसकण्ठस्तु गवय इति प्रायः साधर्म्यं ता सर्वसाधर्म्यं त्रुत्तु ज्ञेयकाकादिभि  
भेदान् कस्यापि केनचिच्चाहं सम्भवति सम्भवेत्वेकता प्रसङ्गस्युपमानस्य तृतीयभेदोपन्यासोऽनर्थक ० चेत्प्रायश्चात् तयापि तस्य विवक्षितस्याहंदादेशो  
नेवाऽदादिना औपस्य कियते तद्यथा ऽहंता अर्हत सहय इत तत्किमपि सर्वोत्तम तीर्थप्रवर्त्तनादिकार्यमचती इत यदहंत्वं च करोति नापर क्वचिदिति

जहामदरो तथा सरिसवो जहासरिसवो तहामदरो जहासमुद्धो जहाश्रुद्धो तहाखुज्जोतो जहाखुज्जो  
तो तथा आद्रुद्धो जहा चंदो तथा कुमुदो जहा कुमुदो तथा चदो सेतं किंचिसाहम्मो० सेकितं प्रायसाहम्मोवणोए जहा  
गौ तथा गवश्चो जहा गवश्चो तथा गौ सेत प्रायसाहम्मो० सेकित सव्वसाहम्मो उवम्मो नत्थि तह्मावि  
तेणैव तस्सतोवम्म कोरुद् जहा अरिहतेहि अरिहत्सरिसकय चक्कवट्टिसरिसंकय बलदेवेष्य बलदेव सरिसंक

उदकसहित पणा मात्र साहस्य सूर्यं चनें खद्योत कर्त्ता आगीयाने उद्योतक रूपसहय पणो घन्द्रमाने कुमुदकमचने शुक्लपणा रूपसरिषा पणु एकविधि  
त्याषस्योपसा सेकित प्रायसाधर्म्यं इहां खुर ककुदविषाण लागुलादिक आशो विह्वने सरिषा पणुच्छे नवर सकखल तैगौ कर्षीये अनेपाटला कठमुगवय  
नेरोजकर्षीये तेभणी इम प्रायसाधर्म्यं इहं चने सर्व साधर्म्यं तो कोइनेन सम्भये जेभणी चेतकालादिके करी सर्वभित्रळे एक नथी तेभणी सर्वथा सरिषा  
पणु न सम्भये तथापि श्री अरिहन्तादिकने श्री अरिहन्तादिकस उपमान करीये श्री अरिहत्सरिगु कार्त्त कौषु तेषां ईएक तीर्थं प्रवर्त्तना

भावः एवं च स एव तेनोपसीयते लोकेपि हि केनचिदत्यङ्गु ते कार्ये ह्यते यत्कारो दृश्यन्ते तत्किमपीदं भवद्भिः कृतं यद्भवत एव कुर्वन्ति नात्यः कश्चिदिति एवं चकवर्त्ति वासुदेवादिष्वपि वाच्यं सेकितं वेदस्मो वणीए इत्यादि वयेति याहयः गवलायागोरपत्यं गायलेयो नताहयो वडुजाया अपत्यं गडुले यो यथा चार्थं नतयेतरः अतश्च श्रेयधर्मोस्तुत्यात्वाद्भिन्ननिमित्त जन्मादिमातस्तु वैलक्ष्यस्यात्किंश्चिद्द्वै बध्यं भावनीयं सेकितं पायवेहस्मो इत्यादि अत पायस पायसयोः सचेतनत्वाचेतनत्वादिभिर्बहुभिर्धर्मैर्विस्वादात् चाभिधानगतवर्णद्वयेन सत्त्वादिमाततश्च साम्यात्प्रायोर्बोधयता भावनीया सर्वबोधस्य तु न

यं वासुदेवेण वासुदेव सरिसंकयं साङ्गणसाङ्ग सरिसंकयं सेतं सब्बसाहस्मो सेतं साहस्मोवणीए सेकितं वेदस्मोवणीएइ तिदिहि पणसे तंजहा किंचिवेहस्मो पायवेहस्मो सब्बवेहस्मो सेकितं किंचिवेहस्मो इज्जहासामलेरो न तत्त्वावाङ्गलेरो जहा वाङ्गलेरो नतहासामलेरो सेतं किंचिवेहस्मो सेकितं पायवेहस्मो इज्जहावायसो नतहापायसो नतहावायसो सेतं पायवेहस्मो सेकितं सब्बवेहस्मो उवग्गे नत्थि तहावितेणेव तस्सतोवग्गं कोरइ जहाणीएणं शीअसरि

दिक कार्ये श्री अरिहन्तज करे अनेरो न करे ए भाव इम इशा तेहजनी उपमा दीजे लाकने धिये पणि केणे एके अद्भुत कार्ये जसो ऊंते इम बोलण चारा दीसेहे जे ए तुम्हे कीधुं ते तुम्हेसेजयाइ अनेरसिन थाइ ए भाव एवं श्रेयं सुगमं सेतं सब्बसाहस्मो सेकितं किंचिवेहस्मो जेह्वु यवली गायतु अपत्य वाङ्गलेय नथी अने जेह्वु वाङ्गलेय गायतुं अपत्य तेह्वु सामलेय नथी अण श्रेयस्यरूपे तुल्य पणे कृते पणि जजई माताइ जिण्यादिक मात ऊंती किंश्चित् वेधस्यं जाणवु सेकितंपायवेहस्मो वायस ते काग अने पायसग्रीर ते सचेतन अचेतन पणादिअ धणे

राय धनपत्र विंशतिवर्षात्पुत्रो भवति सद्यः शतं ४४५

कस्यचित्केनापि सम्भवति सत्यप्रमेयत्वादिभिः सवाभावानां समानत्वेऽसत्यप्रसङ्गात्तथापि तृतीयभेदोपन्यासवेद्यर्थं मायक्याच तथापि तस्य तेनेवोपस्य क्रिय  
 ते यथानीचेननीचसदृश एत गुरुघातादीत्यादि भाष नीचेननीचसदृश एतमित्याद्युक्ततासाधर्म्यमेवोक्त स्यान्नवैधर्म्यं सत्य किन्तु नीचोपि प्रायोनैय  
 विध मशापापमाचरति किंपुनरनीचसत सकलजगद्विलक्षणप्रवृत्तत्वविवक्षया वैधर्म्यं मित्र भावनीय एष दासाद्युदाहरणेष्वपि वाच्य येन सत्यवैधर्म्यो

सकय टासेण दाससरिसकय काकीणकाकसरिसकय साणेणसागसरिसकय पाणेण पाणसरिरुकय सेत सख्ववेहम्मे सेतं  
 वेहम्मोवणोए सेत उजम्मे सेकित आगमेर दुविहे पणत्ते तजहा लोइएअ लोउत्तरिएअ सेकित लोइएर जण  
 इम अणणिएहि मिच्छादिदोएहि सच्छ दवुद्धि मइविगप्पिय तजहा भारह रामायण जावत्तारिवेअ सागो

स्वरूपे करी विसवाट थी अने नाम माहिखा वि अक्षरसाये सत्त्वादिक धर्म थी तुल्यपणा ऊ ती प्रायवैधर्म्यं जाणतु अथ सर्व वैधर्म्यं  
 औपस्यतो काट्टे साय नयी जे भणी छतापण यथा ज्ञेयपणादिकेहुरी सर्वभाय समान छै ते भणी अने जो सत्त्वादिक धर्मपणि समान न उइ तो ते  
 अणता थाइ यद्यपि सर्ववैधर्म्यं नयी ततापि तीजो भेदनिरयंक थाइ इम आगकीने कहे छे तथापि तेहने तेहज साये औपस्य करीये यथानीचे नीच  
 सरिखु कीधु गुरु घातादिक अकार्य दूषां मेरक बोल्नु भगवन् नीचे नीच सरिखु कीधु इत्यादि बोलता साधर्म्यज कश्वाणु पर वैधर्म्यतो न कश्वाणु  
 गुरु बाल्या ए सत्य किठ नीचपणि प्राये एइतु मशा पाप न करै तो अनीचनु सु कश्चु ते भणी समसालोक्त विपरीत प्रवर्त्तनी विवक्षाद् दूषां सर्व  
 वैधर्म्यं एव गेप सेत समाप्त इयम् एतले उपमान कस्य अथागमसाध सेकित गुरु परपरये आये ते भणी आगम अथवा आकहतां सवथा प्रकारे

सत्यवैधर्म्यं सत्यप्रमेयत्वादिभिः सवाभावानां समानत्वेऽसत्यप्रसङ्गात्तथापि तृतीयभेदोपन्यासवेद्यर्थं मायक्याच तथापि तस्य तेनेवोपस्य क्रिय

ते यथानीचेननीचसदृश एत गुरुघातादीत्यादि भाष नीचेननीचसदृश एतमित्याद्युक्ततासाधर्म्यमेवोक्त स्यान्नवैधर्म्यं सत्य किन्तु नीचोपि प्रायोनैय

विध मशापापमाचरति किंपुनरनीचसत सकलजगद्विलक्षणप्रवृत्तत्वविवक्षया वैधर्म्यं मित्र भावनीय एष दासाद्युदाहरणेष्वपि वाच्य येन सत्यवैधर्म्यो

सकय टासेण दाससरिसकय काकीणकाकसरिसकय साणेणसागसरिसकय पाणेण पाणसरिरुकय सेत सख्ववेहम्मे सेतं

वेहम्मोवणोए सेत उजम्मे सेकित आगमेर दुविहे पणत्ते तजहा लोइएअ लोउत्तरिएअ सेकित लोइएर जण

इम अणणिएहि मिच्छादिदोएहि सच्छ दवुद्धि मइविगप्पिय तजहा भारह रामायण जावत्तारिवेअ सागो

स्वरूपे करी विसवाट थी अने नाम माहिखा वि अक्षरसाये सत्त्वादिक धर्म थी तुल्यपणा ऊ ती प्रायवैधर्म्यं जाणतु अथ सर्व वैधर्म्यं

औपस्यतो काट्टे साय नयी जे भणी छतापण यथा ज्ञेयपणादिकेहुरी सर्वभाय समान छै ते भणी अने जो सत्त्वादिक धर्मपणि समान न उइ तो ते

अणता थाइ यद्यपि सर्ववैधर्म्यं नयी ततापि तीजो भेदनिरयंक थाइ इम आगकीने कहे छे तथापि तेहने तेहज साये औपस्य करीये यथानीचे नीच

सरिखु कीधु गुरु घातादिक अकार्य दूषां मेरक बोल्नु भगवन् नीचे नीच सरिखु कीधु इत्यादि बोलता साधर्म्यज कश्वाणु पर वैधर्म्यतो न कश्वाणु

गुरु बाल्या ए सत्य किठ नीचपणि प्राये एइतु मशा पाप न करै तो अनीचनु सु कश्चु ते भणी समसालोक्त विपरीत प्रवर्त्तनी विवक्षाद् दूषां सर्व

वैधर्म्यं एव गेप सेत समाप्त इयम् एतले उपमान कस्य अथागमसाध सेकित गुरु परपरये आये ते भणी आगम अथवा आकहतां सवथा प्रकारे

अणु टी० ५१० सुत भाषा











सतो जीवस्य सर्वरूपि द्रव्ये पु भवति न पुनः सर्वपर्यायेषु यतोऽवधेयत्क्लृप्ततोष्ये कवस्तगताः संख्येया असंख्येयावा पर्यायाविषयत्वे जाक्ताः जघन्यतस्तद्वीप  
 र्यायीद्विरुणातौरूपरसगंधस्पर्शज्ञानाद्यत्वारः पर्यायाः इत्यर्थः उक्तं च इत्यामोचसंख्येजे संख्येजे आविपञ्जयेल्लहद्द दोपञ्जवेदुरुणिए लङ्कइयएगाउह्वाओ  
 अलाउ ननुपर्याया विशेषया लच्यते नचदर्शनं विशेषविषयं भवितुमर्हति ज्ञानस्यै यतद्विषयत्वात्कथमिहाविषयिदर्शनं विषयत्वेन पर्याया निर्दिष्टाः साधुक्तं  
 केवलं पर्यायैरपि घटशरावोदंचनादिभिष्टदादि सामान्यमेव तथार विशिष्यतेन एकांतेन व्यतिरिच्यंते अतोसुखतः सामान्यं सुखोभतास्तु  
 विशेषया अथस्यविषयी भवंतीति ख्यापनार्थोत्ततदुपन्यासः केवलं सकल दृश्यविषयत्वेन परिपूर्णं दर्शनं केवलदर्शिनिसदावराज्याविर्भूतं तस्त्वन्विततो  
 जीवस्य सर्वद्रव्येषु सर्तार्त्तरेषु सर्वपर्यायेषु भवतीति मनः पर्यायज्ञानं तु तथाविधक्षयोपयमपाटवात्कदा विधेयपानेवटक्लृडत्यद्यते नसामान्यसतलादर्शनं

**केवल दं.संज्ञं केवल दं.संज्ञस्य सव्वद्वेहिअ सव्वपञ्जवेहिअ सेतं दं.संज्ञगुणमणे सेक्तिं चरित्तगुणमणे १ पंच**

भगो घटादिकनें विषे चत्तुर्गणं ऊइ इम पूर्वे विषयसुं जूओ ग्रहण कस्यो अनें ओत्तादिक तो प्राप्य कारी के ते द्रव्येन्द्रिय संज्ञे पहारे करी साधे संबंध  
 ज विषय जाणे एहसुं भाव जणाववा भणी आलभावे भवति इम घटादिक विषयसुं अभेद पणे ग्रहण करुं उक्तंच पुढंसुणेइसइं रुवं पुणपासइ  
 अपुढं तं गंधरपंचवल्लं पुढं विजागरेणाइ १ तथा अविधुं जे दर्शनं तेअविधे दर्शनं ते अविधेदर्शनावराणीयना ज्ञयोपयम यी अविधे दर्शनीनें कहता अविधि  
 दर्शनलब्धिं तं जीवनें सर्वरूपी द्रव्यनें विषे ऊइ परं सर्व पर्यायनें विषे न ऊइ जे भणी अविधेनें उत्कृष्ट श्री पणि एक वस्तु मांदिवा संख्याता अने  
 असंख्याता पर्याय विषय पणि बोल्या के अने जघन्यशी तो विषयीय बिमणा करीये एतले रूपगंध रस स्पर्शरूप ध्यारिपर्याय विषयपणि बोल्या उक्तं च  
 द्वाउ असंख्येजे संख्येजेअविपञ्जवे लहद्द दोपञ्जवे दुगुणीए लहद्दय एगाउ द्वाओ १ इहा शिष्य बोल्सुं भगवन् पर्याय ते विशेष बोलीये अने दर्शनं तो

शिव ब्रह्मणो वित्तुः शिवः शिवः ८४३३३ ३३३३

नोक्तमिति तदेतद्गुणप्रमाणं सेकित्तं चरित्तगुण्यमाणे इत्यादि चरत्यनिदितमनेनेति चरित्त तदेव चारित्तमेवगुणं स एव प्रमाणं सावज्जयोगा विरतिरूपं तच्चपञ्चविधं सामायकादि पञ्चविधमप्येतदविशेषतः सामायकमेव छेदादिविशेषेस्तु विशेष्यमाणा पञ्चधाभिद्यते तत्राद्य विशेषाभावात्सामान्य सन्नायामेवावगत्यै समयकमिति सामायकं पूर्वोक्तगन्दायं तच्चैत्वर यावत्कथिकश्च तत्रैत्वर भाविष्यपदेशात्तरत्वात् स्वल्पकालं तत्राद्ये चर्मतीर्थकर

विद्ये पश्यते तजहा सामाद् अचरित्तगुण्यमाणे छेदोवद्भावणचरित्तं गुण्यमाणे परिहारं विसृष्टिञ्च चरित्तं गुण्यमाणे सुहुमसपराय चरित्तगुण्यमाणे अहकवाय चरित्तगुण्यमाणे सामाद् अचरित्तगुण्यमाणे दुविद्ये पश्यते त

विशेषने विषये न प्रवर्त्ते जे भणी विशेष ते ज्ञानज विषय बोल्या छै एतले ते ज्ञान गम्य चै पर दर्यन गम्य गथी तो अवधि दर्यनना विषय पणि पर्याय काबोल्या गुर बोल्या ए सत्य केवल पर्याय माठी आदिक सामान्य स्वरूप थी अनेरा भेद रूप न ऊद्र ते भणी मुख्य रूप थी सामान्य ज एहनु विषय ऊद्र अने गुणीभूत विशेष पणि एहने विषय पणै ऊद्र ए भाव जणाया भणी अवधि दर्यने पर्याय विषय पणैबोल्या तथा केवल कचता समस्त देपया थोग्य वस्तुना विषय पणाथी परिपूर्ण जे दर्यन ते केवल दर्यना वरणना अय थी उत्पन्न केवल दर्यननि कचता केवल दर्यननि जीवने सर्वस्वकी शक्तं द्रव्यने विषे अने सर्व पर्यायने विषे ऊद्र तथा मन पर्यवज्ञान तो तथाविध अयोपयमना निमल पणा थी सर्वदा विशेषने ज ग्रहउ ऊप जे पर सामान्यने ग्रहतो न ऊपऊद्र ते मणी तेहने दर्यन न बोल्या, सेत निगमन एतजे दर्यन गुण प्रमाण कस्तु अय चारित्त गुण प्रमाणमाह सेकित्त अय किमु ते चारित्त गुण प्रमाण उत्तर तिहां चरे निर्वाद्यामुष्टान एणै करो ते भणी चरित्त ते चारित्त ज जेगुण तेहज जे प्रमाण ते चारित्त गुण

द्वादशश्च शेषास्तु कल्पस्थितानुपरिहारिकाः पश्चादिप्रायो नियतभक्तानोपवासं कुर्वन्ति भक्तं च पंचानामथाचारकृत्सेव नात्यतः ततः परिहारिकाः परस्मा  
 सान्यावद्यथोक्तं तपः कृत्वा अनुपरिहारिकता प्रतिपद्यन्ते अनुपरिहारिकास्तु परिहारिकतां तैरपि पट्माप्तान्यावद्यथातपः कृतं भवति तदा कृत तपसा  
 मष्टानां मध्यादेकः कल्पस्थितो व्यवस्थाप्यते अग्रतनयासौ पडमासान्यावद्यथोक्तं तपः करोति शेषास्तु सप्तानुचरतासात्रयन्ति एवं चाष्टादशशिमिर्मासैरयं  
 कल्पः समाप्यते तत्समाप्तौ च भूयस्त्वमेव कल्पं जिनकल्पं वा प्रतिपद्येरन् गच्छं वा प्रतिगच्छेद्वरिति तयो गतिः अपरं चैतच्चारितं च्छेदोपस्थापन दरणावता  
 मेव भवति नान्ये यामित्यलमतिप्रसङ्गे न तदेव सिद्धि योयसापः कृत्वा अनुपरिहारिकता कल्पस्थिततां चागीकरोति तत्त्ववन्धिवरिण्यारिपिमुद्विक्तं निर्विष्ट  
 कायकमुच्यते ये तु तपः कुर्वन्ति तत्सं बन्धि निर्विद्यमानकामिति स्थितं संपादयेति पर्यटति संसारमनेनेति समरायः क्रोधादिकपायः लोभांगमात्वावशेषतया

**गुणप्रमाणेद्विहे पणुत्ते तं जहा पडिवाईअ अहक्वायचरिच गुणप्रमाणे दुविहे पणुत्ते तं जहा छेउ**

अनुपरिहारी पांचे जणानित्य भक्ती ऊइ उपवास न करे भक्तपणा आंखिलज ऊइ अनेकं नही पढे परिहारिक तेहसामसलणि यथोक्त तपकरीने यनुपरि  
 हारिक पणुं पडिब जे अने अनुपरिहारिक तेपरिहारिक पणुं पडिब जे ते पणि छम्मासलगे यथोक्त तग करे पळे आठजणमध्ये एक कल्पस्थित स्थापीये  
 अने पडिबुं कल्पस्थित ते छमास लगे यथोक्त तप करे अनेयेप सात जणा ते अनुपरिहारिक पणुं पडिब जे इस ए गठार माचे कल्प समाप्त ऊइ पळे  
 बली तेहज कल्प प्रथवा जिन कल्प सर्व पडिब जे तथा गळ्माचि आये एतिया माहि आये ते प्रकार याचरे एचारित छेदोपस्थापन चारितवंतने  
 ज ऊइ अनेराने नही इहां यिसार पूरंथायो इहां जे तप करीने अनुपरिहारिक पणुं अने कल्पस्थित पणुं पादरे तेहनुं चारित परिहार विमुद्विक  
 निर्विष्टकायिक कहिये अने जे तप करता ऊइ तेहनुं चारित परिहार विमुद्विक निर्विद्यमान कहिये तथा संपराइ कहतां परित्रमण करे संसार एणो

तीव वनपत विषुव वरिणेशी यानस कीयव शान ३४ ३१

सुख्य सम्यरायो यत तत्सूक्ष्म सम्यराय इदमपि सखिद्यमानविशुद्धमानक भेदाद्विषय तत त्रेणि मारोहता विशुद्धमानक सुच्यते तत प्रथममानस्य सखिद्यमानकमिति अहरकायति अय यद्धोऽत्वयाथातथ्ये षाड्भिविधो आसमन्ताद्याथातयेन त्वातमथाख्यातमित्यर्थ एतदपि प्रतिपात्य प्रतिपातिभेदाद्द्वेषा ततोपशांतमोक्षस्य प्रतिपाति क्षीणमोक्षस्य प्रतिपाति अथवा केवलिनच्छस्यस्य चोपशांतमोक्षक्षीणमोक्षस्य तद्भवत्पत स्वामिभेदाद्द्वैविध्यमिति तदेतच्चरितगुणप्रमाण तदेव तज्जीवगुणप्रमाणं तदेतद्गुणप्रमाणमिति छ तदेव जीवाजीवभेदभिन्न गुणप्रमाण प्रतिपाद्यकमप्राप्त नयप्रमाण प्रतिपाद्य व्याप केकित नयप्रमाणे इत्यादि अनत र्गमणो वस्तुन एकाग्र्येन नयन नय स एव प्रमाण नयप्रमाण त्रिविध प्रज्ञप्तमिति यद्यपि नेगमस्य चादिभेदतोवच्यो नयानयापि प्रस्यकादि दृष्टान्तत्रयेण सर्वपामिद निरूपयितुमिष्टत्वात्तैकियमुच्यते तथाचाण तद्यथा प्रस्यरुदृष्टान्तेनेत्यादि प्रस्यकादि दृष्टान्तत्रयेण हेतु

सत्येय केवलिय सेत जो-गुणप्रमाणे सेतं गुणप्रमाणे सेकितं नयप्रमाणे त्रिविधे प्रस्यते तजहा पत्यगदिठ

करी ते सम्यराय कश्चिये जोधादिक कपाय ते लोभना अशमातने थाक पैकरी सूक्ष्म सम्यराय छे जिज्ञां ते सूक्ष्म सम्यराय ते विभेद प्ररूप्यु तद्यथा सखिद्यमानक अने विशुद्धमानक तिहा त्रेणे घटताने विशुद्धमाग कश्चिये अने त्रेणियोपहताने सखिद्यमाग कश्चिये अथवा प्रतिपाती अने अप्रतिपाती रूप पणि विभेद छद्म तथा अथ शब्द इहा यथा तयने अर्थे छे अने आशब्द ते अभिविधिने अर्थे छे तेभणीथा कहतां सर्वथा प्रकारे अने अथ कहता यथातयपणि जे त्वात कहतां बोल्य ते अथाख्यात कपायना उदयना अभावथी निरति चार पणा थी परमार्थ रूपे जे योत्यु ते अथाख्यात इत्यर्थे ते विभेद प्ररूप्यु तद्यथा प्रतिपाती अने अप्रतिपाती तिहां उपयात मोहीने प्रतिपाती अने केवलीने अप्रतिपाती अथवा उप यांत क्षीणमोक्षस्याये छद्मयने छद्म अने केवलीने छद्म इम खामिना भेद छती द्विविध पणि छद्म सेत तेए चरित्त गुण प्रमाण पछे तेए जीव

भूतेन त्रिविधं नयप्रमाणं भवतीत्यर्थः तत्र प्रत्यक दृष्टान्तं दर्शयति तद्यथानाम कश्चित्पुरुषः परशुं कुठारं गृहीत्वा अटवीमुखो गच्छेदित्यादि इदमुक्तं भवति प्रत्यको मागधदेशप्रसिद्धो धान्यमानविशेषस्तद्धेतुभूतकाष्ठकर्तृनाय कुठारव्यग्रहस्तं तच्चादि पुरुषमटवीं गच्छन्तं दृष्ट्वा कश्चिद्व्योवदेत्क भवान् गच्छति तत्राविशुद्धनैगमो भगति अविशुद्धनैगमनयमतानुसारी सन्नसौ प्रत्यु चारयतीत्यर्थः किमित्याह प्रत्यकस्य गच्छामि इदमुक्तं भवति नैकेगमावस्तु परिच्छेदा यस्यापितु वरुवः सनिरुक्तावगालकारलोपतो नैगम उच्यते चातो यद्ययत प्रत्यकारणभूतकाष्ठनिमित्तमेव गमनं नतु प्रत्यकनिमित्तं तथा

तेणं वसहिदिदुंतेणं पएसदिदुंतेणं सेकिंतं पत्यगदिदुंतेणं सेजहानामए केदपुरिसे परशुगहाय अडवीसमज्जतो गच्छेज्जा तंपासित्ता केइवएज्जा कहिं भवंगच्छसि अविशुद्धो नैगमोभणइ पत्यरासगच्छामि तंचकेइत्तिंदसाणं

गुण प्रमाण पछे ते ए गुण प्रमाण एतले जीवाजीव भेद भिन्न गुणप्रमाण यक्षाणीने चित्रे नयप्रमाण कहे छे सेकिंतं तिहां अनंत स्वरूप वस्तु एत अंशैकरी जाणवुं ते नय कहियै तेहज जे प्रमाण तेनय प्रमाण ते त्रिविध प्ररूपुं तद्यथा प्रत्यक दृष्टान्तकरी वसति दृष्टां ते करी प्रदेशदृष्टां तेकरी इहां यद्यपि नैगमादिक घणा नय छे तथापि प्रत्यकादिक त्रिणि दृष्टांते करी ते सर्व इहा देशाडयानी दृच्छा ऊंती त्रिविध पणुं बोल्युं एतले प्रत्यकादि त्रिणि दृष्टांत हेतुभूने करो त्रिविध नयप्रमाण ऊइ इत्यर्थः तिहां प्रत्यक दृष्टांतमाह सेकिंतं अथ किछुं ते प्रत्यकने दृष्टाते करी ते यथाकोई एक पुरुष कुशाडु गृहीने अटवीसन मुखजावे एतले प्रत्यक ते मागधदेश प्रसिद्ध धान्यनुंमानं विशेष तेहनुं हेतु जे नाट ते कापवाभणी कुशाडो हाय लेई कोई एक सूत्रधारदिक पुरुष अटवी सासुंजातुं देपी कोई एक अनेरो ते प्रतें बोले हं किहा जाइछे तिहां अविशुद्ध नैगम

प्यनेकप्रकारवस्तुपुगमपरवात्कारणे कार्योपचार स्थाय्यधार दर्शनादेयमप्यभिषक्तोऽसौ प्रस्यकस्य गच्छामीति तच्च कथित्छिदतएव पश्येह हा  
 चवदेतुकिभयोच्छिनत्ति तत भ्रातृनात्कि चिद्विदुश्च नै गममय मतातुसारी संयसौभणति प्रस्यकच्छिनत्ति अथापि कारणेकार्योप धारानया व्यवहृति  
 दर्शनादेवकाटे पिच्छिद्यमाने प्रस्यकच्छिनत्ति नद्यीत्युत्तर केवलकाटस्य प्रस्यकं प्रतिकारणताभावस्यात किञ्चिदासन्नत्वाच्चिशुद्धत्व प्राप्नुनरति व्यवहितत्वात्तुमगी

पासित्ता वएज्जा कि भवच्छिदसि विशुद्धो नैगमो भणद् पत्ययच्छिदामि तचकेद् तत्यमाण पासित्ता वएज्जा कि भव  
 तत्यसि विसुद्धतरात्रो यैगमो भणद् पत्ययतत्यामि तचकेद् उक्तीरमाण पासित्ता वएज्जा कि भव उक्तीरसि दिवुद्दु

धाने एतत्ते अविदुश्च नैगम नयनामतसु अतुसारी छ उ प्रत्यत्तरदीये इत्यर्थं पत्यग प्रस्यक निमित्त जाठ छ ईडा न एक ते अनेक गमा कर्ता वस्तुना  
 निर्णय छे वेचना ते निश्चिना वसथी एककारलोपवाथी नैगम कश्चिये यद्यपि इडा प्रस्यनसु कारण जेकाट तेनिमित्तज जाइछे पर प्रस्यक निमित्त  
 नथी जातो तथापि एनय एक वस्तु अनेक प्रकारे माने ते अणी कारणने विपे कार्यनु उपचार करे अने तिम योलयाना व्यवहारना देपवा छती  
 इम बोले छ पाया निमित्तद् जाठ छु पछै ते वसुच्छेदताने कोइ एक बोले तू किछ छेदे छे पछैपाएला छती काइ एक विसुद्ध नैगम नय  
 नामतसु अतुसारी छतो एबोले पत्यगच्छिदामि इडा पणि कारणने विपे कार्यनु उपचार करवा छती तथा व्यवहारना देपवा छती काट छेदीने  
 छते पणि पायो छेदी छी इम कचै केवल काठने पायाना कारण पणाना भावने काइ एक टूकडा पणायो विसुद्ध पणु जाणवु अने पूवै अति  
 येगला पणायो ते नयने मेला पणु जाणवु इम मथननी अपेचाये आगिलारने विसुद्ध पणु भाववु नबर तचण तेकाट खोलताने पातलु करताने

अशु टी.

५३८

खर

भाषा



मसत्व एवं पूर्वपूर्वपिच्छया यद्योत्तरस्य विद्युद्गता भावनीया नवरं तच्छ्रुतं तदुक्तवन्त उक्त्वा इतिरंतं लेखन्यामृटं कुर्वाणं एव मेते न प्रकारेण तावन्नेयं यावद्विद्युद्गतरनैगमस्य नामाउडियत्त आकुटितनामा प्रसक्तोयमित्येवं नामांकितो निष्पन्न प्रसक्त इति एवमेव व्यञ्जहारस्यापीति लोकव्यवहारप्राधान्येन यो व्यवहारनयः लोकेच पूर्वोक्तावस्यासु सर्वत प्रसक्त व्यवहारो दृश्यतेऽतो व्यञ्जहारनयोप्येवमेव प्रतिपद्यते इति भावः संग्रहस्येत्यादि सामान्यरूपतया सर्वं वस्तुसंगृह्णाति कोऽपि करोतीति संग्रहस्य मतेन चितादि विशेषेण विगट एव प्रस्यो भवति नान्यसत्त्वचितो धाम्येन व्याप्तः सचदेशतोपि भवत्यत आरुटः प्रितः पूरितः अनेनैव प्रकारेणमेयं समारूढं यत् स षाशितादेराकृतिगत्वानेव समारूढः अयमत्रभात्रायः

तराश्री ऐगमो भणइ पत्ययं उक्कोराभि तं चकेईलिहमाणं पासित्ता वएज्जा किं भत्रलिहसि विसुद्दतराश्री ऐगमो भणइ पत्ययं लिहामि एवं विसुद्दतर ऐगमस्य नामाउडिओ पत्यश्री एवामेव व्यवहारसवि रंगहस्य सिउमेज्जसमा

देयी तथा उत्करंतं वींधणं करो मांकेकारताने देयी तथा लिखंतं लेखणीये करो मठारताने देयी पृच्छाकरे एवं दृणी प्रकारेणप विद्युद्गतर नैगमने मते नामाउडियत्तिसाकुटितनामा एप्रसक्त एक्कुं मांसदीधो संपूर्ण पायोनीपनो एभाव एवमेव व्यवहारयावि लोकव्यवहारने प्रधान पणोत्तरो जेनय तेव्यवहार नय अने लोकने विपेतो पूर्वोक्त सर्वभवस्थाने विपे पाया बोलयातु व्यवहार दीसेछे तेभणी व्यवहार नघने मते पणि इमज जांणबु संग्रहस्य सामान्य स्वरूपे सर्ववस्तुने संग्रहै एकरूप करे तेभणी संग्रह कश्चिये तेहने मते चितादिक विशेषणोत्तरी विगोयुं ज प्रसक्त कश्चिये अनरो नही तिज्ञं चितधान्येत्तरी व्याप्पुं तेतुदेशयोपणि ज्जइ तेभणी विशेषेच्छे मित कंठोकंठ पूरणं एणैज प्रकारे करोमिय वस्तु समारूढहे जिज्ञं ते षाशितादेराकृतिगण्य पणाच्छं तीमेय समारूढ



तेभणी वर्तमानजमानसेयने पाथावे पणे मानै परं अतीतकालना अने अनागत कालना मानमेय छतांजनमानै जे भणी अतीतकालनामानसेय सवया विणसीगया अने अनागत कालना मानमेय सर्वथा ऊपना नथी तेभणी तेविडनी नास्ति जाणवी तिण्हं सदनयागं गच्छ प्रधान जेनय ते गच्छ नय तेगच्छ समभि रुढ एवं भूत रूप जागवा तेभणी तेनय गच्छ अन्यथा ऊं ते अर्थ अन्यथा नमाने किंतु जिमगच्छ रच्छ ऊद्द तिमज गच्छेकरी अर्थने माने तेभणीए विणं गच्छनय बोलीये अने पहिला चारि नय तो गच्छ भावे तिम प्रवर्त्त तो अर्थज प्रधान के छूम माने तेभणी तेपर्थ नय बोलीये दूडं ए विणि गच्छ नयने मते प्रत्यकार्याधिकारद्वः पाथाना स्वरूप प्रतिज्ञानोपयुक्त पाथो कश्चिये जेभणी ए नय भाय प्रधान के तेभणी भाव पाथाने जमाने अने भावतुं पाथानुं उपयोग बोलीये तेभणी पाथाने उपयोगने पाथो बोलीये अने ते उपयोगतुं धणी जीव ते पणि पाथो कश्चिये जे भणी उपयोगधी जीव जूच्यो नथी अथ ए नयतुं एहबो मत के जे जीव ते वस्तुने विषे उपयुक्त छद्द ते जीव तेहज वस्तु बोलीये जेभणी उपयोग लक्ष ण जीव के अने जो उपयोग पाथादिक विषय पणे परिणाम्यो तो किस अनेरो काई जीवतुं स्वरूपांतर के जे तेहने विषे अनेरो काम याद् एभाज जस्यामयोगं अथवा जे पाथाना करणहाराना उपयोगनावस थी पाथोनीपजे ते उपयोगने विषे वर्त्ततो तेकर्त्ता पाथो कश्चिये अने पाथाने विषे अनुपयुक्त पाथाने नीपजावना समय नथी तेभणी ते उपयोग साये एकपणा साटे तेहज पाथो कश्चिये अथ तेगच्छनय एहमी युक्ति बोले जे स विस्तु आपणा स्वरूपने विषे वर्त्ते छे परं आल व्यतिरिक्त अनेरा आधारने विषे न वर्त्ते ए युक्तिएहनी आगक कश्चिये ते युक्ति ऊंती ए इस कहे अन्य वस्तुने विषे नर है अने पाथानुं विचय रूप ज्ञान बोलीये तो ते निश्चय रूप ज्ञान लडरूपकाटना भाजनने विषे किम वर्त्ते जेभणी अतन अने अचेतन तो एक आधार नथी तेभणी पाथाने विषे उपयुक्त ज पाथु कश्चिये सेतं तेए पाथाने दृष्टां ते करी कक्षा सेकितं अथ किस तेवसतिने दृष्टांते करी उत्तर वसति निवास तेहने दृष्टांते करी



स्यापि चतुर्दशरज्ज्वात्मकलोकादनर्थतरत्वादित्यमपि च व्यचारादर्थनाद्विशुद्धनैगमस्त्विति व्याप्तिपर्यायान्तिटसंगतं मन्यते ततश्चिद्योक्तपदसामीति संक्षिप्तो  
 चरं ददाति विशुद्धतरस्त्वित्दमथाति विशुद्धतरस्त्वित्दमप्यति व्याप्तिनिर्दिष्टं मन्यते ततो जंबूद्वीपेषुसामीति संक्षिप्तपरमात् एषं भारतवर्षदिशिगाढं भरतपातलि  
 पुतदेवदत्त गृहगर्भगृहेष्वपि भावनीयं एवं विशुद्धनैगमप्रसमाणो वसति एषुत्तरोत्तरभेदापेक्षया विशुद्धतरनैगमस्यासन्ने वसति नाव्या दूरसुक्तं  
 भवति यत् गृहादौ सर्वदा नियासत्वेनासौ विवक्षितत्वात् तिष्ठन्ने एष तत्र यसतीति व्यपदिशते यद्वि पुनः कारण वगतोज्येष्ठतरस्यादौ वर्जते तदा तत्र  
 व्यसुभवंवससि विसुद्धो गौगमो भणद् तिरिञ्जलो एवसामि तिरिञ्जलो ए जंबूद्वीवाद्वा जंबूद्वीपेण पञ्जवसाणाश्चसंखिञ्जा  
 दौवसमुहा पणत्ता तैसुसव्येसुभवंवससि विसुद्धतराश्री गौगमो भणद् जंबूद्वीपेण पञ्जवसाणाश्चसंखिञ्जा  
 हा भरद्दे ऐरव ए हेमव ए ऐरगव ए हरिवस्ये रभगवस्ये देवकुम्भ उत्तरकुम्भ पुष्यविदेहे तैसुसव्येसु भवंवससि  
 लोक रूप पणायी अने इम मोलयाना व्यचाराणा अपिउद्ध नैगम इम उत्तर द्वीपे अने विशुद्ध नैगम ए पवन पणा जेतने विपे व्यापतो  
 जाणी ए वचन अयुक्तमाने तेभणी तिरिञ्जलो एवसामि एषु संक्षिप्त उत्तर द्वीपे अने विशुद्धतरने गमणवचन पणि पणानेतने त्रिने ज्ञाप तोजाणी अरुक्त  
 माने तेभणी जंबूद्वीपे वसामि एषु अधिक संक्षेपोत्तरद्वीपे एवं यावत् गर्भ गृहने विपे भावयो एवं पिउद्ध अ इम उत्तरोत्तर भेदनी अपेक्षाद्वि सुद्ध नैगम  
 नयने सतै वसतो अतो वसतो वीलीये नान्यथा एतलै जेधरादिकने विपे सर्वदा नियास पणै एधिपणं तेगने विपे रज्जो ज तिहा रसता योलीये जपली  
 कारणनावसनी अनेथिसार्गादिकने विपे वसतो तिहा अ रज्जो विवक्षीये धरादिकने विपे वसता न वीलीये जे भणी अनेथि वसतो अनेथि



सतीत्ये तदेवास्थमतेनोच्यते नान्यदितिभावः सचनानादेशादि गतोप्येक एव संग्रहस्य सामान्यवादिवादिनि ऋजुसूत्रस्यतुपूर्वस्माद्विशुद्धत्वादेष्वाकाश  
प्रदेशेष्वथगाढश्लेष्वेववसतीत्युच्यते नसंस्कारकेसद्वे स्थापि वस्तु इत्यानभस्येवावगाहात् तेषु प्रदेशेषु संस्कारको वर्त्तते संस्कारकेणोवाक्रांता सततोप्येष्वेव  
प्रदेशेषु स्वयमवगाढश्लेष्वेववसतीत्युच्यते सच वर्त्तमानकाले एवास्यतीतानागतयोर्विनष्टानुत्पन्नत्वेनैतन्मतेऽसत्त्वादिति तत्राणां शब्दनयानामालभवेत्स  
स्वरूप सर्वोपि वसति ते अन्यस्यान्यत्रवृत्तयोगात्तथाह्यन्योन्यत्र वर्त्तमानः किं सर्वालना वर्त्तते देयात्मनावा यद्याद्यः पक्ष ऋहितस्याधारव्यतिरेकिणा

मडंबदोणसुह पट्टणासमसंवाह सखिवेसाद् तेषुसम्बेसुभवंवससि विशुद्धतराश्रो णैगमोभण्ड पाडलिपुत्तेवसामि पा  
डलिपुत्ते अणैगाद् गिहाद् तेषुसम्बेसुवससि विसु० णैग० गम्भरेवसामि एवंविशुद्धस णैगमस्सवसमाणोवसद् एवमेव

व्यवहारसुं विघट्टे नहीं संग्रहसु जेभणी संग्रहनयपूर्वला नय थी विसुद्ध छे ते भणी संग्रहनयनें मते घरादिकने विपे रहतो ऊतो पणि संथाराने विपे  
सुतो ऊतो ज वसे छे इम बोलीये एतले संथाराने विपे सुता विनानिवासनुं अर्थजनघटे जेभणी ते विना चलनादिकियावन्त पणा भी मार्गादिकने  
विपे प्रवर्त्तनानी परे जाणवु अने संथाराने विपे वसतो जेघरादिकने विपे वसतु बोलीये तो अति प्रसङ्ग थाद् सर्वलोकना सर्वठामनें विपे वसवाडुं प्रसंग  
थाद् ते भणी कीर्दे पूछे ए असुको किहां वसे छे तिवार ए संग्रह नयनें मते इम बोलीये जे संथाराने विपे वसे छे अनेरे प्रकारे न बोलीये एभाव तथा  
ते संयारो अनेकठामने विपे ऊद् तेणे सगले मिली एकज संथारो बोलीये जे भणी ए सामान्य वादी छे ते भणी बड वस्तु एहने मते नथी उज्जसुअस्स  
इहां ऋजु सूत्र नय एभाव पूर्वला नय थी विसुद्ध छे ते भणी इम कहे जेतला आकाश प्रदेशनें विपे अथवागो छे तेहजने विपे वसे छे इमबोलीये परं

पुनः टी०

५२०

सुख

आपा

स्वकीयरूपेणा प्रतिभासन प्रसंगो यथादि स स्वारआधाधारस्य स्वरूप सर्वात्मना तत्र हस्त न तद्य तिरैकेणोपलभ्यते एव देवदत्तादिरपि सर्वात्मना तत्रा धीयमानसद्यतिरेकेण नोपलभ्यते अय द्वितीयो विकल्प स्वी कियते तदिं तत्रापि देशेनेन वसितव्य तत्र पुनरपि विकल्पहय कि सर्वात्मना वसति ते देयात्मनायेति सर्वात्मपक्षे देशिनोदेशरूपतापत्ति देयात्मपक्षे उ पुनरुक्ततापि देशेदेशिनावर्ति तस्य तत्र पुनरपि तदेव विकल्पहय तदेवदूषणमित्यनवस्था तत्रात्मवैपि स्वसभाव एव निवसति तत्परित्यागेनान्यत्र निवसे तस्य नि स्वभावता प्रसगादित्यत्र बलभाषितया सेक्तमित्यादि निगमन सेकितंपरएसदि

यवहारस्ववि सगहस्य सधारसमारूढोवसद् उज्जसुअस्य जेसुअगासपएसेसुअोगाढो तेसुवसद् तिएहसद्हनयाणआया भावेवसद् सेत वसहिदिद्वि तैण सेकित पएसदिद्वि तैणर् गौगमोभणद् छयहपएसो तजहा धम्मपएसो अधम्मपएसो आगा

सधाराने विपे वसती न बोलीये जेभणी परमार्थ थी सर्व वस्तु आकाशने विपेज अवगाहे ते भणी जे प्रदेशने विपे सधारो वर्त्ते छे ते प्रदेश सथारेज आशस्या बोलीये ते भणी जेतला प्रदेशने विपे स्वयमेव अवगाह्यु, तेने विपे वसे छे इम बोलीये ते वली वर्त्तमान कालने विपे बोलीये जेभणी अतीताग गतकालना विनशानुत्यन्त्रपणा थी एवने मते ते बिज्ज काल नथी तिएह सद्हनयाण त्रिणि यब्दनयने मते चायभावेवसद् चापया स्वस्वरूपने विपे सर्वे पदाय वसे छे जेभणी अन्यवस्तु अन्यवस्तुने विपे कदापि नवसे ते यब्दनय इसी युक्ति थोले कथो जे अनेरो पदार्थ अनेरा पदार्थने विपे वर्त्ततो छतो किड सय स्वरूपवस्तु अवयवा देग स्वरूपवस्तु इषी लुचाद्य पञ्चग्रहीये तो ते जे आधार थी अनेरो आधिय छे तेचनु आपणे स्वरूपेजगाप णानु अणदेखनु थाइ जिन सस्वारआदिक जे आधार छे तेइसु जेस्वरूपसर्वथा तेइजने विपे रह्यु छे पर तेथी लुचो दीसउ नथी तिमज देवदत्तादिक-







त्येव सर्वस्येव वस्तु सामान्यक्रोडीकृतत्वेनेकत्वादित्यलं प्रसंगेन प्रकृतमुच्यते एवं तदंतं संग्रहं ततोपि निपुणो व्यंगारो भगति यद्गणसि पंचाना प्रदेव इति तन्मभवति न युज्यते कस्माद्यदि यथा पंचानां गोष्ठिकानां किंचित् द्रव्यं सामान्यमेकं भवति तद्यथा हिरण्यवित्याद्येवं यद्वि प्रदेवोपि स्यात्ततो युज्यते वक्तुं पंचानां प्रदेश इति इदमुक्तं भवति यथा केयां चित्पंचानां पुरुषाणां साधारणं किंचिद्विहरण्यादि भवत्येव पंचानामपि धर्माश्रिजायादि द्रव्याणां यद्येकः कश्चिन्साधारण प्रदेशः स्यात्तदेवं वाचो युक्तिर्घटेत नचैतदसि प्रतिद्रव्यं प्रदेशभेदात्तस्यान्नाभाग पंचानां प्रदेशोपित पंचविधः पंच

सि पंचगृहंपएसो तंनभवद् कस्मा जइवहा पंचगृहं गोष्ठिभागं पुरिसागं केइद्वज्जाए सामगो भवद् तंजहा हिरण्येवा सुवस्येवा धणेवा धणेवा तथा पंचगृहंपएसो तंमाभणिहि पंचविहोपएसो भगाहिं पंचविहोपएसो तंजहा धन्मपएसो अ

पांचतुं प्रदेश जे भणी ताहरं कछुं छट्टो प्रदेश घट्टं नथी तद्यथा सुगमं द्विजे ए पाच द्रव्य एने पाच द्रव्यना जे प्रदेश ते इस खाविशुउ संगरु नपज माने जे भणी ते अविशुउ संगहनय अर्थोतर द्रव्य सामानिक माने एने अविशुउ संगरुं नथ तो द्रव्यतु पणा पणु एने प्रदेशनी तल्पनोयं पिउं रस्तु नमाने जे भणी सर्ववस्तुने सामान्य रूपे एक रूप पणुं करी सुं क्युं छे इस भवतां छंता संगरु प्रति तेगोपणि यतिनिपुण व्यपहार भणे छे जे इं भणे छे पांचतु प्रदेश ते न छइ जुडे नही स्या भणी जिम पांच गोष्ठिक पुरुषयतुं कादि एक द्रव्य जात सामान्य एकेठो छइ तद्यथा हिरण्यादि सुगमं तिमज प्रदेशपणि छइ तो इस बीजबु युक्त जेपांचतुं प्रदेश एतने जिम कोइएक पांच जणतुं कादि एक एकठो हिरण्यादिक द्रव्य छइ इस धर्मानिकागठिक पांच द्रव्युं जो कोईएकसा धारण प्रदेश छइ तो एवधन ठाकां मिले परं तिम ठ न थी जे भणी द्रव्यतुं जुज्जो प्रदेश छे ते भणी द्रुममकदि जे पांचतुं

1489 1414 54 10 1510 17 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



प्रदेशो नोस्त्वं धः स्तं धद्रथाणामनंतत्वदि कदेशवर्तिरित्यर्थः एवं वदंतं शब्दनयं नानार्थसमभिरौच्यत्समभिरूढः सप्राह यद्गणसि धर्मः प्रदेशो धर्म इत्यादि तन्न भवति न युज्यते कस्मादित्याह इह खलु द्वौ समासौ भवतस्तथाया तत्पुरुषः कर्मधारयश्च इदमुक्तं भवति धर्मो पणसे सेपएसे धर्मो इत्युक्ते समास द्वयारंभकनाम्यहयमत्र संभाव्यते तथाहि यदि धर्मशब्दात्सप्तमीयंतदा सप्तमीतत्पुरुषस्मारंभकशब्दं वाप्यं यथावनेचसीत्यादि अथवा प्रथमा तदा कर्म धारयस्य यथा नीलसुत्पलमित्यादि ननु यदि वाक्यहयमेवात्र संभाव्यते तर्हि कथं हो समासौ भवत इत्युक्तमुच्यते समासारंभक वाच्ययोः समासोपचारादयवा

सिञ्च खधपएसो एवंति अणवत्याभविस्वद् तंमाभणाहि भद्रयव्वोपएसो भणाहि धर्मो पणसे सेपएसे धर्मो अहस्मोप एसे सेपएसे अहस्मो आगासे पणसे सेपएसे आगासे जीवेपणसे सेपएसे नोखंधे सेपएसे एवंवयंतं सहनयं समभिरूढोभणद् अंभणसि धर्मोपणसे सेपएसे नोखंधे जीवेपणसे सेपएसे

हे ते भणी सकलजीवास्त्रिकायना एक देगने विषे यत्ततो ऊंतो जीवरूप प्रदेश बोलीये जे भणी जे एक जीवरूप प्रदेश ते अनन्त जीवरूप समस्तजीवास्त्रिकायने विषे किमवत्तं एभाव एषं स्तम्बालकप्रदेश तेनोस्तम्ब कहीये जे भणी स्तम्ब द्रव्य अनन्ता हे ते भणी समस्त स्तम्बता एकदेगने विषे वत्तं इत्यर्थः इम बोसतां शब्द नय प्रति समभिरूढ कहे हे जे हं भणौ हे धर्म प्रदेश ते प्रदेश धर्म इत्यादि तेन ऊद् न मिलै कथा इहां खलु निसे दो समास ऊद् तत्पुरुष अने कर्म धारय एतले धर्मो पणसे सेपएसे धर्मो इम कस्ये ऊते समासतुं चारंभणहारं ए वाक्यतुं युगल सम्भाषीयेहे ते किम जो धर्म शब्द आगलि ए सप्तमी विभक्ति हे तो एवाक्य सप्तमी तत्पुरुषतुं चारंभणहारं जाणतुं यथा वने हसीत्यादि अने जो धर्म शब्द आगल प्रथमा

बलवत्साक्षाद्विद्यया समासाप्येतौ मयतो यथाकठे कालद्वत्यादीत्यदोष यदि नाम ही समासावत् भवतस्तत किमित्याह तत्रज्ञायते कतरण समासे ऽ भणसि कि तत्पुरुषेण कर्मधारयेणवा यदि तत्पुरुषेण भणसि तत्रैव भणदोषसभवादितिगोप सचायदोषो धर्म प्रदेय इति भेदापत्तिर्यथा कु उपदराणीति नच प्रदेयप्रदेगिनौ भेदेनोपलभ्येते अथ अभेदेपि सप्तमी इत्येते यथा घटे रूपमित्यादि यदिएष सुभवत् दर्शनाख्ययलक्षणो दोष स्यात् अथ कर्मधारयेण भणसिततो विशेषेण धर्मे असेवएमेयेति धर्म च सप्रदेयश्च इति समानाधिकरण कसधारय एवच सप्तम्याशका भावतो न तत्पुरुषसभ इति भाव आह नन्वयप्रदेय समसादपि धर्माक्षिकायाद्व्यतिरिक्त सन् समानाधिकरणतया निर्दिश्यते तत तदेकदेयत्वमिति सन् यथाकीयास्त्रिकायेकदेयत्वमिति

धे ततभनद् कश्चा इत्यखलुदोसमासाभवति तत्रहा तत्पूरिसेश्च कसधारएश्च तणज्जद् कयरेणसमासेगं भणसि कित प्पूरिसेण किकसधारएणजद् तत्पूरिसेण भणसि तोमाएवभणाहि अहकसधारएणभणसि तोविसेसञ्चो भणाहि धक्सेञ्च

विभक्ति छे तो तत्पुरुष नकि किन्तु कर्मधारय समासश्च आरभणशरो एवाप्य छे यथा धवलो हृषभ इत्यादि इशां प्रेरक बोल्य, भगवन् जो पूजा याप्य दो मग्न्यावीये तो समास दोद् इद् इम कांक्ष्यो गुरु बोल्या समासना आरभक वाक्यने विपे समासना उपचारना करवा छ्द ती इम कश्चु अथवा अलक समासनी विषयाद् समास पिण ए दो छद् यथा कण्ठे काल इत्यादि अथ जो इशां समास वेछद् तो स्यु तेकहेछे तणज्जद् तणे ते भणी नथी जाणीतो कोणसमासे द्व बोले छे स्यु जाणीये तत्पुरुषे बोले छे जो तत्पुरुष कहेछे तो इम कश्चिये ए दोय ए श्रेय वचा धर्मे प्रदेय इम कश्चता छ्द ता धर्मथो प्रदेय जूषो याद् यथा कुण्डे बदराणीत्यादि अने प्रदेय अने प्रदेयो जो

सर्वत्रान्वयः सर्वत्रान्वयः सर्वत्रान्वयः

प्रदेश इत्यायं क्वाह मेसेपए सेधस्मे त्त सधप्रदेयः सकलधर्मास्तिकायादि व्यतिरिक्तोन पुनमादेः ऋदेगृत्तिरित्यर्थः गोपभावना प्रपत्तु नेपएसेनोजीविसेपएसे नोखंधित्यापि पूर्ववदेवार्थकथनं एवं वदंतं समभिरूढं सांप्रतमेवं भूतो भणति यद्यधर्मास्ति तायादिकं वस्तु भणसि तस्यैवं समस्तं कृतत्वं देय प्रदेश कल्पना रचितं प्रतिपूर्णां आत्मस्वरूपेणाविवक्षलं निरवगोपं तदेयैकत्वान्निरयद्यवं एक ग्रहणगृहीतं एकाभिधानाभिधेयं नामानित्यो कस्मिन् धेनेच्छति अभिधान

सेपएसेअ मेसेपएसेधस्मे अहस्मे अ सेपएसेअ मेसेपएसेअहस्मे आगासेअ सेपएसेअ सेसेपएसे जौविअसेपएसेअ  
मेसेपएसे नोजीवे खंधेअसेपएसेअ मेसेपएसे नोखंधे एवंवयंतं समभिरूढं संपद्रएवंभूत्रोभगद्र जंजंभणसि तं तंसव्वकसिणं

भेद रूप ऊद्र तो ए समास मिले ते तो नथी एभाव यवकदाचि इसकचे अमेदने विपे पणि सप्तमी दीसे छे यवा घटे रूपमित्यादि तो विद्धं भेदने विपे सप्तमीना दीसवा थी संगयरूप दोप ऊपजे ते भणी तत्यु द्यसमास दोप जांणदु अथ जो कर्मधारये कहे छे तो विगोप थी कचि यथाधम्ये असेपए सेअ धर्मच सप्रदेश्य स इति समानाधिकरण कर्मधारयसमास ऊद्र इस कहतां सप्तमी गंकाना अभायवी तत्पुरुषसुं सम्भय न ऊद्र एभाव इहां प्रेरक बोल्यो भगवन् प्रदेश समस्त धर्मास्तिकाय थी जूओ अण इंतो समानाधिकरण पणें बोलीये अथवा तेउना एक देगने विपे वर्त्ततो ऊंतो जिम जीवा स्तिकायना एकदेगने विपे वर्त्ततो जीय प्रदेश कहीये इस गियनो प्रेरणा आसंकीने कचे छे मेसेपएसेधम्ये माहरे मते ते प्रदेश धर्मास्तिकाय एतले तेप्रदेश सकल धर्मास्तिकाय थी जूओ परं तेउना देश थी जओ भथी इत्यर्थः एवं गोप पूर्ववत् तथा मेसेपएसे नोजीये मेसेपएसे नोखंधे अर्थतयैव अथ इस कहता समभिरूढ प्रते च्छिवे एवंभूत कहे छे जेजे धर्मास्तिकायादिस यस्तुं भणे छे तेते सर्वसमना कृतत्स कर्त्तां देग प्रदेशनी कल्पना रचित तथा

भेदे यस्तु भेदाभ्युपमात् तदेव भततद्व्यर्थासिकायादिक वस्तु भण नत प्रदेशादिरूपतया यतो देशप्रदेशी समामदेशी यस्तु भूतो अखण्डस्यैव यस्तु न सत्वेनापमात् तथाच प्रदेशे प्रदेशिनो भेदो भेदो वा यदि प्रथमं पक्षं तर्हि भेदे नोपखण्डिप्रसंगोप तयोपलब्धिरिति अथाभेदसार्धिधर्म प्रदेशे शब्दयो पर्याय तेषामा एकार्थ विषयत्वाच्च पर्यायशब्दयोर्गुण पदुच्चारण युज्यते एकैव तदर्थप्रतिपादने द्वितीयस्य वैयर्थ्यात्प्रादेकाभिधानाभिधेय परिपूर्णमेकमेवा स्त्विति तदेवमेते निजनिवार्यं सत्यता प्रतिपादनपराविप्रतिपद्यतेनया एतेषु परस्पर निरपेक्षादुर्नया सौमतादि समवयव परस्परसामेक्षास्तु सुनया तैदवरस्परसामेक्षे समुद्दिष्टैरेवसपूर्णनिन मत भवति नैकैकावस्थायां लक्ष वस्तुति कारणे लक्षधा विषयवर्षसिधय समुद्दीणास्त्वयिनाय दृश्य नक्षतासुभयान् प्रत्यक्षे प्रविभक्त्यासुसरित्स्विबोदधि । एतेव नयानानरूपास्तौ जीवगुणत्वेन यद्यपि गुणप्रमाणे तर्भवति तथापि प्रत्यक्षादि प्रमाणे श्योनयरूपतामात्रेण

पडिपुण निरवसेस एगगहणगहित देसे विसेञ्जन्यु पएसे विसेञ्जवत्य सेत नयप्पमाणे सेकित सख

प्रतिपूर्णं कृता आत्मस्वरूपे अविकल एतले आत्मस्वरूप समुक्त तथा निरयगेप तेष्वा एकपणा इती अथयव रक्षित तथा एका ग्रहण प्रणीत कृता एका नामे यो लणीक वस्तु पर एतेक नामे बालणीक नयी जे भणी एवस्तुना घणा नाम न माने एते नाम भेदे बलानो भेद माने ते भणी एवमु धर्मोक्षिका यादिक वस्तु भणी देश प्रदेश रूप यणे साभणि जे भणी देशपणि माहरे अथस्तु एते प्रदेश पणि माहरे अयस्तु रूपे अखण्ड वस्तु ता कृता पणा ना मानवाणी ते किम प्रदेश एते प्रदेशिनो भेद ए किवा एकल एते दूषा जो प्रथम पक्ष ग्रहीये तोते पिड नो जूषा भेद रूप दीसयो याइ तेते भेदरूप दीसवु दी सत नयी अथ जो बीजो अभेद रूप पक्ष ग्रहीये तो धर्म शब्दने एते प्रदेश शब्दने पयाय शब्द पणो पांस्यो जे भणी पिड शब्दे करी एकज एयं नीलीये एते पयाय शब्द पिडिनो तो लचरयु समकाले युक्ति सु मिते नही जे भणी एके शब्दे ज एयं ना नालशा थी बीजा शब्दगु निरर्थक पणु याइ



पृथग्व्यसिद्धत्वाद्भविविचारविषयत्वाच्चिनागमे प्रतिस्थानसुपयोगित्वाच्चगुण प्रमाणाः पृथगुक्ताः तदेतत्प्रदेशे दृष्टान्तेनेति निगमनं प्रत्येकादि दृष्टातत्रयैरेव नय  
प्रमाणं प्रतिपाद्योप संहरति तदेतन्नय प्रमाणमिति अनेन च दृष्टान्तत्रयेण दिग्मातृदर्शनमेवं दत्तं यावता यत्किमपि जीवादिवस्त्वस्ति तत्र सर्वतनयविचारः  
प्रवर्तते इत्यलं बल्लजल्यतेनेति इतः क्रमप्राप्तं संख्या प्रमाणं विवरीपुराह सेकितं संख्याप्रमाणे संख्याप्रमाणे अदृविहेपणते तंजहा नामसंख्या इत्यादि

**प्रमाणेषु अदृविहे पणते तंजहा नामसंख्या ठवणासंख्या उवम्नासंख्या परिमाणसंख्या जाणणा संख्या**

ते भगी एक नामे नीलगीक वस्तु एकजयुक्ति सुंभिल्युं ह्वि इम एसात नय आपापणा अर्थनें सत्यपणु मानता वीजा नयना अर्थ असत्यपणुं मानता  
विपरीत पण वस्तु माने तथा ए नय परस्पर निरपेक्ष ऊं ता दुर्णय कहतां दुष्टनय ऊं इवौद्व ग्रहीत ऋजुसूत्रादिनयवत् अनें परस्परसापेक्ष छतां  
सुनय ऊं इ एतले सर्वं नय एकट्टे मिलवे करी संपूर्णं श्रीजिनमत ऊं इ परं एकेका नयनी अयस्थाये श्रीजिनमार्गन ऊं इ किन्तु मिथ्यावीरुं मत ऊं इ उक्तं  
च सु त्तिकारिण उदधविवसर्वसिन्धवः ससुदीर्णा ख्वयि नाथ दृष्टयः नच तासु भवान् प्रहस्यते प्रविभक्तसु सरित्स्त्रिवोदधिः १ व्याख्या हे नाथ जिन ससुद  
नें विपे सर्वं नदी एकठी याइ तिम तुम्हारा मतनें विपे सर्वं नय एकठा याइ परं तुम्हाहं मत कोइ नय मांदि जई एकठो न याइ जिन कोइ नदी  
मध्ये ससुद एकठो न याइ एतले सर्वदर्शनीना मत श्रीवीतरागना मतनें विपे हे परं श्रीवीतरागनो मत कोइ दर्शनीना मतने विपे नथी इति काव्यार्थः  
ह्वि नयनी विचार अति घणू हे ते चडया अनुयोग द्वार मध्ये कहीसे इहां दृष्टान्त मातज नयनी विचार कखु हे तथा ए नयती ज्ञान रूप हे तेभगी  
अतिघणा विचारनी विषय हे एहने विपे अने ठामर एहनुं कार्य ऊपजे ते भगी गुण प्रमाण थी नयप्रमाण पणे ज्ञान एनय कखा तथा ए  
त्रिणि दृष्टतै करी नयनी विचार दिधि देखाडना मात कखुं परं जे कांइ जीवादिक वस्तु हे ते सर्व वस्तुने विपे इमज नय विचार प्रवर्तते इम

सत्यान सत्या सत्यायतेऽनयेति वासत्यासैवप्रमाण सत्याप्रमाण इहसत्याशब्देनसाध्याय व्ययोर्ह्योरपि ग्रहणइष्ट्य प्राकृतमधिल्लत्यसमानयब्दाभिधेयत्वात्  
 गोशब्देन पशुभूस्यादिवत् एष च गोशब्द पशुभूस्यपुंसवादिगर्थ प्रयोगवान् मत्प्रयोगे ह्यथ तु यज्वस्वर्गाभिधायक एवमिहापि सत्यायत्वात् प्रतीयते  
 ततोहयस्यापि ग्रहण एष च नामस्थापना इत्यादि विचारे प्रकृति सत्या शब्दावायत् घटते तत्र प्रसावज्ञेनस्वयमेव योज्यमिति सेकित नामसखेइत्यादि संघ  
 पूर्वाभिहित नामावयवकादि विचारात्सुभारत स्वयमेव भावनीय यावत् जाणयसरीरभविषसरीरवद्भरिते द्यसखेतिविशेषव्रत्ते इत्यादि इह योजीषो यत्वा

गणगासखा भावसंख्या सेकित नामसखा २ जस्वणजीवश्चवा जाव सेत नामसखा सेकित ठवणसखा जग कठुकम्मे वा  
 पोत्यकम्मे वा जावसेतठवणसखा नामठवणान कोपद्भविसेसो नामपाएणं आवकहिय ठवणा इत्तरियाहोब्जा आव

प्रस्यकादिक तिणि दृष्टान्तो करो नय प्रमाण यथाणीने शिषे समाप्ति कचे छे सेत तेप्रदेशने दृष्टान्ते करो सेत तेएनय प्रमाण अथ सज्ञाप्रमाणाविवरे  
 छे सेकित अय किउ ते सज्ञा प्रमाण उत्तर तिषां सज्ञा कचता गणयु अथवा जेणै करो गणीये ते सत्या तेरज जे प्रमाण ते सज्ञा प्रमाण ते अष्ट  
 भेदे प्रकयु सुगम इषां सत्या अने यद्धहीन्दिय जीव एविद्धनो ग्रहण जाणयु जे भणी प्राकृत भाषाद् एकज सरिया पिशब्दना जिम एक विषयसु  
 कोने जिम एक गो शब्द पश्यादिक अनेक अर्थ बोले एत च गो शब्द पशु भूम्यशुवादिगर्थ प्रयोगवान् मन्दप्रयोगेह्यसु वज्जस्वर्गाभिधायिक पूम इहा  
 पणि ससादसी प्राकृतभाषाद् सत्या अने सखविद्धे इ लेषा तेभणी नामादिक विचारने विषे सज्ञा अने सखले निशा घटे ते तिशा लेवु तिषां नामा  
 दिक् सखनामावयवकादिवत् जाव जाणयशरीर भविषसरीरवद्भरिते द्यसखे तिविहे प त जे जीवमरीने अततर आगिला भवने विषे यत्ते छे तेर

सुतव्याजानरक्षितोपमनामनाम

सुतव्याजानरक्षितोपमनामनाम

नंतरभवेगंखेपु उत्यप्रते सतेष्ववद्वायुष्कोपि जन्नादिनादारस्य एव भविकः सशंखउच्यते यत भवे वर्त्तते स एवेको भवः शंखेषूत्यत्ते रंतरेऽस्तीति क्त्वा एवं शंखपायोग्यं बहुमायुष्कं येन सवद्वायुष्कः शंखभवप्राप्ताना जंतूना येऽवश्यं उदयमागच्छं तस्तेहौद्रिय जात्यादि नीचेर्गोवाख्ये भिसुखेजघन्यतः समयेनोत् हटतेतमुहूर्त्तं मातृ शैवव्यवधानात् उभयाभिसुख्यप्रप्ते नामगोत्रे कर्मणीयस्य सोभिसुखनामगोत्रः तदेष्टत्विविधोपि भावः शंखताकारणत्वात् जाणशरीर भय्यशरीर व्यतिरिक्तो द्रव्यशंखः उच्यते यदेवं द्विभक्तित्त्विक चतुर्भक्तिकादिरपि कस्याब्देत्य व्यपदिश्यत इति चेन्नैवं तस्याति व्यवहितत्वेन भावकारणताऽनभ्युपगमात् तत्कारणस्यैव द्रव्यत्वादिदानौ त्रिविधस्यपि शंखं कालतः क्रमेण निरूपयन्नाह एकभविष्येणं भंते इत्यादि एक भविकः शंखोभ

कहियावाहोज्जा सेकितं द्रव्यसंखा २ दुविहा पणत्ता तंजहा आगमओय नोआगमओय जाव सेकितं जाणयसरीर भविअसरीरवरित्ता द्रव्यसंखा २ त्रिविहा पणत्ता तंजहा एगमविए बद्वाउए णारुगोत्तेअ एगमविएणंभंते एगमवि

एहज एकज भव शंखना शंखने विषे उपजस्ये तेजीव तेसंखनिमित्त आउखानो अणवाधणशारी पणि जन्नादि आरंभाने एक भविक संख कहीवे जेभवने विषे वर्त्ते छे तेहज एकज भवशंखनी उत्पत्तिना अन्तरने विषे छे ते भणी तथा शंखप्रायोग्य वाधोछे आजपुं जेणै तेवद्वायुष्क अने शंखना भवने विषे पुहता जीवने जे अवश्य उदय आवे ते हीन्द्रिय जात्यादिक अने नीचैर्गोत्ररूप अभिसुखकहतां जघन्य एकसमय उत्कष्ट अंतसुहूर्त्तं मातृ प्रणा थी पक्षी उभयाभिसुख पुहतांके नामगोलकर्म जेहना तेअभिसुखनामगोत्र ते एतद्विषय शंखभाव शंखना कारणप्रणा थी जाणशरीर भय्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य शंख कहीये इहा कीई इम कहे जो इम तो द्विभक्त त्रिभक्तिकादिक पणि उभय व्यतिरिक्त द्रव्य शंखका न कहीये इहा उत्तर इम नही जेभणी

रय धनपणविना वारुदिरजा अनाम संयुध भान ४४मा

दत्त एक भविक इति व्यपदिश्यते इति व्यपदेशेन कालत किञ्चिद् भवतीत्यतोत्तर जह्येणमित्यादि प्रदस्यत भवति पृथिव्याद्यन्यतरभवेन्तसुं ऊर्ध्वं जीवि त्वाद्योत्तरगच्छेत्पृथग्गते सोऽन्तसुं शर्त्तमेक भविक शब्धो भवति यस्मत्स्याद्यन्यतमभयेपूज्य कोटो जीवत्यै तेषुत्वद्यते तस्य पूर्वकोटिरेक भविकत्वे लभ्यते अत्रचातसुं हत्तादपि हीन जलनामादुरेव नास्तीति जघन्यपदेऽन्तसुं हर्त्तं ग्रहण यस्तु पूर्वकोट्यधिकारुक्त्य सोऽसत्स्यातययायुक्त्यादेवेष्वेवोत्पद्यते न ग्रहे खित्युत्कृष्टपदे पूर्वकोट्युपादान आर्युर्वषध प्राणिनोऽसुभूयमानायुषो जघन्यतोन्तसुं हर्त्तं शेष एव कुर्वत्युत्कृष्टतस्तु पूर्वकोटि त्रिभाग एव नपरत इतिवद्यद्यु

एति काकश्रोक्विविरहोद्ग्र जह्येण अतोमुद्धत उक्कोसेणपुव्वकोडी वद्वाउएगभते वद्वाउएगति कालश्रो क्विवचिरहोद्ग्र जह्येण अतोमुद्धत उक्कोसेण पुव्वकोडोतिभाग अभिसुहनामगोएति कालश्रोक्विवचिरं

नेतिभाविकादिक्नेपणा भवना आतरापणा ऊती भायतु कारणणु नथी अने ते भावतु कारणजद्रव्य थाद्द तेभणी षिये एतिविधगण काल थी देखाडे ऐ एक भविक गख भदत एख भविक एउवे नामे काल थी केतलु काल रते इहा उत्तर जहखेण पूषा एभाय पृथ्व्यादित अनेरा भवने षिये अतसुं ऊर्ध्वं जीवीने जे निरतर आगला भवने षिये जपजे ते अतसुं हर्त्तं एक अधिकगख ऊद्ग्र अने जे मसादित अनेरा भवने षिये पूर्वकोटि जीवीने ते गखने षिये जपजे ते पूर्वकोटि एक भविक गख इद्ग्र इडां अतसुं ऊर्ध्वं थी हीणो जीवनो आउखो नथी ते भणी जघन्य पदने षिये अतसुं हर्त्तं गस्तु अने जे पूर्व कोटि थी अधिकारपयत ते तो अस्मिन्नेय वर्षायुक्तपणा थी देखजऊद्ग्र पर ग्रहणथाद्द ते भणी उत्कृष्टपदने षिये पूर्वकोटि ग्रही शेष तथैव नवर आउखो गोवध ते सर्वजीव भोगशीता आऊखाने जघन्यतो अतसुं हर्त्तं शेषथाक्तेण करै अने उत्कृष्टतो पूर्वकोटिने तीजैभागे बध करे ते भणी बहुउत्कृष्टु

ष्वस्य जषन्यतोऽन्तमुं ह्रत्तं सुत्कृतः पूर्वकोटीविभाग उक्तः आभिसुखं चासन्नतायां सत्यामुपपद्यते अतोऽभिसुख नामगोत्रस्य जषन्यतः समय उत्कृतस्त  
 त्तमुं ह्रत्तं काल उक्तः यथोक्तकालात्परतस्त्रयोपि भावशंखतां प्रतिपद्यत इति भावः इदानीं नैगमादिनयानां मध्ये कोनयो यथोक्त त्रिविधशंखस्य मध्ये कं  
 शंखमिच्छतीति विचार्यते तत्र नैगमसंग्रह व्यवहाराः सू लृष्टित्वात्रिविधमपिशंखमिच्छंति इत्येते हि 'स्यू लृष्टयाकारणे कार्योपचारं कृत्वा इत्वं व्यपदेश्य

होइ जहन्नेणं एकं समयं उक्कोसेणं अंतोसुद्धत्तं इन्द्राणि को णउ कसंखंदृच्छइ तत्थणेगमसंगह ववहारा ति विहंसं  
 खंदृच्छइ तंजहा एगभविअं बद्धाउअं अभिसुहनामगोत्तं च उज्जु सुओ दुविहं संखंदृच्छइ तंजहा बद्धाउअंच अभिसु

जषन्य अंतमुं ह्रत्तं उत्कृत पूर्वकोटि विभाग बोल्यु अने अभिसुखपणुं तो ढु कडापणो छे तेजमिले तेभणी अभिसुखनाम गोतनुं जषन्यथी एक समय  
 अने उत्कृत थी अन्तमुं ह्रत्तं बोल्यु यथोक्त काल पणा थी त्रिणई भावशंखपणुं पासे इहां नवमा निक्कव कहेछे अवाद्वाउपाना जीवनुं आगला भवनी  
 निर्णय केवली नकरे ते निराकस्या ते भणी जो निर्णय न जाणे तो जमी तो अथइ आजखायालो जीव एक भविक संख किम जाखो अने तेरुनी  
 स्थिति किम जाणीये कोणउ कं संखंदृच्छइ हिवे नैगमादिक नय मध्ये कुण नय त्रिविध शंख मध्ये किस्या शंखने बांके नामे' ते विचारीये छे तिहां  
 नैगम संग्रह व्यवहार ए त्रिणि नय सू लृष्टही पणा थी त्रिविधशंखने वाछे मानि तद्यथा एक भविक वहायुक्क अने अभिसुखनाम गोत इम दीसे पणि छे  
 जे कारणने विषे कार्यनो उपचार करीने इम बोलवानी प्रवृत्ति छे जिस राज्य योग्य कुमारने राजा शब्दे बोलवानी प्रवृत्तिह्हे तथा घट प्रचेपवा योग्य  
 घट कीधुं छइ अने अने घट घाल्योन छइ तोपणि इम कहवानी प्रवृत्ति छे जे घडो घी नो छे तथा षडजस्तनय एथी विशुद्ध छे ते भणी प्रथमजे एत

रिवा ११ (१०) ४ भाषाखरनी भाषा संयस मीना ४४५

प्रवृत्तयेयाराज्याचक्रुमादि राजाशब्दस्य वृत्तप्रत्ययेयोर्ये षटे वृत्तषट्शब्दस्येत्यादि अङ्गुल्य एव्योविशुद्धत्वात्प्राप्त्याति व्यभिचित्वेनाति प्रसङ्गभयाद्विषयमेवे  
 ष्कति शब्दादयस्तुविशुद्धतरादितीवस्यपति व्यभिक्त मन्थ ते षतोति प्रसङ्गनिवृत्त्ययेमेकस्वरममेवेच्छति सेप्तमित्यादि निगमन सेकित उग्रमसले  
 त्यादि रुष्यान् मत्यापरिच्छेदो वस्तुनिर्णय इत्यर्थ उपम्ये न उपमा प्रधाना सख्याउपम्यसख्या इयचोपमानापमेययो सत्वासत्वाभ्यां चठवां तद्वया  
 सतयसतएणमित्यादि तत्र प्रथमभगेतीर्थकारादे रपमेयस्य क्षणटादिना उपमानेन स्वरूपं सख्यायते निवीयते इत्योपम्यसख्यात्वभावभायनीय यय तीर्थ

हनामगोत्त च त्रिगुसद्गुण्या अभिसुहनामगोत्तं सखदृच्छइ सेत काणियसरोर भविश्रसरीर वद्वरिसादृश्वसखा सेत  
 नो आगमउद्वसखा सेत दृश्वसखा सेकितं उयम्सखाइ चउबिहा पणत्ता तंजहा अत्रियसतय सतएण उवमिज्जइ  
 अत्रियसतय असतएण उवमिज्जइ अत्रियश्रसतय सतएण उवमिज्जइ अत्रियश्रसंतय अश्रंतयेण उवमिज्जइ तत्यसतय

अधिक गङ्गा ते भाव शय रूपकार्यं यो षण्ये षांतरे षतिवेगलोहे ते भणी तेचने जो भावयंषव कारणमानीये तोषतिप्रसङ्गदोष अभिसुषणाम गोत्त वने  
 त्रिणि यद नय ते इ ती पिण अतिविशुद्ध छे ते भणी बीजो दृश्यसखतु भेदवद्वायुत्क अने रूपपणि षति अन्तरपण्याथी अकारणरूपमाने ते भणी ते  
 त्रिणि शब्दनय अतिप्रसङ्गनी निवृत्तिने अर्थे एकं चरम दृश्य सखने माने यद्यपि एनय त्रिणि भावने माने दृश्यने माने नही तथापि पूर्वनयना सपिच  
 पणा थी कार्यने द, कटु प्रथम कालभावी कारण रूप दृश्य प्रमाण कारे ते भणी इम कर्तुं जे अभिसुषणाम गोत्तगर्थमाने सेतं समाप्तहय सेकित अय  
 किस ते उपम्यसख्या उत्तर तिहां सख्या तेयस्तुव निर्णय पछे उपमानये करी औपम्य प्रवान जेसख्या ते औपम्यसख्या ते उपमान उपमेयना कता अछताप

अथ टी.  
 ५५२  
 चय  
 भाषा

कराः स्वरूपतो निश्चिता भवन्ति तस्यपुरवरकपाटोपमयज्ञसोनागर परिषोपमवाह्वशोभयन्तीत्याद्युपमयात्स्वरूपनिश्चयस्योत्पाद्यमानत्वादिति भावः द्वितीयभंगेपल्योपमसागरोपमानां योजन प्रमाणपल्यबालाग्रादिकल्पनामात्रेण प्रकृतितत्त्वादसत्वमवसेयं उपमानताधियाभेतम्प्राज्ञा नारकाद्यायुर्मरुत्वसाधनादिति तृतीयभंगेपरिष्कारियेपरंतमित्यादि गाथा तत्रयसंतसमये परिशीर्णं पर्यंतंस्वरपरिपाकत एव प्रचलहंतं वृत्त्यात्पराद्, सुख्यत्वं गाथां भवतीति संबंधः परिष्णतत्वादेवनिः स्त्रीरं वृत्त्वबिबोनादिलक्षणव्यसनप्राप्तं कालप्राप्तं विनाशकालप्राप्तमिति तामेवगाथामाशु जडतुम्भे इत्यादि वृत्त्यात्पतता

संतयेणं उवमिज्जद् जज्ञासंता अरिहंता संतएहिं पुरवरहिं संतएहिं कवाडेहिं संतएहिं वत्येहिं उवमिज्जद् तंजहा पुरवरकवाडवत्या फलिहभुआदं दुहित्यणिअघोसा सिरिवत्यकिअवत्या सव्वेविजिणा वउओसं १ संतंअसंतएणं उवमिज्जद् जहा संताद् नेरद् अतिरिक्खजोणिअ मणुस्स देवाणंआउआणं असंतएहिं पलिउवम सागरोपमेहिं उवमिज्जद् असंतयंसंतएणंउ० तं परिजूरिअपेरंतं चलंतविंटंपंडंतनित्योरं पसंतंअवससपसंतं कालपसंतंभणद्गाहं १ जहत्तुम्भेतह

गाथी चतुर्विध प्रकृपी तद्यथा अत्यसंतयं संतएणं उवमिज्जद् इत्थादि इत्थां एभाय तिहां प्रथम श्रुतीर्थिकरादिक उपमेगनो स्वरूप पुरवरकपाटादिकनेउपमाने करी सह्या करीये निर्णय करीये इत्यर्थः इम औपम्य सह्यापणुं भावुं जेभणी जेणे अजिनना हृदय स्वरूप ज्ञाप्य, नज्जद् तेजेणं पुरवरकपाटोपमाये करी हृदयना स्वरूपतुं निर्णय करु, जाइ एभाव एतले छता भावनी ओपमाये ज्ञाप्यो जाइ १ तथा बीजा भागाने विषे पल्योपम सागरोपमना योजप्रमाण पल्लना बालाग्रादिकने कल्पनामात्रे करी प्रकृपवा पणा ज्जंती अजता पणुं जाणुं अने नारकादिकना कारण ज्जंती एइने उपमानपणुं

केनविज्जीषपते ष्यकिगलयानात्रियोलोक्त कितदुष्यते ऋणुत भोसप्तच्छत्कोमल पत्र विघेपक्याणि किगलयान्यवहितानि भूत्वा हृद्यात्पतनक्षुजण पांडुपत  
 युष्माकं अप्याहेइ इति कथयति किमित्याह जइतुम्ने तइअहेति पुष्पवदभिनवस्त्रिगधांतीनिकसनीय कामिनी करतलस्ययलक्ष्मीकानि सकलजनमनोने  
 तानददायीनि सांप्रत भवति हस्यते तथा वयमपिपूर्वमाखेति क्रियाध्याहार यथाच परिजीर्णपर्यतादि स्वरूपाणि सांप्रत यव वत्तमिडि यूयमपि  
 निवित कालेन तथा भविष्य इति नकाचित्ससम्बद्धौ गवसव्हि परासव्हो उ हेलामतिविधेया अनित्यत्वाच्चक्षुज सबधानामितिभाव नन्वलौकिक  
 अम्हे तुम्हेविअहोहिआजहाअम्हे अप्याहेइपडत पडुअप्रत्त किसलयारण २ णविअत्रियणविअहोइ उद्धावो किसलयपडु

जाणु २ तथा तीजा भांगने विघे परिजूरिषगाशा काणान्तरने विघे परिजीर्णपयन्त अत्यन्त जूनापणाने खेरुडे पु इतो यथा आपणा परपाक यो ज  
 प्रचलरु त विट यी चलरु उरु तथा पंडत हच यी पडत पानडु गाथा भणे छे एसम्बन्ध केइडु ते पानडु निजोर अतिराकाना परिणामपणा उती  
 दूधरहित वलौ केइडु व्यसन प्राप्त हृद्यविद्योगादिक रूपकथ्याम्बु तथा विनाय कालपाम्बु काल प्राप्त इति गायार्थ दिवे तेरुज गाय्या कहेछे जइ तुम्  
 गाथा इहा इहा इहा पडते केणे एके जीर्ण पते किसलय प्रति कणु अहो कुपखीउ तुम्हे सावधान यई सांभलो सुम्करूपपाडु पत्र तुम्हने अप्याहेइ कहेछे  
 ते किडु जिम तुम्हे विषदां पुष्पनी परे अभिनव स्त्रिगधांति रूप अने स्त्रीना करतलसरीपी अति कुवकी तथा सर्पलोकना मनने अने नेतने शानन्द  
 नीदेणशरी दीसेखो तिम अम्हे पणि पूर्व इम जइता इम क्रिया सन्ध अने जिम अन्हे पर्यतादि स्वरूप डिडडा यत्तां छां तिम तुम्हे पणि निखय थी  
 काले यास्यो तेमणी आपणी सव्हि देखी गर्वन करडु अने परनी असव्हि देखी खेलान करवी एभाव इति गायार्थ दिवे एतो नौकिक यार्त्तहि जेपान  
 अपरस्पर बोले ते सत्य नही ते कहीयेछे णवि अचियाचा सुगम नवर हृद्याना पतनी सव्हि अने असव्हिने सांमखेपे करी अनित्य पणानु जाणपणु

अपु टी० ५५५ सुत भाषा

अपु टी० ५५५ सुत भाषा



मिहं यत्प्रवाणि परस्परं जल्पंति सत्यमित्याह नविभ्रमित्याहा सुगमा नवरं वृक्षपत्रसम्बद्धा सप्तद्वि अथगतौ नित्यतावगमन भव्याना सासारिक सप्तद्विउ  
निर्वेदो यथास्यादित्यसङ्गूतोपि पत्राणामिच्छालाप उक्त इति भावः तदेवं जहत्तुभेतत्सङ्गहे इत्यतः किञ्चलयपत्रावस्थया पांडुपत्रावस्था उपमीयते एवं चाप  
मानभूतक्रियणयपत्रावस्थया तत्कालाभावितात्पत्नी पांडुपत्राणासुपमेय भूतासावस्थाभूतपूर्वात्वादसती तुभेवियहोचिदो इत्यादौ त पांडुपत्रावस्थया किञ्चलय  
पत्रावस्था उपमीयते तत्राप्युपमानभूता पांडुपत्रावस्थया तत्कालाभयोर्गितात्पत्नी किञ्चलयपत्रावस्थया तत्कालाभयोर्गितात्पत्नी इति वादसती इति वादसती  
सोयत इति तत्रैव भंगविषयता संगच्छते सुधियातुयदिषटते तथान्वयपि सावायेति चतुर्थं भंगे असंतयं असांतएणेत्यादि यथाखरत्रिपाशाणमभावरूपं

पत्राणं उवमाखलएसकया भविअजण विवोहणट्टाएइ असंतयंअसंतएहिं उवमिज्जइ अहाखरविसाणं तहाससविसाणं  
सेतं उवमासंखाइ सेकिंतं परिमाणसंखाइ दुविहा पणत्ता तं कालिअसुअपरिमाणसंखा दिट्ठिवायसुअपरिमाणसंखाय

जपजे अने भव्य जीवने संसारिक सच्चिने विषे जिम निर्वेदेषुं जपजे तेभणी अणुं तो पणिपत्रनो आलाप इहां बोल्य, एभाव तेइम जह तुभे तउ  
अण्हे इहां किञ्चलयपत्रनी अवस्थायें करी पांडुपत्रनी अवस्था उपमाइ तिहां उपमानभूत किञ्चलय पत्रनी अवस्था तेकालनें विषे छती छे अने पांडु पत्र  
नें उपमेयभूत अवस्था अतीत काले यई वर्तमानकाले नथी तथा तुभे विषयोहियाजहाअण्हे इहां पांडु पत्रनी अवस्थाइ करी किञ्चलय पत्रनी अवस्था  
उपमाइ तिहां पणि ओपमानभूत पांडु पत्रनी अवस्था तेकालनें विषे छती छे अने किञ्चलय इलने ते उपमेयभूतावस्था पाणामी काले उइस्ये वर्तमान का  
लेनथी तेभणी अछती उपमा जाणवी इम तीजा भांगसुं विषयपणुं अइ अथ चतुर्थी भांगाने विषे जिम गरइणं अभाव रूप तीतहे तिमगगस्युगपणि

प्रतीत तथागगविषण्णमभावरूप निचे तथ्य वयावायगविषण्णमभावरूप निश्चितमित्यमितरदपि आतव्यमिति भाष्य एव षोपमानोपमेययोरसत्त्व  
 स्फुटमेवेति सेकित परिमाणसत्त्वा इत्यादि सख्यायते अनयेति सख्या परिमाण पर्यवादि तद्वृत्तसख्यापरिमाणसत्त्वा साचकालिकश्रुतदृष्टिवादविप  
 चानेन द्विविधा तत्र कालिकश्रुत परिमाणसत्त्वायां पर्यवसत्त्वा इत्यादि पर्यवादिरूपेण परिमाणविशेषेण कालिक श्रुतसख्यायत इति भाष्यरात्र  
 पर्यवा पर्याया धर्मा इति यावत् तद्रूपा सख्यापर्यवसत्त्वा सा च कालिकश्रुते अनत पर्यायात्मिका द्रष्टव्या एकैकस्याप्यकाराद्यपरस्य तदभिधे  
 यस्य च जीवादि वस्तुन प्रत्येकमनते पर्यायत्वात् एवमन्यत्वापि भाष्यनाकार्यो नवर सखेयाव्यकाराद्यन्तराणि द्वाद्यन्तरसयोगरूपसखेया सवा

सेकित कालिअसुअ परिमाणसखाअश्रणेगविहा प्रखत्ता तजहापिपज्जवसखा अक्खररखा सवायसखा पयसखा पायस  
 खा गाहासखा सिलोगसखा वेढसंखा निक्कुत्तिसखा अणुश्रोगदारसखा उहेससखा अन्नकयणसहुा सुअखुधसखा अ

अभाव रूप निश्चय करतु अयवा निम शयान्मगभाव रूपलेतिम वर ग्द गपणि अभाव रूपले इम कश्चता उपमान अने उपमेय विड तु अण्णता पणु  
 ययु सत सम त्ति सेकित अय किड तेपरिमाण सख्या उत्तर इणाजेणे करी सख्या करीये अने परिमाण कश्चतां पर्यवादिमरूपजे सख्या  
 तेपरिमाणसख्या तेपरिमाणविशेषे करी कालिकश्रुतादिकनी सख्याकरीये एभाव तेद्विविधरूपपी तद्वथा सुगम नवर पर्यव तेपर्याय तथा धमरूप तेगल्या  
 तेपर्यवसत्त्वा नेतो कालिकश्रुतने विषेण अनन्तपर्यायरूप जाणयीनेभणी एकेक अकारादिक अक्षरना अने तेणे करी जे बोलीये जीवादिक वस्तु तेइना  
 प्रत्येके अनतापर्यायले इम अनेरे ठाम पणियुक्ति कश्ची तथा सख्याताले अकारादिक अक्षरतथाविष्यादिक अक्षरना सयोगरूप सख्याताले सघात तथा

अणुश्रोगदारसखा उहेससखा अन्नकयणसहुा सुअखुधसखा अ

अणुश्रोगदारसखा उहेससखा अन्नकयणसहुा सुअखुधसखा अ

अणुश्रोगदारसखा उहेससखा अन्नकयणसहुा सुअखुधसखा अ

तासु प्रिडन्तानि समयप्रसिद्धानिवा संख्येयानि पदानि गाथादि चतुर्थांश रूपाः संख्येयाः प्रादा संख्येया गाथाः संख्येयाश्च श्लोकाः प्रतीता एवंच्छ्रद्धो विशेषरूपाः संख्येयावैषिका निक्षेपनिर्युक्त्युपोद्घातनिर्युक्तिलक्षणा त्रिविधानिर्युक्तित्वीयोपायभूतानि सत्प्रदर्शरूपगतादीन्पुत्राणामादीनि वा संख्येयान्यनुयोगद्वाराणि संख्येया उद्देश्याः संख्येयान्ययनानि संख्येयाः श्रुतस्कंधाः संख्येयान्यगानि एषा कालिकश्रुतपरिभाषा संख्या एवंदृष्टिवादेविभावनाकार्या नवरं प्राश्रतादयः पूर्वान्तर्गताः श्रुताधिकारविशेषाः सेतमित्यादि निगमनद्वयं सेकितं जागणसंखा इत्यादि जागणान्नानं संख्यायते निश्रीयतेबखनयेति संख्याज्ञानरूपासंख्या ज्ञानसंख्या कापुनरियस्यते योदेवदत्तादिर्यच्छ्रद्दादिकं जानाति सतज्जानाति

गसंखा सेतं कालिश्रुतपरिमाणसंखा सेकितं दिष्टिवायसुत्र परिमाणसंख्यार्अणोगविहा प्रणत्ता तंजहा पञ्चवसंखा जावत्रणुओगदारसंखा पाञ्जडसंखा पाञ्जडिआसंखा यत्युसंखा सेतंदिष्टिवायसुत्रपरिमाणसंखा सेतंपरिमाणसंखा सेकितं जागणसंख्यार् जोजंजाणद तंजहा सद्दं सद्दिओ गणियं गणियो निमित्तं नेमित्तियो

स्यादित्यादि विभक्तिजेहने' अन्ते ऊद्व तेपद अथवा सिद्धांत प्रसिद्धपद तेसंख्याताहे तथा पादते गायारुं घतुर्थाय तेपणि संख्याताहे तथा गाथा अनेश्लोक पणि सख्याताहे तथा वैषिक रूपविशेष संख्याता है तथा निर्युक्ति त्रिज्जभेदे निक्षेपनिर्युक्ति उपोद्घातनिर्युक्ति स्तत्रसार्थिकनिर्युक्तिरूप तेपणि सख्यातीहे तथा अनुयोगद्वार सत्प्रदर्शरूपणादिकनं व अथवा उपक्रमालिक च्यारि तेह सख्याताहे सख्याता उद्देश्या सख्याता अथयन सख्याता श्रुत स्तत्र सख्याता अंग एवं दृष्टिवादेने विषे भाववुं नवरं पाञ्जडतेमोटा प्राश्रत तेअधिकार विशेष संख्याता है वस्तु संख्याताहे एकात्मिक श्रुतपरमाण सख्या कही सेतं समाप्ति

मञ्जुजानन्द सावभेदोपचारादुपज्ञानसंख्येत्युपस्कार श्रेय पाठसिद्ध सेकित गणनासंख्यादि एतावत् एतेदृति सख्या तगण १ सख्या तत् एगोगणण नउवे  
इ एकसावज्ञान सख्यानोपैति यत् एकस्मिन् पटादौ दृष्टे घटादिवस्त्रिदृतिदृतीत्ये वसेयमाय प्रतीतिरत्नद्वते नैकसख्यावियत्येन अथवा आदानसमर्पणादि  
अवधारकाले एक वस्तु प्रायोनकविज्ञापयत्यतोऽस्य अवधार्यत्वात्सख्यामन्तरति तस्माद्भिप्रथतिरेधगणनसख्यासावसत्येयकादिभेदभिन्ना  
तद्यथा सख्येयक असख्येयक अनतक तत्र सख्येयक जघन्यादि भेदान् त्रिविध अवखेयकत् परीतासख्येयक युगासरेयक असख्येयाऽसख्यक पुनरेकैक

कालकालणागौ वेज्जयवेज्जो सेत जाणयासंखा २ एकोगणण नउवेद्रे दुप्पभिद्दसखा त स खेज्जाए  
अस खेज्जाए अणतए सेकित स खेज्जाए २ तिविहे पणत्ते तजहा जहसए सकोसए अजहणमणुक्कोमए सेकित अस खेज्ज  
ए २ तिविहे पणत्ते तजहा परित्तास खेज्जाए जुत्तास खेज्जाए अस खेज्जास खेज्जाए सेकित परित्तास खेज्जाए २ तिविहे

सेकित अथ किं तद्विज्ञानसंख्या उत्तर तिषा ज्ञान तेजस सख्या तेभणी तेणे करी वस्तुनो निश्चय करीये जेभणी तेमह्या तेज्ञानसंख्या एतले गानरूप जे  
संख्या तेज्ञान सख्या ते किंसा जे देवदत्तादिक जे गद्दादिक वस्तुने जाणे ते अभेदोपचानय थी ज्ञानसंख्या योक्षीये तद्यथा सुगम निगमन सेकित अथ  
किं तदे गणना सख्या ते कहीयेछे तिषा एकतो गणनसख्याने नउवेद्रे नयु उचे जे भणी घटादिक एकवस्तु दृष्टिपद्ये छे ते प्राये प्रसु ज ज्ञान जपजे  
जे एपटादिवस्तुने पर एकसंख्यावियय पणें करी ज्ञान न जपजे अथवा विधादेवामा व्यवहारने विपे एकवस्तु कोद्रे गणे नही ते यणी असंख्या व्यवहारी  
पणत्त ती अने अल्पपणाथी एक ते गणनसंख्या न पामे दुप्पभिद्द सख्या ते भणी विषादिज गणना सख्या जाणवी ते त्रिविधप्ररूपी तद्यथा सख्येयक



अथ टी०

पृ ६१

सूत्र

भाषा

तत्र कथं न ब्रह्मण्डलं सत्त्वं यत् भवतीति विवेकेन प्रदे विस्तरेण तस्य प्ररूपयिष्यमाणत्वादित्यमात्रं ब्रह्मण्डलस्य संख्येयकस्य प्ररूपणां कारिकाभि तदेवात्र यद्यथानामसंचित्तन्व स्यात्कियन्मान इत्यात्र आयामविक्रम भाष्यां योजनगतसंख्य परिधिना तु परिधीतिलच्छुसोत्तस संख्येयस्ययत्तबीसचिद्या क्रोसतियत्तद्दीस धणुसुयतेरगुलच्छ्रिय प्रतिगाथा प्रतिपादितमानो जन्हीप्रमाण प्रतिभाव अयथाधसाद्योजनसंख्यसम्भगादो इत्यथ रत्नप्रभाटयिष्या रत्नकाठभिस्याध्वजकाठे प्रतिदित इत्यर्थं सचे प्रमाणपत्त्वो जन्हीपवेदिकात् उपरिसप्रथिय सिद्धान्याना सर्पपाना भिद्यते तथोणतेकिमित्यादि प्रद

क्रोसयाद् ठागाद् जाउलक्रोसय स खेज्जयनपावद् लक्रोसय स खेज्जयस्यस्य प्ररूपयत्त रिस्यामि से जहानामए पल्ले सिद्धा एगजोक्षणसयसहस्र आयामविक्रम भेण तिखिजोक्षणसयसहस्राद् सोलसहस्राद् दोषिअसत्तावोसे जोअयसतेतिखिअकोसे अश्रवोसं चघणुसय तेरसयअगुलाद् अथ अंगुलं किञ्चिद्विसिसाहिअ म रिक्खे वेण पयत्ते से यपल्ले सिद्धययाण भरिए तञ्जीयतेहिसिद्धयएहि दौवसमुद्दाण उदारीवेप्प ति एगेदौवे एगेसमुद्दे

तानास्य नन्दे जाताद् लळुटसञ्जातो न पाने जिनां लळुटसञ्जातानो अ प्ररूपणा करीस तेज्जकरिखे तेयया नाम कोट्टे एक पल्लज्जद् आयामविक्रम यो एकल्लय योजन लज्जुहीप तुल्य इत्यर्थं यने ते वनी जेतथो परिधि जाणवी तथा एएल्ल उ उो उरययोजनये एतले रत्नप्रभा ट्वीनो काठभेदीने ध्वजकाठने विवे प्रतिधौ ए भाव ते पाखो जन्हीपनो वेदिकात्तने उपरिगिष्यासपित सरसवनी भल्ल ऊद् ततोण तिहाथी सरसलेइने तेये सरसव करी हीवसमुद्दपणीये दूरां एभाव तेसरिसव अयत्त्वस्यनाद् कोट्टे एकदेव उपाडीने एकसरिसवहीपने विपे एक सरिसव

सक्तं भवति ते सपैपा असत्कल्पनया देवादिना समुत्पत्तिय 'एको हीपे एकः समुद्र इत्येवं सर्वेषु प्रक्षिप्यते यत्र च हीपे समुद्रे वेति इत्थं प्रक्षिप्यमाणा निष्ठा याति तत्पर्यवसानो जंबूद्वीपादिरनवस्थित पल्पः कल्पयते अतएवाह एसणं एव इ एक्खं स पंक्के ति यावंती हीपससुद्रासोः सर्वपैः अप्पणत्ति व्यासा इत्यर्थः एतदेतावत्प्रमाणं चोत्तमनवस्थितपल्पः सर्वपथतो बुद्ध्यापरिकल्पयत इत्यर्थः सतः किमित्याह पटमाससांगत्ति ततः शलाकापल्पे प्रथमशलाका एकः सर्पपः प्रक्षिप्यत इत्यर्थः एतद्भयाणं सलागाणं असंलप्यालोगा भरियन्ति कोक्कंते केवलिना इत्थं तं रति कोका व्याख्यानादिह वक्ष्यमाणाः शलाकापल्परूपा सृष्टयं ते ताश्चैकदशयत्तमच्छलक्षकोटि प्रकारेण संलपितुमशक्या असंलप्या अतिवहव इत्यर्थः तथोक्तशलाकानामसत्कल्पनथा सताः पुरितासथाप्यत्क्षष्ट

एवं पक्खिप्यमाणेणं जावइअद्दोवसमुद्दा तेहि सिद्धयएहिं अफुखा एसणं एवइएखेत्ते पंक्के पटमासिसलागा एवइअत्राणंसं लागाणं असं लप्यालोगाभरिआ तहाविउकोसयं संखेज्जयंनपावंति जहाकोदिट्ठतो सेजहानामए संचेसिआ आमल

समुद्रने विपे प्रक्षेपे इम प्रक्षेपीता छंता जेहीप तथा समुद्रने विपे पर्यंतपामे तेहीप तथा समुद्रलगे अने जंबूद्वीप आदि एवजुं अनवस्थितपालोकल्पीये तेहि जक्के जावइमाणं जेतजा हीपसमुद्र तेणोसरिसवे करी अफुणा व्याप्पा एसणं एवइए चोत्तपंक्केत्ति एतला प्रमाणसुं चेतपल्प आदिट्ठकह्यो एतले एवछो अनवस्थि तपालो सरिसवनो भस्यो कल्पीये इत्यर्थः पक्के स्युं करीये पटमसिसलागा तिवार प्रथमशलाका कहतां एकसरसवशलाकापल्पने विवे प्रक्षेपीये इत्यर्थ एवइ आणंसलागाणं असंलप्यालोगाभरिआ तिहां लोकीये केवली देषीइं तेलोक तेअर्थे धी इष्ठां वक्ष्यमाणं शलाक, पल्यादिक रूपग्रहीये तेकेहवी असंलप्या एकदशयत्तमच्छलक्ष तोटिक करी बोक्खा अणत्तवणा इत्यर्थः ते यथोक्त एतजा शलाकागा असत्कल्पनाये भग्ना कहता पूखा त पि

स्वयं यत् न मातुर्वति आकतपूर्वता अपि जिलोककण्डाभता उच्यते न चैतावतैर्योत्कृष्ट सख्यकसंपद्यते किंतु वदा सप्रशिक्षतया तथा ते श्रियते यथाने  
 कापि सयपसावापरोमाति तदातद्रवतीति भाव ननु सप्रशिक्षतया सर्वथा अशतमपि साधे किं अतसुच्यते सत्य प्रीष्यत एव तथाचात्वार्ये दृष्टांतदिदर्शयितु  
 राच यथा कोल दृष्टात इति शिष्ये ण दृष्टे सत्युत्तरमाच तद्यथानामकविना च स्यात्सवामलकानां भवति इति शिष्यासतरेयापि लोकेन व्यपदिश्यते अयचत  
 तैकमालर्क मज्जित तथातमपरमपि प्रक्षिप्त तदपिमात अन्वदपि प्रक्षिप्त तदपिमात एवमपरापरै प्रक्षिप्यमाणो भवत्यति तदा मलक येनासौ मज्जोभ  
 रित्यति यच्चतुत्तरकाल तत्र मचेनमास्वति इत्य चात्वाप्यपरापरैर्यथोक्तगलाकारूपै प्रक्षिप्ते यदेदासलपितुमगच्छा प्रतिवच्य सप्रशिक्षा पत्या असत्कलनया  
 भता भवति तदोत्कृष्ट सत्येयक भवतीत्यध्याशरो दृष्टव्य इति तावदचरार्थं भावार्थस्त्वय पूर्वं निदग्गितस्वरूपपादनवस्थितपल्लारपरैरिष्य व हीप ममाणा  
 योजनसंज्ञावगादास्तय पत्यापुच्छा कन्यते तत्र प्रथम गलाकापत्यो द्वितीय प्रतिगलाकापत्यसूतीयो मच्छागुकाप पल्लानवस्थितपन्यो रत गलाका

**गाणभरिए तन्यएगे आमलएव क्वत्ते सेविमाते अश्वेविपक्वत्ते सेविमाते एवपक्विल्लप्पमारुण्ड**

उत्कृष्टसंज्ञातो न पाने अय आकण्डकगे भस्मा पणि काकण्डकटि मूस्या बाबीये एषवे मूखे छते पणि लल्लु दसंज्ञाता न उद किन्तु जिवारश्रियासक्ति  
 तिम भरीये जिम तिशां एकसरिसवपणि न साद तिवार लल्लु दसंज्ञातो याद एभाष दृषां शिष्य बोख्यो भगवन् शिष्यासक्ति अणभरु पणि काक  
 मोक्षिसु भसु, शछाद एवबोल्या वसु बोखीयेज यथाकोत दृष्टात इति प्रश्न गुरु बाल्या ते यथा नाम कोद्रे एत सच छद्व यामज्जानु भसु, ते शिष्या  
 विनां भसु, पाण लोके इम कडीये एमच आमले भसु, छे तिशा एक आमला वालु ते माणु वणी अनेरो वालु ते पणि माणु तदा वली यनेव  
 वालु ते पणिमाणु इम एकेक आमले प्रदेपी ते करी ते पणि आमलु छद्वे जेवाले छते ते मवभरासद जे आमलु आगलि ते मवभरास्ये जे पा



पत्ये च प्रथमा शलाका प्रक्षिपति पूर्वमादृशितं तदनंतरं पुनरप्यनवस्थितपल्पसर्षपाः समुत्क्षिप्यैकोद्दीपे एकः समुद्रे इत्येवं प्रक्षिप्यते तैश्च निष्ठितः शलाका पल्पे द्वितीयशलाका प्रक्षिप्यते सर्वपाश्च प्रक्षिप्यमाणा यत्र द्वीपे समुद्रे वा निष्ठितास्तत्पर्यवसानः पूर्वेण सह दृक्चरोऽनवस्थितपल्पसर्षपभूतः परिकल्प्यतेऽत एवायमनवस्थितपल्प उच्यते अनवस्थितरूपाभावात् पुनः सोप्युत्क्षिप्यैकैक सर्षपक्रमेण द्वीपसमुद्रेषु प्रक्षिप्यते शलाकापल्पे च तृतीया शलाका प्रक्षिप्यते तेषु ऋषपाः प्रक्षेप्यमाणा यत्र द्वीपे समुद्रे वा निश्चितास्तत्पर्यवसानः पूर्वेण सह दृक्चत्तमोऽनवस्थितपल्पः सर्षपभूतः परिकल्प्यते पुनः सोप्युत्क्षिप्य तैर्नैकक्रमेण द्वीपसमुद्रेषु प्रक्षिप्यते शलाकापल्पे च चतुर्थी शलाका प्रक्षिप्यते एवं यथोत्तरं दृक्स्थानमवस्थितपल्पस्य भरणरिक्तौ करणक्रमेण तावद्वाच्यं वावदेकैकशलाका प्रक्षेपेण, शलाकापल्पो भिन्नयतेऽपराशलाका न प्रतीच्छति ततोऽनवस्थितपल्पो भूतोऽपि नोत्क्षिप्यते किंतु शलाकापल्प एवोद्भियते अयमप्यनवस्थितपल्पाक्रांतचेत्वात्पर एकेऽसर्षपक्रमेण द्वीपसमुद्रेषु प्रक्षिप्यते यदा च निष्ठितो भवति तदा प्रतिशलाकापल्पस्य चोद्वेगोऽप्येव प्रथमा प्रतिशलाका प्रक्षिप्यते ततोऽनवस्थितपल्पः समुत्क्षिप्य शलाकापल्प निष्ठः स्यात्परतसो नैकक्रमेण निक्षिप्यते निष्ठिते च तस्मिन् शलाकापल्पे शलाका प्रक्षिप्यते इत्थं पुनरप्यनवस्थितपल्प

**होहो सेधिआमलएजंसि पक्खित्ते से ऊं वए भरिज्जिहिइ तत्थ आमलएनमाहिइ एवामेव उक्कोसए संखुज्जाएरूवेप**

ससुं चागलते संचने विषे मास्ये नही एणीपरे अपरापर यथोक्त शलाकारूपे करी जिवार बोलवा अशक्य प्रतिघणा शिखासहित ते पत्य अशकल्य नाये भया ऊइ तिवारे उत्तुष्टसंख्येयक ऊइ इम क्रियापद जोडवो ए अचरार्थकस्यो हिषे ए भावार्थ पूर्व जे अनवस्थित पत्य देषाखोक्के तेषी असेरा जंबूद्वीप प्रमाण योजनसहस्रउंडा तिणिया पालावुष्टि करी कल्पीये तेहनाम प्रथमसलाका पल्प बीजो प्रतिशलाकापल्प लीजो मशशलाकापल्प तिहा अनवस्थितपल्पभरुं अने शलाका पल्पने विषे प्रथमशलाका पल्पेपीये इम प्रथम देषाखुंक्के पक्के बली अनवस्थित पल्पना सरिसव उपाडीने एकहीगने

11 28 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



चावलि या तन्त्रियाचेवत्ति यावन्ति जघन्ययुक्तासंखेयकेस्यपरुपाणि प्राण्यंते चावलिकायामपि तावंतः समाभवंतीत्यर्थः ततः हृदयेयत्नापल्लिजा नृहते तत्र जघन्ययुक्ता संखेयकतुल्यसमयराशिमानासा इदृश्या तेषामपरमित्यादि ततो जघन्ययुक्तासंखेयकान्तरतः एकोत्तरयादृश्या असंखेयान्वजघ्नोत्कृष्टानि युक्ता संखेयस्थानानि भवन्ति यावदुत्कृष्टयुक्ता संखेयकं न प्राप्नोति अत्र शिष्यः दृच्छति उक्तोस्यैयंजुत्तासंखेयजघन्यमित्यादि अतः प्रतिवचनं जघ्नण्यमित्यादि युक्ता न्येन युक्तासंखेयकेनावलिकासमयराशिगुण्यते किमुक्तं भवति अन्योन्यमभ्यासः क्रियते जघन्ययुक्ता संखेयकराशिसौख्यराशिनो गुरुत इति तात्पर्यं एवं च कृतैयोराराशिर्भवति स एवैकेन रूपेणोनः उत्कृष्टयुक्तासंखेयकं भवति यदि पुनसादेकं तद्रूपं गुरुते तदा जघन्यं असंखेयया संखेयकं जायते अतएवाह यजघ्नवा जघ्नगावं रूवृगमित्यादि गतार्थं उक्तं युक्ता संखेयकं त्रिविधमिदानीमसंखेययासंखेयकं त्रिविधं विभण्णिराह जघ्नण्यं असंखिज्यासंखेज्जयमित्यादि

**खेज्जा संखेज्जयंरूवृगं उक्तोस्यं जुत्ता संखेज्जयं होरु जघ्नण्यं असंखेज्जा संखेज्जयं केवदुत्तं होरु जघ्नण्यं**

त्यादिमं त्रिज्जं भेदे परित्त असंख्याता वषाण्युं अथ त्रिज्जं भेदे युक्त असंख्यातो कहेके जघ्नण्यं जघन्ययुक्त असंख्यातो केतलो उक्त उत्तर जघ्नण्यं परिता संखेज्जयं व्याख्यातार्थं नवरं अन्यमन्मभासो पडिपुणो अन्योन्यसर्वराशि गुणीने जे राशि उक्त ते संपूर्ण इहा लीजे परं एकरूप पाडीने नही अथवा व्याख्यातार्थ एव चावलिषावितन्त्रियाचेव जेतला जघन्ययुक्त असंख्याताने विषे सरसवना रूपके एक चावलीने विषे समय पणि तेत साजळे तेषपरं तिवार पढी मध्यमयुक्त असंख्याताना ठाम उक्त जालगे उत्कृष्टयुक्त असंख्यातं न पल्ले उक्तोसयं उत्कृष्ट उत्तर जघ्नण्यं एणं जघन्य युक्त असंख्याता साथे चावलिकाना समय राशिगुणी जघन्ययुक्त असंख्याता राशि तेहन राशिगुणीये ए भाव इम माद्योभादि अभ्यास कखे उक्ते जे राशि वाइ तेमाहि एकरूप काठीये उत्कृष्टयुक्त असंख्यातो उक्त अने जो ते एकरूप पणि आदि गणीये तोजघन्य असंख्यातो वाइ असंख्यातो

अथ टी. भाषा

रात्र घनपत्र विषु बरवदुर्गा सातम सयव सयन ४३३३

पुद्गत सुव भावितार्थमेव नवर पडिपुणोत्ति परिपूर्णेत्ति न पात्यत इत्यर्थं भ्रष्टयेत्याद्यदिगताथ नेणपरमित्यादि तत परअसरोज्जासखेप्रज्जक केत्तिथमि  
 त्यादि अवाचार जहणय असणेज्जासखेत्तिमित्यादि जघन्यसखेप्रयक यायइयतीतिग्रेप तापत्तमाणानां जघन्यासखेप्रयकरूप सुख्यानामित्यथ रायीनाम  
 न्योन्यमभ्यास परस्पर गुणनासरूप एकेन रूपेणो। उल्लसटमसखेप्रयासखेप्रयक मयति अयमत्रभाषा। प्रत्येक जघन्यासखेप्रयासखेप्रयकरूपा जघन्यास  
 येयासखेप्रयक एव यावति रूपाणि भवति तापतोरागयो व्यसथाप्य ते तेसपरस्परगुणितै रोरारिगिपति सएकेन रूपेणोनि उल्लसटमसखेप्रयासखेप्रयक

दुग्गाणइ जुत्ता स खेज्जएण आवलित्रा गुणिआ अस्समणुग्गमासोपडिपुणो जहणय अस खेज्जा स खेज्जय होइ अहवा  
 उक्कोसए जुत्ता सखेज्जए रुव पक्खित्त जहणय अस खेज्जा स खेज्जय होइ तेणपरं अजहणमणुक्कोसयाइ

तेज्ज कहेत्ते अथवा सुगम एतले त्रिणि भेदे सुत्त अस र्थात् कण्ठु अथ त्रिणिभेदे अस र्थात्स र्थात् कहेत्ते जहणय सुगम इहा उत्तर जहण  
 एण व्याख्यातार्थं नवर सपूर्णराशि इहा लीजे एकरूप पाडीये नही अथवा व्याख्यातार्थं तेणपर तिवारपणी मध्यम असथातानास्थानक इइ जालगे  
 उल्लसट्ट असथाता सख्यात् न पामे उक्कोसय सुगम उत्तर जहणय व्याख्यापूर्वत् इहा एभाव जघन्य असखेप्रयासखेप्रयकने विजेतना सरसरूप इइ  
 तेतना राशि तेतनो सख्यानास्यापीये ते राशि माओमाहि गुणीये पछे जे राशि इइ ते राशि एकरूप णीन करीये तो उल्लसट्ट असथातासख्या  
 त याइ अने तेरूपजो तेज्जमथे गुणीये तो जघन्य परितानन्तक इइ ते भणीज कहेत्ते अथवा व्याख्यातार्थं एतौ एक आचार्यनेमते ए उल्लसटा  
 स ग्गातो देगाडु। अनेरा आचार्ययली अन्वया कहेत्ते ते किम इहां जघन्य असइयातासहातराशिसु वर्ग करीये ते वर्गे राशिसु वली वर्गितकरीये

अणु टी० ५०१ सूत्र भाषा

अणु टी० ५०१ सूत्र भाषा

प्रतिपत्तये उदाहरणं चात्पायुत्कृष्टपरीतासंखेयकोक्तानुसारिणवाच्यं अतश्च यदेकं मरूपं पातितं तदप्यतन गण्यते तदा जघन्यं परीतानंतकं संपद्यते अतएवेत्यं निर्दिशति अहवाजहणय परिक्षाणां तयमित्यादि गतार्थमेव इत्येकीयाचार्यमततावद्दर्थितं अन्ये त्वाचार्या उत्कृष्टमसंखेयवासंखेयक मन्यथा प्ररूपयंति तथाहि जघन्यासंखेययासंखेयकराशेर्वर्गाः क्रियंते तस्यापि वर्गराशेः पुनर्वर्गोविधीयते तस्यापि वर्गवर्गराशेः पुनरपि वर्गोनिध्याद्यते एवं च वारतयं वर्गकृतैः न्येपि प्रत्येकमसंखेययरूपपादशराशयः सत्प्रचिद्यंते तद्यथा लोगगासपएसा धर्माधमो गजीवदेसाय दब्बट्टियानिओआ पत्तेयाचेववोधव्वा ठिइवंधक्कवसाणा अणुभागाजोगच्छेयपत्तिभागा दोरुहयसमाणासमया असंखपक्खे वयादसओ इदसओ भवति लोकाकाशयथायंतः प्रदेशाः सत्था धर्मास्त्रिकायस्य अधर्मास्त्रिकायस्य एकस्यच जीवस्य यावंतः प्रदेशाः दब्बट्टियानि उयन्ति सून्माणावाढराणांचानतकायिकवनस्यतीति जीवानां शरीराणीत्यर्थः

### जाव उक्कासयं असंखेउजा संखेजयंणपावइ उक्कोसयं असंखेउजा संखेज्जयं केवइअं होइ जहणयं असंखेउजा संखे

पट्टे वली ते वर्गितराशियनुं वर्गकरीये एवं त्रिणिवर्ग कस्यै छंते अनेरा वली प्रत्येकर असंखेयखट्ठयंराशिय तेमध्ये धालीये तद्यथा लोगगासपए सा धर्माधमो ग जीवदेसाय दब्बट्टिआनिओआ पत्ते आचेववोधव्वा १ ठिइवंधक्कवसाणा अणुभागाजोगच्छेद पत्तिभागा दोरुहय समाणासमया अणं खपक्खेव यादसउर व्याख्या लोकाकायना प्रदेश तथा धर्मास्त्रिकायना अधर्मास्त्रिकायना अने एकजीवना जितनाप्रदेश याइ दूय्यार्थिकनिगोद सुल्ल अने साधारण वनस्यति जायना शरीर इत्यर्थः तथापत्ते च अनंतकायिक जीवनाशरीर टाली श्रेष ष्टथिमीकायिक अण्यकायिक तेजस्त्राधिक वायुकायिक वनस्यतिकायिक अने तसकायिक प्रत्येकशरीर सर्वजीव जाणवा इत्यर्थः तथास्थितिव्यनाकारणभूत अध्वसावस्थानकते असंखपात्तच्छे जे भणी ज्ञानावरणीयनुं जघन्य अंतसुहृत्तं स्थितिवन्ध अने उक्कट्तीस सागरोपम कोडाकोडि स्थितिवन्ध अने मध्यमतो एकदो त्रिणि आदि समयाधिक अंतसुहृत्तादिक असंखेयमेद

पत्तेयाचेपत्ति अनतक्राविकान्वर्जवित्वा येपुा एथिव्यसे जोषातु वनस्पतिदसा प्रत्ये कयोरोरिण सर्वेप जीषा दृत्यर्थं तेचासखेयाभावति विधुयधखयसाणानि स्थितिबधस्यकारणभूताणि अद्यवसायस्थानानि तान्यप्यसखेयान्येय तथाचि ज्ञानावरणस्य जघन्यातमुद्धतप्रमाण स्थितिबध वृहत्तसु द्वियथागरोपमको टीप्रमाण मध्यमपदैलेकहिति चतुरादि समयाधिकांतसु छर्त्तादिकोऽसखेय भेद एषांच स्थितिबधाना निर्यत्तकाणि अथयसायस्थानानि प्रत्ये कभिन्ना त्वेष्वसत्ये कश्चिन्पि ज्ञानावरणेऽस खेयानि स्थितिबधाध्यवसाय स्थानानि लभ्य ते एवदुर्गनावरणादेववाप्यमिति अणुभागानि अनुभागा ज्ञाना वरणादिकर्मणा जघनमध्यमादिभे दभिन्नारसवियेपुा एतेषा चानुभागवियेपुाणा निर्वर्त्तकायसखेयवोकाकाय प्रदेशप्रमाणान्यध्यवसाय स्थानानि भवति अतोऽनुभागवियेपुा अप्ये तावत एव द्रष्टव्या कारणभेदान्त्रितत्वात्कार्यभेदानां जोगत्ये यपलिभागानि यामोषाद्यायवियेपु यीय तस्य क्षेत्रलि प्रक्षाब्दे देनप्रति

उजयसेत्ताण रासीण अणमणभभासो सुवूणो लक्कोसय असखे उजासखेज्जय होइ अहवा जहखय परित्ताण तय सुवूण

स्थितिबधनास्थानक छद् एतला स्थितिवधनास्थानकना नीपजावणहारा प्रत्ये कर अस खगता अथवसायनास्था एक जजृआछे तेभणी एकज्ञानायर णीय न विपे पणि जघन्य मध्यम उत्कृष्टभेदरूप असह्यताता स्थितिवधना जेस्थानक तेहना यन्ध अथवसायना स्थाक यउह्याता छद् एय सर्वकर्मने विपे नेवा तथा ज्ञानावरणादिकर्मना जघन्यादिभेदे रसनाविशेष ते अनुभाग कधीये ए अनुभागवियेपुना नीपजावणहारा अमुऽुगतलोका कागप्रदेशरा शिप्रमाण असह्यताता अथवसायनास्थानक छद् ते भणी अनुभागनाविशेष पणि एतलाज जाणवा जे भणी कारणना भेदवीजकार्यनुभेद छद् यथायोग कशता मनवधननायातुवीर्यं तेहना जे छेद प्रतिभाग कशता केवळीनी प्रक्षयि करी लेह्या विशिष्ट निर्विभाग ते योगछेद प्रतिभाग कधीये तेतो िगोदा दिक अने स शीपचेद्रियपर्यन्त जीवकधन्यादिभेदरूप असह्यताता जाणवा तथा विद्ध समाना कशता उत्सर्पिणी अयसर्पिणीरूप कालना समय चसमेयरूप

विशिष्टानि विभागा भागयोगच्छेदप्रतिभागा सो च निगोदादीना संक्षिपंचेद्वियं पयंतानां जीधानामाश्रिताः अथन्यादि भेदात्भिन्ना अथ क्षेत्र्यासंतथाः  
 बुद्धयसमाणसमयति द्वयोश्चसमयोरगतामिण्यवसर्पिणी कालस्वरूपयोः समयाः पञ्च क्षेत्र्यस्वरूपाः एवमेते प्रत्येकं पञ्चसंख्येयस्वरूपाः दशप्रजागाः पूर्वोक्ति वार  
 तयवर्गितरायी प्रक्षिप्यंते इत्यं वयोरधि. पिंडितः संपद्यते सपुनरपि पूर्ववहारत्वयंयतेततय एकस्मिन् रूपे पातिने उत्कृष्टा संख्येयान् क्षेत्र्येयकं भवति उक्तं  
 नवविध मयसख्येयकं साप्रतं प्रागुद्दिष्टमष्टविधसंतकं निरूपयितुमाह जहन्नयं परिचक्षणंतय मित्यादि जगन्परीतानंतकेयावति रूपान्तिपाति तापल्यं चैव

उक्तीसयं अतंखे उजा संखे वजयं होइ जहस्ययं परिचक्षणंतयं कीवइ अं होइ जहस्ययं अतंखे उजासंखे ज्जासंखे ज्जायनेक्षणं रासौ  
 यं अणुमणुस्मासो पडिपुखो जहस्ययं परिचक्षणंतयं होइ अहवा उक्तीसए अतंखे उजासंखे उजएणवंपनिखत्तं जहस्ययं  
 परिचक्षणंतयं होइ तेणपरं अजहस्यमणुक्तीसयाइं ठाणाइं जाय उक्तीसयं परिचक्षणंतयंणपावइ उक्तीसय परिचक्षणंत  
 यं कीवइ अं होइ जहस्यय परिचक्षणंतयं मेत्तायां रासौणं अणुमणुस्मासोमयुणो उक्तीसयं परिचक्षणंतयं होइ अहवा

एवं एतेगते कर अतंखेयस्वरूप दय असत्प्रज्ञेयक प्रज्ञेयाइ प्रयोगाइ त्रिगुणयुगित रागिने विषे इति गाथाइयार्थः ते प्रज्ञेया इं ता जेरथि मोदु ऊइ  
 तेरागि वली पूर्वली परिवार तिगि वर्जिये पळे जे रागि ऊइ ते नाइ थो एकरूप पाडीये तिमारे उत्कृष्ट अमङ्गातो ऊइ एतले नवभेदे अतंखेयतो  
 वनाखो विषे अष्टभेदे बनन्तो कहेछे जहस्ययं सुगमं उत्तर जहस्ययं व्याघ्रातायं अहवा जहस्ययं व्याघ्रातायं तेष परं तिवार पण्ठी मध्यमपरितानन्तकना अ  
 नन्तास्थानक ऊइ जालने उत्कृष्टपरितानन्तक न पासे उक्तीसयं सुगमं पृष्टां उत्तर जहस्ययं अहस्यपरितानन्तासे विषे जेतला रूपे जेतली रागि

राज्यवपन विं वयविकी कागस सुधस मग ४४५१

वागारागीनां प्रत्यक जघन्यपरीतानतक प्रसाणां पूर्ववदन्योन्याभ्यासरूपो न सुवृक्षट परीतानतक भवति अथवाजहस्यजुत्ताण तयमित्यादि स्पष्ट जहण्य जुत्ताणतयकेचित्तियमित्यादि व्याख्यातार्थमेव अथवा उक्त्तोसपरित्ताणतइत्यादिसंबोध जघन्यस्य यत्कानतकेयावति रूपाणि भवत्य भवसिद्धिका अपि लीला केवलिन तावत एव हटात तेणपरमित्यादिकथ्य उक्त्तोसय जुत्ताणतयकेचित्तियमित्यादि जघन्येन युक्तानतये नाभयराशिर्गुणितो रूपो न सुवृक्षट युक्तान्तक भवति ते तु रूपेण सए जघन्यमन्तान्तक सम्पद्यते अतएवाए अथवा जहण्य अणतायतमित्यादि गताय जहस्य अण तागतयकेचित्तियमित्यादि भावितार्थमेव अथवा उक्त्तोसए जुत्ताणतए इत्यादि प्रतीतमेव तेणपर अहणुकुसयादे इत्यादि जघन्यादनन्तानन्तकालपरत

जहण्य जुत्ताणतय रूपा उक्त्तोसय परित्ताण तय होइ जहण्य जुत्ताण तय केवइय होइ जहण्य परित्ताणतयमे ताण रासोण अणमथभासो पडिपुणो जहण्य जुत्ताणतय होइ अथवा उक्त्तोसएपरित्ताणतएरूपवपविवृत्तं जह

तेतला सुद्धाता माओमादि गुणीये पण्णे मांदि धी एकरूप पाळीये तिवार उक्त्तु परित्तानत्तो उइ अने ते रूप मांदि गणाये तिवारे जघन्य सुक्त अनत्तो उइ ते भणीज कहेछे अथवा व्याख्यातार्थ एव जहण्य सुगम उत्तर जहण्य व्याख्यातार्थ अथवासिद्धियावित्तित्ति अथ जघन्ययुक्तानन्तकने विपे वितथा रूपेछे अभयजोव पणि तेतलाजहे तेण पर तिवारपछी मज्जमयुक्तानन्तकना अनन्तास्थानक इइ जालगे उक्त्तए युक्तानन्तक न पामे उक्त्तोसय सुगम इवा उत्तर जहण्येण जघन्ययुक्तानन्तकस अभयराशि गुणीये ते जघन्ययुक्तानन्तकराशिसु अभ्यासीइ पण्णे एक काटीये तिवार उक्त्तएयुक्तानन्तो उइ अने ते रूपमांदि घालीये जघन्य अनन्तान्तक थाइ तेचिज कहेछे अथवा व्याख्यातार्थ जहण्य सुगम उत्तर



सर्वार्थेषुपि अजघन्योत्कृष्टान्येवानन्तानन्तस्य स्यान्नि भवन्ति उत्कृष्टं अन्तानन्तं तदर्थं वैत्यभिप्रायः प्रतिपाद्यन्ति अन्वयमन्तानं  
नन्तकं वारत्वं पूर्ववर्त्यं ते ततश्चै ते यदनन्तताः प्रक्षेपाः प्रक्षिप्यन्ते तद्यथा सिद्धान्तगोपनीया यणश्रुंतालरुत्वाद्येव सामनोयागसं एवमेतेषां  
तपस्वेषु वा ? अयमर्थः सर्वे सूत्रम्यादरनिगोदजीयाः प्रत्येकानन्ताः सर्वे यनस्पतिजन्ताः सर्वोप्यतीतमागत उत्तमानतागममनराणि सर्वेषुइहल्लय  
सम्बन्धः सर्वान्नीलाकायाप्रदेशराणिः एतेच प्रत्येकमनन्तस्वरूपाः परंपरोप्याः एतत्पदिमैको राभिर्जायते स एतन्नि कारात् पूर्ववदन्ते तयामुक्त  
दमनन्तानन्तकं न भवति ततश्च केचजज्ञानकेयलद्वर्गनपर्यायाः प्रक्षिप्यन्ते एवं च सत्कृष्टमनन्तानन्तकं संपद्यते मन्थ्यैव अल्पजालस्य रंष्टहीत भाव

न्तयं जुत्तागंतयं होइ अभव सिद्धिप्रावित्तिप्राहोइ तेगपरं अजहन्तमणुहोमयाइ जावउक्केसिथं जत्तागंतव  
णपावइ उक्कोसयं जत्तागंतयं केवइअं होइ जहन्तएणं जत्तागंतएणं अभवसिद्धिअगुणिताअगुसज्जभासोरुवगो

जस्य एणं भावितार्थे एव अकया भावितार्थं तेग परं ते आगणि सर्वे मध्यम अन्तानन्ताना प्रथमता अमन्ता स्वसक उद धर्मं अज्जघन्यत्तानन्तानं  
सर्वथा नथी ए जभिप्राय अनेरा आचार्यं वनी इम करे से अन्व यनन्तारुं निणि वारा गेवेषे ए यनन्ता प्रक्षेप प्रोथोरे तात्ता निउं वेगं  
अजीया यणसइ काल पुण्णत्वायेव सजमनोयागसं एवमेतेणं तपस्वेषु वा ? आ० सिद्धीर तया एवमं यनें पादरत्तनोदना प्रीत तया अनपत्तिना जीर  
तथा तिणि कालना समय तथा सुत्तपुत्रल तथा सर्व आलोकासाग प्रदेश ए प्रलोत्त प्रत्येक अमन्त एवमेव तेमादि भवणसे अरणिपिय केरुं अना  
तीनार्गं करिये तोपिण उत्तुष्ट अन्तानंतक न होय ते सोइ केवल यान केवल दर्शनना पर्याय प्रक्षेप न करिये सर्वोदे त्तार उत्तुष्टानंतानन्तानं

अनु टी०

५०६

सूत्र

भाषा

अत पर पस्तुसावस्यैव सत्याधिपयस्याभावादिति भाव सूत्राभिप्रायस्त्वित्यमप्यनन्तानन्तक सुक्लृट न प्राप्य । अजगन्व्योक्तस्थानानामेव तत्र प्रतिपा  
दितत्वादिति तत्रानु केवलिनो विदतीति भाव सूत्रे च यत्र कुत्रापि अनन्तानन्तक गृह्यते तत्र सर्वत्राजगन्व्योक्लृट द्रष्टव्य तदेव प्ररूपितसत्तत्त्व तत्  
प्ररूपणे च समाप्तागणनसङ्ख्या अथ भावसत्यानिरूपणार्थमाह केकित्त भावसत्त्वा इत्यादि इह सख्यागर्भेन प्रागुक्तयुक्त्यागणा परिगृह्यते अत  
ए । तामस्यापनादि बहुविधारविषयत्वत्वात्प्रमाणत्वं गुणप्रमाण इत्युक्त अन्यथासत्याया अपि गुणत्वाद्गुणप्रमाणे एषांतर्भाष न्यायिति तत्र भाव

उक्तोस्य जुत्ताणतय होइ अहमाजहणय अणताणतय रूवूण उक्कासय जुत्ताणतय होइ जहणय अणताणतय वीवइय  
होइ जहणएण जुत्ताण तएण अभवसिद्धिया गुणिआ अणमण्णभासो पडिपुणो जहणय अणताणतय होइ अहवा  
उक्तोसए जुत्ताणतएह्वप्रत्खित्त जहणय अणताणतय होइ तेण परअजहणीमणुंकोसयाइ' टाणाइ सेतगणणासखा  
सेकित्तभाजसखाइजेइमेजोवासखगइनामगोत्ताइ कम्माइ वेदेति सेतभावसखापमाणे सेतसखापमाणे सेतभावप्पमाणे सेत

जइ जेभणी सर्वथसु एतत्ता मथे सपधी एतत्ता उपरांत जेवस्तुगणीये ते सर्वथापि नथी एभाव एणीपरै एकेक आचार्येने मते नथभेद अनतानावसाखे  
अने ए सूत्रना अभिप्राय यीतो इणिए परं उतटानन्तानत न पामीये जे भणी सूत्रने विषय अनतानताना अजगन्व्योक्तद्रष्टव्यतां च योल्याखे तत्त्वतो  
केवलीज जाणे चिदे सूत्रने विषे जिष्ठां किष्ठाइ अनतो प्रधीये तिष्ठां सगले अजगन्व्योक्तद्रष्टव्य अनतान्तक जाणथी ते इम आठभेदे अनतो कएतो ते  
यनी समाप्तागतगणना सख्या समाप्ति तेभणी सेत समाप्त सेकित्त अथ किंउ ते भाव यत्था उत्तर भाव सखाते ए इहा सखा ग्रन्थे पूर्वोक्त युक्ति यी

शब्दस्वरूपं दर्शयितुमाह जेद्रुसे इत्यादिचेद्रुसे प्रश्नाप्रकप्रत्यक्षालोकप्रसिद्धावा जीवाः साद्यःप्रमाणादिमन्तः शब्दगतिनासगोताणि इतियंगगतिनासगोत्रयन्दे  
नेरु शंखप्रायोय तिर्यगिति नामगच्छते तस्य चोपलक्षणार्थत्वाद्द्वीन्द्रियवात्त्वौदारिक शरीरागोपांगदीन्यपि गृह्यन्ते ततश्च शंखप्रायोयं तिर्यगत्वादिनाम  
कार्थनीचैर्गोत्रलक्षणं गोत्रकर्म च विपाकतो वेदयन्ति मे जीवास्ते एते भावयंग्याः प्रोच्यंते तदेवं समाप्तं सत्याप्रमाणं सतो निगमयति चेत्तं संवाप्यसा  
गेति तखनासौचापसितं भावप्रमाणमित्यादि चेत्तं भाव्यमाणेति एवद्वयसन्नि च निःशेषितं प्रमाणहारा(मित्युपसंहरति चेत्तं प्रमाणेति प्रमाणहारां  
समाप्तं यत्र कर्मप्राप्तं वक्तव्यताद्वारं निरूपयितुमाह चेत्किन्नं यत्तथा इत्यादि तताध्ययनादियु प्रत्ययशं यथासमाप्तं प्रतिनिवृत्तार्थकपनं पत्तयता इयं  
च त्रिविवास्ससमयादिभेदात् तत यस्या गमिति वाच्यताद्वारे सासमयः सतिशान्तः आत्माद्यते यत्र एव अज्ञिज्ञानाः तत्रया धर्मास्त्रिजाय इत्यादि

**पमाणे पमाणेत्तिपयंसमाप्तं सेकितं वत्तव्यया २ त्रिविज्ञा पणत्ता तंजहा ससमयवत्तव्यया परसमयवत्तव्यया ससमयपर**

शंख हीन्द्रिय जीव गहीये एतन्नाज भणी नाम स्थापनादिक घणा विचारना विषय पणा शी सन्ना प्रमाण वी गुण प्रमाय जूखो  
वनाण्यु चान्यथा संख्या पणि गुणपणा शी एगुण प्रमाणने विणे जयासे स्थिे भावयंग्यनुं स्वरूप देपादे दे जे ए प्रज्ञापकने पत्यज अयथा  
लोकप्रसिद्ध जीव कछता आक्षपादिक प्रमाणना धणी गंग गति नामगोत गडे करी इउ गंग प्रावोय तिर्यगतिनाम अने नीचेर्गोतं जर्मधिपाक्तवी  
वेदे ह्ये ते भाव शंख कर्त्रीये सेतं तेपूरुंथाता पूरुंथयुं संख्याप्रमाण ते भणी तेइनी समाप्त सेतं ते समाप्तयाताभाव प्रमाण समाप्त ते भणी तेइनी  
समाप्त सेतं तेपूरुंथातां समाप्त्युंप्रमाणहारा तेभणी तेइनुं एसमाप्रचन सेतं प्रमाणमिति प्रमाण पदंसमाप्तं २ शिडे वक्तव्यता हारमाह सेकितं अय निष्ठं  
ते वक्तव्यता उत्तर तिहा अध्ययनादिकने विणे प्रतिपाद्य यथासमान प्रतिनियत एक अर्थनुं पणाणुं तेवक्तव्यता ज्ञानीने ते त्रिविध प्रकृती तद्यथा स्वसमय

सु १० ५७२ सूत्र भाषा

तथा प्रशस्यते यथागतलक्षणो धर्मास्त्रिकाय इत्यादि तथा प्रशस्यते यथा स एवासव्यात प्रदेशालकादि स्वरूपजायाः गते दृष्टातद्वारेण यथामत्या नागत्युपटभक्त जलमित्यादि तथा निर्दिश्यते उपनयद्वारेण यथा तथैवैषोपि जीवपुद्गलानां गत्युपटभक्त इत्यादि तद्वत् दिग्मात्रप्रदर्शनेन व्याख्यानमिदं सूत्राविरोधतोऽन्यथा व्याख्येयमिति सेय स्वसमय वक्तव्यता परसमय वक्तव्यता तु यस्या परसमय व्याख्यात प्रयादि यथासूत्रकारण प्रथमाध्ययने सन्ति पञ्चमश्रूया इहमेनेसि आश्रिया पुटवी आकतेज याउ आगासपञ्चमाः एते पञ्चमश्रूया तेभ्योऽङ्गोत्ति आश्रिया पञ्चतेसिपिणावेण विणासोऽङ्गे इद्विणोः इत्यादि यस्य च श्लोकहयस्य सूत्रकृत्तिकाखित एवाय भावार्थे एकेषां नाशिकानां स्वकीयाभे नाशितायात्यातानीच नोकेभ्योति विद्यते

समयवत्त्वया सेकित ससमयवत्त्वया २ जत्यगु ससमए आषविज्जइ पणविज्जइ दसिज्जइ निदसिज्जइ  
उपदसिज्जइ सेत ससमयवत्त्वया सेकित परसमयवत्त्वया २ जत्यण परसमए आषविज्जइ गावउवदसिज्जइ सेत

वक्तव्यता इत्यादि सेकित तिष्ठा तेहने यिपे स्वसमय कचता आपणो सिद्धांत आपविज्जइ वखाणीये यथा पञ्चाशिकाय धर्माशिकाय इत्यादि तथा मञ्जा पाइ यथागतलक्षणधर्माशिकाय इत्यादि तथा प्ररूपाइ यथा तेहज धर्माशिकाय असत्यात प्रदेश रूप स्वरूप इत्यादि तथा दसिज्जइ सामाय थी धमा शिनायादिकतु स्वरूप देखाडीये यथा तिमनिदसिज्जइ दृष्टात द्वारे देखाडीये जिग मत्सानी गतिनु उपटभाक जल इत्यादि तथा उपदसिज्जइ उपनय द्वारे करी देखाडीये यथा तिम जीव पुद्गलनी गतिनु उपटभाक धर्माशिकाय इत्यादि सेत निगमन सेकित जेहने यिपे परसमय कचता अन्यतीर्थोऽङ्गे सिद्धांत आपविज्जइ वपाणीये यथा गन्ति पञ्चमश्रूया इहमेनेसि आश्रिया पुटवी आकतेज याउ आगासपञ्चमाः एते पञ्चमश्रूया ते भो एङ्गोत्ति

अनु टी०

५८०

सूत्र

भाषा

पंच समसलोके व्यापकत्वान्मेषा भूत नि ताव्ये वाच्ये षड्विधीत्यादि पंचभूतव्यतिरिक्त जीवनिषेधार्थमाह एतेपंचेत्यादि एतान्यन्तराक्तानि षड्विधादीनियानि  
 पंचमहभूतानि तेभ्यइति तेभ्यः कायाकारपरिणतेभ्यः एकः कश्चिद्विरूपोभूतो व्यतिरिक्तः आत्मा भवति ननु भूतव्यतिरिक्तः परलोकवाचीत्येवंते षाड्विध्वन्ति  
 व्याख्यातवन्तः अथ तेषां भूतानां विनाशेन देहिनी जीवस्य विनाशो भवति तद्व्यतिरिक्तत्वादेवेत्येवं लोकायतमत प्रतिपादनपरत्वात् परसमय वक्तव्यतेयं  
 उच्यते आख्यायते इत्यादि पदानां च विभागः पूर्वोक्तानुसारिण स्वयुक्ताकर्ष्यः सेयंपरसमयवक्तव्यता सेकिंतं स्वसमयपरसमयवक्तव्यता पुनर्चत स्वसमयः  
 परसमयश्च आख्यायते यथा आगारमावसंतावा अरणोवाविपत्वया इमं दरसगमावन्वा सबद्धवखाविसुर्जात्यादि व्याख्या आगारं गृहं तत्तामसंती गृहं  
 परसमयवत्त्वव्या सेकिंतं समसय परसमयवत्त्वव्या २ जत्यणं समसए आत्रविड्यार जाव उवदंसिड्यार सेतं

परसमयवत्त्वव्या सेकिंतं समसय परसमयवत्त्वव्या २ जत्यणं समसए आत्रविड्यार जाव उवदंसिड्यार सेतं  
 आड्विधा चरतेसिं विगासेणं विगासाहोइ देहिगंर एविन्नोक्तुं श्रीसूत्रकतांगटुचितार लिखित एभाषावर्णे एकैकनाशित्तने सति नोत्या प्रालोकनेविये  
 विद्यमानं छे पाच सर्वलोकने विषे व्यापवा यणा श्री महाभूत तेरुजने कहे छे षड्विधी इत्यादि । त्रिवे परभूतव्यतिरिक्त जीव निषेधवा मणी तडे छे ए ते  
 षड्विधादिक पाच महाभूत कत्या तेभ्यः कुरुता तेकायानि आकारे परिणस्या यणा श्री एक कोडिक तेतन स्वरूप पाचभवा यज्ञो यणगण्यो आत्माहे परं  
 भूत यत्नी जूयो परलोकनो जाणहार आत्मा न श्री इम ते कहे छे अथ ते भूतो विनाशे करी जीभयुं यणि तिणाच छेइ जे भणी पामा ते जी  
 जूयो नथी इति लोकाहयार्थः इम इहा लोकायतनो मत वजाख्यो तेभणो एदरसमय वक्तव्यता करीये गेप पूर्ववत् सेकिंतं जिअं स्वसिद्धात यंज परनिद्रात  
 एकठो वजाणीये ते उभय समय वक्तव्यता कहीये यथा आगारमावसन्तावा आरणा यावि पत्वया इमंदरिसिणिमामन्ना सबद्धवत्त्वा विसुर्गुइ रया० वरने  
 विषे वसता गृहस्य इत्यर्थः अथवा आरखक तापसादिक अथवा प्रवजित गाय्पादिक एभ्रश्वरं दग्गैन कुरुता नतआजरायता सर्वाःऽऽयो नुजाइ प्रति

राज्य वजापत्ति खिं न शरित्तनी अतिस संयुक्त भाग ४४४

स्यात्स्य धारणायाथापसादय पयइयति प्रज्जिताद्य शाफ्यादय इदमकदीयमतमापन्ना श्रित्या सर्वदुःखेभ्यो पिमुष्यत इत्येय यग सात्या  
एय प्रतिमादयति तेदेवपरसमयवक्तव्यता यदातु जनासदास्वसमयवक्तव्यता ततपामौ स्वसमयपरसमयवक्तव्यतामेव त्रैविचारयगाड  
इयाणि कोनभ्यो इत्यादि अवनैगमव्यवहारौ त्रिविधमपिक्तव्यतामिच्छत नैगमव्यादकगमत्याख्यवहारपरस्यतु लोक व्यवहारपरत्वास्तौकेच सर्वप्रका  
राण्यकृत्वादिभिर्भाष अजुसूत्रस्तुविशुद्धतरत्वादाद्यामेव द्विविधा व्यक्तव्यता मिच्छति स्वपरसमयवक्तव्यत नभ्युपगमेगुणिमाड तल्लण ज्ञासा इत्यादि

ससमय परसमयवक्तव्यता इत्याणि कोणलकनक्तव्ययइच्छइ तत्यगैगमरुगरववहारा त्रिविह वक्तव्य इच्छइतजहासस  
मयक्तव्य परसमयवक्तव्य ससमयपरसमयवक्तव्य लज्जुसूत्रोदुविह वक्तव्यइच्छइ त जहा ससमयवक्तव्य परसस

होकार्य इम लिभार सात्यादिक प्ररूपे तिचारे एपरसमय वक्तव्यता कर्षीये अने जिभार जैन इम वाषाणे तिचार स्वसमय वक्तव्यता तर्षीये तेभणी एख  
समय परसमय वक्तव्यता कर्षीये सेत निगमन इयाणि कोणभ्यो इत्यादि ऋषिये नैगमादिक नयमध्ये कोणाय कितरी वक्तव्यता वधि मने तिचा नेगमव्य  
वहारद्विविध वक्तव्यताने वाधे मानइ तद्यथा सुगम जेभणी नैगमसा अनेकगमाधे अने व्यवहारता लोकव्यय ररज माने अने लोक ाधितो सर्वप्रकार  
रुद्धे ते भणी एभाय तथा अजु सूत्रद्विविधवक्तव्यता वाधे माने जेभणी अजुसूत्र तेथी अतिविशुद्धे तेभणी प्रयय त्रिज्ज भेदनी वक्तव्यताने माने  
पर तीजी स्वसमय परसमय वक्तव्यतासुल न माने ते'धणमानयाइ ते स्वरुमय वक्तव्यता स्वसमय माधि पेठी तेपरसमय वक्तव्यता तेपरसमय माधि  
पेठी तीजी वक्तव्यता मये चाबी इत्यर्थं तेभणी उभय वक्तव्यतानो एहना मतेनैविषे अभावधे तेभणी द्विविध वक्तव्यताए पर त्रिविध वक्तव्यता नषी

हृतीये व्यक्तव्यता भेदेयात्तो स्वात्मयक्तव्यता गीयते सास्त्रसमयं प्रविष्टानोऽर्थः प्रथमेवक्तव्यता भेदेऽं तर्भूता इत्यर्थः चातुपरसमयवक्तव्यतासापर  
 समर्थं प्रविष्टा इदमतरुदयं द्वितीये वक्तव्यता भेदे अंतर्भावता इत्यर्थः ततश्चोभयवक्तव्यतयोः उभयरूपमक्तव्यता प्रकृतनमसतोऽसत्त्वात् द्विविधैव वक्त  
 व्यता न तिगिधिति भावः संग्रहस्तु सामान्यथादिनैगमातर्गतत्वेन विमर्शितत्वात् स्वत्वगतिरेविश्राहानप्रश्रुतत्वे इति त्वः गङ्गनापाः गङ्गलसभि  
 रूढा एवं भूताः गुहृतमत्वादेकास्त्रसमयवक्तव्यताभिच्छंति नास्तिपरसमयवक्तव्यता इति सत्यं ते कस्मादित्याह यत्नात्परसमयोऽर्जनं इत्यादि पूलं प्रतिपादयताहाननास्ति

चैहयोजनाकार्या नास्ति परसमयवक्तव्यता परसमयस्थानर्गतादेर्चे तत्वादिप्रादि अनर्वात्वं परसमयस्य गान्धर्वान्तेत्यनयं प्रतिपादयताहाननास्ति  
 यवक्तव्यं तत्परं जासासमयवक्तव्यता सासमयपविष्टाजासा परसमयवक्तव्यता सापरसमयपविष्टा तरुता दुविज्ञावत्त  
 व्यता नत्थिति विहा वक्तव्यता तिगिसद्गुणया एगंसमयं वक्तव्यं इच्छद् नत्थि परसमय वक्तव्यया वाग्हा जग्हा  
 इहा संग्रह नयतो सामान्यवादी पणां यो नैगमसञ्जे आर्युं तेभगी जयना श्रीसूतनी विचित्तगतिहे तेभगी तेजत्रो नयत्तौ यव तिगि यद्दनय  
 शब्द समभिरुढ एवंभूत रूप ते तो चतु स्रुत यो पणि गति विग्रह हे तेभगी एक स्वसमय वक्तव्यताज माने गने परतजय वक्तव्यता नास्ति इम  
 कहे वरुहास्या भगी परसमय अनयं इत्यादि दृष्टा हेतु इम वोडीये परसमय वक्तव्यता नयो पर समय चान्तरे इत्यादि तेभगी तिरा परसमये  
 अनर्थं पण एतला भगी जेभगी कोईएत दर्गनी इम कचेहे याला नास्त्ये प पात्माहे नही इम अनर्थनी नास्तिना कऽया थी मनर्थगा तहगुपारा  
 बोलीये जेभगी चालानी नास्तिनु अनर्थं पणं चालाना छया पणा श्री गति सुंभिले नही उक्तंघ डो चित्तेभसरीरि नलि अट संयंच

चातु टी०  
 ५८२  
 स्रुत  
 भाषा

५८२ भाषाभाष्ये चतुर्थोऽध्यायः ५८२

त्वमालभावेत्प्रतिपेधासुपपत्ते रूपात् ज्योतिःकसरीरे नस्ति अक्षयचोदोद्गीवोत्ति नञ् जीवमिअसते समयउप्यायउअणे । इत्याद्यन्यदफ्म्यश्चा अह्वेत्  
 ल्यचपर समयस्य हेतुत्वाभासबलेन प्रवृत्तेर्वया नास्त्येयाज्जावत्यतानुपलव्हेत्त्वाभासमाय ज्ञानादेशदुगु गस्त्योपलव्हेत्कच तणार्द्रेण गुणाण अणुभवयोहो  
 इजतुणोसत्ता जहृक्त्वाद्गुणाण उवनभासोषडाद्गुणमित्यादि प्रागेवोक्तमिति असद्गतत्वचैकातचणभगसप्तार्थाभिधायकत्वादेकातचण भगा देवासद्गत  
 त्व युक्तिविरोधात्तथाचि धर्माधर्म्युएसो कयाकय परभवाद्गुमणच सव्याविड लोयट्टि इ षडण्ण तश्चणियग्मोत्वादि अत्रिवात्वचैकात स्यूत्यताप्रनिपाद  
 तावथशुच तावापक्रियावतो भावेन क्रियाया असभवद्गुक्तच सखसुत्र ति जयपडिगन्न जेचित्ते विवक्तवा सु ताभित्राणक्रिया कतुरभावेणश्रुसडइत्यादि  
 उगार्गनपरपरविरोधानवस्थासद्यकुलत्वात्तथाचि नचिस्थायार्थभतानि स्थावरानिचराणिच आयज्यार्थभतानि य पयति साधारिग्नन ? इत्याद्यभिधाय पुन

**परसमए अणुदे अहेतु असद्भावे अकिरिए उग्नगे अणुएसे मिच्छादसण मितिकट्टु, तरुहा ससमय वत्तव्वया**

शोद् जीवोत्ति नञ्जीव मिक्षसते ससण उप्पायउअनो । अथ परसमयनु अहत्त पण एतला भणी जे परसमय हे वाभ स नेवले प्रयत्ते छे  
 यया आत्मा सर्वथा तयोज जे भणी सबधा दीस तो नथी ए हेतुने इत्याभास कहता अहेतु पणु एतना भणी जे तानात्तिक आलागा गुण प्रत्यक्षादि  
 प्रमाणे लक्ष्मीच्छे इत्त च नाणार्द्रेण गुणाण अणुभवचोदोद्गीउतुणोसत्ता जहृक्त्वाद् गुणाण उवनभास यडाद्गुण । इम यहेत्त पणु जाणवु अथ पर  
 समयने असङ्गाय पणु एतला भणी जेगायादिज एकातचण भगरूप अण उतो चर्थ बोलि इहां एकातचणभग तथा एकात नित्यादिको असद्गत पणु  
 एतला भणी जे ते युक्ति सु मिते नही उक्त च धर्माधर्म्युएसो कयाकय परभवाद्गुमणच सव्या विद्ध लोगठिइ न घडए एकातपणवमि । अथ पर समयने  
 अक्रिया पणु एतला भणी जे भणी कोई एक दर्शनी एकात स्यूच्य पणु बालि जे ने युक्ति सु मिले नथी जेभणी सर्व स्यूच्य पणे छते क्रियावतने अभावे

समुत्तानादीरति यपक्वे विगतं वसुधै कुरुते



रपि षट्सहस्राणियुज्यं ते पशूनां मध्यमेऽहनि अश्वमेधस्य वचनान्य नानि पशुभिस्त्रिभिरित्यादि प्रतिपादयतीति अनुपदेशित्वं चैकातञ्चणभंगादिवादिना महितेऽपि प्रवर्त्तकत्वात्तदुक्तं सर्वं चणिकमित्ये तद्दृष्टत्वाकोन प्रवर्त्तते विषयादौ विपाकोमे न भावीति विनिश्चयादित्यादि यतश्चैवततो मिथ्यादर्शनमिति कृत्वा नास्तिपरसमयवक्तव्यतेति वर्त्तते एवं सांख्यादि समयानामप्यनर्थत्वादि योजनस्वबुद्ध्याकार्येति तस्यात्वर्वास्वसमवक्तव्यतैव लोके प्रसिद्धानापिपरसमयस्य त्पदलं क्वननिरपेक्षतयादुर्नयत्वादसत्वेनैतेनयाः प्रतिपद्यत इतिभावः स्यात्पदलां च्छनसापेक्षताया तु स्वसमयवक्तव्यतातर्भावएव प्रोक्तच महामतिनानयास्ववस्था त्यदलाच्छिताइमेरसोपदिग्धाद्भवलोहधातवः भवंत्यभिप्रेत गुणायतसतो भवन्तमार्याः प्रणताहि तैषिणः इत्यादि सेवं वक्तव्यतेति निगमनं वक्तव्यता समाप्ता साप्रतमर्थाधिकारा वसरस्त तयो यस्य साम्नाधिकार्यथयनस्यात्मीथोर्धसदुक्तीर्त्तं न मर्थाधिकारस्य विषयलुञ्जसावज्जवोगविरतीत्यादि गाथावसरि प्रागेव

अथि परसमय वक्तव्यया सेतं वक्तव्यया सेकितं अत्र्याहिगारे २ जोजस अज्भयणस अत्र्याहिगारो तं जहा

क्रियानुं पणि अभाव ऊइ उक्तं च सत्त्वं सुन्नं तिजशं पडियन्नं जेहिते विवक्तवा सुन्नाभिहाणकिरिया कंतुरभावेण कइवडइ १ अथ परसमयने उन्नाणं पणुं एतला भणी जेभणी परस्पर विरुद्ध वाक्यना बालणहारा तथाहि नहिंसात्त्वर्भवूतानि तसानिस्थारारणि च आलवत्त्वर्भवूतानि यपश्यति स धार्मिक १ इम बोलीने वली इम बोले षट्सहस्राणियुज्यंते पशूना मध्यमेहन अश्वमेधस्य वचनान् न्यूनानिपशुभिस्त्रिभि इत्यादि बोलीये तेभणी तथा पर समव अनुपदेशके जेभणी एकातञ्चणभंगादि वादीने अहितने विषे पणि प्रवर्त्तीवयानुं उपदेशके तदुक्तं सर्वं चणिक मित्ये तद्दृष्टत्वाको न प्रवर्त्तते विषया दौ वि पाकोमे न भावीतिविनिश्चयात् १ जेभणी पर समय एहबुं तेभणी मिथ्यादर्शन इति कृत्वा तेमिथ्यादर्शनक एहेतु ऊं तो नास्तिपर समय वक्तव्यता तथा सांख्यादि समयनुं पणि अनर्थादिक पणुं स्वयमेव कइबुं तेभणी सर्वस्वसमय वक्तता जेहे परं परसमय वक्तव्यता एकात नथी जेभणी पर समयने स्यात्पद

राय वनपत सिं व वारुकरका योवम सुयव मय ४४४

कृतमिति न पुन प्रतयत इति वक्तव्यतायाधिकारयोस्त्वयमेवोपर्याधिकारोऽप्यने आदिपदादारभ्य सर्वपदेष्वनु वर्तते पुत्रलारुकायाे प्रतिपरमाणु स्वर्नात्ववत्  
वक्तव्यतातु रेगादिनियतेत अय समवतार निरूपयितुमाह सेकित समोयारेत्यादि समवतरण यमूनां स्वपरोभयेष्व तर्भाविचितन समवतार सचना  
मादि भदात्तपोढातय नाम स्थापनेसुगम एव द्रव्यसमवतारपि द्रव्यावखकादिदभ्युत्पत्तयः यावन्नक्षणीर भव्यगरोर व्यतिरिक्तो द्रव्यसमवतार  
नित्यि प्रचम लक्षणा चालसमवत र इत्यादि तत्र सर्वद्रव्याण्यथात्म समयतारेणचित्यमानायात्मभावे स्वकीयगुरुपे समयतरति वर्तते ते तदव्यतिरिक्त

साजजन्मोविरदे उक्तिगणगुणवद्योयपडिनत्तो खलियस्सनिदगावण तिगिच्छगुणधाराणाञ्चैव सेत त्रत्याहि  
गारे सेकित समोयारे २ छञ्चिहे पणत्ते त जहा णामसमोयारे द्रव्यसमायारे खेरास  
मायारे जालसमोयारे भवसमायारे नामठवणाओ पुबपणिआओ जावसेतभवित्तसरोर द्रव्यसमोयारे

नाञ्चन निरपेक्षानुनयपणाथी करी असत्यणा शेष स्यात्पदलाञ्छन सापेक्ष पणे तो स्वसमय वक्तव्यता मध्येज वालीये उक्त च मशमतिना नयाद्ने स्यात्पद  
लाङ्किता सापेत्यादि सेत निगमन इतिवक्तव्यता समाप्ता ४ अथाथाधिकार माहू सेकित किटु ते अर्थोधिकार उत्तर अर्थोधिकार तेए जो अग्रा तिशा  
जसामाधिकारिक अध्ययन नु सापणु जे अर्थ तेरु जे अर्थोधिकारना विषय छे तेतो सावज्ज जोग एगायाना अवसरने विषे पूर्व देपायु ज  
छे तेभणी इषा नयी कस्यो छिबे वक्तव्यता अने अर्थोधिकारनु एभेद जे अर्थोधिकार ते अध्ययनने विषे आदि पदयो आरम्भने सर्वपदने विषे  
नियतसर्वानरूप उद्घ सेत निगमन इति अर्थोधिकार ५ अय समवतार माह सेकित अय किटु ते समवतार कछिये ते ए प्रकार प्रकृत्यो

संस्कृतशिक्षणसंस्थान, काशी, भारत

त्वान्तेषा व्यवहारतस्तुपरसमवतारेण परभावे समवतरंति यथाकुंडेवदराणि निश्चयतः सर्वाण्यपि वस्तूनि प्रागुक्त यत्तास्वात्मन्येव वर्त्तते व्यवहारतस्तु  
 स्वात्मन्याधारेकुंडादिके वर्त्तते इति भावः तदुभयसमवतारेण तदुभयेवस्त्वं निवर्त्तते यथा कटफुल्लदेहली पट्टादि समुदायीकके गृहशंभो वर्त्तते  
 आत्मभावे तद्येवदर्शनादिति एवं बुधोदरकपालात्मकेषुट्टेग्रीवावर्त्तते आत्म भावेनेति आह यद्येवम मुद्गं तदापरसमवतारोनास्थेव कुंडादौ दृत्तानामपि  
 दरादीना स्वात्मनिष्ठते विद्यमानत्वात्त्यक्तं किंतु तत्र स्वत्मानि दृत्तिविवक्षासकृत्वेव तथोपन्यासः कृतोवस्तुदृत्त्याह द्विविध एव समवतारोतएवाह अथवा

सेकितं जाणगसगौरं भवित्रसगौरं वद्वरित्ते दृव्वसमोअरिरे तिविहे प्रसृत्ते तं जहा आयसमोअरारे परससोअरिरे  
 तदुभयसमोअरारे सब्व दृव्वाविणं आयसमोअरारेणं आयभवेसमोअरंति परसमोअरारेणं जहा कुंडेवदराणि तदुभय  
 समोअरारेणं जहाघरेखंभो आयभवेअ जहाघडेगौवा आयभवेअ अहवा जाणगशरीर भवित्रसगौरवद्वरित्ते दृव्व

तद्यथा नाम समतार स्थापना समवतार द्रव्य समवतार काल समवतार भाव समवतार तिहा नाम स्थापना सुगम तद्यथा द्रव्य सम  
 वतार परिणं द्रव्यावश्यकनी परे जाणगुं जालणि जगरेर भव्यगरीर व्यतिरिक्त द्रव्य समवतार तिहा भेदे प्रकृत्युं तद्यथा चाल समवतार पर सम  
 वतार तदुभय समवतार तिहाः० सर्वद्रव्य आग्न समवतार गरी विचारीता कृता आत्मभावे जहता आपणा स्वरूपनें विषे समवतारे कहता वर्त्तते जे भगी  
 सर्वं द्रव्य आपणा स्वरूपथी ज्ञा नथी अनें व्यवहार थी पर भावे समवतारे करी पर भावे समवतारे यथा कुंडेवदराणी निश्चय थी सर्वं वस्तु पिणं पुर्वोक्त  
 सुक्तिपर आत्माभावे जवर्त्तते व्यवहारथी आपणा आधारे कुंडादिकने विषे परिणवर्त्ततां बोलीये एभाव अय तदुभय समवतारे करी विचारीता कृता तदु

शरीर भयगरीर व्यतिरिक्तो द्रव्यसमवतारो द्विविध प्रकृतस्यया आजसवतार इत्युच्यते परसवतारस्यकाप्यसभयान्  
 धिस्याज्ज्यवर्त्समानस्य शर्थेयस्यैव परस्मिन् समवतारो बुज्यत इति भाव पूर्वचात्मदत्तविवचानालेशेव त्रैविध्यमुक्तमिद्यमिहित चउसद्विया भाय  
 समोशारेणमित्यादि सुवाभनेमनपरचतु पटिकाचतु पलमानानपूर्वनिर्णीताततचैपालपुप्रमाणत्वादपनमानावेन इष्टप्रमाणार्थां इति शक्तिकायां सम  
 वतर्तीति प्रतीतमेव एव इति शक्तिकापि पाठशयलमानाया पाठशक्तिकापि इति शक्तिकामानायामष्टभागिकाया सष्टभागिकापि चतु पटपलमा

समोशारे द्विविहे प्रथमे तजज्ञा आयसमोशारे च चउसद्विअत्रायसमोशारेण आयभवेसमोय  
 रइ तदुभयसमोशारेण वक्तोसिअएसमोशरइ आयभवेअ वक्तोसिअ आयसमोशारेण आयभावे समोतरइ तदु  
 भयसमोशारेण सोलसिअए समोशरइ आयभवेअ सोलसिअ आयसमोशारेण आयभवेसमोशरइ तदुभयसमो

भय विज्ञने विषे पणिय वस्तु वर्त्सं यथा कृत क्रया देहनी पट्टादि समुदाय रूप धरन विषे साभयर्त्सं छे आत्म भावने विषे पणिय वर्त्सं हे जे भणी यामोघर  
 मये पणिय जणाइ अने ऋषो पणिय जणाइ एव बुभ उदरकपालादि समुदाय रूप षडाने विषे शीवावर्त्सं हे अने आत्म भावने विषे पणिय वर्त्सं हे इच्छा कहेछे  
 जो इम पर समवतार अगुड हे जे भणी कु खडिकने विषे वस्तुनारइया नथी तो विभेदेज समवतार युक्त तेभणी कहे हे अथवा शरीर भय शरीर  
 व्यतिरिग द्रव्य समवतार विभेदे प्ररूप्य, तद्यया आत्म समवतार अने तदुभय समवतार अने अगुड पर समवतारतु किछाइसभय नथी जे भणी जे  
 आपणा स्वरूपन विषे न वर्त्सं तेइने वाङ्मना पुत्रनी परे परा विषे समवतार युक्तिउनमित्ये एभाव तथा पूर्ण आत्माने विषे इ'न अण १५पञ्जाने विविध

१५पञ्जाने विविध आपणा स्वरूपन विषे न वर्त्सं तेइने वाङ्मना पुत्रनी परे परा विषे समवतार युक्तिउनमित्ये एभाव तथा पूर्ण आत्माने विषे इ'न अण १५पञ्जाने विविध

७५  
 ७६  
 ७७  
 ७८  
 ७९  
 ८०  
 ८१  
 ८२  
 ८३  
 ८४  
 ८५  
 ८६  
 ८७  
 ८८  
 ८९  
 ९०  
 ९१  
 ९२  
 ९३  
 ९४  
 ९५  
 ९६  
 ९७  
 ९८  
 ९९  
 १००

अनु टी०

५८८

खल

भाषा

नाया चतुर्भाषिकाया चतुर्भाषिकायथायथ्यविक्रगतपलमानाया अर्द्धभाषिकाया एषापि षट्पंचाट्यधकपलशतहयमानिकाया साषिणिकाया  
 ससवतरति आलससवतारस्तु सर्वत प्रतीत एव समाप्ताद्रव्यसमवतारः अथज्ञत्रसमवतारं विभक्तिपरां विभक्तिं खेत समोचारे इत्यादि

यारेणंअठभाइआएससमोअरइ आयभावेअ अठभाइआआयसमोआरेणंआयभावेसमोअरइ तदभवससमोआरेणंचउ  
 भइआएससोअरइ चउभाइयाआयसमोआरेणं आयभावे समोअरइ तदभवससमोआरेणं अठभाणीए समोअरइ आ  
 यभावेअ अठभाणी आयपमोआरेणं आयभावेसमोअरइ तदभव समोआरेणं साणीएससमोअरइ सेतं जाणगसरीरभ  
 विअसरोरवइरित्ते डव्वसणीआरे सेतं गोआगसओ डव्वसमाआरे सेतं डव्वसमोआरे सेकितंवेतसमोआरे २० विहे  
 पं तं आयससमोआरेअ त भयससमोआरेअ भरहेवाभे आयस० आयभावेस० तदभव समोआरेणं जंबुद्वीविसफ्जे० आ  
 यभावेअ जंबुद्वीविससमे० आयभावेससोतरइ तदभवससोतारेणं तिरिअलोए समोतारइ आयभावेअ तिरिअलो  
 ए आयससोतारेणं आयभावे समोअरइ तदभवससोतारेणं लोएससोतरइ आयभावेअ सेतं ऐत्तससोआरे सेकितं

समवतार नील्य, तेभगी तेविवचामाल जाणवु'परंतस्वयी विभेडज समवतारं छे गेप अउसठिया पायससांयारेणमिवादि सुगमं नररं चौसठिया अरि  
 पल प्रमाण पूर्वे कक्षा है तेभगी एलउ प्रमाण ऊइ तेभगी अटपल प्रमाण पणे करी जे मोटा प्रमाणनी वतीगिका ते'ले' विने ससवतरे तं' यती'रित्त  
 नीलपलमाननी पोडगिकाने' विपे समातरे तथा पोडगिता वतीमपलम'ननी अटभागिकाने' विपे समवतरे तथा अटभागका चौसठि पलमाननी

१०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२०

६४ भरतादीनां लोकपर्ययानां क्षेत्रविभागानां यथापूर्वं लघुप्रमाणस्य यथोत्तर एव साक्षसमयतारिपि समयान्तरं कालविभागस्य लघुत्रादावलिखादौ दृष्टतिकालविभागे समवतार सर्वत्र एव आत्मसमवतारस्तु सर्वत्रस्पष्ट एव अथभाष्य समवतार

कागसमाचारे दृष्टिहे पश्यन्ते तजहा आयसमोचारेऽथ समएआयसमोचारेण आयभाविसमोचारेऽथ तदभयसमोचारेण आयसमोचारेण एवमाणापाणू योवे तवे सुडन्ते अहोरेते पक्वे मासे ऊऊ आयणे सबच्छरे जगेया सतेया सहसेया सतसहसेवा पुबगे पुब्ये तुडिअगे तुडिए अडडगे अडडे अववगे अववे हएअगे हूहूए उप्यतगे उप्यले पउअगे पउमे एलियगे एलिये अत्यनिलरे अत्यनिलरे अउए नउअगे नउए पउअगे पउए चूलिअगे चूलिअ सोसपहेलिअगे सोसपहेलिअ पलिअोवसे सागरोवसेआयसमोचारेण आयभाविस स० तदभयसमोचारेण उसप्यिणोउ आयभाविस उसप्यिणोउ आयसमोचारेण

चतुर्भागानि विपे समवतरे तथा चतुर्भागिका १२८ पलमाननी अर्द्धमाणिकानि विपे समवतरे तथा अर्द्धमाणिका २५६ पलमाननीमाणिकानी विपे समवतरे अने आत्म समवतार तो सबत सुगम सेत वि निगम १ सेनात खेतसमोचारे इ०१ भरत क्षेत्रादिक लोका प्रयत जेतना विभाग ते पूर्वकार चतु प्रमाण क्षेत्रानु यथोत्तर माटार क्षेत्रानि विपे समवतार छड एव काल समवत रने विपे पणि समयानिक छड कालविभागानु आयत्यादिक मोटाकाश्चिभा गने विपे समवतार छड अने आत्म समवतार सर्वत्र सुगम सेकित आयसमोचारे सुगम नवरूपत उदयिक भाष रूप पयाथी कोधादिक भाष समवतारने

विगद्युराह सेकितं भावसमोथारे इत्यादि इहोदधिकभावप्रत्याक्त्रोधादयो कोपासंभवान्मानयानिव विाल  
 दुष्यतीति कोपस्यसानेसमवतार उक्तः जेपणालेव मानदलिकंमाथाया प्रक्षिपतीतिमानस्य सायाथा ससवतारः सायादलिकमपिच्लेपण  
 काले लोभे प्रजिष्यन्नयतीति सा गायालोभेसमवतारः एवमन्यदपिकारणंकारणांतरांतर्थाभिध्त्वास्तुखिवा भायंलोभात्मकतात्कारागस्य लोभोरागेसमवतरति  
 रागोपिसोहभेदत्वान्मोहेसाहोपि कर्मप्रकारमादट कर्मप्रकृतियु कर्मप्रकृतत्रयोप्यौदयिकोपगमि चानि भावदत्तितात्पर्युशायेषु भाना अपिजीवाञ्चित

आयभावे० तद्भयस० पोगलपरिअट्टेसमो० आयभावेअ पोगलपरिअट्टे आयसमोआरेणं आयभावेसमोतरद्  
 तभदुयस० तौतद्वाअणागतद्वासुसमोअरद् आय० तौतद्वा अणागतद्वाअ आयस० आयभावे० तद्भयसमोतारेणं  
 सब्वाएसमोतरद् आयभावेअ सेतं कालसमोतारे सेकितं भावसमोतारे २ दुविहे प तं आय० तद्भयस० कोहे  
 आय० आयभावे० तद्भु० सारो समो० आयभावेअ एवंमाणे साया लोभे रागे मोहणिज्जे अट्टकसपयडोओ आय

विषे ग्रच्या तिहा अहंकार एवना कोपन छद् एतले मानवंतज कोपे तेभणी मोधमानने विषे समवतरे यने अरण देकाइं मानगादलमायामाहिधालीप  
 पावे तेभणी मानसायाने विषे समवतरे तथासायादलिकपधानी येलाये लोभमाहिधालीपपावे तेभणी सायालाभने विषे समवतरे तथालोभराग रूपहे  
 तेभणी लोभरागने विषे समवतरे तथा राग मोहनीयनुं अद छे तेभणी ते मोहनीयने विषे समवतरे तथा सागनीय ते कर्मनुं अद छे तेभणी ते  
 अट कर्मनी प्रकृतिने विषे समवतरे तथा कर्म प्रकृति ते उदयिकादिक भाय रूप हे ते भणी तेष आयने विषे समवतरे तथा भाव पर्णि जीवने विषे

राय भवतपिखे मथाररणी अतल सयल मल ४४५

त्याज्योनेजीवापि जीवाशिकायभेद जीवाशिकायोपि द्रव्यभेदत्वात्कामस्तद्रव्यसमुत्पाये समवतरतीति तदपभावसम्बतारोनिरूपितोऽत्रच प्रसूते  
 आपश्चक विचार्यमाणे सामायकाद्यध्ययनसपि ज्योपशमिकभावरूपत्वात् पूर्वोक्तैष्वस्तुष्यादिभेदेषुप्रसमवतरतीति निरूपणीयमेव शास्त्रकार प्रवृत्तेर  
 न्यततथैवंगनात्तच्चसुख्यावसेववात्कारणात्तद्ध्वेन निरूपित गोपयोगत्वात् स्थानान्द्रव्यत्वाथे किश्चिद्वयमेव निरूपयाम सातसामाधिक चतुपियति  
 सब इत्याद्युक्तीत्त न विषयत्वात्सामाधिक्याध्ययनसुक्तीत्त नानपूर्व्यसमवतरति तथा गणनाम् पूर्व्याच तथाहि पूर्व्यानुपूर्व्यांग एतानभिद प्रथम पद्याम्  
 पूर्व्यानुपट अनानुपूर्वोत्तुष्ट्यादिस्थानवृत्तित्वात् निवृतमिति प्रागेवोक्ता उदयिकादि भावभेदा पक्षानपि प्रागुक्ता तत्र सामाधिकाध्ययन श्रुतज्ञानरूपत्वेन  
 ज्योपशमिकभाववृत्तिवात् चावापशमिक भावनायांसमवतरत्याह च भाष्यकार छव्विहामि भावे ऋतयसमिएसुयसमोयसू जसुयनाणापरण खड

**समोत्तरेण आयभावे समोत्तरद् तद्भव्यसमोत्तरेण छव्विहभवे आयभावेच एव छव्विह भवे**

आत्तरु ह्ये तेभ्यो तेज्जीपने विषे समवतरे तथा तेजीवाशिकायनु भेदह्ये तेभ्यो तेजीवाशिकायने विषे समवतरे तथा जीवाशिकाय तेषु ड द्रव्यु भेद ह्ये  
 तेभ्यो तेभ्यो द्रव्यने विषे समवतरे गोप तथैव सेत तेए भाव समवतार अथ एगासने विगे तो आबस्यरु विचात्या पूरे तेभ्यो सामाधिक्यादिकाध्ययन  
 पथि ज्योपशमिकादि भावरूप पणाथी पूर्वोक्त चापुर्व्यादिभेदने विषे किञ्च समवतरे इम देपाडिवा भणीज शास्त्रकारनी प्रवृत्तिं ह्ये अने अनैराभाय  
 ता तेज्जीने विप देवाद्य ह्ये तेभ्यो मुगमादिक कारण थी ख्वने विषे तेसामाधिक अध्ययनादिक समगतारी देपाड्या नथी षिवे तेषवथ्य सम  
 वतारी देवाद्या जोईये तेभ्यो ठामना अस्त्य पणने अर्थे किंचित्वात्र अखेज समयतानी देखाडो ह्ये तिहा सामाधिक चतवीभयो इत्यादि लकी  
 त्तानमा विषय पणाथी सामाधिक अध्ययन लतकीर्त्तानानु पूर्वने विषे समवतरे अने गणनापु पूर्वने विषे समवतरे तेकिम पूर्वोनुपूर्वीइ गणतां

सद्विचारानाम् अथवा समवतारानां भावः

५८१



वे समजंतव्यं सर्वं प्रमाणे च इत्यादि भेदेः प्राग्निर्णीत जीवभावरूपत्वाद्भावप्रमाणे षट् समवतरतीत्युक्तं च दब्बाइ चउभेवं पमीचएजेगतंपमार्णति इगमज्ज  
 वणं भावोति भावपमाणेसमोअरइ १ भावप्रमाणं च गुणनयसंख्याभेदतस्तिधा प्रोक्तं तथा न्यगुणसंख्याप्रमाणयोरेवावतारो नय प्रमाणेपि यद्यपि आसज्जउसो  
 यारे नएणनयविसारउव्या इत्यादि वचनात्कच्चित्त्वमवतार उक्तं स्यापि साप्रतं तथा विषयविचारा भावाह सुवृत्त्यानवतार एव यत इदमप्युक्तं गूढनय  
 सुवंकालियं ननवासमोयरेति इदमित्यादि सञ्जासतिनायुक्तं गूढनयंतुनसपरि नउप्यमाणेच आरोति गुणप्रमाणमपि जीवाजीवगुणभेदतोहिधा प्रोक्तं  
 ततास्य जीवो पयोगरूपत्वाज्जीवगुणप्रमयो समवतारश्चास्ति नपि ज्ञानदर्शनचारित्र्यभेदतस्त्वप्राम्के यस्य ज्ञानरूपतया ज्ञान प्रमाणेनतार सतापि प्रत्य  
 जानुमानोपमानागजभेदाच्चतुर्विधे प्रकृताऽध्ययनस्य प्राप्त्यैरूपतया आगमेऽन्तर्भावश्चास्ति नपि लौकिकलौकात्तरभेदभिन्ने परमगुणप्रणीतत्वे न लौकिकेतरिके

**जीवे जीवत्यिकाए आद्यसमाश्रयेणं आद्यभावे समोरइ तदुभयसमोअरेणं सज्जद्वेससमोअरई आद्यभावेय रत्य**

ए अध्ययन प्रथम बोलीइ अने पयानुपूर्वीइ गणता छदुं नालीये तना अनानुपूर्निं विपे ता भीजा ठाम चाटि अनेक ठामने विपे भावेतेभ ही अनि  
 यत ऊइ इम पूरं कर्तुं नै त १ उदयिकादिक्क भाव पूर्व बोल्या छै तिजा सामाधिक्याध्ययन च्युत ज्ञान रूप पणाथी ज्ञयोपगच्छिज भावने विपे वने  
 तेभणी जायापगमिक भावनमनं विपे समवतरे आरु च भावकार च्छव्विफनामेभापै राउयसमिए सुगं समोअरइ जगुयनागापरणं राउयसज्जंतव्यं  
 सर्वं १ तथा प्रमाण जे द्रव्यादिक पूर्व ज्ञाना छै तेमध्ये जीव भाव रूप पणाथी ए अध्ययन भाग प्रमाणने विपे समवतरे उक्तं च दब्बाइ चउभेवं पमीचए  
 णेण तपमाणं ते इगमज्जयणं भावोति भाव प्रमाणे समो अरइ १ तथा भावप्रमाण वणी गुणनय संख्याना भेद यो तिणि भेदे बोस्य, छै ते मध्ये एषध  
 यन गुण प्रमाणने विपे अने रंख्या प्रमाणने निपे समवतरे तथा नय प्रमाणने विपे ता यद्यपि आसज्जउसोअरे नएण नय विसागउपूसा इत्यादि

शुभु टी०

५६२

सूत्र

भाषा



सार्थतः सर्वाध्ययनां नाम पिस्वसमदय कृत्यताया मेवावतारः तदुक्तं परसमर्थं उभयंवा सस्यं दिष्टिस्वउसमअर्थेण तोसव्वज्जगणाः इं ससमयवत्तव्वनेयाइं १ एवं च तुविशतिस्वादिष्वपि वाच्यमित्यलमतिविस्तरेणोतिसमाप्तः समवतारं सांख्यसर्थनेच समाप्तं प्रथमं सुपक्तमहारं अथ निक्षेपहारं निरूपयितुमाह सेकितं निक्खे वे इत्यादि निक्षेपः पूर्वोक्तशब्दार्थस्त्रिविधः प्रज्ञप्त सद्यथा औषनिष्पन्न इत्यादि तत्तौषः सामान्यमध्ययनादिकं श्रुताभिधानंतेन निष्पन्नऔषनिष्पन्नः नाम श्रुत स्यसामाधिक्ये विशेषणमतेन निष्पन्नो नामनिष्पन्नः सूत्रालापकाः करेमिभंते सामाद्वयमित्यादिकासौनिष्पन्नः सूत्रालापकनिष्पन्नः एतदेवभेदत्वयं विव रोषु राह सेकितं ओह निष्पन्ने इत्यादि औषनिष्पन्नश्चतुर्विधः प्रज्ञप्तसद्यथा अध्ययनं अक्षीणं आयः क्षपणा एतानिचत्वार्थपि सामाधिक्यवत्तुविशतिस्वादि

समोतारे सेतं समोतारे सेतं उवक्कसे उवक्कमे इति पटमंदारं १ सेकितं निक्खे वे २ तिविहे पणत्ते तं जहा ओह निष्पणे नामनिष्पणे सुत्तालावनिष्पणे सेकितं ओहनिष्पणे २ चउव्विहे पणत्ते तंजहा अज्जभयणे अज्जभौणे

सस्यग् दृष्टी पर समयनें विषे विभागे करी भेले परं एकात पचनें स्थापवे करी न भेले तेभणी ते सस्यग् दृष्टीं परिश्रुं खसमय ज बोलीये एतला भणी सर्वं अध्ययननुं निश्चय नयथी खसमय वक्तव्यताने विषे समवतार बोल्युं तदुक्तं पर समयं उभयंवा समदिष्टिस्वउसमअण तो सव्वज्जगणाइं ससमयवत्तव्वनेया इं १ एवं चउव्वीसत्याध्ययनादिकनें विषे पणि बोलवुं सेतं तेए समवतार ते पूरुं करता समाप्तं पडभेद उपक्रम ते भणी सेतं निगमनं उपक्रम इति प्रथम हारमति कांतं १ अथ द्वितीयअनुयोग निक्षेपाहारमाह सेकितं किंसुं तेनिक्षेप उत्तर निक्षेप पूर्वोक्त शब्दार्थं तेतिउं भेदे प्ररूप्यं तद्यथा औषनिष्पन्न नाम निष्पन्न अनें सूत्रालापक निष्पन्न तिहा औष कहतां सामान्य पणि अध्ययनादिक रूप श्रुतनुं नाम तेणो करी जे नीपनो ते औष

राय धरपतिसिं बंधुधरकाजी बंधुधरकाजी ७४५

श्रुतवियोगाणां सामान्यानि यथाहि सामाविक अध्ययनमुच्यते यदिवा अक्षीण निगद्यते इदमेवाय प्रतिपद्यते एतदेव क्षपणाभिधीयते एव चतुर्विंशति  
 सूत्रादिखण्डविधानीय रूपाप्रतमेतेषां मपि निक्षेप प्रत्येकमभिधीयते रात्रि सेकित अक्षयणे इत्यादि नामस्यापना द्रव्यभायभेदाच्चतुर्विधोध्ययनशब्दस्य निक्षेपसत्ता  
 नामादि विचार सर्वेषु पूर्वोक्त द्रव्यावयवकारुसारैणवाच्यो वाच्यो वागमतो भावाध्ययने अक्षय्यमाणयणमित्यादि गथायाख्या अस्य सवित्तस्य आणयण  
 इतिरुक्त विधिना प्राप्ततस्माभावाच्च एकारणकार लक्षणमध्यगतवर्णचतुष्टयलोपे अध्ययणमिति भवति अथात्मचेतसास्यावनमध्ययनमुच्यते

आए सुवगा सेकित अक्षयणे २ चतुर्विंशति पक्षत्ते तजहा यामक्षयणे ठवयुञ्जयणे भावउक्षयणे  
 यामद्ववणाश्रो पुष्ववखिशाश्रो सेकितद्वववक्षयणे २ दुविहे पक्षत्ते तजहा आगमश्रोश्रो योआगमश्रोश्रो सेकित  
 आगमश्रो दव्वक्षयणे २ जसयुञ्जयणचिपद सिक्खित द्वित जित मित परिजित जाव एव जावइआ अणुव

नियन्त्र निक्षेपो नक्षिये तयानाम कश्चिदपि नाम तेषोक्तीनीपनो तेनाम नियन्त्र निक्षेपो कश्चिये तथा सुखालापक करे  
 मिभते सामादृष्य इत्यादिक तेषोक्तीनीपनो, ते सुखालापक नियन्त्र निक्षेपो कश्चिये अथ धुरिला विभेद विवरै छे सेकित अथ किञ्च तेचोप नियन्त्र  
 निक्षेपो उत्तर चोप नियन्त्र निक्षेपो च्यारिभेदे मरुष्ठी तद्यथा अध्ययन अक्षीण अथ क्षपणा एष्यारैरे सामाधिक चतुर्विंशति सावादिक क्षेपुतना विशेष  
 तेचने सामान्य नाम जाणशा तथाहि सामायक अध्ययनने अध्ययन पणि कश्चिये अक्षीणयिण कश्चिये अथ पणि कश्चिये अथवाक्षपणा पणि कश्चिये  
 एष चतुर्विंशत्याध्ययनादिकने विपे पणि बालवा क्षिये एचिज च्यारि नामना निक्षेपाने कहे छे तिशा अध्ययन शब्दना च्यारि निक्षेपाने विपे तामाध्य

इति भावः आनीयतेव सामायिकाद्यध्वने गोभनंचेतोऽस्मिन्सत्यशुभकर्म्म प्रांधनादृतएवाश्कर्म्म गामुपचिदानां प्रागुपनिवद्धाना यतोऽपचयोऽक्रासोऽग्निन् प्रतिविद्यते नवानां चाहुपचयोऽंधोयसस्माद्दीदं यथोक्त गद्धार्यप्रतिपत्तेः अथयणं प्रकृतभाषायाभिच्छंति सूत्रयः संख्यनेत्वित्प्रमयनसुच्यत इति सामायिना दिकं साध्यनं ज्ञानक्रियासुदवात्मकं ततथागमस्यैकदेशदृष्टित्वान्नो आगमतो अक्रयनमिमेसुक्तभित्तिगानार्थं सेतमित्यादिनिगमनवसुक्तसध्यदनं तथा निक्षेपं विवक्षुः रात्र् सेकितं अभोगमित्यादि यथापि तथैव विचारो यावत्सखागससेगिति सर्वाकांगं लोपालोकात्मकः दृग्दृग्प्रत्यक्षरूपं ध्वनिः प्रदेग्यापचारतो

उत्ता आगमत्रो तावद्द्राद्रं दृव्वञ्जयगाद्रं एवमेवववहारस्ववि संगहसगं एगोवा अरोगोवा जाव सेतं आगमत्रो दृव्वञ्जयणे सेकितं गो आगमत्रो दृव्वञ्जयणे २ तिविहे प्रसत्ते तंजहा जागमसोरेर दृव्वञ्जयणे भवित्रसरोरेर दृव्वञ्जयणे जागगसरोरेर भवित्रसरोरेर यद्रित्तेदं सेकितं जागगं २ अदृव्वञ्जयणपदव्याहिरगारजा गयस्र जंसरोरेरं ववगयचुअचाविअ चत्तदेहं जीवविष्यजहुं जावअहोणं इलेगं सरोरेरसमुख्यणं निगुद्विष्टेणं

यनादिक नामावस्थकादिकवत जाहणे नो आगम यो भावाध्ययनेन विषे अक्षय्यमागयणं गारा पूर्वां निरुक्तानी विषदं करो अत्रत प्रकृत भाव यीएकार आकारसकारणकार रूप च्यादि अक्खर लोपेडंते अक्रयण एह्युंयार तिदां अथाता कृता चित्त तेहनो जेजानयन नरुता थाणुतेभगी अध्ययन कश्चिये एतले शुभचित्तनुं जाचवुं ते अध्ययन कश्चिये अथ शुभचित्तनुं जाणुते ऊंती यशुभ नर्मनुं धन तहे दे तज्जमाणं अत्रयथाणं जे यी पूर्वला जे उपचित्ताणं बांध्याकर्म्म तेहनो अपचयद्यय छर एने ए ऊंती नवाकर्मनुं अत्रुपचय चणवांधुं छर ते भगी ए चयोक्त यद्वार्थं प्रकृत भावपनि

पद्भ्यमाणापिन कदा पितृक्षीयते अतोन्नशरीर भव्यशरीर व्यतिरिक्त द्रव्याक्षीणतया प्रोच्यते द्रव्यतायाऽऽकागद्र व्यातर्गतत्वादिति सेवित आग  
 मघो भायन्कीणेर जाणएउवउत्ते अत्र दश्राव्याचवते यस्माच्चउद्दं गपूर्वविंद आगमोपयुक्तस्यातमुं हर्त्तं मात्रोपयोगकालेयेषोपलभोपयोगपर्ययाले प्रति  
 समयमैकैकानजारेणानताभिरण्युख्यिणीभिर्नापद्भ्यते अतोभावाक्षीणतेषावसेया नो आगमततुभावाक्षीणता शिव्येस्य सामायिकादिश्रुतप्रदानेपिस्या  
 भावेण अउक्तयणेत्तिपद आशवित जाव उवदसित जहाकोदिदृ'तो अयवयकु भे आसी अयमड कुं भे आसी  
 सेत जाणगसरीर दव्वक्तयणे सेकित भविअसरीर दव्वक्तयणे २ जेजेवे जोण्णिजस्यण निक्खते इमेणचेव आदत्त  
 एण सरीरससुसणण जिअदिदृण भावेण अउक्तयणेत्तिपय सेअकाले सिखिस्सति नतावसिक्खति जहाकोदिदृ तो  
 अय मडकु भे भविस्सइ अय षठकु भे भविस्सइ सेतं भविअसरीर दव्वक्तयणे सेकित जाणग सरीर भविअसरीर  
 वइरित्तो दव्वक्तयणेरे पत्तयपोत्थयलिखित सेत जाणगसरीर भविअसरीर यइरित्तो दव्वक्तयणे सेत यो आगमओ  
 दव्वक्तयणे सेकित भावउक्तयणेरे दुविहे पन्नत्ते तजहा आगमओअ योआगमओअ सेकित नो आगमओ भावउक्तयणे एक  
 दृश्यति पूयसुरियां छे बोने अने ससूतने विपे तोए पणि अथयन कचिने अथ सामायकाध्ययन ते हान क्थिया समुदाय रूप एं तेभणी आगमना एक  
 वर्गनेने विपे पत्तं वा पणां छ ती अनेनो गइनादेग वाची पणाथी नो आगमयो भावाध्ययन ए बोली पृति गथार्थ सेत णिगमन विणि एतले अध्ययन  
 निक्षेपो अथ अक्षीण गटनु निक्षेपमाइ दृशं पणि तिमज लेवो यावत् शरीर अतिरिक्त द्रव्याक्षीणने विपे सर्वलोकाकाग स्वरूप तेवनी जे एक

अनुटी ५८० सुत भाषा

कल्पनायादित्ये तदेवाह अहदीवागहा व्याख्या यथादीपादवधिभूतादीपयतं प्रदीपयते . प्रवर्त्तते सचमूलभूतो दीपसायापि तेनैव रूपेण प्रवर्त्तते नतु स्वयं ज्यसुपयाति प्रकृते सर्वध्वजान्त एवं दीपसमा आचार्यादीप्यते स्वयं विवचिता द्युतत्वे न तदैवागतिष्टते परंच गिष्यवर्गदीपयंति द्युतसंपदं लंभयंति सतनो आगमतो भावाचीणता द्युतदायकाचार्योपयोगसागमलाहाक्राययोगोयावागमलाहावनीयेति दृष्टाव्याचनते इति गाद्यर्थः अयायतिक्षेपं कर्तुं साह सेकितं आयेत्यादि बायः प्राश्लर्भाभ इत्यनर्थातरं कस्यापि नामादि भेदभिमन्स्यविचारः सूत्रसिद्धएव वाक्ये कितं अचित्तेर स्वयमेत्यादि लौकिकी

अउभाप्यसाणयणं कस्मान् अवचओउवचिआणं अणवचउनवीयाणं तस्माअउभयणमिच्छइ सेतं णो आगमओ भाव उभयणे सेतं भावउभयणे सेतं अउभयणे सेकितं अउभौणेइ चउखिहे पणुसेतंजहा गामउभौणेठवणउभौणेइद्वउभौणे भावउभौणे नामठवणाउ पुब्बं वण्णिआउ सेकितं दव्वउभौणे २ दुविहे पणत्ते तंजहा आगमओअ नो आगमओअ सेकितं आगमतो दव्वउभौणेइ जसणं अउभौणेत्तिपदं सिक्खितं जितं मितं परिजितं जावसेतं आगमतो दव्वउभौणे

अत्रिण तेहवुं एक २ प्रदेश अपहरतां कदाचि पणि ते अणिजय न ऊइ तेभणीअ गरीर भयगरीर व्यतिरक्ता द्रव्याचीण बोलीये द्रव्य पणुं एहने एतला भणी जेते अणि आकाय द्रव्य मध्ये हे तेभणी सेतं निगमनं सेकितं अय किइं तेभावाचीणर किभेइ जसुं तयथा आगम की गने नो आगमची सेकितं अय किइं ते आगमयी भावचीण उत्तर आगमची भावचीण तेए जाणवो ए उवउत्ति इहा उपयोगना पर्वाय ते प्रति समये एकर अपहरता अनती उव्वाप्पिणी अवसप्पिणीये करीपिण्ण अपहरस्थानजाइ ते! भणी भावाचीण पणुं जाणवुं अने नो आगम ची भावाचीण पणुं ते जे गिष्यने

तत्र अत्रापि सिद्धं कथं चित्तं का आगम स्वयं स्वयं ४४३

विचस्य सुवर्णादेराढ्योमतयल्लतसुवर्णादीनि प्रतीतानि सिलसि गिलासुक्तागैलराज पट्टादीनां रक्तवस्त्राणि रत्नानि पद्मरागरत्नानि सतसावण्णस्यसि  
सद्विद्यमान स्यापतेयद्रथ तस्या य समाहरिया उज्जाल क्रियाणति आभरिताना सुवर्णस कलिकाटिभूपितानां अतोद्योर्भ्रंशरी प्रमुखैरलक्षतानां अथ अप  
णानिजेप विषयु राह सेकितः अयणालपणा अपचयोनिर्जरा इति पर्याया शेष सुत्रसिद्धमेव यावदोषनि पन्थोनिजेप समाप्त सर्वत्रेह भावे विचार्येऽध्ययन  
मेय योजनीय अथ नामनिपन्न निक्षपमाह सेकित नामनि पन्ने इत्यादि इहाध्ययनाचीणाद्य पेक्षया सामाधिकमिति वैशेषिक नाम इद लक्षण चतुर्धि

सेकित नो आगमतो दब्बज्जोणेत्तिविहे पणत्ते त जहा जाणगसरोरदब्बज्जोणे भविअसरोरदब्बज्जोणे जाणगसरोर  
भविअसरोरवद्वरित्ते दब्बज्जोणे सेकित जाणगसरोर दब्बज्जोणेत् अज्जोणपथत्याहिगारजाणयस्स जसरोरयववगय  
चअ चाविअ चत्तदेह जहादब्बज्जोणत्ते तहा भाणिअब्ब जावसेत जाणगसरोर दब्बज्जोणे सेकित भविअसरोरदब्ब  
ज्जोणेत्ते जेजे वि जाणि जम्मणि निक्ख ते जहादब्बज्जोणत्ते भविअसरोरदब्बज्जोणत्ते सेकित जाणगसरोर भविअ

सामायिकादिक श्रुत दीप्ते उ ते पणि पोताना श्रुतगुनाय न उइ तेभणी तेचज कहेखे जइदीवा गाहा जिम एक दीवाथी दीयानासेफडा प्रदीपार्थये मने  
तेमूलम्त दीपु तथा स्वरूपेज दीपइ प्रवत्ते पर स्वयमेव कांद्दि पेटेनचो इम दीवातुल्यथी आचार्य स्वयमेव दीपे कइतां विषद्वित श्रुत पणि तिमज रइ  
अने अनेरा श्रियवर्गने दीपावे कइतां श्रुत सपदादीये अतनोआगमथी भाषचीण पणु एतला भणो श्रुतदायक आचार्यतु उपयोग ते आगम  
कइये अने वचनयोग काययोग ते अनाम कइये इति गार्थार्थ सेत निगमन त्रिणि अथाय निजेप माह सेकित अथ किमु तेचाय उत्तर आय कइता



रीरवद्भिरित्ते दब्बज्झोणेरे सव्वागाससेदो सेतं जाणगसरीरे भविअसरीरे वद्भिरित्ते दब्बज्झोणे सेतं नोआगसओ  
दब्बज्झोणे सेतं दब्बज्झोणे सेकितं भावज्झोणेरे दुविहे पयत्ते तंजहा आगमओअ नोआगमओअ सेकितं आगमतो  
भावज्झोणेरे जाणए उवइत्ते सेतं आगसओ भावज्झोणेरे जहदोवादोवसतं पइप्पए  
दिप्पएअसोदोवो दोवसमाअयरिआ दिप्पंति परं चदोवतिरे सेतं नोआगमओ भावज्झोणे सेतं भावज्झोणे सेतं  
अज्झोणे सेकितं आएरे चउव्विहे पंतं नामाएठवणाए दब्बाए भावाए नामठवणाओ पुब्बअणिआओ सेकितं दब्बाएरे  
दुविहे पंतं आगमओअ नोआगमओअ सेकितं आगमओ दब्बाएरे जसणं आयत्तिपदं सिक्खितं ठितं जितं भितं प  
रिजितं जावकग्हा अणुवओगो दब्बमितिकहु, नैगमस्सणं जावइआ अणुवउत्ता आगमतोतावइआ तेदब्बाया जाव  
सेतं आगमओदब्बाए सेकितं नोआगमओदब्बाएरे तिविहे पंतं जाणगसरीरेदब्बाए भविअसरीरेदब्बाए जाणगसरीरे

प्राप्ति तथा लाभ इत्यादि एकार्थं सेषं तथैव यावत् सुखे त्यादि सुगम नवरं संतसावएष्णाणं प्पाए तिहां संत कहता छतो स्वापतेव कहता विद्यमान धन  
तेहनुं आय तथा समाहरिआ उज्जालंकि चाणं तिहा समाभरित कहतां सुवरणं साकखायादिके करी भूषित अने' आतोद्य कहता अक्षर्यादिक वाजित  
तेणे करी अजंलत तेहनुं आय लाभशेषं सुगमं सेतं चारि समाप्ति अथ जपणा निचेपमाह इहासर्वपूर्ववत् सेतं निगमन पाचएतले ओष निष्यन्न निचेपो  
निचेप्पुं अथ नाम निष्यन्न निचेपमाह सर्वसुगम जस्र लोक जे जीवनुं सामानिक कहतां संनिहित दूकडुं आत्मा सर्वकाल लगिव्यापारवाथी किहा

एव यनपत विंशतिरना याना यन ७४३

भविअसरोर वडूरित्तेद्व्वाए सेकित जाणगशरीरद्व्वाए २ आयपयत्याहिगारजाणयस्स नसरोरयं ववगयचुअ चाविअ  
 चत्तदेह जहा दव्वक्यणे जावसेत जाणगसरीरद्व्वाए सेकित भविअ सरोरद्व्वाए २ लेजोवेजोणोअस्सणखित्तेजहा  
 दव्वक्यणे जाव सेतभविअ सरोरद्व्वाए सेकित जाणगशरीर भविअसरीर वडूरित्ते दव्वाए २ तिविहे पणत्ते तजहा  
 लोइए कुप्पायथणिए लोगुत्तरिए सेकित लोइए २ तिविहे पणत्ते तजहा सचित्ते अचित्ते मौसएअ सेकित सचित्ते ति  
 विहेपणत्ते तजहा दुपयाण चउप्पयाण अयाण अवाडगाणआए सेत सचित्ते सेकित अचित्ते २ सुवणरथय  
 मणिमोत्तिअसखिसिल प्पवालरयणाण आए सेत अचित्ते सेकित मौसए २ दासाण दासीए आसाणहत्थीए समाभरिआ  
 खज्जालकियाणआए सेतमौसए सेतलोइए सेकित कुप्पावयणिए २ तिविहे प० त० सचित्ते अचित्ते मौसएअ तिवि  
 जहा लोइए जाव सेतमौसए सेतकुप्पावयणिए सेकित लोगुत्तरिए २ तिविहे प० त० सचित्ते अचित्ते मौसएअ  
 सेकित सचित्ते २ सोसाण सिस्सणिआण सेत सचित्ते सेकित अचित्ते २ पडिगहाण वत्थाण कवलाण पाय पुच्छणाण  
 आए सेत अचित्ते सेकित त मौसए २ सिस्साण सिस्सणिआण समडोवगणाणआए सेत मौसए सेत लोगुत्तरिए सेत  
 जाणगसरोर भविअसरोर वडूरित्ते दव्वाए सेत दव्वाए सेकित त भावाए २ दुविहे प० त० आगमओअ नोआगमओअ  
 सेकित आगमओभावाए २ जाणए उवउत्ते सेत आगमओभावाए सेकितं नोआगमओभावाए २ दुविहे प त पसत्येअ

अपसत्येऽत्र सेकितं पसत्येऽतिविहे पं० तं० णाणाए दंसणाए चरित्ताए सेतं पसत्ये सेकितं अपसत्येऽत्र चउल्विहे पं० तं०  
 कोहाए माणाए मायाए लोभाए सेतं अपसत्ये सेतं णोआगमउभावाए सेतं भावाए सेतं आए सेकितं ञ्कावणां २ चउ  
 विहा पयत्ता तंजहा नामञ्कावणा ठवणञ्कावणा दव्वञ्कावणा भावउक्कवणानानउवणाउपुवं भणिआओ सेकितं दव्व  
 ञ्कावणा २ दुविहा पयत्ता तंजहा आगमओओ नोआगमओओ सेकितं आगमओओ दव्वञ्कावणा २ जससणंञ्कावणेत्तिपदं  
 सिक्खिअं ठिअं जिअंमिअं परिजिअं जाव सेतं आगमओओ दव्वञ्कावणा सेकितं नोआगमओओदव्वञ्कावणा २ तिविहा  
 पयत्ता तंजहा जाणगसरीर दव्वञ्कावणा भविअसरीर दव्वञ्कावणा जाणगसरीर भविअसरीर वइरित्तादव्वञ्कावणा  
 सेकितं जाणग० उक्कवणापयत्थाहिगार जाणयस्स जंसरीरयं ववगयचुअ० सेसंजहा दव्वञ्कावणे जाव सेतं जाणग०  
 सेकितं भवि० दव्व० २ नेजोवेजोणो जम्मणिक्खंते सेसंजहा दव्वञ्कावणे जाव सेतं भविअसरीरदव्वञ्कावणा सेकितं  
 जाणगसरीर भविअसरीर वइरित्तादव्वञ्कावणा २ जहा जाणगसरीरभविअसरीर वइरित्तेदव्वाए जहाभाणिअव्वा  
 जाव सेतं मोसिआ सेतं लोगुत्तरिआ सेतं जाणगसरीर भविअसरीर वइरित्तादव्वञ्कावणा सेतं नोआगमओओदव्व  
 उक्कवणा सेतं दव्वञ्कावणा सेकितं भावउक्कवणा २ दुविहा पयत्ता तंजहा आगमओओओ णो आगमओओओ सेकितं  
 आगमओओ भावउक्कवणा २ जाणएउवउत्ते सेतं आगमतो भावउक्कवणा सेकितं णोआगमओओ भावउक्कवणा २ दुविहा

यति सगदीनां चस्य पूर्वोक्त शब्दार्थं सामाधिकनामस्थानना द्रव्यभावभेदात्पत्वारं शेष नामद्वयव्यापक इत्यादि सूत्रसिद्धमेव यावत् अथासामा  
 णिको अप्या इत्यादि वस्य सत्वस्य सामाधिक सन्निहित आत्मा सर्वकाल व्यापारालोक समय इत्युपलक्ष्ये निश्चये उत्तरगुणसद्व्यापकके तपस्यनगनाद्यो  
 पस्यन्ता तजहा पसत्याय अपसत्याय सेकित्तं पसत्या २ तिविहा पस्यता तजहा णाण्जकवया दसयज्जकवया चरित्त  
 ङ्कवया सेतपसत्या सेकित्त अपसत्या २ चउच्चिहा पस्यता तजहा कोहङ्कवया माणङ्कवया मायज्जकवया लोभ  
 सेकित्त नामनिष्पन्ने २ सामादए समासओ भावङ्कवया सेत नोआगमसभावङ्कवया सेतओहनिष्पन्ने  
 मादए शामद्ववयाओ पुव्य भणियाओ दव्वसामादएठवयासामादए दव्वसामादए भावसा  
 सरीर भविअसरीर वदरित्ते दव्वसामादए २ पत्तयपोत्ययलिहिअं सेत जाणसरीर भविअसरीर वदरित्ते दव्वसामा  
 दए सेत नोआगमओ दव्वसामादए सेत दव्वसामादए २ जाणए उवउत्ते सेत आगमओ भावसामादए सेकित्तं नोआगमओ भाव  
 ओअ सेकित्त आगमओ भावसामादए २ जाणए उवउत्ते सेत आगमओ भावसामादए २ दुविहे प० तं आगमओअ नोआगम  
 सामादए २ जससामाणियाओअप्या सज्जेणियामेतवे तससामादइअं होइ इम केवलिसामिसिअ १ जोसमोसव्वमूसु तसे  
 समये खल गुणने विये तथा नियमे लसए गुणने विये तथा अगयणादिक तपने विये ते एअथने सामाधिक ऊइ इम केवदीव कए इति ओकार्य

वृत्ते रविसमः धर्मासिकायादिलोकमधिकृत्या विशेषेण प्रकाशकत्वात् पवनसमस्य सर्वत्राप्रतिबहुत्वात्पुंभूतः असणो भवतीति गायार्थः यथोक्तगुण वियि  
 द्य असणस्यैवा भवति यदा शोभनं मनोभवेदिति चतौ समणो गणव्याख्या ततः असणो यद्विद्व्यसन चात्रित्यसुसगामनेर् भावसनवात्रित्ययद्विन  
 भवति पापसनाः समनस्त्वचिक्काल्येव असणगुणत्वेन दर्शयति स्वजनैश्च एतादृशिके जनेश्च सामान्ये समो निर्विशेषः सामान्यमानयोश्च सम इति गायार्थः  
 यत्तु ज्ञानक्रियारूपं सामायिकाध्ययनं नो भागमतो भावसामायिकं भवत्येव ज्ञानक्रियारूपसुदाये भागमस्ये नदयद्वन्निबन्धनोश्चस्वच देशवचनत्वादेवं  
 सति सामायिकवतः साधोरपीत् नो भागमतो भावसामायिकत्वोपन्यासो न विशिष्यते सात्त्विकतत्तोरभेदोपचारादिति भावः नामनिष्पन्नो निष्पेयः  
**मणोजइ सुमणो भाविसणवजइणहोइ पावमणो सवणैअ जणैअससो र्णेअमाणावमाणेसइ सेतंनो आगमओ भावसा**  
**माइए सेतं भावसाभाइए सेतं नामनिष्पणै सेकिंतं तुत्तालावगनिष्पणै इअग्गिंसुतालावयनिष्पणं निक्खेवंइच्छन्निइ**  
 जे भणी सुख दुःखनें विणे विकार देखाडे भणी तथा पवन सम वायु सरियो जे भणी जणै अप्रति ण ऊइ ते एणो असण ऊइ इति गायार्थं पय  
 वयोक्त गुण वियिष्ट असण तिवारेज ऊइ विवारे शोभन मन ऊइ ते भणी कहेहे तो मनयोगाशा ते इरण ऊइ जो द्रव्यसन चात्री सुमना ऊइ एते  
 भावसन चात्री जो पापसना पाडुष्पा मनसुं धणी न ऊइ विवे सुमन पणाना चिक्क देखाडे हे सुजन पुण्ड्रिक एते जेन सामान्य लोक ते विक्रने  
 विषे सम निर्विशेष तथामान एते अपमानने विषे पणि सम निर्विशेष इति गायार्थं इहां ज्ञानक्रिया रूप सामायिकाध्ययनो पागमवो भाव सामायिक  
 ऊइ ते ज्ञान एते क्रियाना समुदायने भागम वी भाव सामायिक कश्चिये पय भागमना एक देगवर्जो पणा ऊंती एते नो गइग देगवाची पणा

१०६

समाप्त अथसूत्रालापकनियन्त्र निक्षेप निर्दिष्टपुराण सेकित सुत्रालापक नियन्त्रोनिक्षेप करेमि भदतसामायिक इदानीं  
 सूत्रालापकानां स्थापनादि भेदभिन्नोक्त्यास सुत्रालापकनियन्त्रोनिक्षेपइतिरेप इत्यागिमित्यादि सचेदानो सूत्रालापके नियन्त्रो निक्षेप एषइत्यत्र  
 सरमाप्तत्वादियमात्मान प्रतिपादयितु यास्यासुत्यादयति सच प्राप्तलक्षणोपि प्राप्तस्यरूपाभिधान समयोपि न निक्षिप्यते न सूत्रालापक निक्षेप द्वारेणाभि  
 धीयते कस्मादित्याहलाघवायं तदेव लाघवदर्शयति अक्षि भक्तोऽपि ततोऽपि ततया निक्षिप्त सूत्रालापक समूह इदानीं निक्षिप्तोभवति  
 अथयानिक्षिप्तकृते निक्षिप्य भवति कस्मादिह ननिक्षिप्यते तत्रैव निक्षिप्यते तत्रैव निक्षिप्यते ननुनसत्वेत्यपिकस्मान्प्रोष्यते निक्षेप्य

से अथसत्तत्त्वणि विस्वणिखिप्पइ कश्चालाघवत्यत्रत्यि तइए अशुभोगदारे अशुभोवसि तत्यणिक्वित्ते, इहहणिक्वित्ते  
 भवइ इहवाणिक्वित्ते तत्यनिखित्तेभवइ तइइह ननिक्वप्पइ तइइह ननिक्वप्पइ तइइह ननिक्वप्पइ तइइह ननिक्वप्पइ तइइह ननिक्वप्पइ

अती इम इहां सामायिकवत साधुतु पणि नो आगम भाव यी सामायिक पणो पइण कयो विरोधाइ नही जे भयो सामायिक ते सुण छे ते जे कणे  
 ऊइ ते गुणी कइये ते सुण अने गुणीना अपेदोपचार यी ए युक्ति मिले इति नाम नियन्त्र निक्षेप समाप्त अथ सूत्रालापक नियन्त्र निक्षेप माइ  
 नेकित अय त्तु ने सूत्रालापक नियन्त्र निक्षेपो इम येय वाक्य कइतु इभाणि शिबे सूत्रालापक नियन्त्र निक्षेपाना अयसरवाभ्यापणा यी आत्माने  
 कइवानी इच्छा वपावै छै ते निक्षेपो प्राप्त लक्षण पणि एतले तेचना स्वरूपतु कइतु आशु पणि ते निक्षिपिये नही एतले सूत्रालापक निक्षेप द्वारेकरी  
 नपोते किराभणी लाघव तेइल आपणाने अर्थे किये तेइल इलुआपणो देखाडे छै अक्खइउ एइयो तीजो अइयोगद्वार अतुगम एइतु छै निक्षेपोखला

अथसूत्रालापकनियन्त्रोनिक्षेप इत्यागिमित्यादि सचेदानो सूत्रालापके नियन्त्रो निक्षेप एषइत्यत्र

समाप्त अथसूत्रालापकनियन्त्र निक्षेप निर्दिष्टपुराण सेकित सुत्रालापक नियन्त्रोनिक्षेप करेमि भदतसामायिक इदानीं

साध्यमात्रादित्यत्र विस्तरेण निक्षेपलक्षणं द्वितीयमनुयोगद्वारं समाप्तं अथ तृतीयमनुयोगद्वारं निरूपयितुमाह सेकितं अगुगसे इत्यादि अतुगमः पूर्वोक्त शब्दार्थः सचद्विधा सूत्रातुगमः सुलब्धाख्यानमित्यर्थः निर्दुक्तातुगमश्चनितरांतुक्ताः सूत्रेण सरलोलीभावेन संग्रहानिर्दुक्ता अर्थास्तोपां युक्तिः स्फुटरूपातापादनमेकस्युक्तशब्दस्य लोपान्निर्दुक्तात्प्रकारैः सूत्रविभजनैत्यर्थं सादृपोऽतुगमसंस्थाया अतुगमो आख्यानं निर्दुक्ततुगमः सचद्विविधो निक्षेपो नामस्थापनादि भेदभिव्यक्तस्य तद्विषयाया निर्दुक्तिः पूर्वोक्तशब्दार्थानिक्षेपनिर्दुक्तासाक्षात्तुगमो निक्षेपनिर्दुक्ततुगमसंस्था उपोद्घातेन यात्येयस्य सतस्य आख्या विधिसमीचीकरणसुपोद्घातनिर्दुक्तासाक्षात्तुगमो निक्षेपनिर्दुक्ततुगमसंस्था सूत्रस्य यतीति सूत्रस्यार्थिकासाक्षात्तुगमो निर्दुक्तिः सुलब्ध इतिहे पर्याप्तं तंजहा सुताणुगमेअ निज्जति अणुगमेअ सेकितं निज्जतिअणुगमे २ तिविहे पर्याप्तं तंजहा निक्षेपेइ तिज्ञाज निक्षेपीइ इहां कोइ इम कहे जो इम लापक सच्छ तेइहां निक्षेपो ऊइ अथवा इहां निक्षेपो ऊतो तिहां निक्षेपऊय तेभणी इहां निक्षेपीइ तिज्ञाज निक्षेपीइ इहां कोइ इम कहे जो इम तेचना निक्षेपीये तिहां न निक्षेपीये इहां उत्तर इम नही जे भणीसुलातुगमने विपेज सुलउत्तरउ पर इहां उत्तरीये नही अने सुलोच्चार विना पानो यच्छण इहां साभणी कस्युं इहां उत्तर जे निक्षेपाना तुल्य पणामाल यी यच्छण कस्युं इति निक्षेप रूप द्वितीयं अतुयोग द्वारं समाप्तं अथातुगम रूप तृतीय मनुयोगद्वार माह सेकितं अथ किंसुं ते अतुगम उत्तर अतुगम पूर्वोक्त शब्दार्थं विभेदे प्रकल्पं तद्यथा सुलातुगम अने निर्दुक्तातुगम तिहां किनो जे युक्ति कर्हतां वखाणतु ते सुलातुगम अनेनि कर्हतां अतिरि अने युक्ता कर्हतासुलत्त संबंध तेनिर्दुक्ति कर्हिजे एअर्थ परै तेनिर्दुक्तिं जे युक्ति कर्हतां प्रकट रूपपणानुं करतुं इम इहां एक युक्त शब्दना लोपवाची निर्दुक्ति इसी व्युत्पत्ति ऊइ एतले निर्दुक्ति कर्हतां नाम स्थापनादिक

सुल  
भाषा

धिकनियुक्तिं सूत्रनिक्षेपनिर्मुक्त्यनुगमात्तुगतो वक्ष्यते च इदमुक्तं भवति अत्रैव प्रागागवच्छक सामायिकादिपदानां नामस्यापनादिनिक्षेपहारेण यथाख्यानकृतं तेन निक्षेपं नियुक्त्यनुगमोऽनुगम मोक्तो द्रष्टव्यं सूत्राख्यपदानां नामादिनिक्षेपं प्रसाधये पुनर्वक्ष्यते च उपोद्घातनिर्मुक्त्यनुगमस्याभ्यासाद्वारगायाभ्यासात्तुगतस्य सादृश्यात् किं कश्चिद्विषयश्चाप्याख्या उदेयनसुदेयं सामान्याभिधानरूपो यथा अथ्यदनमितं यथाय इति सर्वत्र क्रिया दृष्टया तया निर्देयन निर्देगो विधेयाभिधानं यथा सामायिकमिति अत्राह ननु सामान्यविधेयाभिधानद्वयनिक्षेपहारे प्रोक्तमेव तत्कामितीच पुनरुच्यते तदेव यतोऽत्रासिद्धस्यैव तत्र तस्य निक्षेपमाताभिधानं कृतमित्यदोपसाया निर्गमन निर्गमं कृतं सामायिक निर्गतमित्येव रूपो यथायसाद्येवकालौच ययो सामायिकसु

निवृत्तेवनिज्जुत्तिश्चाणुगमे उवगवायनिज्जुत्तिश्चाणुगमे सुत्तफासिय निज्जुत्तिश्चाणुगमे सेकितनिवृत्तेवनिज्जुत्तिश्चाणुगमे  
 अणुगए सेतनिकखेवनिज्जुत्तिश्चाणुगमे सेकितउवगवायनिज्जुत्तिश्चाणुगमे इमाहिदोहिमलगाहाहि अणुगतव्ये तजहा

प्रकारं करोति सूत्रस्य विभज्जिने वपाणवु इत्यर्थं तद्रूपं जे अणुगम अथवा तेरुनु जे अणुगम कश्चता यपाणवु तेनियुक्त्यनुगम सेकित तिहा नियुक्त्यनुगम त्विउ भेदे प्ररूप्यु तदाया निक्षेप कश्चता नाम स्यापनादिक तेरुनी अथवा तेविषय हे जेरुनु एरुणी जे नियुक्ति पूर्वोक्त गच्छ रूप ते निक्षेप नियुक्तिं तेरूप अथवा तेरुनो जे अणुगम तेनिक्षेप नियुक्ति अणुगम तथा उपोद्घात कश्चता यपाणवा योग्य सूत्रनी व्याख्याविधिने समीपसु करवु एतन्ने उदेगादिक प्रकारे करोति सूत्रने प्रथम वषाणीने पछे सूत्रनी व्याख्या करीये एभाव तेरुनी अथवा तेविषय हे जेरुनु जे नियुक्तिं तेरुपोद्घात नियुक्तिं तद्रूपं तेरुनु जे अणुगम ते उपोद्घात नियुक्ति अणुगम तथा सूत्रना आख्यावानी जे नियुक्ति ते सूत्र स्पष्टिक नियुक्ति तेरूप





वरति इह अपुत्रत्वे समोयारो नत्वपुत्रत्वे समोयारो। इत्यादि तथा कस्य व्यवसाएदे किं सामायिकमनुमतमित्यभिधानीय भणियति च तव सज्जमो  
 अपुत्रत्वे नित्यं य पश्यण्यप्यवशारो सुदुष्कृत्यापुण निव्याणसज्जमोचेति किं सामायिकमित्यादि कस्मिन्नत्र प्रत्युत्तरयिष्यति जीवोगुणपण्डितको न  
 यथा दृश्यदृश्यस्य सामायिकमित्यादि कतिविधतदित्यत्र निर्बन्धनयिष्यति सामापूर्वच तिभिश्च समत्तसुयतश्चाश्चित्तं चेत्यादि कस्यसामायिकमित्यत्राभि  
 धास्यति जगत्सामागिष्योष्या इत्यादि सामायिकमित्ये तदपि खेत्तदिसकालगद्रे भवियसण्जसद्विद्दिमाहारे इत्यादिना हारकलापेन निरूपयिष्यति

**कद्रविहृत् ३ कस्य १४ कश्चि १५ केशु १६ कश्चि १७ कश्चि १८ कश्चि १९ सतर २० सविरहित्र २१ सना २२**

बोलु ३ तथा चेतकाल जे चेतने विषे चने जे कालने विषे सामायिक जपनु ते विड बोलवा जे व्यावृत्तने विषे इम कस्य जे वैसापुत्रुष्टए  
 गारसीए पुण्यष्टदेसकालमि मरुसेण्यणुज्जाणे अनन्तर पर परसे स । ४ ५ तथा केशा पुष्यथी एसामायिक नीकल्य, इम बोलयु ६ तथाकेणोकारणे  
 श्रीगौतमादिक श्रीभगवतने समीपैसागाधिकने साभले इम बोलयु जे व्यावृत्त मध्ये इम कस्यै गोषमा इयसामाहश्च टुर्किं कारणनिसामति इत्यादि  
 ७ तथा जेणे करी प्रतीति जपने ते प्रत्यय कशीये केणे प्रत्यये करी श्रीभगवते ए उपदेय अने केणी प्रतीति करी श्रीगणधर तेजनु उपदेस्यु, साभले इम  
 बोलय तथा च वच्यते केवलणाणिति अह चरहा सामाहृअपरिकहेइ तेसिपि पञ्चउ प्लु सव्यभूतो निसामति । ८ तथा सम्यक्त सामायकनु तत्वसह  
 षणलक्षण । श्रुतसामायकनु जीयादिक स्वरूप ज्ञान लक्षण २ चारित्र सामायकनु सावद्यविरति रूप लक्षण अनेदेय विरति सामायकनु  
 विरति अविरति स्वरूप मियरूपलक्षण बोलनु तथाच वच्यते सदृशण, जाणणा प्लु विरइमीस च लक्षण कश्य इत्यादि ९ तथा नयतेने  
 गमादिक वपाणया १० तथा तेजनु समवतरण ते नयनु अपतरनु जिना स भवे तेदेखाडु जे इम कश्चिसे मूढनयमुषकालअ नाया समो अरति इहां

सामाधिकृत्यलोचरं सर्वद्वेष्येणु सव्यगयंसम्भतं सुएचरितेन पञ्जयासजे देसविरदं पदुञ्जा इण्डविपडिसेरणं प्रज्जेतित्तयेचियति तज्जयासादियममायत  
इत्यत्र माणुसालेत्तज्जार्हे कुलरुमारोग आउयंयहोत्यादि प्रतिपादयिस्सति कियच्चिरं कालं तमयतीति चिंतायामभिभास्यति सम्भतमययंय कान्ति  
सागरोपमाइठिइ सेसाणपुल्लकोडी देसूणाओई उक्कोसा । कियंतः सामायकस्य युगपत् प्रतिपद्यमानताः प्रप्रविपद्यायान्त्यते इति काल्यं भणिययति  
सम्भतदेसविरया पल्लिषया असंयभागेत्ताउ इत्यादि सहातरिण उच्यते इति सांतरमिति विचारणवानिज्जेयति कासमणंतं च एए आपाएउउउयइण्णो  
आसयण नड्डलाणं उक्कोसंयंतरं होइत्ति अविरुद्धियं निरंतरं कियंतं कालं सामायिकप्रतिपात्तारो लयंतं इत्यणोदयिणंति सत्तुउय यगारीणं  
आवलिय असंय भागमेत्ताणो अहममया चरित्ते सलेसुजहण दोममए इत्यादि कियतो भायात्त उक्कटतथाऽभाजित इत्यत प्रतिपात्तं यत्पति सम्भतते  
गरिस २३ फासण २५ निगत्ता २५ २ सेतं उवग्घाय निज्जित्तियगुगसे सेकितं सुत्तफामिअ निज्जित्तियगुगसेर सुत्तं  
अपुज्जते समो आरे तस्य पुज्जते समो आरे । तय संजमउअणुमउ निगंणं पययणं च य उरारो सद्दुय सुभाणं पुण निज्जाणं संजमो चोराएए  
किं कइयिहंगाहा तिणं किंसामाइअं इणं ए उतर देसइ जीयो गुणपडियञ्चो नउग उल्लहियस्य सामाइअसियादि १२ तथा कते. ५५ प्रमने विने  
उतर देसे सामाइअंठ तिबिला सम्भतस यतहा चरित्तं चेत्वादि उतर देसइ कस्यसामायतं इरा उअ सामाणित्त आयाइलादि १३ तस्य कते. ५५ प्रमने विने  
नेत्तइसत्तललगइ भविअ सणिउसक्किटी मालारे इत्यादि यणा हारेलो तथा केयु सामाणित्तं इरा उअ सामाणित्त आयाइलादि १३ तस्य कते. ५५ प्रमने विने  
ज्यासले देसविरद पडुञ्जा इण्डविपडिसेरण कज्जा १११५ तथा कयंसामाधिकं केसेसामाधिकं केसेसामाधिकं पामीने इणंउतर सामाणित्तजार्हे कुलरुमारोगयाउअ  
पुढीत्यादि १० कियच्चिरं एयइकालं सामायिक केतला काललगे इइ इणं इम कसिये सम्भतयउअयण इणंउतर सामाणित्तजार्हे कुलरुमारोगयाउअ  
केसेसामाधिकं केसेसामाधिकं केसेसामाधिकं पामीने इणंउतर सामाणित्तजार्हे कुलरुमारोगयाउअ

सविरया पतियगा अस्यभागमेताषो षट्ठभाषाचरित्ते षण्णतकासव सुयसमए । आकर्षणमाकप एकस्मिन्नाना भवेति वा पुन २ सामायिकस्य ग्रह  
 णानि प्रतिपाद्यतया इति वाप्य तद्यु यल्यति तिङ्ग सङ्घपुञ्ज सवपुञ्जत ष षोडशविरट् ए एगभये आगरिसा एवइयाहोतिनायव्या । तिङ्गसङ्घसमसुखा  
 सङ्घपुञ्जत षोडशविरट् ए नाणाभयेआगरिसा एवइयाहूति नायव्या २।२३ इति फासएणत्ति कियत् जेत सामायिकमत स्यु श्रुतीत्यभिधानीय तस्यैव  
 सम्यसाधरणसङ्घिया सम्बलोक फुसउनिरवसेस सत्तयवठसभाए पयसुयदेखविरट् ए इत्यादि नि श्रिता उक्तिनिकर्त्तव्यतया तत्रच सम्मद्विद्विद्यमोक्षो सोशी  
 सम्मावदयणशोषी चविपञ्जितसुदिद्वित्ति एवमाद् निरुत्तार्हेमित्यादि यल्यत्येपतावन्नायाहय सन्नेपणार्थं विस्मारायत्वादावक्ष्यकनिर्घुं कि टीकाश्यामवसेयइति  
 तदेवमेतन्नायाहयथाप्याने उपोदृशते नियुक्तिं समर्थिता भवति अस्यां च प्रस्तुतायवजस्यार्थेषु विचारितेषु सत्सुसुखं व्याख्यानयोग्यतायामानीत भवति

**उच्चरिअथ्यत्रक्वलित्थ अमिलित्थ अत्रचोमेतिअ पडिपुण पडिपुण्यधोस कठोद्विविप्यमुक्क गुरुवायणोवगय तउततत्य**

षोड उक्कोसा ।। उतथाकियत केतला सामायिकना युगपत्प्रतिपद्यमान तथा पूर्वप्रतिपद्यलाभे इहां कश्चिसे सम्मत्त देसविरट् पलिसस्य अस्यभागमेताच  
 इत्यादि ।। तथा आतरा सञ्चित वर्यं तेषांतर तिशा एउत्तर देस्यै कालमथातवसुए अहापरिचयउषदेखुणो आसायण बडलाण उक्कोस यतर षोड ।। २०  
 तथा अविशित निरतर केतलु काव सामायिकना पडिबर्जणशरलाभे ए प्रप्रभु उत्तर देखे सम्मसुच अगारीण आवलित्थ अस्य भागमेताच षट्समया  
 चरित्ते समेड जशत्र दासमए ।। २१ तथा केतनाभयचगे उतूळटयो तेसामायिक पामोये इहा इड उत्तर सम्मत्त देसविरया पलिसस्यथस्यभागमित्ताउ  
 षट्ठभाषाचरित्ते षण्णतकाल षसुथसमए ।। २२ तथा आकर्षणु तेआकर्ष कशता एक भवने विपे यारवार सामायिकसु ग्रहसु  
 एतले एक भवने विपे तथा नाना भवने विपे सामायिक केतली वार थाये तिशां उत्तरदेखे तिण्ण सङ्घपुञ्जत सयपुञ्जत वशोद् विरट् ए एगभये

सुतवाचनारविणी उगसस व नुनोपाने ॥

ततः प्रत्ययवत् सूत्रव्याख्यानरूपायाः सूत्रस्यार्थकनिवृत्तेरेवरसं संपद्यते सूत्रं च सूत्रानुगमे सत्येव भवति सोऽथ वसर प्राप्तएव ततस्तमभिधिषु, राह  
सुत्तं उच्चरिञ्चलं अस्वलियमित्यादि आह ननु यदि यथोक्तनीत्याहूत्रानुगमे सत्येव सूत्रस्यार्थकनिवृत्त्याप्रयोजनं तर्हि किमित्यसावुपोहानिनियुक्त्यानंतर  
सुपन्वसा यावतासूत्रानुगमनिदर्श्यं पश्चात्किमिति नोच्यते सत्यं किंतु निवृत्तसामान्यात्तस्यस्याएव निर्दिष्टेत्यदोषः प्रकृतमुच्यते तत्रास्वलितदिपदानां  
व्याख्यायथैव प्रादु व्यावस्थकविचारेकता तथैव द्रष्टव्या अयं च सूत्रदोषपरिहारः श्रेयसूत्रलक्षणस्योपलक्षणं तत्रेदं अप्यगं यमइत्वं वत्तीसादोसविर  
विद्यंजं च लक्ष्यगजुत्तं सुत्तं अदृश्यगुणेहि उववेवं । अस्याव्याख्या अत्यगं यं महार्थं चेति समाहारइह उत्यादयवाद्भोध्युक्तं सच्चित्यादिवत्त्वमस्य  
शब्दं च भवतीत्यर्थः वच्चहानिशब्दोपविरहितं तत्त्वत्वं भवति के पुनसेहानिशब्दोपाः येसूत्रे वर्जनीयाः उच्यते अलियसुववायजगर्वां निरत्ययनवत्यलं  
रिणञ्जिहिति ससमयपर्यंवा परसमयपर्यंवा बंधपर्यंवा मोक्त्वपर्यंवा सामाद्रूपपर्यंवाणोसामाद्रूपपर्यंवा तदुत्तमि उच्चा  
आगरिसा एवइआऊंति नायव्वा । तिरहं सस्य मसंवा सहस्य पुऊत्तं च होइ विरईए गाणा भवे आगरिसा एवइआऊंति नायव्वा २।१३ तथा सामा  
धिकवंत केतलुं चेत फरसे इम बोलबुं ते इम कहिसै समत्त चरण सच्चिआ सच्चलोगं फुसइ निरवसेसं सत्तयचउहसभाए पंचेयसुअदेसविरईए १।१४  
तथा निश्चिता जे उक्ति ते निरक्ति ते बोलवी ते इम कहिसै समत्त चरण सच्चिआ सच्चलोगं फुसइ निरवसेसं सत्तयचउहसभाए पंचेयसुअदेसविरईए १।१४  
२।१२ एवेद्वारगायतु संक्षेपर्यवखाण्युं अने विशार सच्चित् अर्थतो आषय्यक नित्युं कि अने तेहनी टीका यंनुं जाणवुं तथा गाथा विऊतुं संक्षेपमाव  
मालावोध करीइं तो पणि लोकसहस्र ४ तथा ५ याइ इम करता तो अति श्रंथभारी याइ ते भणी नयी कस्युं तेइ विगाथा वखाणतां उपोह्वानित्युं  
क्तिचतुगमसमायुं एतले एहने विपे प्रारंभिताथयनना सर्वविशेष विचासा ऊंता ते अथयननुं सूत्र तो सूत्रानुगम कृते ज ऊइ ते भणीतेहूत्रानुगमनुं

राय वनपतिसिद्ध बालदिकी सातम सुयम सावा ४४५५

दुर्बलं निग्नारमहियमूल पुणरुत्तावाहतामञ्जुत्त । कामभिन्य वयणभिन्य विभक्तिभिन्य च लिगभिन्य च अणभिन्यमपदेशेयय सहावहीणच विश्वियच २ कालज  
विदोसो समयविबह चययणमित्तप अत्यावत्तीदोसो नेवअसमासदोसोय इउवमा रूवगदोसो निहे स पयल सधिदोसोय एएअसुत्तदोषा वत्तीसाळ तिनाय  
व्या ४ ततावृत्तमभूतोद्गावन भूतनिष्पद्य यथाईखरकट्टं कंजगदित्याद्य भूतोद्गावन नाख्यल्लेत्यादिकसु भूतनिष्पद्य उपघात सत्वघातादिसाज्जनकं यथावेद  
विहित्वात्तिसा धम्मायेत्यादि निरयक यत्त वर्णानां त्तम निर्देयमात्रमुपलभो नत्वर्थो यथा अथाइइत्यादि डित्यादिवद्वा असयस्यार्थकमयनर्थक यथादगदाडि  
मानिपटपूपा फु डमजांजिन पलत्तपिडस्वरकीटिकेदिगमुदीचीमित्यादि यतानिष्टस्योत्तरस्य सभवतो विवक्षितार्थोपघात कटुं गच्छते तच्छलनवकम्बलोदे  
यदत्त इत्यादि निरर्थक यत्त वर्णानां निरर्थक्येन पापव्यापारपोपकट्टुच्चिल यथा एतावानेवलोकोय यावत्तिद्रियगोचर भद्रेटकपदपश्च यइदत्य वळ्ळुयुता

**रेसमाणे केसिचण भगवताण केइअत्थाहिगाराअहिगयाभवति केइ अत्थाहिगाराअणहिगया भवति ततोःते**

पणि अइसरवाय्यु ते भणी ते सुत्तागम कहे ते सुत्त उच्चरिअच्च अक्खल्लिअ सुत्त उच्चरयु इहा मे रक कहे छे भगवन् जो यथोक्त नीतिळ्ळती सुत्तानु  
गम देवाडोनें पछे सुत्तस्पर्शिकं निर्युत्ति देवाडोये तो इहां तिमज्ज कान कय्य गुरु बोल्या एसत्य पर निर्युत्तिना सवात साट्टे सुत्तस्पर्शिकं निर्युत्तिना  
प्रशाव मध्ये बोनी ते भणी इम दोप नही तिहां अख्खल्लितादिक पटनी व्याल्या पूर्ववत् त्विचे ए सुत्तना दोपनु परिहार ते शेप सुत्ता दोपपरिहारादिक  
लक्षणनु उपसत्तण जाणवु तेभणी ते सुत्तना वत्तीसदोप ववाणीयेछे उक्त च अण्णगयमइत्य वत्तीसा दोसविरहिअजच लक्खणनुत्त सुत्त अट्टिअणुणेहि  
उववेअ । व्या० अल्पयन्य अने महार्थ इम इहां समाणर हन्वसमास कहे इह ते उत्पादिव्ययभौव्ययुक्त ते इत्यादिकनी परे सुत्त अल्पग्रन्थ सचार्थे  
इइ तया के वली वत्तीस दोप रचित इइ ते सुत्त कट्टीये त्विचे केहा ते वत्तीस दोप जे सुत्तने विणे वर्जवा तेकथीये छे अलिअ । सुवघाय जणयर णिर

पिबखादृजानुगोभनेयदतीतंवरगातिवचते नहि भीरुगतं निवर्त्तते समुदयमात्रमिदं कलेवरमित्यादि वेदवचनादिवत्तथाविध युक्तिरहितं परिश्रुतु निःसारं अक्षरपदादिभिरतिमात्रमधिकं तैरवहीनसूनं अथवा हेतोर्दृष्टातस्य चाधिक्ये सत्यधिकं यथा अनित्यः शब्दः कृतकप्रत्ययत्वानंतरीयकत्वाभ्यां घटपटवदित्यादि एकस्मिन् साथ्ये एक एव हेतुर्दृष्टातश्चकथ्यः अत्रच प्रत्येकं ह्याभिधानाधिक्यमिति भावः हेतुदृष्टाताभ्यामेव हीनसूनं यथा नित्यः

**सिंअणहिगयाणं अहिगमणट्टाए पदं पदेणं वत्तइस्सामि संहिताच पदंचैव पयत्थोपयविग्रहो चालणापयसिद्धीअ**

त्यथ मनवत्थत्थल ५ दुच्छिलं ६ निस्सार ७ महिअन्=सूलं ८ पुणरुत्त १० वाउत्त ११ मजुत्तं १२१। कमभिन्न १३ वयणभिन्नं १४ यिमत्तिभिन्नं च १५ लिंगभिन्नं च १६ अणभिच्छि १७ सपदमेवय १८ सहावचीणं १९ च यच्छिचंचर २० काल २१ जति २२ त्वविदोसो २३ समयविग्रहं च २५ वयणमित्तंचर २५ अत्यावत्ती दोसो २६ने उअसमास दोसोच २७ ३ उवसा २८ रूवगदोसो २९ निहेस ३० पयत्थ ३१ संधिदोसोअ ३२ एएअरुत्तदोसा वत्तीसाङ्कं तिणा अच्चा ४ व्याख्या तिहां अलीकना विभेद एक अछता भावसुं बोलसुं बीजो अता भावसुं नागकरसुं तिहां यया ईअरसुं कीपुं जगत इत्यादिक अभूतो ज्ञावनकहीये अनेनास्ति चाला इत्यादिक भूतनिष्कय कहीइं तथा उपघात जनक जीव घातनुं उपजावणहारं यथापेदिमिहितता चिंसाधमीयर तथा निरर्थक तेजिहा अक्षरसुं अनुक्रमे उच्चारमात दीगे परं अर्थकांइ नही यथा अभाइईउजककल्लन अथया जिम डित्थपित्यादिक अथया असंघार्थपिणानिरर्थक कचीइं यथा दशदाडिमामि पट् पूषाः कुं उमजानिनं ३ तथा अनवस्था ते जिहां युक्ति अवस्था बाधे नही यथा भइवजोपएसो ४ तथा जिहां अघाच्छितायं सम्भवे करी विवदितार्थसुं उपघात करीसक्तिये तेस्यलकहीये यथा नवकंबलो देवदत्त ५ तथा जिहा अक्षरने निरर्थक पणं करी पाप व्यापारसुं पोषणहारोते दुच्छिल कहीये यथा एतावतान्ने वलोकोयं यावतिन्द्रिय गोचरो भट्टे एकपदं पथय इदं तथा बड्डयुताः १ पिपघादृचयाइलोचने यदतीतं वरगातिवचते

अनु टी० ६१६ खल भाषा

अनु टी० ६१६ खल भाषा

अनु टी० ६१६ खल भाषा

गच्छीपटवन्ति यथापनित्यगच्छ लततायादित्यादि पुनर्दोऽयं च द्विधा गच्छतीत्यं च तदापन्नस्य पुनर्दोऽयं च पुनर्दोऽयं च यथा पटोपटइत्यादि  
 पदंतपुनर्दो यथा पट कुट कृ भ इत्यादि अर्थादापन्नस्य पुनर्दोऽयं च यथा पीनो देवदत्तोदिवानभ त्ते अर्थादापन्नं राती भु त इति तत्तार्थापन्नमपि य एत  
 यत्तु त्रुपागस्य पुनर्दोऽयं च यथा पूर्वेषु पर विद्यते यथा कर्मपाशिकल चासि कर्त्ता नत्वशिकर्मणामित्यादि अयुक्तमगुपपत्तिजग यथातेषां कटक  
 तटवद्वे गंजानो मर्दिदुर्भित्यादि तस्यभिन्न यत्तज्जगोनारायते यथास्यंनरसनप्राणपदु योताणामयो स्पर्मरसगधरूपगण्डा इति तस्यै स्वर्गंरूपगब्दगय  
 रभाइति प्रयात् इत्यादि वचनभिन्नं यत् वचनस्यत्ययो यथा इत्या इति पुष्पित इत्यादि विभक्तिभिन्न यत् विभक्तिव्यत्ययो यथा इत्य पण्य इति यत्तव्ये  
 इत्य पण्य इति नूयारित्यादि लिङ्गभिन्न यथा अय क्तोत्यादि अतभिन्नित् स्वसिद्धान्तानुपदिष्ट यथा सतस पदार्थावैशेषिकस्यप्रकृति पुरपाप्यधिक  
 सोलस्य इ चं मनुदायमार्गनिरोधकस्य पटुदायंन्यादात्तितिरिक्त बावोद्वल्लेयादि यत्तान्यच्छेदोऽधिकारित्यच्छेदोभिभागतरपद यथायोपदेभि धातव्ये  
 त लोदरदन्तभिर्यादिर्यादिर्य वस्तु त्तमवोऽन्यात्तोल्यशभिबोवते तत्तत्र यथा योतोराङ्ग इ तत्रशक्त य मे यदिति यत्त प्रकृत सुक्ताऽ  
 प्रकृत व्यासताभिभाव पुन प्रकृतमुप्यते तदाइति कावदोपोयशतीतादिक्ताक अययो यथा रामो वनं प्राविशदिति वक्तव्य रामोवन प्रविशतीत्याच यति  
 दापो ल्यानविरति सशया विरतिवाङ्गविरलकार विद्येय सोनस्येस्वविदोप समयविरह स्वसिद्धान्तविरह यथा सोल्यस्यसत्कारणेकार्य वैशेषिकस्यावास  
 इति वचनमात्र निरुपेक्ष यथा कविद्येयस्वयकपित् प्रदेश लोकात्मयथा जनेभ्य प्रकृतयति यत्तार्थापत्यानिष्टमापत्ति तत्तार्थापत्तिदोपो यथागृष  
 कुट्टोतनश्च तस्य इत्य ल्लेयापत्यागेयतातोऽपुष्ट इत्यापत्ति यत्तसमासविधि माप्रसमास न करोति व्यत्ययेनवाकरोति तत्त समासदोप उपमादोपो यत्  
 शीनोपमाइत्येते यथानेच सर्वेषुपम अधिकोपमावाकियत यथा सर्वेषुनेच सत्त्वभ अगुपमावाक्योनेच सुमुद्रोपम इत्यादि रूपकदोषा स्वरूपभूतानाम





अनयोरेवमथ्ये परसमयपदं देशिनां कृशासनादे तुलाह घपदमितरत्तु संहोधकारणत्वात् मोक्षपदमिति तावदेक अन्ये तुव्याचक्षते प्रकृत्यास्थित्य भावप्रदेश  
 क्षणभेदभिन्नस्य प्रतिपादक पद मघपद इतरत्त संहोधकारणत्वात् एतत्सकर्म क्षयलक्षणस्य मोक्षस्य प्रतिपादक मोक्षपदमिति आह नन्वतथाग्यानि  
 धधमोक्ष प्रतिपादक पदद्वय स्वसमय पदात्रातिरिच्यते बल्किमिति भेदेनोपन्यास सत्य किंतु स्वसमयपदस्याप्यभिधेय वैचित्र्यदर्शनार्थो भेदेनोपन्यासोऽत  
 एवसामायिकप्रतिपादकपद सामायिकपदमित्यादावपि भेदेनोपादान सार्थकमिति सामायिक व्यतिरिक्तानां नारकतियेगाद्यर्थोऽपि प्रतिपादकपद नोसामा  
 यिकपदमित्ये तत्रसूत्रोच्चारणकल दर्शित यत् सूत्रे समुच्चारिते स्वसमयपदादि परिज्ञान भवति तत्तत्समुच्चारणीयमेव तत्तत्सकृन् सूत्रे उच्चा  
 रितमात्र एव सतिकेषां चिद्गवता साधूनां ययोक्तनीत्याकेचिदर्थोधिकारा अधिगता परिज्ञाना भवति केचिन्तु द्वयोपश्रमयैचित्यादनधिगता भवति तत्  
 शोषामनधिगतानामर्थोधिकाराणामधिगमार्थं पदेनपद वर्त्तवित्याम्यैकैक पद व्याख्यासामीत्यर्थं एतत् व्याख्या लक्षणमेव तावदाह सचियायेत्यादि तत्रास्त्व  
 खितपदोच्चारणसञ्चिता यथाकरोमि भयान्तसामायिकमित्यादि दृष्टकरोमोत्ये क पदंभयान्त इति द्वितीय सामायिकमिति तृतीय इत्यादिपदार्थस्तु करोमी  
 त्यस्युपगमो भवति इति गुर्वाभतण समयस्याय सामायिकमित्यादिका पदद्वियश्च समास सचानेकपदानामेकत्वापादानविषयो यथा भयस्यालो भयान्तइति  
 सूत्रस्यार्थम्यवाचनपपत्युद्गावन बालना अस्यैवानेकोपपत्तिभिःसौवस्थापन प्रसिद्धि एतेषु बालना प्रसिद्धी भावयुके सामायिक व्याख्यावसुरेखस्थानवि  
 शारवत्यौद्रद्वये एयपञ्चविधिविद्विजानोश्चिलक्षण व्याख्याया इति प्रकमाद्भश्यते इति श्लोकार्थः अतश्चाह नन्वस्यापद्विध्याख्यायामथ्ये किमत्रानुगमस्य विषय  
 कोशासूत्रासापकनिचेपस्यकथ सूत्रस्यार्थिकनिर्मुक्ते शिकेनयद्विषयी क्रियतेऽव्यथे सूत्र सपरिच्छेद तावदभिधेय यथा सूत्रानुगम इतप्रयोजनो भवति सूत्रा  
 गुणमेवच सूत्रे समुच्चरिते पदच्छेदे च एते सूत्रासापकनेनेन नामस्त्रापनादि निचेपमात्रमभिधाय सूत्रासापक निचेप इतार्थो भवति शेषस्तुपदावपद

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

विषहादि नियोगः सर्वोपि सूत्रस्यार्थकानियुक्तैर्बन्धभागानैगमादिभया नामपि प्राप्यः स एव पदार्थादि विचारोविषयसतो यस्तद्वत्प्रसूतसूत्रस्यार्थिकानियुक्तं तदंतीर्षा  
 वन एवं नयाः शक्यं भाव्यकारः होइकयत्वोवोतं संप्रयच्छेयं सुयागुगमो सुत्तालावगनाथो नामाइमन्वासविधिगोंगं सुत्ताफासिद्यनिज्जुत्तिविधिगोगोसे  
 सउपयथाइ' पायंमोच्चियनैगम नयाइमन्गोयोरो होइरपनेनव विधिना सूत्रे व्याख्यायमाने सुलं सूतागुगमादयश्च युगपत्वामप्यंते यत शाह भाव्यसुधांभो  
 यहारमभिविष्यु राह सेकितं नये इत्यादि षयकोयं पूर्वोक्तगद्यार्थोनेव सुतोत्तरोत्तरभेदोपेक्षया सत्रैवसूत्रभूतानया सुलनया साधया नैगमः समाप्तः घयन  
 नैगम्यं व्याचिख्यासुराह योगभेदिसित्यादि गाथा व्याख्यानकं नैकं प्रभूतानीत्यर्थः नैकैरनैकैर्भाषसासामान्यविशेषादिज्ञानैर्मिमीतेभिनोतिवा वस्तूनि  
 परिच्छिन्नत्तीतिनेगमः इतीर्थं नैगम स्प्रतिशक्तिः व्युत्पत्तिः अथवा निगमालोकेवसामि तिर्थग्लोकेवसामीत्यादयः पूर्वोक्ता एववदवः परिच्छेदासोषु भावो  
 नैगमः शेषाणामपि नयानांसंग्रहादीना लक्षणमिदं ऋणुत वक्ष्येइमितिगाथार्थः यथाप्रतिशक्तमेवाह संग्रहियगाहा व्याख्यानस्यगुदहीतउपात्तः संग्रहीतः  
 पिंडितएक जातिसापन्नाथोविषयो यस्यसंग्रहवचनस्यतस्यंग्रहीत पिंडितायंसंग्रहस्य वचनसंग्रहवचनसमासतः संशेषोत्तरेचनेतीर्थंकरगणधराः अयंस्त्रिगणा  
 व्यमेवेच्छति नविशेषासतोऽस्यवचनं संदहीतसामान्यार्थमेव भवति अतएवसंदृष्टातिसामान्यरूपतया संबधस्तुकोडीकरोतीति संग्रहोयसुच्यते युक्तिश्चात्रलेख  
 तः प्रादुर्भूतेवच्चैत्र्याद्विनिराधिक्येवचनंचयः पिंडीभवन अधिक्ययोनिश्चयः सामान्यविगतानिश्चयोविनिश्चयोदि सामान्यभाव सारथं तद्विमित्तंजति प्रव  
 त्तैसाभान्यभावाद्यैवसर्वदायतते व्यवहारो नयइत्यर्थः कस्यैद्रूपेषु सर्वद्रूप्याविषये लोकेचि घटशब्दाभोरुहाद्यो विशेषाएवमाथोजलाहरणादि क्रियारूपेषु  
 व्यमानाहस्यंते नपुनसादतिरिक्त सामान्यसतो लोकाव्यवहारानंगत्वात्सामान्यस्यासौनेच्छतीति भावः अतएव लोके व्यवहार प्रधानोयो व्यवहारनयःसाध्यते

६२० पशु टी० ६२० पशु टी० ६२० पशु टी० ६२० पशु टी० ६२० पशु टी० ६२० पशु टी० ६२० पशु टी० ६२० पशु टी० ६२०



वक्तिः सृष्टिं महाकाशं १८ तथा व्यवहितं तेजे प्रारंभ्यो हृत्कीर्त्तिं चने प्रारंभ्यो सविस्तरं वपांशोभे वकी प्रारंभ्यो वपाणीये २० तथा कालदोष तेजे  
 अतीतकालादिकत्वं विपरीतं पशुं ऊह यथा रामो वनं प्राविशदिति वक्तव्ये रामो वनं प्रविशति २१ तथा यतिदोष जे ठाम विनारहणे करे २२ तथा ऊह्विदिति २३ तथा  
 अचनमात् जेहेतु विनाचन ऊह जिम कोई एक आपणी इच्छाये भूमिनुः प्रदेश लोकतुं मध्य भागस्थापना लोकने देखाडे २५ तथा  
 अर्थपत्तिदोष ते जिहां अर्थपत्ति करी अनिट पशुं ऊह यथा गृह समासने ठामे अन्यसमास करे २० तथा उपमा दोष तेजिहां हीणी औपमा  
 याइ २६ तथा असमासदोष कहतां जिहां समास पामने समासने ठामे अर्थपत्ति करी गेव नुकडानी घात निर्दीप  
 कीजे यथा मेरुः सर्पयोपमः अथवा अधिकी औपमा कीजे यथा मेरुः इम कल्पे ऊते अर्थपत्ति करी गेव नुकडानी घात निर्दीप  
 दोष ते स्वरूप भूत अवयवतु विपरीत भाव जिम प्ररूपवाने अथसर शिखरादिक अवयव प्ररूपे अथवा पर्वतने अधिकारै समुद्रादिकना अवयववर्गावे  
 २५ तथा निर्देश दोष ते जिहा बोल्या शब्दतुं एक नाम्य पशुं न कीजे यथेष्ट देवदत्तः स्वात्यामोदनं पवति इत्यभिधातव्ये पचति गच्छे नाभिधत्ते ३०  
 तथा पदार्थ दोष ते जिहां वस्तुं पर्वीय पशुं छटुं चनेरा पदार्थ पशुं कल्पीये कथा सामान्यत्वे भावः सत्ताइति क्त्वा सामान्यरूप थी जेभाव तेसत्ता  
 कहीये इम करतां वस्तुं पर्वीय पशुं छटुं चनेरा पदार्थ पशुं कल्पीये कथा सामान्यत्वे भावः सत्ताइति क्त्वा सामान्यरूप थी जेभाव तेसत्ता  
 अथवा सदोष सन्धि करे ३२ एतन्ना स्रतना दोष वत्तीस जाणवा इति गाया चतुष्कार्यः त्रिवे ए वत्तीस दोष रचित ते लक्षणयुक्त कहीये तया चात्

विपरीतकालादिकत्वं विपरीतं पशुं ऊह यथा रामो वनं प्राविशदिति वक्तव्ये रामो वनं प्रविशति २१ तथा यतिदोष जे ठाम विनारहणे करे २२ तथा ऊह्विदिति २३ तथा अचनमात् जेहेतु विनाचन ऊह जिम कोई एक आपणी इच्छाये भूमिनुः प्रदेश लोकतुं मध्य भागस्थापना लोकने देखाडे २५ तथा अर्थपत्तिदोष ते जिहां अर्थपत्ति करी अनिट पशुं ऊह यथा गृह समासने ठामे अन्यसमास करे २० तथा उपमा दोष तेजिहां हीणी औपमा कीजे यथा मेरुः इम कल्पे ऊते अर्थपत्ति करी गेव नुकडानी घात निर्दीप याइ २६ तथा असमासदोष कहतां जिहां समास पामने समासने ठामे अर्थपत्ति करी गेव नुकडानी घात निर्दीप २५ तथा निर्देश दोष ते जिहा बोल्या शब्दतुं एक नाम्य पशुं न कीजे यथेष्ट देवदत्तः स्वात्यामोदनं पवति इत्यभिधातव्ये पचति गच्छे नाभिधत्ते ३० तथा पदार्थ दोष ते जिहां वस्तुं पर्वीय पशुं छटुं चनेरा पदार्थ पशुं कल्पीये कथा सामान्यत्वे भावः सत्ताइति क्त्वा सामान्यरूप थी जेभाव तेसत्ता कहीये इम करतां वस्तुं पर्वीय पशुं छटुं चनेरा पदार्थ पशुं कल्पीये कथा सामान्यत्वे भावः सत्ताइति क्त्वा सामान्यरूप थी जेभाव तेसत्ता अथवा सदोष सन्धि करे ३२ एतन्ना स्रतना दोष वत्तीस जाणवा इति गाया चतुष्कार्यः त्रिवे ए वत्तीस दोष रचित ते लक्षणयुक्त कहीये तया चात्

गुणे करो उपपेत गुण ते लज्ज गुण सुख सुदू यदाश्च निदोस । सारथ तच्च २ हेडजुत्तमर्ककिष्ण ४ उवणीय ५ सोययारच ६ मिष्ण ७ मद्धर ८ मेवथ ।  
 व्या० तिष्ठा निर्दोष कन्ता सर्वतोप रक्षित । तथा सारवत् कर्ता शब्दानापरिवृद्ध पर्याय लेशना २ तथा हेठ ते अस्य व्यतिरेक रूप तेषु करी हुक्त ते  
 हेठ गुण ३ तथा अलङ्कृत उपमालङ्कार सञ्चित ४ तथा उपनय ते दृष्टान्त मेखयणी तेषु करी सञ्चित ५ तथा सोपचार ते ग्राम भाषा रञ्जित  
 सङ्गतादिक भाषा सञ्चित ६ तथा मित ते अक्षरादिक प्रमाणसञ्चित ७ तथा सुधुर ते मनोरु ८ ए चाठगुण सञ्चित सूत्रद्वय इति श्लोकार्थ इतथा अनेरे  
 ब्रह्मयुते सुखना षगुण बोध्या के तद्यथा अय्यखर । असद्विद्य २ सारव ३ विद्यउद्धर ४ अन्तोभू मणयज्ज च ६ सुत्तं सज्जगुभासिष्ण । व्या० तिष्ठा  
 अय्याक्षर तेमिताक्षर यथा सामायिक सूत्र । तथा असद्विद्य सदेश रक्षित तेयतले सैस्य गच्छनी परे लक्षण यस्त तुरगादिक अनेकार्थ पणा छती सणय  
 कारी न उद्धर तथा सारवत् पूर्ववत् ३ तथा विद्यतो सुप कर्ता प्रतिखल चरणानुयोगादिक चारि अनुबोग व्याख्या योग्य निम धम्तो मद्गलम्बुकिठ  
 इत्यादिक शोकने विदे प्यारेद् अनुयोग हार ब्रह्माण्यै अथवा एक शब्दना अनन्तार्थपणा धी जेमर्षी विद्यतो सुख ते भगी सारवत् कधीये इम सारवत्  
 पणाने हेठ भावे जाडीइ तिवारे एपोचण गुण उद्धर तथा असोभ चकारवाकारादिक निपात शब्दरक्षित ५ तथा अनयद्य कामादिक व्यापारनी प्ररूप  
 प्यानि रक्षित ६ एषा षगुणोपेत सूत्रसर्वक्रे भाव्यो इति श्लोकार्थे शिवे जेषे पूर्वोक्त चाठगुण सूत्रना बोल्या ते एचनतरोक श्लोकने विदे जेष्णुणबोल्या  
 तेष्ण चाठगुणमये सग्भावे के अने जे अनतर श्लोकोक्त षगुण सूत्रना बोले तेएषज षगुण युक्तने विवे पूर्वोक्त चाठसभावे के एतत्ते सग्रह रूपे मेले इति  
 मन्त्रगायार्थ इम सूत्रागमने विदे समस्त दोपरक्षित सपूर्णलक्षणसुक्त सूत्र लक्षणे छ ते गठयल्लिङ्गिति तिवारपक्षी जणास्ये जे ए स्वसमयपद स्वसमयगत  
 जौवादिश्च अयंश्च शोभाय चाइ पद तथा परसमयपद परगत प्रधान ईश्वरादिक अर्थश्च शोभाय चाइ पद तथा एषज वेपदमध्ये परसमयपद तेजोयने कृषा

सनानोहिते छे तेभणी ते वन्धपद कहीये अने बीजो स्वसमय पद ते स्वस्यग्नानना कारण थी मोक्षपद कहीये, अनेरा वली इम वधागोहे प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशरूप बंधुं बोलणहारो जे पद ते बंध पद अने संपूर्ण कर्मस्थय रूप मोक्षुं बोलणहारो जे पद ते मोक्ष पद इयां कोरि इ सुं प्रेरे जेबंध मोक्षरूप विपद ते स्वसमय पद थी जूआ नथी तो जेज्बातुं ग्रहणकांक्षुं इहां उत्तर यद्यपि ए सत्य तयापि स्वसमय पदे करी जे वस्तु बोलीये ते वस्तुं विहित पणुं देवाडिवा भणी ए पदतुं जूओ ग्रहण कक्षुं तथा सामायक थी अतिरिक्त नारक तिर्यगादिक अर्थतुं कक्षण हारो जे पद तेसामायिक पद एतले ए सूतो पारतुं फलबोध्युं एतले इम कक्षुं जे भाणी सूत्र जचक्षे छं ते स्वसमयादिक पदतुं परिचान जाणपणुं छइ ते भणी ते जचरवुं ज तिहार पछी ते सूत्र जचक्षे छं ते जे केतला एक श्रीभगवंतने साधुने यथोक्त प्रकारे कोरि एक अर्थोपिकारु अधिगत जाण्या छइ अने केतला एक अर्थोधिकार अनधि गत जाण्या न छइ जे अधिकार जाण्या न थी ते अनधिगत अणजाण्या अनधिकारने अधिगमन जणाववाने अर्थे पदं पदेणं वत्तइस्वामि पदेर करीवत्तं सुं एकर जूज्बो पददब्याणसुं इत्यर्थः शिवे प्रथमतो सूत्रनी व्याख्यातुं लक्षणज कहे के संहिताच श्लोक तिहा अस्वलित सुलतुं जचरतुं ते संहिता कहिये यया करोमि भयांत सामायिकमित्यादि । तथा बीजो व्याख्यातुं भेद पदतुं करतुं चया करोमि एक पद तथा भयांत ए बीजुं पद तथा सामायिक एतीजुं पद इत्यादि धर्मसूत्रना पदकरीइं २ तथा तीजोभेद पदार्थ पदरना जूज्बा अर्थ करीये यथा करोमि एपद अंगीकारकरवाने अर्थे प्रवर्ते अनेभयांत एपद गुहणी आसंतणने अर्थे प्रवर्ते तथा सम कर्तां रत्नतय तेरुतुं जे अय करतां लाभ ते सामायिक कहिये इम सर्व पदतुं जूज्बो अर्थ करीये ३ तथा अर्थो व्याख्या पदविषयरूप तिहां विग्रह कर्ता समास तेअनेक पदने एम पदतुं करतुं तेपदविग्रह यथा भयस्य अंतो भयांत भयतुं जे अन्त तेभयांत इम अनेक पदटाकीने एकपद करीये तेपद विग्रह कश्चिये ४ तथा पांचमोभेद चालना कर्तां

राज्यवपत शिब अथोपिकारु प्रणम संयव यत ४४२

सुक्तिवातापिलेगत प्राणुक्तेषु अथवा विद्येपेण निश्चयो विनियय भागोपालाद्य गनाद्यवबोधेन न कृतिपयविवृत्त्य षडसदर्थं तजति व्यवहारस्य सर्वद्रव्येषु इदमुक्तं भवति यद्यपि निश्चयेन षटादि वस्तूनि सर्वाण्यपि प्रत्येक पञ्चवर्णानि द्विगुणानि पञ्चसप्तत्यस्योनि तथापि गोपालागनादीना यत्ने क्वचिदेकस्मिन् स्थलेऽज्ञानतीक्ष्णवर्णादी विनिययोभवति तमेवासी सत्त्वेन प्रतिपद्यते नशेषान् श्लोकव्यवहारपरत्वादेवेति गाथार्थं पञ्चपञ्चगाथा साप्रतसुत्पन्नं प्रत्युत्पन्नमुच्यते यत्तमान काल भारतीत्यर्थं तद्गृह्यते शीलमस्येति प्रत्युत्पन्नव्यापी ऋजुसुतो नयविधिषु श्रितव्यं तत्रासीतानागतास्युपगम कृटिलता परिहारेण ऋज्वकृटिल वर्तमानकालभाविवस्तुसुख्ययतीति ऋजुसुत अतीतानागतयोर्विनाशानुत्यन्तिभ्यामसत्त्वादयस्युपगमवकृटिल इति भाव ऋज्वक यत्तमस्येति ऋजुयुत येष्वानैर्नुस्यतया तथापिध परोमकारवाधानायुत आनमेवैकमिच्छतोत्यर्थं उक्तं च सुयनायेचनिउत्त केयलेवयथातर अयणोयपरेषिध लङ्कात परिभाषगमिति अयचनयोवर्तमानमपीच्छन्सुखीय मेवेच्छति परकीयस्य स्याभिमतकार्यादाधकत्वेन वस्तुतोऽसत्त्वादिति अपरच भिन्नत्विगैर्भिन्नवचनैव शब्देरेकमपि वस्त्वभिधीयत इति प्रतिजानीते यथा तट तटो तटमित्यादि यथा गुरुरुरव इत्यादि तथा इ द्वादेर्नामस्थायनादि

कृत्विविधिं लक्षणां सेतं निज्जुत्तिच्छणुगमे सेतं अणुगमे सेकितणए सत्तमूलयथापस्यत्ता तजहा योगमे संगहे व्यवहारे उज्जु सुए सहे समभिरुटे एवभूए तत्य योगमेहि मायेहिं मिण्डित्तिणोगमसयनिवत्ती सेसाणपिनयाय लखणमिया

अत्र अर्थना जाणुवानी वृत्तिरु कश्चु ५ तथा तेजस जेसुव तवा अर्थं युक्ति अणमिवतो करो देपासु उरते अनेव पचाववकस्य हेतुने प्रकारे करो अथवा अनुपपत्ति रूप कारणे करो देवाडीये तेप्रसिद्धि कश्चता प्रत्यवस्थान रूप क ह, व्याख्यासु भेद ६ एवाकना प्रसिद्धि रूप

सर्ववर्णानि पञ्चवर्णानि





घृत् प्राप्त एव भूत इत्युपचारमतेरेणापि व्याख्यायते स एव भूतो गय किमित्याह व्यञ्जतेऽर्थात्नेनेतिव्यजन शब्द अर्थसु तद्भिधेयस्य रूप व्यजन चाथय  
 थ जगार्थो तो चातो तदुभय चेति समास व्यजनार्थं शब्दयोर्व्यं सानिहं य प्राकृतत्वात्प्राणजनार्थं तदुभय विशेषयति नैतयो नस्यापयति इदमपचङ्कदय यन्द्  
 मर्थनार्थं च शब्देन विशेषयति यथा घटचेद्यायां घटते योपि मसकाशा रूपचे हत इति घटइत्यत तदैवासी घटो यदा योपि मसकाशा कृततया जला  
 करण घेद्यायान्वादा घटध्वनिरपि चेदा कुर्वत एतस्य वाचकोनान्यदेत्ये च वेद्यास्यतोऽन्यतघटस्य घटत्व घटशब्देन निवर्णते पटध्वनेरपितरयस्यानो  
 न्यत घटेन स्ववाचकत्व निवर्णते इति भाव इति गयार्थं उक्तामूल नया एषां चोत्तरोत्तरभेदप्रभेदा आपय्युकादिभ्योऽवसेया एतेषसावधारणासतो  
 कुण्ड्या अवधारण विरहितास्तुडनया संबंधुण्डनेर्मीक्षिते स्याद्वाद इत्यल बहुभाषितया अतानया किंच प्रस्तुते किमेते प्रयोजन  
 मिति नायगच्छाम उच्यते उपकमेणोपकांतस्य निक्षेपेण यथासमथ निक्षिप्रस्यासुगमे बाहुगत स्यच प्रकांत सामायिकाथयनस्य विचारणामीपां प्रयोजन  
 पुनरथाह नन्वेयान्यैविचारणा कि प्रतिपत्तमभिमेता सर्वाथयनस्यवा यदाद्यपच समस्तप्रतिसूत नयविचारस्य नायासमोयरति इह मिलनेन निपिषु  
 त्वादयापर पच सोपिनयुक्त समसाथयनविषयस्य नयविचारस्य प्रागुपोदघात नियुक्तौ नए समोयारणागुमए इत्यतोपन्यसात्मात् नचसूत्वथतिरिग

**मोमुणहवोत्यं? सगह्विप्रिडिअत्य संगह्वयण समासचविति वचइविणित्यत्रत्यं ववहारो सवट्वे सु २ पचु प्यन्तगा**

व्याख्या श्रीभाष्यक नियुक्तिने विषे सामायिकनी व्याख्याना अवसरने विषे व्यापणा ठामने विषे ज विसार सञ्चित जाणथी एय छ प्रकारे विधि वाचता  
 व्याख्यातु लक्षण त्वा एषा लक्षण शब्द साये व्याख्या ए शब्द नथी तथापि प्रसाय थी सयमेव जाणीये इति होकार्यं इशां  
 शय पूकेले भगवन् पडुविष व्याख्या मथे सुवागुगमनु विषय किषां लगे ऊइ अने सुत्वापापक निक्षेपसु विषय किषां लगि ऊइ तथा सूत्वस्यार्थिक



द्रव्य नय अने पर्याय नय तिहा द्रव्यार्थिक नय ते कहीये जेद्रव्य ही ज ऊर तेभणी तेभिक वस्तु नयी एम द्रव्यार्थिक नय द्रव्यज छठ माने अयपर्याया विहित नय ते पर्यायज अठ माने परं द्रव्य अठ नमाने ते एम कहे पर्याय रूप वस्तुलै जे भणी जे अप जे अने विषयइ तेजज वस्तु छठोमानीये अने जे ऊप जे विस्तार नयी ते सर्वथा नयी आशाय कुठमस्तु एणै कारणे ते उताद विनाय रूप ज वस्तुनेमाने तिहा द्रव्यार्थिक नय तिणि छठ नैगम । मयइर अशर ३ अगे पर्यायार्थिकनय च्यारि छठ अजस्तु । शब्दर समभिरुदर एवभूत ४ तेठठ एभाव शुद्ध द्रव्य समाश्रित्य सप्ररुसाद ग्रथित नैगम अशरारीको गेया पर्यायमाश्रिता । तेमजे नैगमठं एभावार्यं वयास्तु मसा सत्तासामान्य विभोग ज्ञाने करी वस्तुने माने ते नैगम कश्चिये आरुच्ये जेगा दमण्याड सामञ्जोभय विसेसनाप्याड जनेदिमिप्यरुताणे गमोण्यउणेगमाणोति । अथवा निगम ककता अर्थना अनेक ज्ञान तेउने विपे कुञ्जल अयवा कुच्यो ते नैगम कश्चिये अथवा नैगम ककता अर्थना अनेक ज्ञान तेनैकगम कश्चिये आरुच्ये नैगच्छनिबोषावा निग मोते सुकुमलोभबोगाय अथवा जणेगमाणे गवशरणेगमो तेण । अथा ए नय मसा सत्तासामान्य विशेषमाने तेठठ एभाव सर्वयस्तुने विपे अतापणु एकज छे एउउ जे अनुगताकार ज्ञाननु कारण तेमशरुता कश्चिये तथा अर्थीतर सामान्य ते द्रव्य पणु गुण पणु इत्यादि भेदाभेद ज्ञाननु कारण ते सामान्य कश्चिये अने निष्केयल भेद रूप ज्ञाननु कारण नित्यद्रव्य वृत्ति अतन्त्रिविषय कश्चिये एतलै एक स्वरूप अक्षय तथा अगेर स्वरूप लक्षय वस्तुनु मान्यशरते ते नैगम नय कश्चिये एतले सामान्य रूप वस्तु भिन्नमाने अने विशेष रूप वस्तु भिन्न माने उक्तं च चैत्यदेशवि सामान्य मभिक ज्ञान कारण विशेषोपपत्त्य एवेति मन्यतेनैगमोनय । ए नैगमनयने असुसारैनेयायिक वैशेषिक दर्शनी छठ एकांति एउज नवने माने तेभणी मिय्याटी छठ आरुच्य भाव्य कार जसामान्यविसेसा परोपरवच्छेदअसोभिन्ने मन्नइ अथ तमउ मिच्छादिहीकारण

दीर्घ । दीर्घिं विष्णुहिंसी च सत्यं उल्लूण तद्विभिक्षित्तं जसविषयपहाणसणेण अन्नोक्त निरयेच्छति २ इति नेगमनयः समाप्तः अथ संग्रहसूत्ररूपमाह संग्रहिय गार्हा सुय्यग्रस्यो जेणे पिंडितार्थ कर्हतां एक जाति रूप अर्थ ते संग्रहित पिंडितार्थवचन कर्हीये एहवुं संग्रहनयतुं वचन श्रीतीर्थिकर गणधर संशेष यी बोलै एतले एसंग्रह नयसामान्यस्वरूपज माने परं विशेष स्वरूप सर्वथा नमाने तेभणी एहवुं वचन संग्रहीत सामान्यार्थज छद् एतला भणी जसंग्रहसामान्य रूपपणे सर्ववस्तु एककरीये ते संग्रहनय कर्हीये उक्तं च संग्रहणं संग्रह्य इ संग्रह्यते वणजभे संग्रहोक्ति इरां इम कर्ह्युं सामान्य वा अभिन्न छे जी प्रथम पत्र ग्रहीये तो सद्रूप सामान्य स्वरूप यी जूषो असद्रूप पणुं ते भणी ते असद्रूपना रूप यथा अपुण्यवत् अने जो बीजी अमेद रूप पंच ग्रहीये तो सामान्य स्वरूपज जूषो बीजो कांइ नयी जे भणी विशेष सामान्य स्वरूप यी जूषो नयी ते भणी तेहनाजस्वरूपनी परे एजज जूषो आरुच सदिति भणि अंजला सखत्याणुप्यवत् एवही तो सद्वत्तमसं नत्व नतद्वत्तरं किंवि कुंभो भाषाणुको जइतो भावो अरुक्कहाभावो एवं पडाइओ विच्छ भाषाणुत्वति सम्पत्तं २ वली कर्ह्युं हे सद्रूपनात्मिकांत सखभावमिदं जगत् सत्त्वरूप तयो सर्व संस्वरन संग्रहो मतः इति संग्रहनयः समाप्तः अथ व्यवहार नयमाह पञ्चद्वयणित्व अत्यवधारो सखद्वेष तिसां निकर्हतां अधिक पणे जे व्यक्तकर्ता पिंडित जोडुं ते निश्चय कर्हतां सामान्यस्वरूप विगत ग्युं जे निश्चय तेतले सामान्यतुं अभाव तेहने अर्थ व्रजति कर्हतां प्रवर्त्ते जजपो वस्तु स्वरूपमाने ते व्यवहारनयइत्यर्थः किहां सर्व द्रव्यने विपे वटसंभक्त मत्तादिविधियेज प्राये जल आणवादिक क्रिया ने विपे उपयुक्त प्रवर्त्तता दीसे हे परं ते विशेषयी अनेसो सामान्य स्वरूप काइ दीसतो नयी जे भणी ते सामान्यस्वरूप लोका व्यवहारे न प्रवर्त्ते ते भणी एतयतेहनुं अभाव माने तथा वली इम कर्ह्यो हे व्यवहरणं व्यवहरे सतेण व्यवहार एवसामन्व व्यवहार सामान्यस्वरूप लोका व्यवहारे न प्रवर्त्ते ते भणी एतयतेहनुं अभाव माने तथा वली इम कर्ह्यो हे व्यवहरणं व्यवहरे सतेण व्यवहार एवसामन्व व्यवहार

परो ब्रह्मणो विसृष्टो तेण व्यवहारो । एतय विशेषण बोले ते भणी सत् इम कस्ये छ ते घटादिक विशेषण श्चै जे भणी तेणज व्यवहारु हेतु छे ते विशेष थी अनेव सामान्य स्वरूप जूषो नथी जे भणी ते व्यवहारने प्रयोगे नाये ते व्यवहार नय इम कह्यो सामान्य स्वरूप ते विशेष स्वरूप थी भिन्न छे किवा अभिन्न छे जो भिन्न जूषो छद्द तो विशेष थी जूषो दीसै पर ते तोदीसतो नथी अने जो अभिन्न पचग्रहीये तोते विशेष स्वरूपज छड्यो जे भणी विशेष स्वरूप थी सामान्य स्वरूप जूषो नथी ते भणी तेचना स्वरूपनी परे एकजछड्यो आहच उवलभ व्यवहारो भावाल तव्विसेस भवा एता नत्वे अणुच्छ पि वसति विसेसाय पञ्चक्यश्चिन्ने व्यवहार नयतु एकक्षण जे वस्तुलोकने शास्त्र छै तेवदाहते मानीये अने जे भाव लोकशास्त्रनथी अने लोक व्यवहारै प्रवर्त्त नही ते भाव छतो न मानीये जेभणी जे भाव लोकमें व्यवहार प्रवर्त्त तेहज भावनु अनुयाहक प्रमाण दीसै छे अनेरातु प्रमाण दीसत नथी जे भणी ते सामान्य स्वरूप अनादि अनत रूप एक सग्रहनय प्रमाण गोचर नथी जेणें कारणे सपूर्ण सामान्य स्वरूप प्रत्यक्ष दीसत नथी अने जो ते प्रत्यक्ष अनुभवी तो होद्द तो सर्वलोकने सर्वदर्शी पणु छद्द अय विशेष पणि परमाणु आरूप तथा समय मातवर्त्तो रूपप्रमाण शास्त्र नथी दीसता जेभणी तेहनो लोक व्यवहार मध्ये पटति नथी ते भणी एहन समस्त लोक अबाधित प्रमाण प्रसिद्ध केतला एक काल भावी स्थूलपणु धरतो अने उद कहरणादिक अर्थ नित्यानीपजाव वा समर्थ घटादि वस्तुरूप परमार्थिक छतो अने घटादिकना अतीत अनागत काल पर्यायतु 'आलोचयुं' अयुक्त जे भणी तेहनें विषे प्रमाण न प्रवर्त्त अने प्रमाण विनातोवस्तु तु निर्णय करु, न जाय ते भणी ते अहतापर्यायतु किशौविचार एतले पूर्वोत्तर काल भावी द्रव्य नें विषे वर्त्तता विशेष तथा छण छवी परमाणुरूप विशेष प्रकारि लोकव्यवहारनावे तेभणी ते वस्तु रूप नथी लोकव्यवहारोपयोगी भावन वस्तुरूप छे एतखाज भणीघटचाले घडुच्चूर गिरिवले इत्यादि व्यवहार सर्वतु प्रमाण पणु जाणुद्द तथाच वाचक सुख लौकिक समउपचार प्रायोविलुतायो

व्यवहार इति अथवा विशेष जे निश्चय ते विनिश्चय गोवाक्यपर्यंत लोकगुं ज्ञान परं विद्वांस सम्बन्धी ज्ञान नही एतलै लोक प्रसिद्धज्ञानने' अर्थे प्रवृत्ते  
 द्रव्य व्यवहारनयसर्वद्रव्यने विषे एतलै यद्यपि निश्चय नये करी घटादिक वस्तुने' विषे पक्षवर्णनिगंध पञ्चरस आठस्यर्थ छे तथापि गोपालांगनादिकनेजिह्वां  
 कित्याएकस्थल नीलवर्णीदिकने विषे विनिश्चय छद्द तेरुजने' कृता पणो माने' परं अनेराशेषवर्णीदिकने' नमाने' एतले सभाव जूज्जा अनेप्रत्यब्दीस  
 ता लोकव्यवहार प्रवृत्तता कृता माने अनेरा नमाने' एभाव उक्तश्च व्यवहारसुतमेव प्रतिवस्तु व्यवस्थिता तयैव दृश्यमानत्वा व्यवहार पतिदेशिनः । इति  
 गार्थः इति व्यवहार नयसंपूर्णे अय क्लृप्त क्लृप्त नयमाह । पञ्चुप्यम्बगाही उज्जु सुषोणयविहीसुखे अम्बो सांप्रतकाले जेजपनुं तेप्रत्युत्पन्न क्लृप्ताइ वृत्तमान  
 कालभावी इत्यर्थे तेरुनुं ग्रहवासुंशील छे एरुनुं' ते भणी प्रत्युत्पन्न ग्रही एरुनुं' क्लृप्तसूत्र नयविधि जाणनुं' तिह्वां अतीत अनागतनां मानवा रूपीयो  
 कुटिल पणुं' तेरुने' परिहरिबे करी क्लृप्त अकुटिल वर्त्तमान कालभावी वस्तुने' सूत्र कर्हतां माने' ते भणी एक्कजु सूत्र नय कहीये इरुणं अतीतकालते  
 विणसी गनुं' अने अनागत काल ते उपनोन थी तेणे' कारणे ते विच्छं काल अकृता जाणवा अने जो ते कालनयी तो ते कालसम्बन्धी वस्तु किह्वां थी  
 छद्द एतलै अतीत अनागत कालभावी वस्तुपणि नयी ते भणी ते अकृता भावगुं माननु ते कुटिलवांकुं कहीये एभाव अथवा क्लृप्त कर्हतां वक्तवणा रचित  
 सरल सुत कर्हतां ज्ञान छे जेरुनुं' ते क्लृप्त सुतपणि कहीये वक्तव उज्जु सुषो सुषणाणं उज्जुसुखं अम्बसोअसुज्जुसुषो सुतयद्रवामुज्जं वयुं' तेणुज्ज  
 सुत्तोक्ति । अन्य शेष ज्ञान थी सुखरूप तथाविधपरोपकारता कारण पणायी सुतज्ञानवए एक माने' उक्तं च सुअनाणे अनित्तं केवलं तयणं तरं  
 अण्यणो अपरेसिंच अन्धातं परिभावंगं ? अन्यवर्त्तमान वस्तु अने आपणुं' वस्तु ते वली लिंगवचन नामादिक अनेक भेदभिन्नपणि एकज माने' एव्यति  
 रैकशेष सर्ववस्तु माने तेएतलाभणी जे अतीतानागत वस्तुजननी तेरुनी विनष्ट असुत्पन्न पणायी ते दीसै नही ते भणी तेआकाशपुण्यवत् छद्द तथा

राय धनपतिव शरीरिणी शानका संयत्त मान ४४५५

मायममशिशयन्यैर्विचार्यते अतोऽप्येते यस्मात्प्रतिनयसुख विचारनिषेध प्रेर्यते तत्राविश्रुतिपक्षिरेय किंच आसञ्जठसोयार नएनयविसारसवपूया  
 दूत्यननायवादिक सोऽनुज्ञात एव यदप्युच्यते समसाध्यन विषयस्य नयविचारस्यभ्राणुपोहानेत्यादि तत्रमभिप्रास्यैव वचन यस्मादिदमेव चतुर्थानुयोगद्वार  
 नयवक्तव्यतायाश्चलस्यान अत्रसिद्धानामेवच तेषा ततोपन्यास यदप्युक्त नयसूत्रव्यतिरिक्तमायामित्यादि तदप्यसार समुदाय समुदायिनो  
 कार्यादिभेदत कथञ्चिद्भेदसिद्धसायाश्चि प्रत्येकावस्थायामनुपलभ्यम्, दृष्टनसामर्थ्यलक्षण कार्य शिविकावाचकपुरुष समुदायोपलभ्यते एवच प्रत्येक  
 समुदितावस्थयो कार्यभेदे शिविका वाचनादिषु सामर्थ्या सामर्थ्यलक्षणो विरुद्धधर्माध्यासश्च ह्युच्यते यद्विवायमपिनभेदश्च शार्ङ्गिसर्वविशुद्धमेक  
 स्यात्ततश्चभेदोत्पादादिप्रसंग सास्त्रात्कार्यभेदाहिविद्वधर्माध्यासत्वे समुदायिसुसुशायिनोभेद प्रतिपत्तव्य एवसत्यासुश्रादिभ्योपि तद्भेदो भावनीय  
 सास्त्रात्कवित्कवित्त्वविषय समसाध्यन विषयचनयविचारो न दुष्यति भयत्वेव तथाप्यध्ययननये विचार्यमाणे कि सर्वदेव विचार्यते आशोचित्कियद्भेदेव

**दो सञ्जुसु उणयविहोसुणे अन्वो इच्छेइ विसेसितर पच्चुपुण नउसदो ३ वत्युउ संकमण होइ अ्रवत्युनए समभिरूढे**

परसध्वथी वस्तु, पणि आपणो कायनावे ते भयो तेरुको नि फल पणा थी ते पणि आकायकुसुमवत् जाणीये ते भयो वर्त्तमान आपथी वस्तु  
 कधीये तेवस्तु विद्वादिभिन्व छे तो पणि आपणु एकस्वरूप छडि नही लिङ्गभिन्वयथा तट तटी तट तथा वचनभिन्व यया गुर गुरु  
 गुरव तथा आप जल इत्यादि तथा नामादिक भेदविधिश्च पडिबज्जइ वत्यु सुज्जुसुषो । तथा आगलि जे शब्द नय कधीस्यै ते अतिविगुप्त पणाथील्लिङ्ग  
 वचनना भेद थी वस्तु भेदमानस्यै अने गाम स्थापना 'द्रव्यरूप इन्द्रादिक वस्तुनेनही माने एभाव तेवज्जु सूत्रनयइसी युक्ति कहे वर्त्तमान अणयत्तीज  
 वस्तु रूप छे पर अतीतते विणसी गतु अने अनागततु वस्तु तेषे आत्मस्वरूप लक्षो नथी तेवने यथशुद्धादिक थी अविशेष पणा थी सकलयक्ति रचित

अनु टी०

१३३

अनु

माय



यद्विषयैरिति पद्यः स न युक्त सो षामसंख्ये यत्नेन तैर्विचारस्य कर्तुं मयश्चात्मा स चादि यावंतो वचनमाश्री संख्योक्तं जावद्वयावयवपञ्च ताव  
 इत्याचैव होति नयवाया जावद्वयावयवपरसमया नच निजनिष्ठाभिप्राये विरचितानां वचनमाश्रीणां संख्यासमस्ति प्रतिपाद्यि  
 मायोभिन्नात्वाद्दधिप्रायाणां नापि कियद्भिरिति वक्तुं शक्यमनवस्था प्रसंगा संख्यातीतेषु यावदेभिर्विचारणा क्रियते तावदेभिरपि किंनेत्यनवस्था प्रेरणाया  
 ननेयथावस्थापकं हेतुसुत्यव्यासः प्रयापि स्यादसंख्ये यत्नेषु वा सकलनयसंग्राहिकि सप्तनययथायुक्तानि यत्प्रतिपादकं सप्तयतारं ननु तेषामपिसंग्राहिनयानामनेकविक्रवात्युनर  
 नवस्येव तथाहि पूर्वविक्रिः सकलनयसंग्राहीष्वि सप्तनययथायुक्तानि यत्प्रतिपादकं सप्तयतारं नवस्यक्राध्यनमासीदुक्तं च एकोकीयसयकिशो सप्तनयसया  
 वति एसेवेत्यादि सप्तानां च नययतानां संग्राहकाः पुनरपि विख्यादयो द्वादशयतारं यत्प्रतिपादकं सप्तयतारं नवस्यक्राध्यनमासीदुक्तं च एकोकीयसयकिशो सप्तनयसया  
 नयाः तस्य ग्राहिको पुनरपि द्रव्यपर्यायासिकौनयीज्ञानक्रियानयौगानिसयथ्यवहारोवा यद्व्यर्थनयौवेत्यादि इत्यादिसंग्राहकनयानामयनेकविक्रवात्युनर  
 वंजण अत्यतद्भयं एवंभूतं विसेसेद् ४ शार्थंमि गिगिह अन्वे अगिगिह अन्वे अर्थक्रियानीपचाय वानी यत्कि न ऊह पने के वस्तु अर्थ क्रिया नीपवावीनसके तेरुने वस्तु पणुं  
 रूप पणुं ऊह अने जेसमस्त सक्ति रचित ऊह तेरुने अर्थक्रियानीपचाय वानी यत्कि न ऊह पने के वस्तु अर्थ क्रिया नीपवावीनसके तेरुने वस्तु पणुं  
 न ऊह उक्तं च तदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसद् इति कथनात् ते भणी केवर्तमान अणवर्ती वस्तु समस्तार्थक्रियाने विवे व्यापरे  
 तेषु कारणे तेरुज परमार्थिक वस्तु ऊह द्विवे वस्तु वली निरंश अंशरहितस्माजीवे के भणी अंशनी व्याप्ति युक्ति साये न मिले केके कारणे एक  
 स्वभावरूप वस्तु ने अनेक स्वभावपणा विना आपणा अनेकदेश प्रदेशरूप अवयवने विवे व्यापतु युक्ति अने मिले के कोइ इम कहै तो वस्तु अनेक  
 स्वभाव पणुं ज ऊहो तो तेरुने इम कहीये इम पणि युक्ति अने मिले के भणी तिहां विरोध कपी यो व्याप्त उंवे ते किस एकस्वभावयुं अनेकस्वभावा

राव पणवतु सुव नवपणवतु राव पणवतु सुव नवपणवतु राव पणवतु सुव नवपणवतु राव पणवतु सुव नवपणवतु राव पणवतु सुव नवपणवतु

वशातिनिपुणसुक्तं किंतु प्रकृतात्पद्यने सामाधिकं विचार्यते तच्च सुक्तिफलं ततोयद्देशस्य सुक्तिं प्राप्तिनिवधनरूपं तदेव विचारणीयं तच्च ज्ञानक्रियात्मकमेव ततो ज्ञानक्रियानयान्यामेवास्य विचारोद्युक्ततारो नान्यैस्तत्र ज्ञानमेव सुक्तिं प्रापकतया प्रतिजानीते ततस्तस्मात्तावि कारणार्थमात्रं नायस्मिन्नाहा व्याख्या ज्ञाने स्वस्य रूपवगते गिच्छियन्ने गृहीतव्ये उपादेय इत्यर्थं अगृहीतव्ये ऽनुपादेये सबहेय उपेक्षणीयस्य द्वयोरप्यग्रहणा विशेषाच्च शब्दउक्तं समुच्चयेऽयं अप्रकृते स्वस्य रूपवगते गिच्छियन्ने गृहीतव्ये उपादेय इत्यर्थं अगृहीतव्ये एवागायालकारमात्रो अस्ति शक्ति इत्यर्थे शिकामुष्णिकेतद्विको गृहीतव्यं अगृहीतव्ये न हेयपक्षेको गृह्यते उपेक्षणीयत्वमुक्तमप्यमेव चकार समुच्चिनोति एवागायालकारमात्रो अस्ति शक्ति इत्यर्थे शिकामुष्णिकेतद्विको गृहीतव्यं स्वर्गं स्वर्गपदनागनादि अगृहीतव्यो च विपकटकादिष्वपेक्षणीयशृणादि आसुष्णिको गृहीतव्यो अस्य ग्दर्यानादि गृहीतव्योमिथ्यात्वादि रूपेण शोच्यते स्वर्गं विभूत्यादिरेव भूतोऽयं यतितथ्यमेवेत्यतै पकारोऽप्यधारणे तस्य च व्यवहितं प्रयोगस्तथा ज्ञात एवेति तदयमर्थो ग्राह्यायत्सोपेक्षणीयेऽयं ज्ञात एव तत्प्राप्ति परिचारीपेक्षार्थिना ए यतितस्य प्रहत्तप्रादिकरणं प्रयत्नं कार्यं इति इत्येव भूतं सर्वव्यवहाराणां ज्ञाननियधनत्व प्रतिपादनपरोय उपदेयं स किमित्याह नय इति प्रज्ञावाज्ञाननयोनो निति यिष्यामत्तणे इत्यन्तरयटना भागार्थक्य इह ज्ञानमयो माधान्यत्वापनार्थं प्रतिपादयति गत्वैशिकामुष्णिकफलाधिना तावत्सम्यक्विज्ञात एवार्थे प्रवर्ति तथ्यमन्यया प्रवृत्तौ फलसुवादर्यानादागमेपि प्रोक्तं पठसंज्ञाणतदयेत्यादि ज्ञ चन्वाणीकमन्त्रवेदत्यादि तथा अपरम

**सो न उनाम पू सव्वेसिपि नयाणं वसव्यं बहुविधं निसामिन्ता तं सुव्वनयं विसुव्वं जचरणगुणं द्विर्दसाह्मं ६ सेतनए**

इह चने एक स्वभाव अनेक स्वभाव ते परस्पर परिचरीने रक्षा छे ते भणी आपणा स्वरूपने विपे रक्षा परमाणुआजपर एव एकत्व मिलवने द्वारे करी केपे एके प्रकारे निचय रूपपण पास्या इती समस्त यादिक कार्दने विपे पारवत इह एसे कारण ते परमाणुआज स्वस्वरूप कधीये पर स्थूलपणु धरतो वसु परमार्थिक नही इम एइने अभिप्राये जे स्वकाय तेहज वस्त कधीये परपरकायते वसु, न कधीये जे भणी

सुव्वेसिपि नयाणं वसव्यं बहुविधं निसामिन्ता तं सुव्वनयं विसुव्वं जचरणगुणं द्विर्दसाह्मं ६ सेतनए

युक्तं पावाडविशियती पवत्तणातेरुकुशलपक्वस्मि विणयस्ययपडिवत्ती त्तिन्निविनाणेसमायंति तथास्यै रयुत्तं विज्जतिः फलदापुंसा नक्तियाफलदासता  
 मित्या ज्ञानात्प्रष्टत्स्य फलासंबादर्यनादिति इतश्चज्ञानस्यैव प्राधान्यं यतस्तीर्थकरणधरैरगीतार्थानांकेवलानां विहारोपिनिषिद्धसायाच तद्वचनं गीयल्योय  
 विहारो वीष्णोगीयलमीसिष्णोभणितो इतोतइयविहारो नायुन्नास्योजिणवरेहिं नयस्माद्धेनाधः समाह्वयमाणः सस्यकूपंयानंप्रतिपद्यत इति भाषः एवंतावत्  
 चायोपशमिकं ज्ञानमधिष्ठत्योक्तं चायिकमयं गीकृत्य विशिष्टफलसाधकत्वं तस्यै व विज्ञेयं यस्माद्धेतोपि भवंभोधितटस्यस्यहीचाप्रतिपन्नस्योत्कृष्टतपश्चरण  
 वतोपि न तावदपवर्गप्राप्तिः संजायते यावदखिलजीवादि वस्तुसोमसाक्षात्करणदर्शनं नोत्यन्नं तस्मान्नानमेवपुरपार्थ सिद्धिर्निबंधनं प्रयोगश्चातय  
 दो न विना न भवति तत्तन्निबंधनमेव यथा वीजाद्यविना भावीतिन्निबंधन एवांकुरो ज्ञानाविना भाविनीच सकल पुरपार्थसिद्धिरिति ततश्चायं नयश्चतु  
 विध सामायिक सस्यल्लसामायिक श्रुत सामायिक एवाभ्युपगच्छति ज्ञानालकत्वेन प्रधानसुक्तिकारणत्वा हेतुविरति सर्वविरति सामाधिकेतुनेच्छति  
 ज्ञानकार्यत्वे नगोणत्वात् योरिति गार्थार्थः विचारितं ज्ञाननयमतेन सामायिकं अयं क्रियानयमतेन तद्विचार्यते तत्वासी क्रियैवसकलपुरपार्थसिद्धेः प्रधान  
 कारणमिति मन्यमानो ज्ञाननयमतव्याख्यातामेव गायामाह नायस्मीत्यादि इदं क्रियामतेनेत्यं व्याख्यायते इह ज्ञाते ऋहीतये अग्रहीतये वैवाये  
 सर्वामपिपुरपार्थसिद्धिमभिलषता यतितव्यमेव प्रष्टव्यादिलक्षणाक्रियैव कर्तव्येत्वेवमतव्याख्याने एवंकारः स्वस्थान एव योज्यते एवं वसतिज्ञातेष्वर्थे  
 क्रियैवसाध्याततो ज्ञानक्रियोपकरणत्वान्नोणमित्यतः सकलस्यापि पुरपार्थस्य क्रियैव प्रधानं करणमित्यादि यत्प्रदेशः सनयःप्रसावात्क्रियानयः शेषं पूर्ववदय  
 सपि स्वप्नसिद्धये युक्तीसद्भावयति ननु क्रियैव प्रधानं पुरपार्थः पुरपार्थः सिद्धिकारणं यत् भागमेपि तीर्थकरणधरैः क्रियाविकलानां ज्ञानं निःफलमेव  
 उक्तसुवज्जं पिसुयमहिं किंकाही चरणव्यपसुक्तस अंधसज्जहपलित्ता दीवसय सहस्रकोडीविनाणंस्विसयनिययं ननाणमिसेणकज्जनिष्कती मग्गणदिट्ठं

राय धनपत्तिं व भवति सुखं यत् ४४५

ते सापत्ने प्रयोगे नाये किने परमार्थरूप ऋजु सुत नयसु एषुसुवरूप जाणव तल ऋजसूत्र नीति स्यात् गुह्यपर्याय सञ्चित विनश्वरस्ये व भावस्य भावात्  
 स्थितिबियोगत । अतीतानागाकार कालस्य स्पर्शपरिष्कृत यत्त मानतया सर्व ऋजुसूत्रेण सूत्र्यते २ तथा पलाल न दृश्यन्ति भिद्यते न घट कश्चित्  
 म न्युत्पत्तिर्गमोऽस्तीति न च न्यून्य प्रविश्यते ३ इति ऋजुसूत्र नय समाप्ता ४ अथ गद्व नयमात्र दृश्यद्वियेसिचत्तर पञ्चुत्पन्न गघोसहो तिष्ठां गप धातु  
 धातोर्गार्थं प्रवर्त्तते भणी प्रवोदै कर्त्ता बोलोये वसु, एणं करोते गद्वकधीये ते गद्वने मुख्यरूप अने अर्थने गुणरूप जे नयमाने ते नयपणि उपचार  
 कृती गद्वनय कधीये जिम दतकत्वादिकरूप हेतु अर्थसु बोलणहारोपदर्पणि हेतु कधीये एक च स्वण सबद् सतेण वसुएषुत्युजतयो सधो तस्य  
 परिप्रहात विदोत्तिहेतव्य । ए गद्व नय प्रत्युत्पन्न वर्त्तमान वसु, पणि ऋजुसूत्रना मानवानी अपेक्षाये विद्येपिततरहे तथाचि तट तटो तट इत्यादि  
 गद्वना बोलणीक वसु, भिन्नर जूषार जमाने जे भणीए गद्वभिन्नलिगवर्त्तीं छे अने भिन्नलिगवर्त्तीं गद्वे करी भिन्नर वसु, जमोलाइ स्त्रीपुरुषपापु  
 सकगद्ववत् तथा एरु गुरु व दृष्टां पणि भिन्नर वसु, जमोलाइ जे भणी ए गद्व भिन्नर वचनने विदे वत्ते छे तेभणी भिन्नर वसु,  
 ऊइ पुरुष पुरुषो पुरुषा इत्यादिवत् अने नाम स्थापना द्रव्यरूप ते घटादिकवसु, नयी जे भणी ते तेकसु कार्य न करे तेभणी ते आकाश  
 कुसुमवत् जाणवी एतले भावजवसु कधीये जे भणी नाम स्थापना द्रव्य घट ते घटसु कार्य जलहरणादिक करी न सके अने भाव ते घडसु  
 कार्य करी सते ते भणी भावज प्रमाण नाम स्थापना द्रव्यप्रमाण नही इहा उभय नयने मते घटनिक्षेप रूप वसु, प्रमाण छे तेभणी अधिकारै ध्यायु  
 विष्णु निक्षेपासु स्वरूप देखाडीये छे इहा सर्ववसु, नाम स्थापना द्रव्य भावरूप छे ते कोई वसु नयी जेहना प्यारि स्वरूप नयी यदुक्त कि न किले  
 ताभ्यां कित प विधिराश्रित यद्याख्या वसु, तत्वस्य बोधादेय विधीयते । तच्च नामादिरूपेण वसु, रूप व्यवस्थित नामाद्ये कांतवादीनां अयुक्तावेन सस्यि

1188 1114 868 8116 1101116 8 81 118118 112

ते २ तिहां नाम नय इम कहे वस्तु, नाम रूपज हे नाम विना वस्तु नुं अनेइं सरूप नवी जे भणी नाम विना वस्तु ग्रहो न जाइ ते भणी सर्ववस्तु नाम रूप हे जिन साठी ऊंती घडो ऊइ ते भणी ते घडो साठीज बोलीये परं चय्य बस्तु, नही तिस नाम ऊंती वस्तुग्रहण चाये ते भणी नाम रूपज वस्तु बोलीये उक्तं च यतो नाम विना नाशि वस्तुनो ग्रहणां ततः नामैव तद्यथा कुंभो वदेवायुो न वस्तुतः । तथा जोनाम रूप पस्तु न ऊइतो एउवादीय जपके संसयविवज्जउवाण अकवसाठ विवाहो जकित्वाए शीज्जलेपडिवसी न वत्थम्वो जयानाम । त्रिवे स्याप ा नय इम कहे सर्ववस्तु, स्यापना आकार रूप हे जे भणी नाम अकवसाठ विवाहो जकित्वाए शीज्जलेपडिवसी न वत्थम्वो जयानाम । त्रिवे स्याप ा नय इम कहे सर्ववस्तु, स्यापना आकार विना नाम न ऊइ यत उक्तं प्रमाणमिदमेवार्थं स्याकारमयतांमति नासादि विनाकारं यतः फलाभिशायार्हे चागारमयं सत्त्वं जमणागारं तयं नत्वि । अथ द्रव्यवय इम कहे नाम स्यापना रूपवस्तु नयी अपि उ द्रव्य वस्तु हे जे भणी अकार विना नाम न ऊइ तिम द्रव्य विना आकार पणि न ऊइ उक्तं च यथा नामादिनाकारं विनासंविद्यते तथा नाकारापि विनाद्रव्य सर्वं द्रव्यात्मकं एते सर्वसाम सावज दीसे उक्तं च सत्यं विवेचमानोक्त भाव एवावधिद्यते पूर्वापरविकृतस्य यतकस्यैव दर्शनं । त्रिवे ए चिक्रं स्यापनेद्रव्यार्थिकनय अनें पर्यायार्थिक नत्र इम माने यत उक्तं तिलवरवयवसंगण विवेचपत्वारारुलभागरणो दम्बडिउ अपशव नउचसेसापिषप्याभिः आमं उवषादकति एसो दम्बडिषकानिकुठे नो भावतिपत्तविद्विषक एउवषापएउवकरमवो १ तथा उभवयनेमते इम बोल्नु हे संविनटै वसर्वादि

विषयाणां व्यशस्ति सवेदनव नामादि विकल नानुभूयते । घटोवमिति नामेतत् इयद्भुभादिनाकति घटद्रव्य भवनभावो घटे दृढ चतुष्टय २ ननाभादि  
विनाकार आकारो नामनो विना तोविनाषाययोन्यव उत्तरापि संस्थितो इ तन्नामस्थापना द्रव्यनिक्षेपेरुपनिर्गत्त द्रव्यार्थिकनयो भाव निक्षेपादितर  
इत ४ मयूटाडरसे यह इणां नीलादय स्थिताः संकेयन्त्योस्तुम्भित्वा कृष्णामादयो घटेपुचिये नामस्थापनाद्रव्यभाव मध्ये भाव निक्षेपो माने अनैरा त्रिणि  
निक्षेपान माने ते भणो एविषार कस्तु ते भणो एनयतु पूबला नवथी विमुहपणा थो विद्येयिततरमानतु जाणतु अय सहगलिद्रववने करी एक वसातु  
गोखतु एगद नयमाने यथा इ द्र यका पुरन्दर तथा घट कुट कु भ इत्यादि इति गार्थार्थं चिये एनयतु एपरमार्थं कस्तु, छे तच्चिपरिवस्तुतमयं पशु,  
व्यन्त्रविशेषिचत्तर सोइत्यरभाव वहविष ज नवनामादवतिष्ठि । तथा विरोधलिङ्गसख्यादि भेदाङ्गित्त स्वभावतां तस्यैवमन्यगानोत्त शब्द प्रत्यय  
तिष्ठते २ इति यद्मय समाप्त ५ अथ समभिकट मयस्वरूपमाह बल्युत्तरकामण गोइ अथलून ए समभिकटे वस्तुतु इन्द्रादिक सकमवु अन्यवस्तुगमा  
दिकने विषे पैसव, ते पवसा, ऊर नसभये इत्यर्थं तिङी समभिकट नयनामतने विषे ते समभिकटतु स्यु, अर्थं नामने भेदेवस्तुभेद समभिरौष्ठपूककतां  
माने तथा पडिगणइ ते समभिकट कधीये एतने नाता अर्थने विषे गाना अज्ञानासमभिरौष्ठशदेवाथी समभिकट कधीये उक्त च ज्ञान मय मासइ त त  
विषसमभिरौष्ठएजला शेष तलविसुखी तथोकको समभिकटनिः इर्षा इन्द्रयक्तपुरन्दरादिक शब्देएक वस्तु बोलतां जिधरै इन्द्र शब्द यत्त शब्द स बोलाइ  
तिवार परमैशयंरूप वस्तुतु यक्तन रूप वस्तुने विषे सकमवु पैसतु ऊर ते पिङ्ग स्वरूपतु एक स्वरूप कस्तु, ऊर इत्यर्थं तो स भये नथी ते भणो अथव,  
नाशि कधीये जे भणो परमैश्वर्यवदीय तेजज यक्तन पर्याय किम ऊर सर्ववस्तु, मर्याय एक अरतां अतिप्रसन्नदोष जपले जिम कोइ एक घटने घटकटे  
पटने घट कहे तथा थोजने शयी शयीने थोजो कहे तिम इन्द्रेने यक्त कहतां तथा घटने कु म कहतां दोष जपले एतले समभिकट नये इम कहे इन्द्र

अथ भा० १३८

अथ भा० १३८

अथ भा० १३८

ते जञ्चो पुरंदर ते जञ्चो तथा घटते जञ्चो पटतेजञ्चो कुम्भते जञ्चो इत्यादि भिन्नरशब्दभिन्नार्थ गोचरजाणिया एतल्लोककूट एकवस्तुना अनेक नामबोलि छे ते एनय न माने' एक वस्तु' एकज नाम माने' उक्तञ्च तथाविधस्यतस्यापि वस्तुनः जगवर्त्तिनः द्रुते समभिरूढसु, संज्ञाभेदेन भिन्नतां ? इति सशभि कूट नयसंपूर्णम् इ अथैवं भूतनयस्वरूपमाह व्यञ्जन अत्य तदुभयं एवंभूञ्चो विधेसेइ जे क्रियाविशिष्ट शब्दे' करौबोलीये तेहज क्रियाकरतो वस्तुएवंभूत कहीइ' तिहा एवं कहतांचेष्टा क्रियादिकप्रकारने भूतं कहतापुळतो जेवस्तु, तेएवंभूतकहिचै ते एवंभूतवस्तुबोलगहारोनयपणिलपचारथीएवंभूतकहीये अथवा एवं शब्दे जे बोलीये चेष्टा क्रियादिक प्रकार ते क्रिया विशिष्टज वस्तु ना मानवा थो ते एवं प्रकारने' भूतं कहतां पुळतो जे नय ते एवंभूत नयकहीये इम उपचार विना पणि व्याख्या ऊइ अथवा यथा शब्दार्थः एवंपदार्थः भूत कहतां कृतो इत्यर्थः अन्यथा अभूत अकृतो इम जे माने' ते एवंभूत नय कहीये आहच एवं जह सहयो स भूतो तहन्नही भूञ्चो तेगोवं भूञ्चनउ सह्य परो वसेणं ते ? ते एवंभूत नयस्युं कहे छे तिहां व्यंजीचै कहतां प्रकट करीये अर्थएणे' करी ते भणी व्यञ्जन कहता शब्द अने' अर्थ कहता शब्दसु' अभिधेय वस्तु, रूप पछे व्यंजन अने' अर्थ तेहज ते तदुभय ते व्यञ्जनार्थ तदुभय इहां व्यंजनार्थ शब्दसुं जञ्चो निहै श कखो एकठो समास रूपनिहै श न कस्युं' ते प्राकृत पणा साटे जाणवुं हिवे व्यंजनार्थ तदुभयने' एवंभूत नयविशेष कहता नियत पणे' स्थापइ इहा एभाव अर्थ करी शब्दने' विषे अने' शब्दे करी अर्थने विशेषे यथा घट घाटुचेष्टाने' अर्थे छे ते भणी घट स्त्रीने मसक चढुं घाले ते भणी घट कहीये तो तिवार घडो कहीये जिवार स्यादिकना मसकादिकने' विशेषे चढुं जलाहरणक्रिया करै अन्यदा ठामे रस्युं तथा भरी तो घडु न कहीये एतले एवंभूत नयसुं' एभाव जेजे अर्थने विषे शब्दनीपजे ते शब्द निष्पत्तिनुं कारण अर्थ जिवार वस्तु' तिवार ते शब्दप्रवर्त्ततो माने' परं समुच्चयरूपे सदा ते शब्द प्रवर्त्ततो न माने' तेभणी उदक आणवानी वेलाये स्यादिकने विषे चेष्टा करतो जघट बोलाये अनेरो न बोलीचै जेभणी अनेरा

ने विषये घट गद्दे जे भाव बोलीये ते भावनवी तेभणी पटादिवत् जाणवु, दृष्टा कोर्दे इमकहे जे अतीतअनागत कालनीचेदानी अपेक्षायें अङ्गीकार करीने  
 समुच्चय न्ये सदायसोक्तान बोलीये दृष्टा उत्तर ते अतीत कालनी चेदा क्रियाविणशी गर्दे अने अनागत कालनी चेदाक्रिया जपनी नथी तो ते विनष्टा  
 नुत्पद्यपणा थी गगद्दे ग सरीखा याद् ते थी तेहनी अपेक्षायें सदा वडो न बोलीये अनेजु तेहनी अपेक्षायें सदा बोलीये तो सर्व वस्तु ने वडो योला  
 वतां दोष नही जे भणी अपटने घट करी बोलावतां सर्व अघट वस्तु, पण घट शब्दे बोलाद् अघट पणानु विशेष नथी वणु किंस जो अतीत अनागत  
 कालनी चेदानी अपेक्षायें अघेटावत घटने विषे घटशब्द प्रवर्तते तो माटीना पिडनी अवस्थायें तथा ठीकरीनी अपेक्षायें पण वडो कहीये जेभणी  
 तिष्ठा विग्रह कोर्द नथी ते भणी जे कार्य भणी जे वस्तु बोलीये ते कार्य करवानी वेलायेंज तेवले एतले चेदा अवस्था थी अनेरा कालने विषे घट  
 गद्दे करी न नीपजे अने घट पण चेदा अवस्था थी अन्यदा स्वनाम पणु नीपजाथी न सकै उक्त अ एकस्यापि ध्वने वांश्य सदातस्योपपद्यते क्रियाभेदेन  
 भिन्नत्वा देवभूतोभिमन्यते । १ इति गायार्थ एतलै मूलनय सातवप्याण्या ऋये ए सात नय सावधारणएकांतरूपे उक्तां, दुर्ध्व इष्ट नय बोलीये अने अव  
 धारण विना अनेकातरूपे उक्तां सुनय सम्यग नय बोलीये अने सगले सु नये एकठे मिलीने स्याहादरूप त्रीजिन मार्ग उद्द अल बहुभाषितया दृष्टां  
 षणु बोखवो पूरु याचो तथापि अनेरा ग्रन्थी दुर्ध्वीति । नयर प्रमाण ए तिष्ठतु स्वरूपकहीये जे सदेवसत्त्वात्वादिति त्रिधार्थो भीयेत दुर्ध्वीति नय  
 प्रमाणे यथार्थदर्शो ए नयप्रमाण पयेम दुर्ध्वीति पय त्वमास्व । व्या० अर्थ कृष्टतां प्रदार्थं ते तिष्ठ प्रकारे करी भीयेत कष्टतां मर्षीद् निर्णय करीये कश्चि  
 तिष्ठ प्रकारे करी दुर्ध्वीति नय प्रमाण तिष्ठा नीतिकृष्टतां नय इष्ट जेभीत ते दुर्ध्वीति इत्यर्थ अने नय ते नैगमादिक तथा प्रकर्षं जाणीद् निर्णय करीये  
 अनेकातरूप एणे करी ते प्रमाण कहीये ते प्रमाणस्याहादरूप मत्पक्षपरोक्ष लक्षण तेणे करी ऋये दुर्ध्वीति नयप्रमाणे प्रदार्थं किमजाणीये ते कष्टे जे



सदेव सत्यात्सिद्धिर्इति इहां सत् इति नपुंसकलिङ्गच्छे ते अव्यक्तपणा ऊंती जाणवुं ते भणी सत् एव इति दुर्णयः । सत् इति नयः २ स्यात् सत् इति प्रमाणां इ एहनुं ए अर्थे दुर्णय इम कहै वस्तु एकाति रूपे छे यथा अस्त्ये व घट इति एतले एदुर्णय वस्तुने विपु एकान्ति अस्ति पणु जमाने ते एकान्ति अस्ति पणुं मानतो अनैरा स्वरूपने उत्यापवै करी आपणु अभिप्रेत धर्मस्यापै हिचे दुर्णयपणुं एतला भणी जे एभाव मिथ्यारूप छे ते मिथ्यारूप एतला भणीज ते वस्तुने विषे अनैरा असत् रूपादिक कृता धर्म अनेक छे तेहने उत्यापवा माटे तथा जे इम कहै सत् वस्तु छे यथा अस्ति घटः इम नयवा दीघटने विषे आपणुं वाञ्छित अस्ति पणां रूप धर्म कहतु ऊं तु शेषधर्मने विषे गजनि मीलिका अवलंबै ते भणी एहने दुर्णय पणुं न ऊइ जे भणी अनैरा धर्मान्तरं स्वरूपान्तरं उत्यापतो नथी अने एहने प्रमाणपणुं पणि नही जेभणी स्यात् यच्चे करी लांछित नथी हिचे प्रमाणवादी इम कहै स्यात् सत् स्यात् कहतां केषो एकै प्रकारे वस्तु छे यथा स्यात् अस्ति घटः इति प्रमाणां इहा एहने प्रमाणपणुं एतला भणी जे इमज वस्तु प्रत्यक्ष दीसे छे तेणो कारणे इम बोलतां दृष्टवस्तुकेणो प्रमाणे हणुं नशाइ अने एकांत कृता पणुं बोलतां विपक्षने विपे अकृतापणो करी कृतापणु हशाइ जेभणी सर्व वस्तु आपणो स्वरूपे छे परस्वरूपे नथी इम अनेक ठामे अनेक वार कही सूक्ष्म छे इम दिशि माल देलाडवा भणी त्रिऊं प्रकारे कृतापणो देखाडुं हिचे इमज सत्त्वं स्वरूप अचल स्वरूप नित्य स्वरूप अने अनित्य स्वरूप वक्तायत्त स्वरूप अव्यक्त स्वरूप विशेष स्वरूपेत्यादि अनेक धर्म दुर्णय नय प्रमाण रूप त्रिऊं प्रकारे करी विवरीये इम वस्तु स्वरूप वखाणीने तेहना कहणहार श्री तीर्थकरनी हिचे सुति कहै छे यथार्थदर्शी इत्यादि तिहा दुर्णीति पथ दुर्णयमार्ग तो शब्द निश्चयार्थे छे अने भिन्नकमपणा ऊंती त्वं एयच्चे आगलि प्रयुं जीये पछे त्वमेवास्य इम ऊइ तेहमुं ए अर्थ हे श्रीजिनेन्द्र हं हिजनि राकरतो ऊओ परं अनैरे तीर्थान्तरीयने देव दुर्णयमार्ग निराकरी न सक्युं हिचे ते दुर्णीति पथ केणे करी उथाप्यो नय प्रमाण पथे नय अने प्रमाण

राय वनपतिवैश्वानराना शिवसुत ४४२

पूर्वोक्तस्वरूप ते हने मार्गे करी दुर्णीति मार्गे निराकरो जो भणी हे श्रीजिनेद्रक्षे व यथार्थ दर्शिते विमल केवलज्योतिकरी यथावस्थितवस्तु देवप्रणकारे  
 घने तीर्थान्तरनादेव तेरागादिक दोपरूप काणव्य कलङ्कित छे ते भणी तथाविध तुम्ह सरीयो ज्ञान तेहने नथी तेभणी यथार्थदर्शनीनथी तोदुर्णययय ते  
 निराकरी किम सकै स्वयमेव जे अनोति प्रवर्तते अनैराने अनैराने प्रवर्ततां निपेधी किम सकै एतले जिम कोद्रैएक सभागु जाण परोपकारी लम्पट  
 पुरव तथाविध घोर सावजकण्टकादिक आकीर्ण मार्गे छोडावीने पचीने दोप रहित गुणयुक्त मार्गे देखाडे एव श्रीजगन्नाथ पणि भव्यजीवने दुर्णय मार्गे  
 छोडावीने नवप्रमाणमार्गे देखाडे इडा सुखटसे प्रमाण मार्गे निजप्रमाणपण जाणवु अने जे इडा नयने प्रमाण तुल्य पण देखावु तेतेहने अतुयोगद्वार  
 रूप पणा माटे ध्याल्पभेद जणाववा भणी जाणतु जे भणी श्रीप्रवचन अतुयोग महानगरना आरि द्वार उपक्रम निजप्र अतुगम नवरूप पूर्व यथास्था  
 छे अथ दुर्णय अने नव अने प्रमाणतु स्वरूप किखिनाल देखाडीये छे प्रथम नयने स्व रूप देखाडीये छे जे भणी तेणे जाण्णा छु ती दुर्णयनास्वरूपतु  
 जाणपण सुखे आये इडा जे प्रथम दुर्णय ग्रस्तु, ते यथोत्तर प्राधान्य जणाववा भणी तिहां प्रमाण प्रतिपन्न पदार्थना एक देशतु ग्रहण ते नव कधीये जे  
 भणी नव शब्दनी एहवी निश्चितये अनन्तधर्म भुक्तगस्तने स्वबद्धित एक वस्तु धर्मविग्रहने नयतिकहतां ज्ञान पयने विषे पुरुचयि ते भणी नव कधीये  
 प्रमाण प्रपञ्चा पची आगळा कालने विषे जे वस्तुतु यद्वेषु ते नव इत्यर्थ ते नव अनन्ता छे जे भणी वस्तु अनन्तधर्मसुक्त छे ते यस्तूना बोलणकारा  
 ना अभिप्रायने नव कधीये ते भणी अनन्ता नव छद्म तथाच दृष्टा जायदृष्टा वशीणपृष्ठा तावदृष्टाचिबद्ध ति नव बाया इतिरचनान्तु तथापित्रीधिरतनाचा  
 ये सर्वसपक्ष मात अभिप्रायनी परै कल्पना द्वारे करी सात नव बोल्या तद्यथा नै गम सुयच २ व्यपहार ३ ध्वजु सूत्र ४ शब्द ५ समभिरुट ६ एषभूत ७  
 अथ एहने सर्वसप्राक्कपण किमउद्द ते कधीये छे प्रथम अभिप्रायतो अथहार अथवा शब्दद्वार प्रवर्तते अनैरे किर्काद् न प्रवर्तते तिहां जे भलाकिद् अर्थ

निरूपणाने' विवे निपुणप्रमाणीकना अभिप्राय ते प्रथम आरि नय मध्ये सम्भवे अने' अे अभिप्राय शब्द विचारवाने' विवे वदुर ते शब्दाटिकनय विधि  
 मध्ये अने एवं ए सात नयतु' स्वरूप संपूर्ण पूर्वे बणावतु' हे एतलै नयस्वरूप यथो! अथ दुर्धय स्वरूपमात्र एवज सात नय एकांत रूप पणे आपणे  
 स्वरूप स्थापता ऊंता अने शेषधर्मने' हत्वापता ऊंता दुर्धयनाम बोलीचे ते सात नयने' एकांत बहवे करी परप्रवादी ऊ आरु ते किम नैगमनयने'  
 एकांत ग्रहवे करी नैयायिक अने वैशेषिक वादी ऊ आ हे तथा संग्रह नयने' एकांत अवलम्बवे करी सर्व अहेतवादी सांख्य मीमांसक यथा दीसे ते तथा  
 व्यवहार नयने' एकांत स्थापवे करी चार्बीक दर्शन यतु' हे तथा अजु अय नयना अभिप्रायने' एकांत अवलंबवे करी सुगत कर्तता' नैभदर्शनी ऊ आ हे  
 अने' शब्दादिक त्रिणि नयावलम्बी वैयाकरणादिक दीसे हे अथ नयअने' दुर्णयतु' स्वरूप यत्यातरने विवे इम दीसे हे उक्तस सोडाउरणं नयदुर्णयस्वरूपे  
 श्रीदेवस्वरिआदि तथाबहुप्रत्यः नीयते न सुतात्वप्रमाणविषयीकृत्य स्यार्थस्यायकदितरांशदासीन्यतः प्रतिपत्त, र्भप्रायविगोपोनय प्रति स्वाभिप्रेतादेशा  
 दितरागापलापी पुनर्नयाभासः सचव्यास समासाभ्यां द्विप्रकार व्यासतोत्केकविकल्पः समासतस्तु, द्विभेद द्रव्याधिक पर्यायीधिकष तत्ताद्यो नैगम संग्रह  
 व्यवहारभेदा विधेत्यादि तिहां दोह धर्मने' अथवा धर्मधर्मिने' प्रधानाभावे अने गुणभावे योजतु' ते नैगमनय करीचे  
 तिहां विक्र'धर्मना प्रधान भावनी ए विवक्षा यथा सच्चैतन्यसामनीतिधर्मयोः किम आत्माने' विदे क्ता पणु अने' चैतन्यपणु तिहा क्ता  
 पणु' ते सुख अने' चैतन्यपणु ते गुण इम विक्र'धर्मतु' प्रधानोपमर्जनी भातऊइ अथ विक्र'धर्म नो प्रधानभाब गुणभाब यथा पण,  
 पर्यायवत् द्रव्यमिति धर्मिणोः किम वस्तु ते प्रधान धर्मो अने पर्यायवत् द्रव्य ते गुणरूपधर्मो इत्यादि अथधर्मोपमर्जितु' प्रधानपणु' गुणभाब यथा  
 चाणसेकं सुखी विषयासक्त जीव इति धर्मधर्मिणोः किम अण एक सुखी विषयासक्तजीव इहां सुखरूप धर्मोति' प्रधानभाब अने विषयासक्त जीवरूपधर्मो

ने गुणभावबोत्वु इत्यादि एतै गमनय कर्षीये अथ नैगमनयाभा स नैगमदुर्णय किम कर्षीये छे धर्मद्वयादिकने एकांति एथगपणासु अभिप्राय एकांतजुञ्  
 व्यापणानु अभिप्राय ते नैगमाभास कर्षता नैगमदुर्णय कर्षीये यथा आत्मनि सत्त्व चैतन्ये परस्परसत्यन्त एथगभूत निम आत्मनै धिये छता पणु अने  
 बतनापणु एकांति जूञ्चो छे इमककर्षता नैगमदुर्णय कर्षीये। अथ सामान्यमात्र याशी सग्रहबोलीये तेहना विभेद एकपर वीलु अपर तिष्ठां समसविगे  
 पने विपे मथस्य भावजतो सुदृढ्यसुभात् मानतो परसग्रह बोलाइ ते इम कर्षे समसवसु एक छे जे भणी छता मांसि विगेष कोइ नयी यथा सत्ता  
 अने एहज एकांति संबंरसुतु एकपण अगीकर्तो अने समस विगेषने उत्यापतो परसग्रहाभास कर्षता परसग्रह दुर्णय कर्षीये ते इम कर्षे सत्ताजतत्व  
 छे ते सत्ता थी जूषा विगेष हीसता नयी तथा द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वादिक अर्वांतर सामान्यमाननो अने तेहना विशेषनेविगेजनिमीलिका अवलम्बतो  
 कर्षता मथस्यभावजतु अपरसग्रह नयबोलीये धर्म अपमं आकाश काल पुमल द्रव्यनु एकपण ऊइ जे भणी द्रव्यपणानु कार्द विगेष नयी अथ द्रव्यत्वादि  
 क एकांत मानतो अने तेहना विगेष उत्यापतो अपरसग्रहाभास नयकर्षीये यथा द्रव्यपणु जतत्व छे ते शी अनेरा अर्थान्तर भूतद्रव्यना अणदेखया थी  
 एतौ सग्रह नय अने सग्रहदुर्णय पखाण्णु २ अथ सग्रहनये कर गोचर कखा जे अर्थ तेहनु धिधिपूर्वक अवर्षतुं कर्षता उत्यापवु जेषै अभिप्राये करी  
 करोके ते व्यवहार कर्षीये यथा यत् सत् तदुद्रव्य पर्यायो वा इत्यादि जे छै ते द्रव्य छै अथवा पर्याय छे इत्यादि व्यवहार नय कर्षीये अने जे बलीए  
 कांतिपरमार्थरूप द्रव्यपर्यायत भेदमाने ते व्यवहारभास कर्षता व्यवहार दुर्णय कर्षीये यथा आवाक दर्शन एतले व्यवहार नय अने व्यवहार दुर्णय  
 देखाय २ एतले द्रव्याधिक नयतिणि कता अथ पर्यायाधिकनय प्यारि ऋजुखल शब्द समभिरूठ एवभूत तिष्ठा ऋजु कर्षतां वर्तमान स्यादीपर्यायमात्र  
 प्राधान्य थी खलतो मानतो ऋजु खल कर्षीये यथा सुखविवर्त्त समस्यसात्यादे निम सुखवर्त्तमान जीव डिबडां छे एहजु खलनयकर्षीये अने सर्वथा

नैगमभावबोत्वु इत्यादि एतै गमनय कर्षीये अथ नैगमनयाभा स नैगमदुर्णय किम कर्षीये छे धर्मद्वयादिकने एकांति एथगपणासु अभिप्राय एकांतजुञ्

नैगमभावबोत्वु इत्यादि एतै गमनय कर्षीये अथ नैगमनयाभा स नैगमदुर्णय किम कर्षीये छे धर्मद्वयादिकने एकांति एथगपणासु अभिप्राय एकांतजुञ्

इत्यनु उलापणवार षड्जु खंवाभासं षड्जु खंवा इतीय कश्चिये यथा तथा सुगतमतं बोद्धव्यं एतन्ने कजसुवनयदुर्गायकान् ४ अथ कालादिकने भेदे करी  
 शब्दनु अर्थभेदे मानतो शब्दनय कश्चिये यथा यभूव भवति भवित्यति सुमेरु रित्यादि जिस मेरु पर्यंत छुट्यो के अने छुट्यो इस अछतां शब्द नवकहीये अने  
 ते कालादिकने भेदे ते शब्दनु ते शब्द अर्थ भेदमानतो शब्दनयाभासं शब्दनयदुर्गाय कश्चिये यथा यभूव अर्थ भवति भवित्यति सुमेरु रित्यादिकभित्त कालना  
 शब्द अने ते शब्दनु भित्तज अर्थमाने भित्तकाल नाशब्दपणा थी तथाविधि दीपना अने रा शब्दनीपरे इस शब्दनयदुर्गायकहीयेषु अथ पर्याय शब्दने निपे  
 निरक्तिने भेदे करी भित्तार्थ समभिरोच तो मानतो समभिरूच नय कश्चिये यथा इंदनात् इन्द्रः शक्तगात् गजः पुर्दारणात्पुंरंर रित्यादिकने विपे पर्याय  
 शब्दना भित्तार्थ अंगीकारतो एकांत रूपे समभिरुदाभासदुर्गाय कश्चिये यथा इन्द्र गजः पुर्दार शब्दना एकांत जूज्या पदार्थ ऊरु करंग तुरंग शब्दनी परे  
 एतले समभिरुद नय दुर्गाय अणाब्जुं ६ अथ के शब्दत्रै ते शब्दनी के प्रकृति ते शब्दनी निमित्त भूत के भिया ते गो करी मनुकार्य वाच्यनरिः सानतं एवंभूत  
 नय कश्चिये यथा इंदनी स्वरूप अनुभवत इन्द्र कश्चिये अंगगजन क्रिया संयुक्त गज कश्चिये तथा पूर्वीने दारुण प्रकृत पुर्दार कश्चिये इस एवं भूत नय  
 अने क्रिया रचित वस्तु ते गो शब्दे करी न बोलीये इस एकांत नियेध तो एवं रताभास एवंभूत दुर्गाय कश्चिये यथा विभिन्न घेटाशून्य बदरूप वस्तु घट शब्द  
 बोलाया योग्य नही के अणी घट शब्दनी के प्रकृति ते शब्दनी निमित्त भूत क्रियाये करी शून्यकै ते अणी घटवत् ऊरु एतने एवं भूत नय सुनय दुर्गाय कश्चिये  
 ७ अथ एसात नय अध्ये प्रथम अ्यारि नय अर्थ निरूपवने विपे निपुण पगाथी अर्थ नय बोलीये अने अथ विपिण नय शब्दर बोलाया योग्य अर्थ गोबर  
 पणै करी शब्द नय बोलीये शिबे सात नय अध्ये के शार नयने विपय घणी अने अगिकार नयने विपयवोडो ते किम समात गोबर रं प्रक नयघी भाषा  
 भाव रूप सामान्य विपेय रूप बड गोबरथी संग्रहनु विपय वोडो तथा अक्षार नय विपेय रूप सप्तपणोमान अथने संग्रह नय समर

समानो समरमाने तेभणी व्यवहारथी सप्रहसु विषय वणो अने संप्रहथी व्यंथारणु विषय घोडो यथाच्छेनु, छत्र नयना विषयथी व्यवहार नयनो विषय वंणु जे भणी ऋणु, स्रुत्र नय वसमान कालभावी अर्थमाने अनेरोनमाने अने व्यवहार नय त्रिकाल भावी अर्थमाने तेभणी अथ श्रद्धनयना विषयथी षणु स्रुत्र नयनु विषय वणं अने षणु, छत्रना विषयथी शब्द नयनु विषय घोडो जे भणी शब्द नय तेकालादिकने भेदे भिन्नार्थमाने अने षणु विषयथी षणु स्रुत्र नयनु विषय वणं अने षणु, छत्रना विषयथी शब्द नयनु विषय घोडो जे भणी समभिरूढ ते शब्द शब्दसु जूजुषो अर्थमाने स्रुत्रते तेथी विपरीत एकार्थमाने तेभणी तथा क्रियाने भेदे अर्थसु भेदमानता एष भूत नय थी समभिरूढ नयनो विपरीतार्थ स्थापनाथी विषय अने शब्द नयते तेथी विपरीत वस्तुमाने तेभणी तथा क्रियाने भेदे अर्थसु भेदमानता एष भूत नय थी समभिरूढ नयनो विषय विषयणु आपणा विषयने वणु अने एषं भूत नयनो विषय घोडो दूति नयना विषयसु अत्यवडलपणदेपाद्यु, एतलैनय अने दुर्णय स्वरूप कण, अथ नयनु वायापणि आपणा विषयने विषे प्रवर्ततु विधि प्रतिषेध स्वरूपे करी संप्रभगी पणुपाने तेसप्रभगीसु वणु विधारहे तेविधार भाष्य मञ्जोदधि गधरुकिटीका न्यायावतार स्याद्वादमजरी टीकादिकथी अवलोकइ चिचे तीजो प्रमाणनु स्वरूप कश्चिये हे तिशां प्रमाण तेसस्यग् अर्थना निर्णय कर्षण सवनयात्मक जाणवु स्यात् शब्द बांछित नयनेन प्रमाण शब्द हे बोलवा योग्य पणु छंइ स्थीत् शब्दलांछित नयनु ज नाम प्रमाण कश्चिये इत्यर्थ इमज श्रीविमलनायना सवनने विषे श्रीसमत भद्राचार्ये कथ्य हे नयनामयस्वात्पदलांछिता एते रसोपविहाइवकोरुधातव भयत्यभिप्रेत फलायतसतो भवतमार्थो प्रणतारुतेषिण । तेप्रमाण विप्रकारे ऊइ प्रत्यक्ष प्रमाण अने परोक्ष प्रमाणे तिशां प्रत्यक्ष प्रमाण विभेदे एकसां व्यवहारक प्रत्यक्ष बीजु, निवृथिक प्रत्यक्ष तिशां वली व्यवहारिक प्रत्यक्षना विभेदे इन्द्रिय प्रत्यक्ष अनेनो इन्द्रिय प्रत्यक्ष तीएकरना वली अव्यष्ट दृशा अथाय धारणा रूप अ्यार भेद ऊइ अने वली निवृथिक प्रत्यक्ष प्रमाणसु उपजायणने आत्मासात अपेक्षीजहे बीजो सहकारी इन्द्रियादिक कारण नधांहे तेनिवृथिक प्रत्यक्ष प्रमाणनाविभेद सायोपशमिक अनेनवृथिक तिशां

अनुवृत्तान्तरं च तत्र नयना विषयथी व्यवहार नयनो

अनुवृत्तान्तरं च तत्र नयना विषयथी व्यवहार नयनो

प्रथमना विभेद अवधिज्ञान प्रत्यक्ष अपने मनः पर्यवसान प्रत्यक्ष अनेवाधिक। प्रत्यक्षतो एक केवलज्ञानज ऊइ एतले प्रत्यक्ष प्रमाणना भेद काहा किवै परोक्ष प्रमाण पांचे भेदे कृति। प्रत्यभिज्ञान १ जहइ अनुमान ४ भागसपृतिहां संस्कार ज्ञानयो उत्पन्न अनुभव्यो अर्थ जे हनुं विषयके तेअनुकुं इम जे हृदय मध्ये सांभरे तेकृति कहिये यथा तन्नगरमिति तथा अनुभव अपने कृति विह्वंथी जपनुं सामान्यादिकविययनौजाणनुं तद्रूप जे ज्ञान तेप्रत्यभि ज्ञान कहिये एतले पूर्व जे वस्तु अनुभूत ऊइ तेसंभारीने ह्यादिके पद्ये ऊंते कोलये यथा एतेजातिनुं जगोपिंडदीसे के तेभगी एगोसहशगवय ऊइ अथवा तेहज ए जिन दत्त जेमे पूर्वदीतुं छठं तथा काई जाणनुं काई अजाणनुं तेथी जपनुं तिकाळ कलितसाध्य अपनेसाधननुं संबंधादिक अवलंबनए असकुं एगौ असुकै छतेज ऊइ एहनुं जे ज्ञान तेऊह कहीये तेहनुं बीजोनाम तर्क यथा जेतलुं कोई धूंयो तेसर्वअग्नि छतेज ऊइ अपने अग्नि न ऊइ तो धूंओ परिण न ऊइ तथा अनुमान विभेदे स्वार्थ अपने परार्थ तिहां अन्यवातुपपत्ति एक लक्षण हेतु ग्रहण संबंध कारण हेतुक साध्य वस्तुनुं विज्ञान तेस्वार्थीनुमान कहिये अपने परार्थ अनुमान तेपंचावयवाक्य हेतुथी जपनो पक्ष हेतुदृष्टांत उपनय निगमन रूप उपचारथी अनुमान बोलीये तथा औस वचना वचन थी जपनुं जे ज्ञान तेआगम कहीये अपने उपचार थी औसर्वज्ञाना बचनने परिणआगम कहिये एकात्यादिकनुं विशेष स्वरूप स्याद्वाटरत्ना करग्रन्थ थी जाणनुं एतले एप्रमाणनुं स्वरूप बखाण्युं एणीपरि नय अपने प्रमाणरूपविह्वं मार्ग करी दुर्णय पन्वनियेधुं इति मूलकाव्यार्थः इम नयमाग करी अपने प्रमाणमार्ग करी वस्तुजाणतां सईहतां ज्ञानदर्शनऊइ अन्यथा मियात्व ऊइ एतले एकातवादी सर्वप्रिया दृष्टीअने मत्सरी जाणवा अपने अपने कातवादी सर्वअमत्सरी सम्यग्दृष्टी ऊइ हिवै औजिनेद्रनुं समय अमत्सरी एतला भगी जे सर्वनयने विगेप रहित माने जे भगी अपनेकांतवादी ते सर्व नयात्मक के सर्वनय रूपके के जिम जज्जामोती एकअवने विवे प्रोधा ऊइ तिहार तेहनुं चार इखुं नामनीपके एवं जज्जवा अभिप्रायरूप

राज्य वनपत विंशत ब्राह्मणो ब्राह्मण सुवच मान ४४८

नयने पणि म्नाडादरूप एक सुखने विपै प्रोवाने युत इस्ये नामे प्रमाणनाम छइ इडा कोइ एक इस कहे प्रत्ये कर नयने विरुद्धपणे कते एकहा नयने  
विरोधपणु किमनडइ इडा उत्तर जिस परस्पर झगडता किसा एक वस्तुना भागड ते भवामथस्य न्यायनिर्णयतु कारणचार मामीने माघे मांछि भाग  
डता पणि ते बादी झगडा थो निवर्त्ते मांछो मांछि मिली मिलडइ एणे दृष्टाते नयपणि सर्वमाणे मांछि वैर करतां झगडतां पणि अस्यंझातुशा  
धनपामोने श्यात् गन्दने प्रयोग करी मांछो मांछि वादरहित यथा छ ता परस्पर आयन्त मितभूत छथा तिट्ठे एे एभाययं सर्व एणेकाथ्येजाणतु पान्यो  
न्यपप्रतिपण भावा यथा परे मच्छट्टिय प्रवादा मयाय्येयात्रविशेषमिच्छे अपन्नपाती समयसाया ते । इडाकोइइ इस कहे श्रीभगवन्ताना समयने सर्व  
नयरूप पणे छते सर्वदगनमयपणु तो इइज जेभणी दर्शनसर्वनयरूप छे जो सर्वदर्शनमय श्रीभगवन्ततु शासन थय तो सर्वदर्शन ते श्रीभगवतना समय  
कानियाइ इडा उत्तर जिस समुद्र सर्वनदीमय छे पर सर्वनदी समुद्रमय छइ एतले जूल इ नदीने विपे समुद्र नलाभे तिमज इडा पणि जाणतु एतले  
सर्वनेये मिलीने स्यादादरूप श्रीकिनयासन छइ तथा एकपस्तु सर्वनेये करी मानतां सस्यग् इ टी कणीये अने एकएक नय एकांत वाचतां मिय्याट्टिछइ  
ते भणी मच्छरणाडोने अनेकांत रूपसस्यग् श्रीसिद्धांततु विचार करी ये एकांत विचारनकरीये उक्त व स्यादादाय नमसक्यै य विनासकला क्रिया लोका  
द्वितयभावित्यो नैप सांगत्यमीयति । इडा कोइ इस कहे एसात नयतो कत्था परइडां तेइतो प्रयोजन किस्तु ते जाणता नथी इडा उत्तर उपलभे करी  
उपलभ्योछइ तेनिनेपे करी यथासम्भवनिषेणु छइ पळे अजुगमे करी अजुगस्यु वजाण्यो छइ सामाधिक्राध्ययन पळे तेइतो विचारणाएणे नये करी करीये  
ते भणीए नयनो प्रयोजनछे वलो गियपूळे छे भगवन् ए नये करी विचारणा सुत्तांना पदरनी करीये किषासर्वअध्ययनो एकही करीये जो कइस्यो पद  
रूपसतनी नये करी विचारणा करीये तेतो युक्त नथी जे भणी पदरूप सुत्ततु विचार नये करी कस्तु निषेणु छे ननयासमी अरंति इइ इति वचनत्त

सुखानुभवोऽयं नयनं नयनं नयनं

१११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २००



अपने जो बीजो पक्ष करस्यो तो ते पणि भयुक्त जे भणी ते तो पूर्वे उपोहात निर्युक्ति साहि नए समो अरणायुसए एषद्वयधे विचार कस्युं हे एक एहेतु  
 अपने बली बीजो हेतु व्यतिरिक्त अपनेरुं सूत्र थी अथयन भयी जे नये करी विचारीये इहां असर जे प्रति सूत्रमय विचारनिषेधो हे तिहां तो कांइ  
 विघटे नही जे भणी आसज्जल सोभारं नएगनय विसारउरूपा एणे वचने करी प्रतिखेलेने विघे अपवादिक नयना विचारनी अमुआ दीधी ज हे अपने  
 बीजा पक्षनो जे प्रथम हेतु कस्युं उक्तो जे समसाध्ययनसुं विचार पूर्वे उपोहात निर्युक्तिने विघे अस्यां हे तेतो अजाणसुं वचन जे भणी एंजसंतथो असु  
 योगद्वार नयनी वक्तव्यतासुं सूत्रस्थानक हे इहांज वपाणये करी नीपनां जे नय तेरुनुं ग्रहण तिहां कस्युं हे तेभणी ते दोष नही अपनेजेबीजी हेतु  
 कस्यो उक्तो जे सूत्र व्यतिरिक्त अथयन नथी ते पणि असारं वचन जे भणी असुदाय अपनें असुदायीना कार्यादिक भेद थी केणे एके प्रकारे भेदनी सिद्धि  
 उच्य हे ते किम प्रत्ये कर सूत्रना पदनी अस्यने विघे संपूर्णाध्ययनसुं सामर्थ्य दीसतुं नथी जे भणी संपूर्णाध्ययने करी जे भाव कहीये ते सर्वभाषएक  
 पदरूप सूत्रे करी किहां कस्यो जाइ जिम सहस्रपुरपनें उपाडया योग्य जे शिषकाऊइ ते उपाडवानी समयीइं सखस पुरत छूज्जाने विघे किहां थी  
 ऊइ इस प्रत्ये कावस्थाने विघे अपने असुदायावस्थाने विघे कार्यसुं भेद दी सैछे प्रत्ये कावस्थायें अन्यकार्य ऊइ अपने असुदायावस्थायें अन्यकार्य ऊइ ते भणी  
 कार्यभेदथी प्रत्ये क सूत्र अपने अथयनसुं भेद जाणतु अथ विरुद्धधर्मान्यास थी पणि भेददीसे हे जे भणी शिधिकावहवादिकने विघे प्रत्ये क अवस्थाइं सर्व  
 पुरत असामर्थ्यरूप धर्मोपेत ऊइ अपने असुदाय अवस्थाइं सर्वपुरतसामर्थ्यरूपधर्मोपेत ऊइ ते भणी विरुद्ध धर्माध्यास थी असुदाय अपने असुदायीनो भेद  
 जाणतु अपने जे इस पणि भेद न ऊइ तो सर्वविश्लएकज ऊइ एतलो दीसतुं सर्वविश्ल भाव विघटे जे भणी विरुद्ध धर्माध्यास थी ज वस्तुभेद हे हिने  
 इस कार्यना भेदऊती अपने विरुद्ध धर्माध्यासना भेद थी असुदाय अपने असुदायीनोकथसित् भेद जाणतु एवं संख्या ऊंती तथा नामादिक ऊंती तेरुनुं

भेदभावतु ते भणी क्रोडप्रकृत नयन विचार शोभा पामीने किस्सा एक पद छत्रने विपे पणि करता शेष नही अने समस्त अध्ययनने विपे पणि नयनी  
 विचार दृष्टाद नही तिवार शिल्प करे छे भगवन् ए इमज्जयो तथापि अध्ययनने करी विचारी तु छत्र सर्वनये करी विचारीये अथवा कोतले एके गये  
 करी विचारीये जो सर्वपक्षग्रहीते तो ते अयुक्त जे भणी सर्वनय अनन्ता छे तेणो सगले नये करी विचार कदापि कस न जाइ जे भणीजे तलावचना  
 माग्छे तेतलाजनय छे यथोक्त जावइआवण पडा तावइ याचेवड ति नयथाया जावइआनयवाया तावइआचेय परसमया? ते भणी जिणर अभिप्रायनि  
 पन्द्रबचनमार्गनी सुल्ला नयी तिमनयनीपिणसुखानयी जे भणी प्राणीरना प्राये अभिप्रायभिन्नर छे ते भणी सर्वनये करी विचार कस्य, न जाइ अथ  
 बीजो पक्ष ग्रहीये तोपणि सुक्तिसर्वाते न मिले जेभणी कोतले एकेनये करी विचार स्यापता अनवस्था दोष जपजे जिणकारणे सुल्ला रहित नयमध्ये  
 जालिग एणे नदे करी विचार करीये तालगे बली अनेरे एणे नये करी विचारकान करीये एहवी अनवस्था उपनीनयी अथ कदाधि एहेठ पणिछे जे  
 नयने असन्धिय पणे छतै पणि सकलनयसग्रह नये करी विचार करीये तो ते सकलनयसग्राही नयपणि अनेक छे ते भणी पणि अनवस्थाल जपजे  
 जेणे कारणे पूर्वधरे सकलसग्राही सात नय बोल्या छे जे सात नयतु बोसणहार सप्त सतारनय चक्राध्यन ज्जयो उक्त च एकेको असयविशो  
 सप्तनयसयावपति एमेव इत्यादि अने बली सातनयना सग्राहक विधादिक यारनयइ जेएतु प्ररूपसग्राहस्थिष्णुहादयारेसेनामेनयचक्र  
 पयल्ले द्विडे सग्राही नैगमादिकसात नयछे तेहना सग्राही बली दोनय छेइ द्रव्याशिक्ष पर्यायाशिक्ष अथवा आननय क्रियानय अथवा नियनय व्यव  
 हार नय अथवा शब्द नय अर्थनय इत्यादिक सग्राहक नयना पणि अनेकभेद छे तेभणी तेहज अनपस्था दोष छेइ गुरु कहेछे हेवस निपुणवचन  
 कस्य किन्तु प्रारभित अध्ययनने विपे सामाधिक विचारी छे ते सामाधिकतु फलतो मोचरूप छे ते भणी जे एएतु सुक्ति प्राप्तु कारण रूप तेहज

विचार छते मोक्षनुं कारण तो ज्ञान क्रिया रूप छे ते भणी ज्ञान क्रिया नये करीज एअध्ययननुं विचारयुक्त अनेरै नयेकरी इहां विचारनुं प्रसावनथी  
 हिवै ते ज्ञाननय अने क्रियानय करी विचार कहीये छे तहां ज्ञाननय ते ज्ञानज मोक्षनुं कारण माने ते भणी तेहनुं मत प्रगट करवा भणी कहे छे  
 गार्थमि गाहा सम्यग् जाथे छते गृहीतव्य अपादेय अर्थ अने अगृहीतव्य अनुपादेय अर्थ अनुपादेय अर्थ हिविध ऊइ एक हेय छांडवायोग्य बीजो  
 उपेक्षणीय ए विज्ञाने अगृहीतव्य अनुपादेय अर्थज कहीये जे भणी हेयपणि अग्रहणीय पणि अग्रहणीय इम अग्रहणीय पणा सांहि विशेष  
 नथी ते भणी च शब्द समुच्चयार्थ छे अथवा अग्रहीतव्य शब्दे करी एक हेयजबोलेय, अने उपेक्षणीय अणकत्तुं, ऊं तो पणि एव शब्द थी जाणीये एव  
 शब्द गाथा अलंकारमालेन अर्थ छे अर्थमि इह लोक सम्बन्धीइ अर्थ अने परलोक सम्बन्धीयैगृहीतव्य अर्थ तेषुप्यमाला  
 चन्दनस्त्यादिक ग्रहवायोग्य अने अगृहीतव्य अर्थ अणग्रहवायोग्य ते विपकण्टकादिक अने उपेक्षणीय अर्थ न ग्रहवायोग्य ते लणादिक अथ  
 परलोक सम्बन्धीयो गृहीतव्य अर्थ ते सम्यग्दर्शनादिक अगृहीतव्य अर्थ ते मिथ्यात्वादिक अने उपेक्षणीय अर्थ ते स्वर्ग लक्षादिक तेगृहीतव्य उपेक्षणीय  
 अर्थने विपे यतितथमेव इहां एव कारते अवधारणे निश्चयार्थि छे तेज्ञातशब्द आगलि जोडीये तिवार ज्ञातव्य एवेति इमथाइ तेहनुं ए अर्थ ग्राह्य  
 अग्राह्य उपेक्षणीय अर्थने विपे निवर्त्तनुं उपेक्षणीयार्थने विपे मध्यस्थभाव करनुं इति कहतां एहनुं सर्वव्यवहारना ज्ञानकरणनुं प्ररूपणहारं जे उप  
 देश सो नओ ते नय कहतां प्रसाव थी ज्ञान नय कहीये नाम शब्द ते शिथना आसंतणने अर्थके इतिगाथा अक्षरार्थः हिवे एभावार्थ इहा ज्ञाननयते  
 ज्ञाननुं प्रधानपणुं जणाववा भणी कहे छे अहो इहलोक परलोकना फलने अर्थक सम्यक् जाख्या अर्थने विपेज प्रवर्त्तनुं अन्यथा प्रवर्त्ततां फलनु विपे  
 वाद दीसे छे एतले फलनी प्राप्ति दीसती नथी जेभणी आगमने विपे पणि इमकत्तुं छे पटमंणानं तउदया इत्यादि तथा जं असाणीकम् खयेइ बड

आदिशास्त्रकोडीदि तणाणोतिदि गुतो खवेद् जसासमित्ते ण । तथा वलो इमकच्छ, छे पावासो विणिअत्ती पावयणात्तयकुसलपक्खु सि विणययस्यपडि वत्ती तिखिविणाणे समयति । तथा अनेरै पणि कच्छ, छे विद्धति फलदापु सा । नक्रियाफलदामता मिय्याशानात्प्रत्तस्य फलदा सवाददयंगत् । इति क्वत्ता एतलाभणी ज्ञानसु छे प्रधानपणु जाणसु छे भणी श्रीतीर्थकरणधरे एकला अगीताथसाधुने विषार पणिनिपेय्युंछे उक्त्तस गीचल्योअवि षारो पीओगीचलमीसिधो भणियो इत्तोत्तद् अविषारो नाणुणाओ जिणवरेदि । तथा आधो अवेने केडारी ताणतो सम्यग्मार्गनपामे ते भणी एभावतो ज्ञायोपयमिक ज्ञान आओ कल्लो अथ आधिकज्ञान आओपणिविश्रिष्टफळनु साधकपणु ज्ञाने जजाणवु जेभणी ओअरिहत ससारने तट रच्छा इ ता दीचा प्रतिपन्न उत्तुलटतपररणवन्तने पणितालगे मोच्च न उद्द जालगे समसलीवादिक वस्तु, समरुनु साच्छात्करणधार केवलज्ञानजपसु न उद्द तेभणी ज्ञानज कार्यसिद्धिनु कारणजाणनु इत्ता इम जोडीये जेवस्तु जेविनाननीपजे तेतेवस्तुनु कारण उद्द जिमबीज विना अ करो न उद्द ते भणी ते अजुराणु कारणबीज बोलीये तिमज्ञान विना सर्व पुरुषार्थनी सिद्धि उद्द तेभणी ज्ञानज सर्वकार्यनीसिद्धि सु कारण जाणनु तेये कारणे एज्ञाननय चिद्ध सामायिक मध्ये सम्यक्त सामायिक अने श्रुतसामायिक माने जे भणी ते ज्ञानरूपछे प्रधानसुफिनु कारणछे अने देयविरति सामायिक सर्वविरति सामायिक एज्ञाननयनमानद् जे भणी ते सामायिक ज्ञानना कार्य छे ते भणी ते गौणरूपछद् तेहना गौणपणा थो ज्ञानजकार्यसिद्धिनु कारण जाणनु इति गार्थार्थ इम ज्ञान नयने मते सामायिक विषाखु, अथ क्रियानयने मते तेहनु विषार कहे छे णायमि गाथा ए गाथा नयने मते इम यखाणीये जाखे उ ते गृहीतथ्य अगृहीतथ्य अर्थे सर्वपुरुषार्थना सिद्धिने अर्थे यतितथ्य मेव प्रवर्त्तावादिक रूपक्रियाज करवी इम इहां एवकार आपणे ठामे ज जोडीये इम छते जाख्ये उ ते अर्थे पणि क्रियाज साधवी ते भणी ज्ञान तेक्रिया



तो सोई चिह्नो आणतो वियतरित कार्दयजोग ननु जर्जोषो सोबुक्कसोएण एव नाणी चरणशीणोश् जशाषरोषदणभारवाशीत्यादि तथा अन्येरयुक्त क्रियैफलदापु सां नञान फलदमत यत स्त्रीभक्षभोगस्रो नञानात्सु चित्तो भवेदिति एवतावत्प्रायोपयमिकी चरणक्रियामगीहृत्य प्राधान्यसुक्त मयसाधिकी मयाक्रिय तस्या एव प्राधान्य मवसेय यस्मादर्शतोपि भगवत ससुत्पन्त्रकेवलज्ञानस्यापि नतामनुसुक्तयापि सपद्यते यापदधि लक्षणं धनानल ज्वालाकलापरुपाया यैत्रैश्वर्यस्यायां सर्वसवररूपधारित क्रियानप्राप्ते ति तस्माद्क्रियैवमधान सर्वपुरुषार्थसिद्धिकारण प्रयोगश्चात्र यद्यत्त्वमनतरभाबितस्त त्कारण यथाचत्यावस्था प्राप्त वृथिव्यादि सामान्यनतरभावीतत्कारणोक्तर क्रियानतरभाविवीच सकल पुरुषार्थसिद्धिरिति ततश्चैपचतुर्विधे सामायिके देय विरतिसर्वविरति सामायिके एव मन्यते क्रियारूपत्वे न प्रधानमुक्तिकारणत्वात्सम्यक्त श्रुत सामायिकेतु तदुपकारित्यमाततो गौणत्वान्न च्छतीति गाथार्थे ननु पञ्चबुधेपि युक्ति दर्शनात्किमिह तत्रमिति न जानीम इति श्रियजनसम्प्लोचमायक्य ज्ञानक्रियानयमतमदर्शनानतर स्थितपञ्च दर्शयन्नाच सखेसिपि

रा समत्ता ॥ सोलससयाधि चउरत्तराणि चो तिलदूमसि गाहाण दुसदस मशुदु, भठद वित्तप्यमाणउ भणितुं शगर

ऊद मुख्यरूपजे जे कक्षा ते भिया तेणें कारणे तेरने एनयनमाने इति गाथार्थे शिवे विड पङ्कने विपै, मुनि जावा छतीनजाणीये केशोपद्यसत्य एववु श्रियजननु सदेश पासकीने ज्ञाननय क्रियानय देखाडांअनन्तर मान्यपण्य देखाडतो कहेछे सखेसिपिगशा सर्वनयनी वडविध यक्तथ्यता नियम्य साभलीने एतले सामान्य विशेषवादीना तथा ज्ञानक्रियादिकवादीना वडविध यक्तथ्यता परस्पर विरोधनी प्ररूपणा साभलीने ते दूशा सर्वयविशुद्धसर्वे नयने सम्मततत्वरूपयाद्ये किनु ते कहेछे जेचरणगुणने विदे स्थित्यु साधु तिसां चरण कष्टता चारितते क्रिया जाणवी अने गुणकष्टता ज्ञान ते विडने विपे तिते ते चरणगुणस्यकशीये एतले ज्ञान क्रियादेगु ई करी साधुमुनि साधक ऊद परविड मध्ये एकैकरी मोक्षसाधक नऊद एभाव इति गाथाच

सर्वज्ञानरक्षणं सर्वज्ञानरक्षणं




साधयति किं उच्यते अत्रिभिरपि तद्व्यासवत् प्रज्ञानक्रिया र्निना भाविभ्यः पुरुषार्थे सिद्धि ततस्तत् विना भावित्वलक्षणो र्थ इत्यथा पुरुषार्थसिद्धि  
 चान्तिर्भवति तत्रा क्रियानिश्चयत्वमपि तानप्यतरेण तदसिद्धिरित्यनेकानि कोष्यमावितं एवं क्रियावादिनामपि यद्यत्समभंतरभावावत्तत्कार  
 नमेवानि प्रगतेरस्तदनतरभावि च तुरुक्त सोष्यसिद्धौ चनेकातिक्रय त्र्याह्नि स्तोभं भागादिक्रियाकल्पि ज्ञानमस्ति तदनतरण तत्र प्रहर्षे वा  
 यागान्ते च गेने च त्र्याया सवसररुक्रयक्रियाजालेपि केषलप्रनिमन्धि तदनतरणे तस्याप्याप्तमन्त्रा जेदल क्रियानतरे भावित्विनपुरुषार्थस्यक्ताप्यसिद्धेरसि  
 र्थोपुत्रयान्तरभावि त्वलक्षणं किं तत्तया ज्ञानकारणत्वमपि तदप्य तरेण तस्य च त्रिचिदप्यभावादि  
 त्वनेजातिकेताप्यथेति तस्माद्दत्तात्क्रियो भयसाध्ये च सुप्तादिसिद्धिर्लक्ष्ये इयानाणकिर्योक्तीया पासर्तापगुणोद्देही पावसापोय च  
 वा न सागानिरोपन्न इवति नद्वुरगचक्रेणरहोपमाइ च शायपगूययनेसमेव्या तेमपतंत्ता नररपविर्वाइचादि अत्राह नन्वेव ज्ञानक्रियार्योमन्त्रार्थपका

य २००५ अणुशांगटार सूत समस्त चिरनदाडाच्यमानोय ॥ यथाय यमुद्वर्थमौलने १४६५६ ॥ आटण पुस्तक दृष्टा

इति पश्चि पुर जिम भन्तर भीवित्व रूप हेतु क्रिया कारणपण सुक्तादि कार्यो साधे तिस ज्ञान कारणपण पणि सार्धे गद्यान विना अत्राचप त्वे  
 एकनो समनसर क्रिया यां साधे नशो इम ते हेतुने चनेकातिके पणुं पणि धर्यो ते भणी ज्ञानि क्रिया उभयोरुप सुक्तिनु ज्ञानेण जाणयु एतने ज्ञान  
 क्रिया उभययो साधुने सुक्तादिकनी सिद्धजाणवी उच्ये हेतुषाण किञ्चाहीचं इयाचषाणलकिप्रार्थमती पयुनोदुडोर्धा धावनाशोअ अंधयो १ सजोग  
 सिद्धोअ फल यति नद्वुरगचक्रेण रहोपयार् अथोअ पगुप्रवणे समीक्षा ते सपलत्ता नगर पविष्टा २ इहा कोर् इसी प्रेरणा करे ज्ञानक्रियानि विधि



प्रत्येकमसतोसमुदायोपि कथं स्यान्नहिज्येषु प्रत्येकं नास्ति तत्तेषु समुदितेष्वपि भवति यथा प्रत्येकमसत्समुदितेष्वपिरेकताकारणीषु तैल प्रकृति  
 शक्ति प्रत्येकमसतोसमुदायोपि कथं स्यान्नहिज्येषु प्रत्येकं नास्ति तत्तेषु समुदितेष्वपि भवति यथा प्रत्येकमसत्समुदितेष्वपिरेकताकारणीषु तैल प्रकृति  
 मसतोच ज्ञानक्रियायोसु क्लिदापिका शक्तिरूपा च पत्तयेनभावाच्चो निव्वाणं समुदियासुपिनजुत्तं नाणकिरियासुवोत्य सिक्तातातमुदायतेऽच १ उच्यते  
 स्यादितद्यदि सर्वथा प्रत्येकं तयोसु क्लान्युपकारिताभिधीयते यदो तु तयोः प्रत्येकं देशोपकारिता समुदयेतु सपूर्णं हेतुता तद्वानभिहीपो आहच  
 वीसु तु सब्वहच्चिय सिकयतेक्तंच साहणा भावी देसोवगारियाजासा समवायमिस पुत्राः १ अतः स्थितमिदं ज्ञानक्रियेतसुदिते एव युक्तिकारण न  
 प्रत्येकमिति तलं तथाच पूज्यानाणाहोणं सब्ब नाणानउभणइ किच किरिणए चरणउ तदुभयगाहोयससत्त तन्नाभावसाधुः स सर्वैरपिनवैरिथ्यतएव  
 स च ज्ञानक्रियायुक्त एवेति व्यवस्थित मिदं तत्सर्वनयविशुद्धं यच्चरणगुण व्यवस्थित साधुरितिः तदेवं समर्थितं नयइरं तत्समर्थने च समर्थितानि  
 चत्वार्यप्युपक्रमदौनिद्वाराणि तत्समर्थने चानुयोगद्वाराणां सप्तानं प्राचीन्यगान् टटः सर्वोप्यथोमयात्सकलितः न पुनः स्वमनीयिजया तगापि थिति  
 चिदिह वितथं १ सूतमतिलंथ लिखितं तच्छोश्रमथ्यनुग्रहं कृत्वा परकीयटीपगुणयो स्थानो पाटानविधिवु ग्लैः २ कृशस्य द्विवृतिः खलति न कस्येह  
 कामवशस्य सद्वृद्धिविरहितानां विशेषतो महिधाऽुमतां ३ कृत्वा परकीयटीपगुणयो स्थानो पाटानविधिवु ग्लैः २ कृशस्य द्विवृतिः खलति न कस्येह  
 जना ४ श्रीप्रश्नवाहनकुलांबुनिधि प्रसूतः द्योनीतल प्रथितकीर्त्तिरुदीर्णपासः विग्रहप्रसाधित वि तस्थिताशुचै ज्ञानागत प्रचुरनिवृत भव्यजतुः ५  
 ज्ञानादि कुसुमनिचितः फलितः श्रीमन्सुनेंद्रफलसुदेः फल्पद्रुमद्रवगच्छः, श्रीचर्यपुरो नानामान्नि ६ एतेभिन्नु गुणरत्नो इगोपिरिणीभर्यपार्थोभिः ७ सां  
 गत्वाकुतचमार्धंपति सौम्यत्वतारोपतिः सख्यज्ञानविशुद्धसंयमतपः ज्ञाचारवर्धनिधिः गांतगीजगसिंहस्वरिभवनिनगचूजापणिः ७ रत्नाकारादि  
 वैतसा च्छिद्यरत्नं वभूव तत्सवागोशोपि नामिन्यो यंदगुणग्रहणे प्रभूः दत्तोवीरदेवविबुधैः सम्गायतिगयप्रवर्तये दुभद्रवय समित्त. कस्तद्वगुणवर्णनिधि



१५८  
 १ ८ तथाहि । आश्रायस्य नरेणैरपि गिरस्वारीथतेसादर यदृष्टापिमुद न्नचति परमाप्रायोपि दुष्टाश्रयि यदृष्टावुधिनिर्यदल्लवष पौयूपणानीयत  
 २ गोर्वाणोरिवदुग्धमिधुमयर्णैः टानिनलेभेजने । कृत्वा येत तप सदुंकरतर पिय प्रबोध प्रभास्वार्थं सर्वविद प्रभावितभिदत्तेस्ते स्वकीयेगुणै सुक्ती  
 ३ सुपदयेपवि वरुधर भयैर्निजवस्वहे यस्या यास्वपिपरित विचरन्ति मैतांशुगौर यय ११ यमुना प्रवाहपिमलश्रीमसुनि चद्रसूरिसपक्काव अमरसरितेय  
 ४ मजल पविवित येन भवनतग १२ विष्णुज्ज्वलनिकालदुम्भरतम सतान नृपस्थिति स्यणैव विवेतिभ्रुगरिस्वामाद्येनोदय सम्यग्ज्ञानकरैरियरतर  
 ५ भुनि वण सउद्योतितो माया सोभयदेवसूरिरभवत्तेभ्य प्रमिडो भवि तच्छिष्यलयमायी रवगोतार्थापि गिटजयुतै यद्देमचद्रसरिभिः गियमतुरचित्ता  
 ६ प्रकृतवृत्ति १३ अनुयोगद्वार समाप्त अतप्रवच्छर गणनयाय शाय अत ४८० शिष्यसस्तु । ॥ ॥ ॥

तादृगनिश्चित मया यद्विगदमशुभ वा मम दीपोनदीयते ॥ १ ॥ शुभभूयस्वै स्वक पठकव्यो ॥

साधवानी गति प्रत्येक अवस्थानि विपे अछती हुतो समुदायने विपे किष्वा योहुइ ईमदीसै पणि दे जी जेहने विपे प्रत्येक ययस्थि न हुइ तेतेइना  
 समुदाय यद्वैगार पलिनसद्विगदमशुभना एकता गने विपे पणि तेने न हइ अने धमना शणा दाणाता समुदायने विपे पणि तेन न हुइ तिम ज्ञान  
 किं गाम्ये एकनेविपे माधवानो धनिहितो समुदायनेविपे किष्वायो हुइ उक च पत्ते अमभावाशानिष्वाण समुदिशासुधिमजुत्त णाणकिरिआसुवीत्या  
 भिकतासुसमुदायतेम य १ इहा उत्तर इम जो ज्ञान क्रियने प्रत्येक अवस्थानि विपे सर्वथा सुकितु अनुपकारीपणी वीलीता हुइ जिवार तेहने प्रत्येका  
 वस्यागे देग उपगारीपणा अने समुदायावस्थायि समूर्णहेतु पणु तिवारस्य दोष आहच योस तुमज्ज्वलितश्च सिकया तेज चर्माहणा भावा देसोवगारिअ



